



श्री बीतराय षु साहित्य प्रकाशन ग्रन्थमाला पुष्प-८



ॐ श्रीमर्वज्ञेभ्यः नमः ॐ

श्रीमद्वाचायंत्र-अमृतचन्द्रदेव विरचित  
श्री

## समयसार-कलश

भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत समयसार की श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव  
विरचित आत्मख्याति-टीका-अन्तर्गत कलश-श्लोक एव  
उन पर ढूँढारी भाषामे श्री पाण्डे राजमनजी  
रचित खण्डान्वय सहित अर्थमय टीकाके  
आधुनिक हिन्दी अनुवाद सहित

✽

ॐ अनुवादक ॐ

सि० आ०. पं० श्री फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री  
वाराणसी

✽

ॐ प्रकाशक ॐ

श्री बीतराय सत्साहित्य प्रसाक टस्ट  
भावनगर (गुजरात)

✽

प्राप्ति स्थान :

(१) श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट  
पो० सोनगढ ( सोनगढ )

(२) श्री टोडरमल स्मारक  
ए-४ बापूनगर, पो० जयपुर ( राज० )

५

तृतीयवृत्ति  
२०००

वीर लि० सं० २५०३

{ मूल्य ७)५०  
[ ज्वाम्बिक कव्हर सहित ]

✻

मुद्रक :

पाँचलाल जैन

कमल प्रिन्टर्स

मदनगज -किंघनगढ ( राज० )



पू० श्री कानजी स्वामी स्वाध्याय करते दृष्ट



## प्रवक्ताकीय निवेदन



भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव ने श्री "समयसार" (समयप्राभूत) की रचना की उसपर श्री भगवान् अमृतचन्द्राचार्यदेव ने "आत्मख्याति" टीका लिखी। टीका में आचार्यदेवने पद्य/कलश ( जिन मन्दिर के शिवर पर सुवर्ण कलश के समान ) भी लिखे। उन कलशो पर आत्मसंचेतनका निर्मल रसास्वाद लेनेवाले पं० श्री राजमल्लजी पाडे ने वर्तमान चालती ढूँढारी भाषामे स्वतंत्र टीका की। प्रत्येक श्लोक की टीका मे पंडितजी ने अपूर्व अर्थ व भावका उद्घाटन किया है।

विक्रम म १९५७ मे स्वर्गीय ब्रह्मचारी श्री शीतलप्रसादजी द्वारा अनेक हस्तलिखित प्रतियो के आधार पर मपादित इस ग्रथका श्री मूलचन्द किशनदास कापडिया द्वारा सूरत से प्रकाशन हुआ था। उसीके आधार पर पंडित श्री फूलचन्दजी मिहता शास्त्री ने हिन्दी भाषा मे अनुवाद किया है। सूरत से प्रकाशित प्रतिमे छूटे हुए स्थलो के मशोधन के लिए पंडित फूलचन्दजी ने अंकलेश्वर श्री दि० जैन समाज मे तथा भगवानदाम शोभालाल सागरवालो से प्राप्त हस्तलिखित प्रतियोसे सहायता ली है।

हिन्दी भाषा परिवर्तनमें मूल ढूँढारी का भाव पूरी तरह से आ जाय इस अभिप्रायसे अश्यात्म मूर्ति श्री कानजी स्वामी के सानिध्य में श्री रामजी भाई, पंडित हिम्मतभाई, श्री खेमचन्द भाई, ब्रह्मचारी चन्दूभाई इत्यादि विद्वानो व श्रीमानों ने मशोधन मे सहयोग दिया है।

वर्तमान प्रकाशन श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ मे प्रकाशित वि० सं० २०२३ की प्रति के अनुसार किया गया है। अतः हमारा ट्रस्ट स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, हिन्दी भाषा परिवर्तनकार पंडित फूलचन्दजी व उनके कार्य में सहयोगी विद्वानो व श्रीमानो का आभारी है।

समयसार कलश टीका ग्रंथ लम्बे समयसे अप्राप्य था अतः इस ग्रन्थ से जिज्ञासु जीवोंको आत्मलाभ मिले इस दृष्टि से हम इसका प्रकाशन करा रहे हैं । अधिक से अधिक व्यक्ति इस ग्रंथ का लाभ लेवे इस हेतु साधारण कीमतसे २५ प्रतिशत कम इस ग्रंथ की कीमत रखी गई है ।

अत में हम भावना करते है कि इस ग्रंथ के हाद्रे को समझकर अंतर मे तदनुरूप परिणामन होकर सर्वे जिज्ञासु निराकुल सुखको प्राप्त हों ।

भावनगर (गुजरात)

अष्टाह्निका

फाल्गुन शुक्ला ८

वि. स. २०३३

विनीत :

ट्रस्टीगण

श्री वीतराग सन् साहित्य प्रसारक ट्रस्ट  
भावनगर ( गुजरात )



## टीका और टीकाकार

### कविवर राजमल्ल जी

राजस्थानके जिन प्रमुख विद्वानोंने आत्म-साधनाके अनुरूप साहित्य प्राराधनाको अपना जीवन अर्पित किया है उनमें कविवर राजमल्लजी का नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय है। इनका प्रमुख निवासस्थान डूँडाहड प्रदेश और मातृभाषा डूँडाही रही है। संस्कृत और प्राकृत भाषाके भी ये उच्चकोटिके विद्वान् थे। सरल बोधगम्य भाषामें कविता करना इनका सहज गुण था। इन द्वारा रचित साहित्यके अवलोकन करनेसे विदित होता है कि ये स्वयंको इस गुणके कारण 'कवि' पद द्वारा संबोधित करना अधिक पसन्द करते थे। कविवर बनारसीदासजीने इन्हें 'पांडे' पद द्वारा भी संबोधित किया है। जान पड़ता है कि भट्टारकोंके कृपापात्र होनेके कारण ये या तो गृहस्थाचार्य विद्वान् थे, क्योंकि आगराके आसपास क्रियाकाण्ड करनेवाले व्यक्ति को आज भी 'पांडे' कहा जाता है। या फिर अध्ययन-अध्यापन और उपदेश देना ही इनका मुख्य कार्य था। जो कुछ भी हो, ये ये अपने समयके मेधावी विद्वान् कवि।

जान पड़ता है कि इनका स्थायी कार्यक्षेत्र वैराट नगरका पार्श्वनाथ जिनालय रहा है। साथ ही कुछ ऐसे भी तथ्य उपलब्ध हुए हैं जो इस बातके साक्षी हैं कि ये बीच बीचमें आगरा, मथुरा और नागौर आदि नगरोंसे भी न केवल अपना सम्पर्क बनाये हुए थे बल्कि उन नगरोंमें भी आते-जाते रहते थे। इसमें संदेह नहीं कि ये प्रति ही उदाराशय परोपकारी विद्वान् कवि थे। आत्म-कल्याणके साथ इनके चित्तमें जनकल्याणकी भावना सतत जागृत रहती थी। एक और विद्युद्धतर परिणाम और दूसरी ओर समीचीन सर्वोपकारिणी बुद्धि इन दो गुणोंका सुमेल इनके बौद्धिक जीवनकी सर्वोपरि विशेषता थी। साहित्यिक जगतमें यही इनकी सफलताका बीज है।

ये व्याकरण, छन्दशास्त्र, स्याद्वाद विद्या आदि सभी विद्याओंमें पारंगत थे। स्याद्वाद और अध्यात्मका तो इन्होंने तलस्पर्शी गहन परिकीर्णन किया था। भगवान् कुन्दकुन्द-रचित समयसार और प्रवचनसार प्रभृति प्रमुख ग्रन्थ इन्हें कण्ठस्थ थे। इन ग्रन्थोंमें प्रतिपादित अध्यात्मतत्त्वके आघारसे जनमानसका निर्माण ही इस सद्भिप्रायसे प्रेरित होकर इन्होंने मारवाड़ और मेवाड़ प्रदेशको अपना प्रमुख कार्य क्षेत्र बनाया था। जहाँ भी ये जाते, सर्वत्र इनका सोत्साह स्वागत होता था। उत्तरकालमें अध्यात्मके अनुमुखी प्रचारमें इनकी साहित्यिक व अन्य प्रकार की सेवाएँ विशेष कारगर सिद्ध हुईं।

कविवर बनारसीदासजी वि० १७ वी शताब्दीके प्रमुख विद्वान् हैं । जान पड़ता है कि कविवर राजमल्लजीने उनसे कुछ ही काल पूर्व इस वसुधाको अलंकृत किया होगा । अध्यात्मगंगा को प्रवाहित करनेवाले इन दोनों मनीषियोंका साक्षात्कार हुआ है ऐसा तो नहीं जान पड़ता, किन्तु इन द्वारा रचित जम्बूस्वामीचरित और कविवर बनारसीदासजीकी प्रमुख कृति अर्द्ध कथानकके अवलोकनसे यह अवश्य ही ज्ञात होता है कि इनके इहलीला समाप्त करनेके पूर्व ही कविवर बनारसीदासजीका जन्म हो चुका था ।

### रचनाएँ

इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी इसका सकेत हम पूर्वमें ही कर आये है । परिणाम स्वरूप इन्होंने जिन ग्रन्थोंका प्रणयन किया या टीकाएँ लिखी वे महत्वपूर्ण हैं । उनका पूरा विवरण तो हमें प्राप्त नहीं, फिर भी इन द्वारा रचित साहित्यमें जो सकेत मिलते हैं उनके अनुसार इन्होंने इन ग्रन्थोंकी रचना की होगी ऐसा ज्ञात होता है । विवरण इस प्रकार है :—

१ जम्बूस्वामीचरित, २ पिगल ग्रन्थ—छन्दोविद्या, ३ लाटीसहिता, ४, अध्यात्मकमल मात्तण्ड, ५ तत्त्वार्थमूत्र टीका, ६. समयसार कलश बालबोध टीका और ७. पंचाध्यायी । ये उनकी प्रमुख रचनाएँ या टीका ग्रन्थ हैं । यहाँ जो क्रम दिया गया है, संभवतः इसी क्रमसे इन्होंने जनकल्याणहेतु ये रचनाएँ लिपिबद्ध की होगी । संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :—

१ कविवर अपने जीवनकालमें अनेकवार मथुरा गये थे । जब ये प्रथमवार मथुरा गये तब तक इनकी विद्वत्ताके साथ कवित्वशक्ति पर्याप्त प्रकाशमें आ गई थी । अतएव वहाँ की एक सभामें इनसे जम्बूस्वामीचरितको लिपिबद्ध करनेकी प्रार्थना की गई । इस ग्रन्थके रचे जानेका यह संक्षिप्त इतिहास है । यह ग्रन्थ वि० स० १६३३ के प्रारम्भके प्रथम पक्षमें लिखकर पूर्ण हुआ है । इस ग्रन्थकी रचना करानेमें भटानियाकोल ( अलोगढ ) निवासी गर्गोत्री अग्रवाल टोडर साहू प्रमुख निमित्त हैं । ये वही टोडर साहू हैं जिन्होंने अपने जीवन कालमें मथुराके जैनस्तूपोका जोर्णाद्वार कराया था । इनका राजपुरुषोंके साथ अति निकटका संबन्ध ( परिचय ) था । उनमें कृष्णामगल चौधरी और गढमल्ल साहू मुख्य थे ।

इसके बाद पर्यटन करते हुए कविवर कुछ कालके लिये नागौर भी गये थे । वहाँ इनका सम्पर्क श्रीमाल जातीय राजा भारमल्लसे हुआ । ये अपने कालके वैभवशाली प्रमुख राजपुरुष थे । इन्हींकी सत्प्रेरणा पाकर कविवरने पिगलग्रन्थ—छन्दोविद्या ग्रन्थका निर्माण किया था । यह ग्रन्थ प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और तत्कालीन हिन्दीका सम्मिलित नमूना है ।

३. तीसरा ग्रन्थ लाटीसहिता है । मुख्य रूपसे इसका प्रतिपाद्य विषय श्रावकाचार है । जैसा कि मैं पूर्वमें निर्देश कर आया हूँ कि ये भट्टारक परम्पराके प्रमुख विद्वान् थे । यही कारण है

कि इसमें भट्टारकों द्वारा प्रचारित परम्पराके अनुरूप श्रावकाचारका विवेचन प्रमुखरूपसे हुआ है। २५ मूलगुणोंमें जो षडावश्यक कर्म हैं, पूर्वकालमें व्रती श्रावकोंके लिये वे ही षडावश्यक कर्म देशव्रतके रूपमें स्वीकृत थे। उनमें दूसरे कर्मका नाम चतुर्विंशतिस्तव और तीसरा कर्म बन्दना है। वर्तमान कालमें जो दर्शन-पूजनविधि प्रचलित है, यह उन्हीं दो श्रावश्यक कर्मोंका रूपान्तर है। मूलाचारमें बन्दनाके लौकिक और लोकोत्तर ये दो भेद दृष्टिगोचर होते हैं। उनमेंसे लोकोत्तर बन्दनाको कर्मक्षपणका हेतु बतलाया गया है। स्पष्ट है कि लौकिक बन्दना मात्र पुण्य बन्धका हेतु है। इन तथ्यों पर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि पूर्वकालमें ऐसी ही लौकिक विधि प्रचलित थी जिसका लोकोत्तर विधिके साथ सुमेल था। इस समय उसमें जो विशेष फेरफार दृष्टिगोचर होता है वह भट्टारकीय युगकी देन है। लाटीसंहिताकी रचना वैराटनगरके श्री दि० जैन पार्ष्वनाथ मन्दिरमें बैठकर की गई थी। रचनाकाल वि० सं० १६४१ है। इसकी रचना करानेमें साहू फामन और उनके वशका प्रमुख हाथ रहा है।

४. चौथा ग्रन्थ अध्यात्मकमलमात्तण्ड है। यह भी कविवरकी रचना मानी जाती है। इसकी रचना अन्य किसी व्यक्तिके निमित्तसे न होकर स्वसंवित्तिके प्रकाशित करनेके अभिप्रायसे की गई है। यही कारण है कि इसमें कविवरने न तो किसी व्यक्ति विशेषका उल्लेख किया है और न अपने संबन्धमें ही कुछ लिखा है। इसके स्वाध्यायसे विदित होता है कि इसकी रचनाके काल तक कविवरने अध्यात्ममें पर्याप्त निपुणता प्राप्त कर ली थी। यह इसीसे स्पष्ट है कि वे इसके दूसरे अध्यायका प्रारम्भ करते हुए यह स्पष्ट सकेत करते हैं कि पुण्य और पापका आस्रव और बन्ध तत्त्वमें अन्तर्भाव होनेके कारण इन दो तत्त्वका अलगसे विवेचन नहीं किया है। विषय प्रतिपादनकी दृष्टिसे जो प्रौढता पचाध्यायीमें दृष्टिगोचर होती है उसकी इसमें एक प्रकारसे न्यूनता ही कही जायेगी। आश्चर्य नहीं कि यह ग्रन्थ अध्यात्मप्रवेशकी पूर्वपीठिकाके रूपमें लिखा गया हो। अस्तु,

५ से ७ जान पड़ता है कि कविवरने पूर्वोक्त चार ग्रन्थोंके सिवाय तत्त्वार्थसूत्र और समयसार कलशकी टीकाएँ लिखनेके बाद पचाध्यायीकी रचना की होगी। समयसार-कलशकी टीकाका परिचय तो हम आगे करानेवाले हैं, किन्तु तत्त्वार्थसूत्र टीका हमारे देखनेमें नहीं आई, इसलिए वह कितनी अर्थगर्भ है यह लिखना कठिन है। रहा पंचाध्यायी ग्रन्थराज सो इसमें सदेह नहीं कि अपने कालकी सस्कृत रचनाओंमें विषय प्रतिपादन और शैली इन दोनों दृष्टियोंसे यह ग्रन्थ सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसे तो समाजका दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि कविवरके द्वारा ग्रन्थके प्रारम्भमें की गई प्रतिज्ञाके अनुसार पाच अध्यायोंमें पूरा किया जाने वाला यह ग्रन्थराज केवल डेढ़ अध्याय मात्र लिखा जा सका। इसे भगवान् कृन्दकृन्द और आचार्य अमृतचन्द्रकी रचनाओंका अविकल दोहन कहना अधिक उपयुक्त है। कविवरने इसमें जिस विषयको स्पर्श किया है उसकी आत्माको स्वच्छ दर्पणके समान खोलकर रख दिया है। इसमें प्रतिपादित अध्यात्मनयों और सम्पत्त्वकी रूपरंगामें जो अद्भुत

विशेषता दृष्टिगोचर होती है उसने ग्रन्थराजकी महिमाको अत्यधिक बढ़ा दिया है इसमें संदेह नहीं ।

### श्री समयसार परमागम

कविवर और उनकी रचनाओंके सम्बन्धमें इतना लिखनेके बाद समयसारकलश बालबोध टीकाका प्रकृतमें विशेष विचार करना है । यह कविवरकी अध्यात्मरससे श्रोतप्रोत तत्सम्बन्धी समस्त विषयो पर सागोपाग तथा विशद प्रकाश डालनेवाली अपने कालकी कितनी सरल, सरस और अनुपम रचना है यह आगे दिये जानेवाले उसके परिचयसे भलोभाति सुस्पष्ट हो जायगा ।

इसमें अगुमात्र भी संदेह नहीं कि श्री समयसार परमागम एक ऐसे आत्मज्ञानी महात्मा की वाणीका सुखद प्रसाद है जिनका आत्मा आत्मानुभूति स्वरूप निश्चय सम्यग्दर्शनसे सुवासित था, जो अपने जीवनकालमें ही निरन्तर पुनः पुनः अप्रमत्त भावको प्राप्त कर ध्यान, ध्याता और ध्येयके विकल्प से रहित परम समाधिरूप आत्मीक सुखका रसास्वादन करते रहते थे, जिन्होंने अरिहन्त भट्टारक भगवान् महावीरकी वाणीका सारभूत रहस्य गुरु परम्परासे भले प्रकार अवगत था, जिन्होंने अपने वर्तमान जीवनकालमें ही पूर्वमहाविदेहस्थित भगवान् सीमधर स्वामीके साक्षात् दर्शनके साथ उनकी दिव्यध्वनिको आत्मसात् किया था तथा अप्रमत्त भावसे प्रमत्तभावमें आने पर जिनका शीतल और दिव्यकी चित्त कण्ठाभावसे श्रोतप्रोत होनेके कारण ससारी प्राणियोंके परमार्थ स्वरूप हितसाधनमें निरन्तर सन्नद्ध रहता था । आचार्यवर्य्यने श्रीसमयसार परमागममें अनादि मिथ्यात्वसे प्लावित चित्तवाले मिथ्यादृष्टियोंके गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्वको छुड़ानेके सदधिप्रायवश द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्मसे भिन्न एकत्वस्वरूप जिस आत्माके दर्शन कराये है और उसकी प्राप्तिका मार्ग सुस्पष्ट किया है वह पूरे जैनशासनका सार है । जिसके प्राप्त होने पर मिदस्वरूप आत्माकी साक्षात् प्राप्ति है और जिसके न प्राप्त होने पर भवबन्धनको रलडना है ।

### आत्मख्याति वृत्ति

इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार साररूप अपूर्व प्रमेयको सुस्पष्ट करनेवाला यह ग्रन्थराज है उसी प्रकार इसके हार्दको सरल, भावमयी और सुमधुर किन्तु सुस्पष्ट रचना द्वारा प्रकाशित करनेवाली तथा बुधजनों द्वारा स्मरणीय आचार्यवर्य्य अमृतचन्द्रकी आत्मख्याति वृत्ति है । यदि इसे वृत्ति न कहकर नय विशेषसे श्रीसमयसार परमागमके स्वरूपको प्रकाशित करनेवाला उसका आत्मभूत लक्षण कहा जाये तो कोई अत्युक्ति न होगी । श्रीसमयसार परमागम को यह वृत्ति किस प्रयोजनसे निबद्ध की गई है इस तथ्यको स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचन्द्र तीसरे कलशमें स्वयं लिखते हैं कि इस द्वारा शुद्धचिन्मात्र मूर्तिस्वरूप मेरे अनुभवरूप परिणतिको परम विशुद्धि अर्थात् रागादि विभाव परिणति रहित उत्कृष्ट निर्मलता होओ । स्पष्ट है कि उन द्वारा स्वयं आत्मख्याति वृत्तिके विषयमें ऐसा भाव व्यक्त करना उसी तथ्यको सूचित करता है जिसका हम पूर्वमें निर्देश कर आये हैं । वस्तुतः

आत्मख्यातिवृत्तिका प्रतिपाद्य विषय श्री समयसार परमागममें प्रतिपादित रहस्यको सुस्पष्ट करना है। इसलिए श्रीसमयसार परमागम और आत्मख्यातिवृत्तिमे प्रतिपाद्य प्रतिपादक सम्बन्ध होनेके कारण आत्मख्यातिवृत्ति द्वारा श्रीसमयसार परमागमका आत्मा ही सुस्पष्ट किया गया है। इसलिये नय विशेषसे इसे श्रीसमयसार परमागमका आत्मभूत लक्षण कहना उचित ही है। इसकी रचनाकी अपनी मौलिक विशेषता है। जहां यह श्रीसमयसार-परमागमकी प्रत्येक गाथाके गूढतम अध्यात्म विषयको एकलोलीभावसे आत्मसात् करने मे दक्ष है वहां यह बीच बीचमें प्रतिपादित श्री जिन-मन्दिरके कलशस्वरूप कलशोद्वारा विषयको साररूपमें प्रस्तुत करनेकी क्षमता रखती है। कलश-काव्योंकी रचना आसन्न भव्य जीवोंके हृदयरूपी कुमुदको विकसित करनेवाली चन्द्रिकाके समान इसी मनोहारिणी शैलीका सुपरिणाम है। यह अमृतका निर्भर है और इसे निर्भरित करनेवाले चन्द्रोपम आचार्य अमृतचन्द्र हैं। लोकमे जो अमरता प्रदान करनेवाले अमृतकी प्रसिद्धि है, जान पड़ता है कि अमृतके निर्भर स्वरूप इस आत्मख्यातिवृत्तिसे प्राप्त होनेवाली अमरताको दृष्टिमे रखकर ही उक्त ख्यातिने लोकमे प्रसिद्धि पाई है। धन्य है वे भगवान् कुन्दकुन्द, जिन्होंने समय परमागमका दोहन कर श्रीसमयसार परमागम द्वारा पूरे जिनशासनका दर्शन कराया ! और धन्य है वे आचार्य अमृतचन्द्र, जिन्होंने आत्मख्यातिवृत्तिकी रचना कर पूरे जिनशासनके दर्शन करानेमें अपूर्व योगदान प्रदान किया।

### ममयसारकलश बालबोध टीका—

ऐसे हैं ये दोनो श्री समयसार परमागम और उसके हार्दको सुस्पष्ट करनेवाली आत्मख्याति-वृत्ति। यह अपूर्व योग है कि कविवर राजमल्लजीने परोपदेशपूर्वक या तदनु रूप पूर्व सस्कारवश निसर्गत उनके हार्दको हृदयगम करके अपने जीवनकालमें प्राप्त विद्वत्ताका सद्बुपयोग साररूपसे निबद्ध कलशोकी बालबोध टीकाको लिपिबद्ध करनेमे किया। यह टीका मोक्षमार्गके अनुरूप अपने स्वरूपको स्वयं प्रकाशित करती है, इसलिए तो प्रमाण है ही। साथ ही वह जिनागम, गुरु-उपदेश, युक्ति और स्वानुभव प्रत्यक्षको प्रमाण कर लिखी गई है, इसलिए भी प्रमाण है; क्योंकि जो स्वरूपसे प्रमाण न हो उसमे परतः प्रमाणता नहीं आती ऐसा न्याय है। यद्यपि यह हूँदारी भाषामे लिखी गई है, फिर भी गद्यकाव्य सम्बन्धी शैली और पदलालित्य आदि सब विशेषताओंसे श्रोत-प्रोत होनेके कारण वह भव्यजनोके चित्तको आह्लाद उत्पन्न करनेमे समर्थ है। वस्तुतः इसकी रचनाशैली और पदलालित्य अपनी विशेषता है।

इसकी रचनामें कविवर सर्व प्रथम कलशगत अनेक पदोंके समुदायरूप वाक्यको स्वीकार कर आगे उसके प्रत्येक पदका या पदगत शब्दका अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका मथितार्थ क्या है यह लिपि-बद्ध करनेके अभिप्रायसे 'भावार्य इत्यो' यह लिखकर उस वाक्यमे निहित रहस्यको स्पष्ट करते हैं। टीकामे यह पद्धति प्रायः सर्वत्र अपनाई गई है। यथा—

तत् नः अर्थ एकः आत्मा अस्तु—तत् कहतां तिहि कारण तिहि, नः कहतां ह्य कहुं अर्थ कहतां विद्यमान छे, एकः कहतां शुद्ध, आत्मा कहतां चेतन पदार्थ, अस्तु कहतां होउ । भावार्थ इस्थो—जो जीव अस्तु चेतना लक्षण तो सहज ही छे । परि विषयास्व परिणाम करि ज्ञम्यो होतो अपना स्वरूप कहु नहीं जाने छे । तिहि सहि अज्ञानी ही कहिजे । तिहि तिहि इसौ कह्यो जो विषया परिणामके गया जो यो ही जीव अपना स्वरूपको अनुभवनशीली होहु । कलश ६ ।

स्वभावतः खण्डान्वयरूपसे अर्थ लिखनेकी पद्धतिमें विशेषणो और तत्सम्बन्धी सन्दर्भका स्पष्टीकरण बादमे किया जाता है । ज्ञात होता है कि इसी कारण उत्तर कालमे प्रत्येक कलशके प्रकृत अर्थको 'खण्डान्वय सहित अर्थ' पद द्वारा उल्लिखित किया जाने लगा है । किन्तु इसे स्वयं कविवरने स्वीकार किया होगा ऐसा नहीं जान पड़ता, क्योंकि इस पद्धतिसे अर्थ लिखते समय जो शैली स्वीकार की जाती है वह इस टीकामे अविकलरूपसे दृष्टिगोचर नहीं होती ।

टीकामे दूसरी विशेषता अर्थ करने की पद्धतिसे सम्बन्ध रखती है, क्योंकि कविवरने प्रत्येक शब्दका अर्थ प्रायः शब्दानुगामिनी पद्धतिसे न करके भावानुगामिनी पद्धतिसे किया है । इससे प्रत्येक कलशमे कौन शब्द किस भावको लक्ष्यमे रखकर प्रयुक्त किया गया है इसे समझनेमे बड़ी सहायता मिलती है । इसप्रकार यह टीका प्रत्येक कलशके मात्र शब्दानुगामी अर्थको स्पष्ट करनेवानी टीका न होकर उसके रहस्यको प्रकाशित करनेवाली भावप्रवण टीका है ।

इसमे जो तीसरी विशेषता पाई जाती है वह आध्यात्मिक रहस्यको न समझनेवाले महानुभावोको उतनी रुचिकर प्रतीत भले ही न हो पर इतने मात्रसे उसकी महत्ता कम नहीं की जा सकती । उदाहरणार्थ तीसरे कलश को लीजिए । इसमे षष्ठ्यन्त 'अनुभूतेः' पद और उसके विशेषणरूपसे प्रयुक्त हुप्रा पद स्त्रीलिंग होनेपर भी उसे 'मम' का विशेषण बनाया गया है । कविवरने ऐसा करते हुए 'जो जिस समय जिस भावसे परिणत होता है, तन्मय होता है' इस सिद्धान्तको ध्यान मे रखा है । प्रकृतमे सार बात यह है कि कवि अपने द्वारा किये गये अर्थद्वारा यह सूचित करते हैं कि यद्यपि द्रव्याधिक दृष्टिसे आत्मा चिन्मात्रमूर्ति है, तथापि अनुभूतिमे जो कल्मषता शेष है तत्स्वरूप मेरी परम विशुद्धि होओ अर्थात् रागका विकल्प दूर होकर स्वभावमे एकत्व बुद्धिरूप में परिणमूँ । सम्यग्दृष्टि द्रव्यदृष्टि होता है, इसलिए वह स्वभावके लक्ष्यसे उत्पन्न हुई पर्यायको तन्मयरूपसे ही अनुभवता है । आचार्य अमृतचन्द्र द्वारा भेद विवक्षासे किये गये कथन मे यह अर्थ गभित है यह कविवरके उक्त प्रकारसे किये गये अर्थका तात्पर्य है । यह गूढ रहस्य है जो तत्त्वदृष्टिके अनुभवमे ही आ सकता है ।

इस प्रकार यह टीका जहां अर्थगत अनेक विशेषताओको लिए हुए है वहां इस द्वारा अनेक रहस्योंपर भी सुन्दर प्रकाश डाला गया है । यथा—



नमः समयसाराय ( क० १ )—समयसारको नमस्कार हो। अन्य पुद्गलादि द्रव्यों प्रीर संसारी जीवोको नमस्कार न कर अमुक विशेषणोसे युक्त समयसारको ही क्यों नमस्कार किया है ? वह रहस्य क्या है ? प्रयोजनको जाने बिना मन्द पुरुष भी प्रवृत्ति नहीं करता ऐसा न्याय है। कविवरके सामने यह समस्या थी। उसी समस्याके समाधान स्वरूप वे 'समयसार' पदमें ध्राये हुए 'सार' पदसे व्यक्त होनेवाले रहस्यको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—

'शुद्ध जीवके सारपना घटता है। सार अर्थात् हितकारी, असार अर्थात् अहितकारी। सो हितकारी सुख जानना, अहितकारी दुख जानना। कारण कि अजोव पदार्थ पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, कालके प्रीर संसारी जीवके सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं, प्रीर उनका स्वरूप जानने पर जानन-हारे जीवको भी सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं, इसलिए इनके सारपना घटता नहीं। शुद्ध जीवके सुख है, ज्ञान भी है, उनको जानने पर—अनुभवने पर जाननहारेको सुख है, ज्ञान भी है, इसलिए शुद्ध जीवके सारपना घटता है।'

ये कविवर के सप्रयोजन भावभरे शब्द हैं। इन्हे पढ़ते ही कविवर दौलतरामजीके छहडालाके ये वचन चित्तको आकर्षित कर लेते हैं—

तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता।

शिवस्वरूप शिवकार नमहुं त्रियोग सम्हारके ॥१॥

आत्मको हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिये।

आकुलता शिवमांहि न, ताते शिवमग लाग्यो कहिये ॥

मालुम पडता है कि कविवर दौलतरामजीके समक्ष यह टीका वचन था। उसे लक्ष्यमें रखकर ही उन्होंने इन साररूप छन्दोकी रचना की है।

प्रत्यगात्मनः ( क० २ )—दूसरे कलश द्वारा अनेकान्त स्वरूप भाववचनके साथ स्याद्वादमयी दिव्यध्वनिकी स्तुति की गई है। अतएव प्रश्न हुआ कि वाणी तो पुद्गलरूप अचेतन है, उसे नमस्कार कैसा ? इस समस्त प्रसंगको ध्यानमें रखकर कविवर कहते हैं—

'कोई वितर्क करेगा कि दिव्यध्वनि तो पुद्गलात्मक है, अचेतन है, अचेतनको नमस्कार निषिद्ध है। उसके प्रति समाधान करनेके निमित्त यह अर्थ कहा कि वाणी तो सर्वज्ञस्वरूप-अनुसारिणी है। ऐसा माने बिना भी बने नहीं। उसका विवरण—वाणी तो अचेतन है। उसको सुनने पर जीवावि पदार्थका स्वरूप ज्ञान जिस प्रकार उपजता है उसी प्रकार जानना—वाणीका पूज्यपना भी है।'

कविवरके इस वचनसे दो बातें ज्ञात होती हैं—प्रथम तो यह कि दिव्यध्वनि उसीका नाम है जो सर्वज्ञके स्वरूपके अनुरूप वस्तुस्वरूपका प्रतिपादन करती है। इसी तथ्यको स्पष्ट करनेके अग्रिमप्राय-से कविवरने 'प्रत्यगात्मन्' शब्दका अर्थ सर्वज्ञ बीतराग किया है जो युक्त है। दूसरी बात यह ज्ञात होती

है कि सर्वज्ञ वीतराग और दिव्यध्वनि इन दोनोंके मध्य निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। दिव्यध्वनिकी प्रमाणिकता भी इसी कारण व्यवहार पदवीको प्राप्त होती है। स्वतःसिद्ध इसी भावको व्यक्त करने-वाला कविवर दौलतरामजीका यह वचन जातव्य है—

भविभागनि वचिजोगे वसाय ।

तुम धुनि हूँ सुनि विभ्रम नसाय ॥

जिनवचसि रमन्ते ( क० ४ )—इस पदका भाव स्पष्ट करते हुए कविवरने जो कुछ अपूर्व अर्थका उद्घाटन किया है वह हृदयगम करने योग्य है। वे लिखते हैं—

‘वचन पुवुगल है उसकी वचि करने पर स्वरूपकी प्राप्ति नहीं। इसलिये वचनके द्वारा कही जाती है जो कोई उपादेय वस्तु उसका अनुभव करने पर फल प्राप्ति है।’

कविवरने ‘जिनवचसि रमन्ते’ पदका यह अर्थ उसी कलशके उत्तरार्द्धको दृष्टिमें रखकर किया है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि दोनों नयोंके विषयको जानना एक बात है और जानकर निश्चय नयके विषयभूत शुद्ध वस्तुका आश्रय लेकर उसमें रममाण होना दूसरी बात है। कविवरने उक्त शब्दों द्वारा इसी आशयको अभिव्यक्त किया है।

प्राक्पदव्यां ( क० ५ )—अर्वाचीनपदव्यां<sup>१</sup>—व्यवहारपदव्या<sup>२</sup>। ज्ञानी जीवकी दो अवस्थाएँ होती हैं—सविकल्प दशा और निर्विकल्प दशा। प्रकृतमें ‘प्राक्पदवी’ पदका अर्थ ‘सविकल्प दशा’ है। इस द्वारा यह अर्थ स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि सविकल्प दशामें व्यवहारनय हस्तावलम्ब है, परन्तु अनुभूति अवस्थामें ( निर्विकल्प दशामें ) उसका कोई प्रयोजन नहीं। इसी भावको कविवर इन शब्दोंमें स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—

‘जो कोई सहजरूपसे, अज्ञानी ( मन्दज्ञानी ) हैं, जीवादि पदार्थोंका प्रथम-गुण पर्याय स्वरूप जाननेके अभिलाषी हैं, उनके लिये गुण-गुणों भेदरूप कथन योग्य है।’

नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुञ्चति ( क० ७ )—जीववस्तु नो तत्त्वरूप होकर भी अपने एकत्वका त्याग नहीं करती इस तथ्यको समझनेका कविवरका दृष्टिकोण अतूठा है। उन्हींके शब्दोंमें पढ़िये—

‘जैसे अग्नि दाहक लक्षणवाली है, वह काष्ठ, तृण, कण्डा आदि समस्त बाह्यको बहती है, बहती हुई अग्नि दाह्याकार होती है, पर उसका बिचार है कि जो उसे काष्ठ, तृण और कण्डेकी प्राकृतियोंमें देखा जाये तो काष्ठकी अग्नि, तृणकी अग्नि और कण्डेकी अग्नि ऐसा कहना सार्था ही है। और जो अग्निकी उल्लसामात्र बिचारा जाये तो उल्लसामात्र है। काष्ठकी अग्नि, तृणकी अग्नि और कण्डेकी अग्नि ऐसे समस्त बिकल्प भूते हैं। उसी प्रकार नो तरबरूप जीवके परिणाम हैं। वे

१. पद्मनन्दीपरिचयिका एकन्वसतति अधिकांश श्लोक १६। २. उसकी टीका।

परिणाम कितने ही शुद्धरूप हैं, कितने ही अशुद्धरूप हैं। जो नौ परिणाममें ही देखा जाये तो नौ ही तत्त्व साबित हैं और जो चेतनामात्र अनुभव किया जाये तो नौ ही विकल्प भूठे हैं।'

इसी तथ्यको कलश ८ में स्वर्ण और वानभेदको दृष्टान्तरूपमें प्रस्तुत कर कविवरने और भी प्रालङ्कारिक भाषा द्वारा समझाया है। यथा—

'स्वर्णमात्र न देखा जाये, वानभेदमात्र देखा जाय तो वानभेद है; स्वर्णकी शक्ति ऐसी भी है। जो वानभेद न देखा जाय, केवल स्वर्णमात्र देखा जाय तो वानभेद भूठा है। इसी प्रकार जो शुद्ध जीव वस्तुमात्र न देखा जाय, गुण-पर्यायमात्र या उत्पाद-व्यय-प्रौढ्यमात्र देखा जाय तो गुण-पर्याय हैं तथा उत्पाद-व्यय-प्रौढ्य हैं; जीव वस्तु ऐसी भी है। जो गुण-पर्याय भेद या उत्पाद व्यय-प्रौढ्य भेद न देखा जाय, वस्तुमात्र देखा जाय तो समस्त भेद भूठा है ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है।'

उदयति न नयश्रीः ( क० ९ )—अनुभव क्या है और अनुभवके कालमें जीवकी कैसी अवस्था होती है उसे स्पष्ट करते हुए कविने जो वचन प्रयोग किया है वह अद्भुत है। रसास्वाद कीजिये—

'अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान है अर्थात् वेद्य-वेदकभावसे आस्वादरूप है और वह अनुभव परसहायसे निरपेक्ष है। ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञानविशेष है तथापि सम्यक्त्वके साथ अविनाभूत है, क्योंकि यह सम्यग्दृष्टिके होता है, मिथ्यादृष्टिके नहीं होता है ऐसा निश्चय है। ऐसा अनुभव होने पर जीववस्तु अपने शुद्धस्वरूपको प्रत्यक्षरूपसे आस्वादिता है, इसलिये जितने कालतक अनुभव होता है उतने कालतक वचन व्यवहार सहज ही बन्द रहता है।'

इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए वे आगे पुनः लिखते हैं—

'जो अनुभवके आने पर प्रमाण-नय-निक्षेप ही भूठा है। वहाँ रागादि विकल्पोंकी क्या क्या। भावाद्यं इस प्रकार है—जो रागादि तो भूठा ही है, जीवस्वरूपसे बाह्य है। प्रमाण-नय-निक्षेपरूप बुद्धिके द्वारा एक ही जीवद्रव्यका द्रव्य-गुण-पर्यायरूप अथवा उत्पाद-व्यय-प्रौढ्यरूप भेद किया जाता है, वे समस्त भूठे हैं। इन सबके भूठे होने पर जो कुछ वस्तुका स्वाद है सो अनुभव है।'

इसी तथ्यको कलश १० की टीकामें इन शब्दोंमें व्यक्त किया है—

'समस्त संकल्प-विकल्पसे रहित वस्तुस्वरूपका अनुभव सम्यक्त्व है।'

रागादि परिणाम अथवा सुख-दुःख परिणाम स्वभाव परिणतितसे बाह्य कैसे हैं इसका ज्ञान कराते हुए कलश ११ की टीकामें कविवर कहते हैं—

'यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि जीवको तो शुद्धस्वरूप कहा और वह ऐसा ही है, परन्तु राग-द्वेष-भोहरूप परिणामोंको अथवा सुख-दुःख आदिरूप परिणामोंको कौन करता है, कौन भोगता

है ? उत्तर इस प्रकार है कि इन परिणामों को करे तो जीव करता है और जीव भोगता है । परन्तु यह परिणति विभावरूप है, उपाधिरूप है । इस कारण निजस्वरूप विचारने पर यह जीवका स्वरूप नहीं है ऐसा कहा जाता है ।'

शुद्धात्मानुभव किसे कहते हैं इसका स्पष्टीकरण कलश १३ की टीकामें पढ़िये—

'निरुपाधिरूपसे जीव द्रव्य जंसा है वंसा ही प्रत्यक्षरूपसे आत्वाद् धावे इसका नाम शुद्धात्मानुभव है ।'

द्वादशाङ्गज्ञान और शुद्धात्मानुभवमें क्या अन्तर है इसका जिन सुन्दर शब्दोमें कविवरने कलश १४ की टीकामें स्पष्टीकरण किया है वह जातव्य है—

'इस प्रसङ्गमें और भी संशय होता है कि द्वादशाङ्गज्ञान कुछ अपूर्ण लब्धि है । उसके प्रति समाधान इस प्रकार है कि द्वादशाङ्गज्ञान भी विकल्प है । उसमें भी ऐसा कहा है कि शुद्धात्मानुभूति मोक्षभाग है, इसलिये शुद्धात्मानुभूतिके होनेपर शास्त्र पढ़नेकी कुछ भटक नहीं है ।'

मोक्ष जानेमें द्रव्यान्तरका सहारा क्यों नहीं है इसका स्पष्टीकरण कविवरने कलश १५ की टीकामें इन शब्दोंमें किया है—

'एक ही जीव द्रव्य कारणरूप भी अपनेमें ही परिणमता है और कार्यरूप भी अपनेमें परिणमता है । इस कारण मोक्ष जानेमें किसी द्रव्यान्तरका सहारा नहीं है, इसलिये शुद्ध आत्माका अनुभव करना चाहिये ।'

शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है मात्र ऐसा जानना कार्यकारी नहीं । तो क्या है इसका स्पष्टीकरण कलश २३ की टीकामें पढ़िये—

'शरीर तो अचेतन है, विनश्वर है । शरीरमें भिन्न कोई तो पुरुष है ऐसा जानपना ऐसी प्रतीति मिथ्यादृष्टि जीवके भी होती है पर साध्यसिद्धि तो कुछ नहीं । जब जीव द्रव्यका द्रव्य-गुण-पर्यायरूप प्रत्यक्ष आत्वाद् धाता है तब सव्यगदशन-ज्ञान-चारित्र्य है, सकल कर्मक्षय मोक्ष लक्षण भी है ।'

जो शरीर सुख-दुःख रागद्वेष-मोहकी त्यागबुद्धिको कारण और चिद्रूप आत्मानुभवको कार्य मानते हैं उनको समझाते हुए कविवर क० २६ में क्या कहते हैं यह उन्हींके समर्पक शब्दोमें पढ़िये—

'कोई जानेगा कि जितना भी शरीर, सुख, दुःख, राग, द्वेष, मोह है उसकी त्यागबुद्धि कुछ अन्य है—कारणरूप है । तथा शुद्ध चिद्रूपमात्रका अनुभव कुछ अन्य है—कार्यरूप है । उसके प्रति उत्तर इस प्रकार है कि राग, द्वेष, मोह, शरीर, सुख, दुःख आदि विभाव पर्यायरूप परिणति हुए जीवका जिस कालमें ऐसा अशुद्ध परिणामरूप सस्कार छूट जाता है उसी कालमें इसके अनुभव है । उसका विवरण

—जो शुद्धचेतनामात्रका आस्वाद्य प्राये बिना अशुद्ध भावरूप परिणाम छूटना नहीं और अशुद्ध संस्कार छूटे बिना शुद्ध स्वरूपका अनुभव होता नहीं। इसलिए जो कुछ है सो एक ही काल, एक ही वस्तु, एक ही ज्ञान, एक ही स्वाद्य है।'

जो समझते हैं कि जैनसिद्धान्तका बारबार अभ्यास करनेसे जो दृढ़ प्रतीति होती है उसका नाम अनुभव है। कविबर उनकी इस धारणाको कलश ३० में ठीक न बतलाते हुए लिखते हैं—

'कोई जानेगा कि जैनसिद्धान्तका बारबार अभ्यास करनेसे दृढ़ प्रतीति होती है उसका नाम अनुभव है सो ऐसा नहीं है। मिथ्यात्वकर्मका रसपाक मिटने पर मिथ्यात्वभावरूप परिणामन मिटता है सो वस्तुस्वरूपका प्रत्यक्षरूपसे आस्वाद्य प्राया है, उसका नाम अनुभव है।'

विधि प्रतिषेधरूपसे जीवका स्वरूप क्या है इसे स्पष्ट करते हुए कलश ३३ की टीकामें बतलाया है—

'शुद्ध जीव है, टंकोत्कीर्ण है, चिद्रूप है ऐसा कहना विधि कही जाती है। जीवका स्वरूप गुरुस्थान नहीं, कर्म-नोकर्म जीवके नहीं, भावकर्म जीवका नहीं ऐसा कहना प्रतिषेध कहलाता है।'

हेय-उपादेयका ज्ञान कराते हुए कलश ३६ की टीकामे कहा है—

'जितनी कुछ कर्मजाति है वह समस्त हेय है। उसमें कोई कर्म उपादेय नहीं है।

इसलिये क्या कर्तव्य है इस बातको स्पष्ट करते हुए उसीमें बतलाया है—

'जितने भी विभाव परिणाम हैं वे सब जीवके नहीं हैं। शुद्ध चेतन्यमात्र जीव है ऐसा अनुभव कर्तव्य है।'

कलश ३७ की टीकामे इसी तथ्यको पुनः स्पष्ट करते हुए लिखा है—

'धर्मादिक और रागादि विद्यमान विललाई पड़ते हैं। तथापि स्वरूप अनुभवने पर स्वरूप-मात्र है, विभाव-परिणतिरूप वस्तु तो कुछ नहीं।'

कर्मबन्ध पर्यायसे जीव कैसे भिन्न है इसे दृष्टान्त द्वारा समझाते हुए कलश ४४ की टीकामें कहा है—

'जिस प्रकार पानी कीचड़के मिलने पर भेला है। सो वह भेलावन रङ्ग है, सो रंगको भंगी-कार न कर बाकी जो कुछ है सो पानी है। उषी प्रकार जीवकी कर्मबन्ध पर्यायरूप ध्रवस्थामें रागादिविभाव रंग है, सो रंगको भंगीकार न कर बाकी जो कुछ है सो चेतन धातुमात्र वस्तु है। इसीका नाम शुद्ध-स्वरूप अनुभव जानना जो सन्न्यदृष्टिके होता है।'

इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए कलश ४५ की टीकामे लिखा है—

'जिस प्रकार स्वर्ण और पाषाण मिले हुए चले घा रहे हैं और भिन्न-भिन्नरूप हैं। तथापि अग्निका सयोग जब ही पाते हैं तभी तत्काल भिन्न-भिन्न होते हैं। उसी प्रकार जीव और कर्मका

संयोग अनादिसे बला आ रहा है और जोब कर्म भिन्न-भिन्न हैं । तथापि शुद्धस्वरूप अनुभव बिना प्रगटरूप से भिन्न-भिन्न होते नहीं, जिस काल शुद्धस्वरूप अनुभव होता है उस काल भिन्न-भिन्न होते हैं ।'

विपरीत बुद्धि और कर्मबन्ध मिटनेके उपायका निर्देश करते हुए कलश ४७ की टीकामें लिखा है—

'जैसे सूर्यका प्रकाश होने पर अंधकारको अघसर नहीं, वैसे शुद्धस्वरूप अनुभव होने पर विपरीतरूप मिथ्यात्व बुद्धिका प्रवेश नहीं । यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि शुद्ध ज्ञानका अनुभव होने पर विपरीत बुद्धिमात्र मिटती है कि कर्मबन्ध मिटता है ? उत्तर इस प्रकार है कि विपरीत बुद्धि मिटती है, कर्मबन्ध भी मिटता है ।'

कर्ता-कर्मका विचार करते हुए कलश ४६ की टीकामें लिखा है—

'जैसे उपचारमात्रसे द्रव्य अपने परिणाममात्रका कर्ता है, वही परिणाम द्रव्यका किया हुआ है वैसे अन्य द्रव्यका कर्ता अन्य द्रव्य उपचारमात्रसे भी नहीं है, क्योंकि एकसत्त्व नहीं, भिन्न सत्त्व हैं ।'

जोब और कर्मका परस्पर क्या सम्बन्ध है इस तथ्यको स्पष्ट करते हुए कलश ५० की टीकामें लिखा है—

'जोब द्रव्य ज्ञाता है, पुद्गलकर्म ज्ञेय है ऐसा जोबको कर्मको ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध है, तथापि व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध नहीं है, द्रव्योका अत्यन्त भिन्नपना है, एकपना नहीं है ।'

कर्ता-कर्म-क्रियाका ज्ञान कराते हुए कलश ५१ की टीकामें पुन. लिखा है—

'कर्ता-कर्म क्रियाका स्वरूप तो इस प्रकार है, इसलिये ज्ञानावरणादि द्रव्य पिण्डरूप कर्मका कर्ता जोबद्रव्य है ऐसा जानना भ्रूटा है, क्योंकि जोबद्रव्यका और पुद्गलकर्मका एक सत्त्व नहीं; कर्ता-कर्म-क्रियाकी कोन घटना ?'

इसी तथ्यको कलश ५२-५३ में पुन स्पष्ट किया है—

'ज्ञानावरणादि द्रव्यरूप पुद्गलपिण्ड कर्मका कर्ता जोबवस्तु है ऐसा जानपना मिथ्याज्ञान है, क्योंकि एक सत्त्वमें कर्ता-कर्म-क्रिया उपचारसे कहा जाता है । भिन्न सत्त्वरूप है जो जोबद्रव्य-पुद्गल-द्रव्य उनको कर्ता-कर्म-क्रिया कहाँसे घटेगा ?'

'जोबद्रव्य-पुद्गलद्रव्य भिन्न सत्त्वारूप हैं सो जो पहले भिन्न सत्तापन छोड़कर एक सत्त्वारूप होवें तो पीछे कर्ता-कर्म-क्रियापना घटित हो । सो तो एकरूप होते नहीं, इसलिये जोब-पुद्गलका आपसमें कर्ता-कर्म-क्रियापना घटित नहीं होता ।'

जोब अज्ञानसे विभावका कर्ता है इसे स्पष्ट करते हुए कलश ५२ की टीकामें लिखा है—

'जैसे समुद्रका स्वरूप निश्चल है, बायुसे प्रेरित होकर उछलता है और उछलनेका कर्ता भी होता है, वैसे ही जोब द्रव्यस्वरूपसे अकर्ता है । कर्म संयोगसे विभावरूप परिणामता है, इसलिये

विभावपनेका कर्ता भी होता है । परन्तु अज्ञानसे, स्वभाव तो नहीं ।’

जीव अपने परिणामका कर्ता क्यों है और पुद्गल कर्मका कर्ता क्यों नहीं इसका स्पष्टीकरण कलश ६१ की टीकामें इस प्रकार किया है—

‘जोषद्रव्य अशुद्ध चेतनारूप परिणामता है, शुद्ध चेतनारूप परिणामता है, इसलिये जिस कालमें जिस चेतनारूप परिणामता है उस कालमें उसी चेतनाके साथ व्याप्य-व्यापकरूप है, इसलिये उस कालमें उसी चेतनाका कर्ता है । तो भी पुद्गल पिण्डरूप जो ज्ञानावरणादि कर्म है उसके साथ तो व्याप्य-व्यापकरूप तो नहीं है । इसलिये उसका कर्ता नहीं है ।’

जीवके रागादिभाव और कर्म परिणाममें निमित्त-नैमित्तिकभाव क्यों है, कर्ता-कर्मपना क्यों नहीं इसका स्पष्टीकरण कलश ६८ की टीकामें इसप्रकार किया है—

‘जैसे कलशरूप मृत्तिका परिणामती है, जैसे कुम्भकारका परिणाम उसका बाह्य निमित्त कारण है, व्याप्य-व्यापकरूप नहीं है उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म पिण्डरूप पुद्गलद्रव्य स्वयं व्याप्य-व्यापकरूप है । तथापि जीवका अशुद्धचेतनारूप मोह, राग, द्वेषादि परिणाम बाह्य निमित्त कारण है, व्याप्य-व्यापकरूप तो नहीं है ।’

वस्तुमात्रका अनुभवशीली जीव परम सुखी कैसे है इसे स्पष्ट करते हुए कलश ६९ की टीकामें कहा है—

‘जो एक सत्त्वरूप वस्तु है, उसका द्रव्य-गुण-पर्यायरूप, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप विचार करनेपर विकल्प होता है, उस विकल्पके होनेपर मन आकुल होता है, आकुलता दुःख है, इसलिये वस्तुमात्रके अनुभवने पर विकल्प मिटता है, विकल्पके मिटनेपर आकुलता मिटती है, आकुलताके मिटनेपर दुःख मिटता है, इससे अनुभवशीली जीव परम सुखी है ।’

स्वभाव और कर्मापाधिमें अन्तरको दिखलाते हुए कलश ६१ की टीकामें लिखा है—

‘जैसे सूर्यका प्रकाश होनेपर अंधकार फट जाता है उसीप्रकार शुद्ध चैतन्यमात्रका अनुभव होनेपर यावत् समस्त विकल्प मिटते हैं । ऐसी शुद्ध चैतन्यवस्तु है सो मेरा स्वभाव, अन्य समस्त कर्मकी उपाधि है ।’

नय विकल्पके मिटनेके उपायका निर्देश करते हुए कलश ६२-६३ की टीकामें लिखा है—

‘शुद्ध स्वरूपका अनुभव होनेपर जिसप्रकार नयविकल्प मिटते हैं उसीप्रकार समस्त कर्मके उदय से होनेवाले जितने भाव है वे भी अक्षय मिटते हैं ऐसा स्वभाव है ।’

‘जितना नय है उतना श्रुतज्ञानरूप है, श्रुतज्ञान परोक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष है, इसलिये श्रुतज्ञान बिना जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष अनुभवता है ।’

जीव अज्ञान भावका कब कर्ता है और कब अकर्ता है इसका स्पष्टीकरण करते हुए कलश १५ की टीकामें लिखा है—

‘कोई ऐसा मानेगा कि जीव ब्रह्म सदा हो अकर्ता है उसके प्रति ऐसा समाधान कि जितने काल तक जीवका सम्यक्त्व गुण प्रगट नहीं होता उतने कालतक जीव मिथ्यादृष्टि है। मिथ्यादृष्टि हो तो अशुद्ध परिणामका कर्ता होता है। सो जब सम्यक्त्व गुण प्रगट होता है तब अशुद्ध परिणाम निवृत्ता है, तब अशुद्ध परिणामका कर्ता नहीं होता।’

अशुभ कर्म बुरा और शुभ कर्म भला ऐसी मान्यता अज्ञानका फल है इसका स्पष्टीकरण करते हुए १०० की टीकामें लिखा है—

‘जैसे अशुभकर्म जीवको दुःख करता है उसी प्रकार शुभकर्म भी जीवको दुःख करता है। कर्ममें तो भला कोई नहीं है। अपने मोहको लिये हुए मिथ्यादृष्टि जीव कर्मको भला करके मानता है। ऐसी भ्रम प्रतीति शुद्ध स्वरूपका अनुभव हुआ तबसे पाई जाती है।’

शुभोपयोग भला, उससे क्रमसे कर्म निर्जरा होकर मोक्ष प्राप्ति होती है यह मान्यता कैसे झूठी है इसका स्पष्टीकरण करते हुए कलश १०१ की टीकामें लिखा है—

‘कोई जीव शुभोपयोगी होता हुआ यतिक्रियामें मग्न होता हुआ शुद्धोपयोगको नहीं जानता, केवल यतिक्रियामात्र मग्न है। वह जीव ऐसा जानता है कि मैं तो मुनीश्वर, हमको विषय-कथाय सामग्री निविद्ध है। ऐसा जानकर विषय कथाय सामग्रीको छोड़ता है, आपको धन्यपना मानता है, मोक्षमार्ग मानता है। सो विचार करनेपर ऐसा जीव मिथ्यादृष्टि है। कर्मबन्धको करता है, कोई भलापन तो नहीं है।’

क्रिया संस्कार छूटनेपर ही शुद्धस्वरूपका अनुभव संभव है इसका स्पष्टीकरण कलश १०४ की टीकामें इसप्रकार किया है—

शुभ-अशुभ क्रियामें मग्न होता हुआ जीव विकल्पी है, इससे दुःखी है। क्रिया संस्कार छूटकर शुद्धस्वरूपका अनुभव होते ही जीव निविकल्प है, इससे सुखी है।’

कैसा अनुभव होनेपर मोक्ष होता है इसका स्पष्टीकरण कलश १०५ की टीकामें इसप्रकार किया है—

‘जीवका स्वरूप सदा कर्मसे मुक्त है। उसको अनुभवने पर मोक्ष होता है ऐसा घटता है, बिरुद्ध तो नहीं।’

स्वरूपाचरण चारित्र क्या है इसका स्पष्टीकरण कलश १०६ की टीकामें इस प्रकार किया है—

‘कोई जानेगा कि स्वरूपाचरण चारित्र ऐसा कहा जाता है जो आत्माके शुद्ध स्वरूपको बिचारे अथवा चिन्तने अथवा एकाग्ररूपसे मग्न होकर अनुभवे। सो ऐसा तो नहीं, उसके करने पर बन्ध



होता है, क्योंकि ऐसा तो स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। तो स्वरूपाचरण चारित्र कैसा है ? जिस प्रकार पन्ना (सुवर्ण पत्र) पकानेसे सुवर्णमेंकी कालिमा जाती है, सुवर्ण शुद्ध होता है उसी प्रकार जीव द्रव्यके भ्रनाविसे अशुद्ध चेतनारूप रागादि परिणाम था, वह जाता है, शुद्ध स्वरूपमात्र शुद्ध चेतनारूप जीव द्रव्य परिणामता है, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र कहा जाता है, ऐसा मोक्षमार्ग है।'

शुभ-अशुभ क्रिया आदि बन्धका कारण है इसका निर्देश करते हुए कलश १०७ की टीकामें लिखा है—

'जो शुभ-अशुभ क्रिया, सूक्ष्म-स्थूल अन्तर्जल्प बहिःजल्परूप जितना विकल्परूप आचरण है वह सब कर्मका उदयरूप परिणामन है, जीवका शुद्ध परिणामन नहीं है, इसलिए समस्त ही आचरण मोक्षका कारण नहीं है, बन्धका कारण है।'

विषय-कषायके समान व्यवहार चारित्र दुष्ट है इसका स्पष्टीकरण करते हुए कलश १०८ में लिखा है—

'यहां कोई जानेगा कि शुभ-अशुभ क्रियारूप जो आचरणरूप चारित्र है सो करने योग्य नहीं है उसी प्रकार वर्जन करने योग्य भी नहीं है ? उत्तर इस प्रकार है—वर्जन करने योग्य है। कारण कि व्यवहार चारित्र होता हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है, इसलिए विषय-कषायके समान क्रियारूप चारित्र निषिद्ध है।'

( कलश १०९ ) ज्ञानमात्र मोक्षमार्ग कहनेका कारण—

'कोई आशंका करेगा कि मोक्षमार्ग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र इन तीनका मिला हुआ है, यहाँ ज्ञानमात्र मोक्षमार्ग कहा सो क्यों कहा ? उसका समाधान ऐसा है—शुद्धस्वरूप ज्ञानमें सम्यग्दर्शन सम्यक्चारित्र सहज ही गर्भित है इसलिए दोष तो कुछ नहीं, गुण है।'

( कलश ११० ) मिथ्यादृष्टिके समान सम्यग्दृष्टिका शुभ क्रियारूप यतिपना भी मोक्षका कारण नहीं है इसका खुलासा—

'यहां कोई भ्रान्ति करेगा जो मिथ्यादृष्टिका यतिपना क्रियारूप है सो बन्धका कारण है, सम्यग्दृष्टिका है जो यतिपना शुभ क्रियारूप सो मोक्षका कारण है। कारण कि अनुभव ज्ञान तथा दया व्रत तप संयमरूप क्रिया दोनों मिलकर ज्ञानावरणादि कर्मका क्षय करते हैं। ऐसी प्रतीति कितने ही भ्रान्तानो जीव करते हैं। वहां समाधान ऐसा—जितनी शुभ-अशुभ क्रिया, बहिर्जल्परूप विकल्प अथवा अन्तर्जल्परूप अथवा द्रव्योंका विचाररूप अथवा शुद्ध स्वरूपाका विचार इत्यादि समस्त कर्म बन्धका कारण है। ऐसी क्रियाका ऐसा ही स्वभाव है। सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टिका ऐसा नेव तो कुछ नहीं। ऐसी करतूतिसे ऐसा बन्ध है। शुद्धस्वरूप परिणामनमात्रसे मोक्ष है। यद्यपि एक ही कालमें सम्यग्दृष्टि जीवके शुद्ध ज्ञान भी है, क्रियारूप परिणाम भी है। तथापि क्रियारूप है जो परिणाम उससे अकेला बन्ध होता है, कर्मका क्षय एक अज्ञानमात्र भी नहीं होता है। ऐसा बन्धुका स्वरूप, सहारा

किसका । उसी समय शुद्ध स्वरूप अनुभव ज्ञान भी है । उसी समय ज्ञानसे कर्मक्षय होता है, एक क्षणमात्र भी बन्ध नहीं होता है । बस्तुका ऐसा ही स्वरूप है ।'

( कलश ११२ ) समस्त क्रियामे ममत्वके त्यागके उपायका कथन—

'जितनी क्रिया है वह सब मोक्षमार्ग नहीं है ऐसा जान समस्त क्रियामें ममत्वका त्यागकर शुद्ध ज्ञान मोक्षमार्ग है ऐसा सिद्धान्त सिद्ध हुआ ।'

( कलश ११४ ) स्वभावप्राप्ति और विभावत्यागका एक ही काल है—

'जिस काल शुद्ध चेतन्य वस्तुकी प्राप्ति होती है उसी काल मिथ्यात्व-राग-द्वेषरूप जीवका परिणाम मिटता है, इसलिए एक ही काल है, समयका अन्तर नहीं है ।'

( कलश ११५ ) सम्यग्दृष्टि जीवके द्रव्यात्मत्व और भावात्मत्वसे रहित होनेके कारणका निर्देश—

'आत्मत्व दो प्रकारका है । विवरण—एक द्रव्यात्मत्व है, एक भावात्मत्व है । द्रव्यात्मत्व कहने पर कर्मरूप बँटे है आत्माके प्रदेशोंमें पुद्गलपिण्ड, ऐसे द्रव्यात्मत्वसे जीव स्वभाव ही से रहित है । यद्यपि जीवके प्रदेश, कर्मपुद्गलपिण्डके प्रदेश एक ही क्षेत्रमें रहते हैं तथापि परस्पर एक द्रव्यरूप नहीं होते हैं, अपने अपने द्रव्य-गुण पर्यायरूप रहते हैं इसलिए पुद्गलपिण्डसे जीव भिन्न है । भावात्मत्व कहनेपर मोह, राग, द्वेषरूप विभाव अशुद्ध चेतन परिणाम सो ऐसा परिणाम यद्यपि जीवके मिथ्यादृष्टि अस्वयामें बिद्यमान ही था तथापि सम्यक्स्वरूप परिणामने पर अशुद्ध परिणाम मिटा । इस कारण सम्यग्दृष्टि जीव भावात्मत्वसे रहित है । इससे ऐसा अर्थ निपजा कि सम्यग्दृष्टि जीव निरात्मत्व है ।'

( कलश ११६ ) सम्यग्दृष्टि कर्मबन्धका कर्ता क्यों नहीं इसका निर्देश—

'कोई अज्ञानी जीव ऐसा मानेगा कि सम्यग्दृष्टि जीवके चारित्रमोहका उदय तो है, वह उदय-मात्र होने पर आगामी ज्ञानावरणादि कर्मका बन्ध होता होगा ? समाधान इस प्रकार है—चारित्र-मोहका उदयमात्र होने पर बन्ध नहीं है । उदयके होने पर जो जीवके राग, द्वेष, मोह परिणाम हो तो कर्मबन्ध होता है, अन्यथा सहस्र कारण हो तो भी कर्मबन्ध नहीं होता । राग, द्वेष, मोह परिणाम भी मिथ्यात्व कर्मके उदयके सहारा है, मिथ्यात्वके जाने पर अकेले चारित्रमोहके उदयके सहाराका राग, द्वेष, मोह परिणाम नहीं है । इस कारण सम्यग्दृष्टिके राग, द्वेष, मोह परिणाम होता नहीं, इसलिए कर्मबन्धका कर्ता सम्यग्दृष्टि जीव नहीं होता ।'

( कलश १२१ ) सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं है इसका तात्पर्य—

'जब जीव सम्यक्स्वरूपको प्राप्त करता है तब चारित्रमोहके उदयमें बन्ध होता है, परन्तु बन्धशक्ति हीन होती है, इसलिए बन्ध नहीं कहलाता ।'

( कलश १२४ ) निर्विकल्पका अर्थ काष्ठके समान जड़ नहीं इस तथ्यका खुलासा—

'शुद्धस्वरूपके अनुभवके काल जीव काष्ठके समान जड़ है ऐसा भी नहीं है, सामान्यतया सविकल्पी जीवके समान विकल्पी भी नहीं है, भावभ्रुतज्ञानके द्वारा कुछ निविकल्प वस्तुधारको प्रबलम्बता है, अवश्य प्रबलम्बता है ।'

( कलश १२५ ) शुद्धज्ञानमे जीतपना कैसे घटता है—

'आत्मत्व तथा संवर परस्पर प्रति ही बंदी हैं, इसलिए अनन्त कालसे लेकर सर्व जीवराशि विभाव मिथ्यास्वरूप परिणामता है, इस कारण शुद्ध ज्ञानका प्रकाश नहीं है । इसलिए आत्मत्वके सहारे सर्व जीव हैं । काललब्धि पाकर कोई आसन्न भव्य जीव सम्पत्स्वरूप स्वभाव परिणति परिणमता है, इससे शुद्ध प्रकाश प्रगट होता है, इससे कर्मका आत्मत्व मिटता है, इससे शुद्ध ज्ञानका जीतपना घटित होता है ।'

( कलश १३० ) भेदज्ञान भी विकल्प है इसका सकारण निर्देश—

'निरन्तर शुद्ध स्वरूपका अनुभव कर्तव्य है । जिस काल सकल कर्मक्षय लक्षण मोक्ष होगा उस काल समस्त विकल्प सहज ही छूट जायेंगे । वहाँ भेदविज्ञान भी एक विकल्परूप है, केवलज्ञानके समान जीवका शुद्ध स्वरूप नहीं है, इसलिए सहज ही विनाशीक है ।'

( कलश १३३ ) निर्जंराका स्वरूप—

'संवरपूर्वक जो निर्जंरा सो निर्जंरा, क्योंकि जो संवरके बिना होती है सब जीवों को उदय बेकर कर्मको निर्जंरा सो निर्जंरा नहीं है ।'

( कलश १३६ ) हेयोपादेय विचार—

शुद्ध चिद्रूप उपादेय, अन्य समस्त हेय ।

( कलश १४१ ) विकल्प का कारण—

'कोई ऐसा मानेगा कि जितनी ज्ञानकी पर्याय है वे समस्त अशुद्धरूप हैं सो ऐसा तो नहीं, कारण कि जिस प्रकार ज्ञान शुद्ध है उसी प्रकार ज्ञानकी पर्याय वस्तुका स्वरूप है, इसलिए शुद्धस्वरूप है । परन्तु एक विशेष—पर्यायमात्रका अवधारण करने पर विकल्प उत्पन्न होता है, अनुभव निविकल्प है, इसलिये वस्तुमात्र अनुभवमे पर समस्त पर्याय भी ज्ञानमात्र है, इसलिए ज्ञानमात्र अनुभव योग्य है ।

( कलश १४४ ) अनुभव ही चिन्तामणि रत्न है—

'जिस प्रकार किसी पुण्यवान् जीवके हाथमें चिन्तामणि रत्न होता है, उससे सब मनोरथ पूरा होता है, वह जीव सोहा, ताँबा, रूपा ऐसी धातुका संग्रह करता नहीं उसी प्रकार सम्पद्गृष्टि जीवके पास शुद्ध स्वरूप अनुभव ऐसा चिन्तामणि रत्न है, उसके द्वारा सकल कर्मक्षय होता है । परमात्मपदकी प्राप्ति होती है । अतीन्द्रिय सुखकी प्राप्ति होती है । वह सम्पद्गृष्टि जीव शुभ अशुभरूप अनेक किंवाविकल्पका संग्रह करता नहीं, कारण कि इनसे कार्यसिद्धि होती नहीं ।'

( कलश १५३ ) सम्यग्दृष्टिके दृष्टान्त द्वारा वाछापूरवक क्रियाका निषेध—

‘जिस प्रकार किसीको रोग, शोक, दारिद्र्य बिना हो वांछाके होता है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीवके जो कोई क्रिया होती है सो बिना ही वाछा के होती है ।’

( कलश १६३ ) कर्मबन्धके मेटनेका उपाय—

‘जिस प्रकार किसी जीवको मविरा पिलाकर बिकल किया जाता है, सर्वस्व छीन लिया जाता है, पदसे भ्रष्ट कर दिया जाता है उसी प्रकार अनादिकालसे लेकर सर्व जीवराशि राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणामसे मतवाली हुई है । इससे ज्ञानावरणादि कर्मका बन्ध होता है । ऐसे बन्धको शुद्ध ज्ञानका अनुभव मेटनशील है, इसलिए शुद्ध ज्ञान उपादेय है ।’

( कलश १७५ ) द्रव्यके परिणामके कारणोंका निर्देश—

‘द्रव्यके परिणामका कारण दो प्रकारका है—एक उपादान कारण है, एक निमित्त कारण है । उपादान कारण द्रव्यके अन्तर्गमित है अपने परिणाम-पर्यायरूप परिणामनशक्ति वह तो जिस द्रव्य की उसी द्रव्यमे होती है, ऐसा निश्चय है । निमित्त कारण—जिस द्रव्यका संयोग प्राप्त होनेसे अन्य द्रव्य अपनी पर्यायरूप परिणामता है, वह तो जिस द्रव्यकी उस द्रव्यमें होती है, अन्य द्रव्यगोचर नहीं होती ऐसा निश्चय है । जैसे मिट्टी घट पर्यायरूप परिणामती है । उसका उपादान कारण है मिट्टीमें घटरूप परिणामनशक्ति । निमित्त कारण है बाह्यरूप कुम्हार, बक, दण्ड इत्यादि । जैसे ही जीवद्रव्य अशुद्ध परिणाम मोहराग द्वेषरूप परिणामता है । उसका उपादान कारण है जीवद्रव्यमें अन्तर्गमित विभावरूप अशुद्ध परिणामशक्ति ।’

( कलश १७६-१७७ ) अकर्ता-कर्ता विचार

‘सम्यग्दृष्टि जीवके रागादि अशुद्ध परिणामोंका स्वामित्वपना नहीं है, इसलिए सम्यग्दृष्टि जीव कर्ता नहीं है ।’

‘मिथ्यादृष्टि जीवके रागादि अशुद्ध परिणामोंका स्वामित्वपना है, इसलिए मिथ्यादृष्टि जीव कर्ता है ।’

( कलश १८० ) मात्र भेदज्ञान उपादेय है—

‘जिसप्रकार करोंतके बार बार चालू करनेसे पुद्गल वस्तु काष्ठ आदि बो लण्ड हो जाता है उसी प्रकार भेदज्ञानके द्वारा जीव पुद्गलको बार-बार भिन्न-भिन्न अनुभव करने पर भिन्न-भिन्न हो जाते हैं, इसलिए भेदज्ञान उपादेय है ।’

( कलश १८१ ) जीव कर्मको भिन्न करनेका उपाय—

‘जिस प्रकार यद्यपि लोहसारकी छेनी अति पनी होती है तो भी सन्धिकी विचार कर देने पर छेद कर दो कर वेती है उसी प्रकार यद्यपि सम्यग्दृष्टि जीवका ज्ञान अत्यन्त तीक्ष्ण है तथापि जीव-

कर्मकी है जो भीतरमें सन्धि उसमें प्रवेश करने पर प्रथम तो बुद्धिमोचर छेवकर दो कर देता है । परचासु सकल कर्मका क्षय होनेसे साक्षात् छेवकर भिन्न भिन्न करता है ।'

( कलश १६१ ) मोक्षमार्गका स्वरूप निरूपण—

सर्वं अशुद्धपनाके निटनेसे शुद्धपना होता है । उसके सहाराका है शूद्र चिद्रूपका अनुभव, ऐसा मोक्षमार्ग है ।

( कलश १६३ ) स्वरूप विचारकी अपेक्षा जीव न बद्ध है न मुक्त है—

'एकेग्रियसे लेकर पञ्चेन्द्रियतक जीवद्रव्य जहाँ तहाँ द्रव्य स्वरूप विचारकी अपेक्षा बन्ध ऐसे मुक्त ऐसे विकल्पसे रहित है । द्रव्यका स्वरूप जंसा है बंसा ही है ।'

( कलश १६६ ) कर्मका ( भावकर्मका ) कर्तापन-भोक्तापन जीवका स्वभाव नहीं—

'जिस प्रकार जीवद्रव्यका अनन्तचतुष्टय स्वरूप है उस प्रकार कर्मका कर्तापन भोक्तापन स्वरूप नहीं है । कर्मकी उपाधिसे विभावरूप अशुद्ध परिणतिरूप विकार है । इसलिए विनाशीक है । उस विभाव परिणतिके विनाश होने पर जीव अकर्ता है, अभोक्ता है ।'

( कलश २०३ ) भोक्ता और कर्ताका अन्योन्य सम्बन्ध है—

'जो द्रव्य जिस भावका कर्ता होता है वह उसका भोक्ता भी होता है । ऐसा होने पर रागादि अशुद्ध चेतन परिणाम जो जीव कर्म दोनोंने मिलकर किया होवे तो दोनों भोक्ता होंगे सो दोनों भोक्ता तो नहीं है ! कारण कि जीव द्रव्य चेतन है तिस कारण सुख दुःखका भोक्ता होवे ऐसा घटित होता है, पुद्गल द्रव्य अचेतन होनेसे सुख दुःखका भोक्ता घटित नहीं होता । इसलिए रागादि अशुद्ध चेतन परिणामनका अकेला संसारो जीव कर्ता है, भोक्ता भी है ।'

( कलश २०६ ) विकल्प अनुभव करने योग्य नहीं—

'जिस प्रकार कोई पुद्गल मोतीकी मालाको पोषा जानता है, माला गूँथता हुआ अनेक विकल्प करता है सो वे समस्त विकल्प भूटे हैं, विकल्पोंमें शोभा करनेकी शक्ति नहीं है । शोभा तो मोतीमात्र वस्तु है, उसमें है । इसलिए पहिनेवाला पुद्गल मोतीकी माला जानकर पहिनता है, गूँथनेके बहुत विकल्प जानकर नहीं पहिनता है, देखनेवाला भी मोती की माला जानकर शोभा देखता है, गूँथनेके विकल्पोंको नहीं देखता है उसी प्रकार शूद्र चेतनामात्र सत्ता अनुभव करने योग्य है । उसमें घटते हैं जो अनेक विकल्प उन सबकी सत्ता अनुभव करने योग्य नहीं है ।'

( कलश २१२ ) जानते समय ज्ञान ज्ञेयरूप नहीं परिणामा—

'जीवद्रव्य समस्त ज्ञेय वस्तुको जानता है ऐसा तो स्वभाव है, परन्तु ज्ञान ज्ञेयरूप नहीं होता है, ज्ञेय भी ज्ञानद्रव्यरूप नहीं परिणमता है ऐसी वस्तुकी मर्यादा है ।'

( कलश २१४ ) एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको करता है यह झूठा व्यवहार है—

‘जीव ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मको करता है, भोगता है । उसका समाधान इस प्रकार है कि भूठे व्यवहारसे कहनेको है । द्रव्यके स्वरूपका विचार करनेपर परद्रव्यका कर्ता जीव नहीं है ।’

( कलश २२२ ) ज्ञेयको जानना विकारका कारण नहीं—

‘कोई मिथ्यादृष्टि जीव ऐसी आशंका करेगा कि जीव द्रव्य ज्ञायक है, समस्त ज्ञेयको जानता है, इसलिए परद्रव्यको जानते हुए कुछ थोड़ा बहुत रागादि अशुद्ध परिणतिका विकार होता होगा ? उत्तर इस प्रकार है कि परद्रव्यको जानते हुए तो एक निरंशमात्रभी नहीं है, अपनी विभाव परिणति करनेसे विकार है । अपनी शुद्ध परिणति होने पर निर्बिकार है ।’

इत्यादि रूपसे अनेक तथ्योंका अनुभवपूर्ण वाणी द्वारा स्पष्टीकरण इस टीकामे किया गया है । टीकाका स्वाध्याय करनेसे ज्ञात होता है कि आत्मानुभूति पूर्वक निराकुलत्व लक्षण सुखका रसास्वादन करते हुए कविवरने यह टीका लिखी है । यह जितनी सुगम और सरल भाषामें लिखी गई है उतनी ही भव्य जनोके चित्तको आह्लाद उत्पन्न करनेवाली है । कविवर बनारसीदास जी ने उसे बालबोध टीका इस नामसे सम्बोधित किया है । इसमें सदेह नहीं कि यह अज्ञानियो या अल्पज्ञों को आत्मसाक्षात्कारके सम्मुख करनेके अभिप्रायसे ही लिखी गई है । इसलिए इसका बालबोध यह नाम सार्थक है । कविवर राजमल्लजी और इस टीकाके सबधमें कविवर बनारसीदासजी लिखते हैं—

‘पाँडे राजमल्ल जिनधर्मा । समयसार नाटकके धर्मा ॥

तिन्हे ग्रन्थकी टीका कीन्ही । बालबोध सुगम करि दोन्ही ॥

इह विधि बोध बचनिका फंली । समे पाइ अध्यातम सेली ॥

प्रगटी जगत माँहि जिनवाणी, घर घर नाटक कथा बखानो ॥

कविवर बनारसीदासजी ने कविवर राजमल्लजी और उनकी इस टीकाके सम्बन्धमें थोड़े शब्दोंमें जो कुछ कहना था, सब कुछ कह दिया है । कविवर बनारसीदासजी ने छन्दोमें नाटक समयसारकी रचना इसी टीकाके आधारसे की है । अपने इस भावको व्यक्त करते हुए कविवर स्वयं लिखते हैं—

नाटक समेसार हितजीका, सुगमरूप राजमल्ल टीका ।

कवितबद्ध रचना जो होई, भाषा ग्रन्थ पढ़े सब कोई ॥

तब बनारसी मनमें आनी, कोजे तो प्रगटे जिनबानी ।

पंच पुरुसकी आज्ञा लीनी । कवितबन्ध की रचना कीनी ॥

जिन पाँच पुरुषोंको साक्षी करके कविवर बनारसी दास जी ने छन्दोमें नाटक समयसारकी रचना की है । वे हैं—१ प० रूपचन्दजी, २. चतुर्भुजजी, ३. कविवर भैया भगवतीदासजी, ४. कोर-

पालजी और ५ धर्मदासजी । इनमें प० रूपचन्दजी और भैया भगवतीदासजी का नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय है । स्पष्ट है कि इन पाँचों विद्वानोंने कविवर बनारसीदासजी के साथ मिलकर कविवर राजमल्लजी की समयसार कलश बालबोध टीकाका अनेक बार स्वाध्याय किया होगा । यह टीका अध्यात्मके प्रचारमे काफी सहायक हुई यह इसीसे स्पष्ट है । प० श्री रूपचन्दजी जैसे सिद्धान्ती विद्वान् को यह टीका अक्षरशः मान्य थी यह भी इससे सिद्ध होता है !

यह तो मैं पूर्वमें ही लिख आया है कि यह टीका डूँडारी भाषामें लिखी गई है । सर्वप्रथम मूलरूपमें इसके प्रचारित करनेका श्रेय श्रीमान् सेठ नेमचन्द बालचन्द जी वकील उसमानाबादवाली को है । यह वीर स० २४५७ में स्व० श्रीमान् ब० शीतलप्रसादजी के आग्रहसे प्रकाशित हुई थी । प्रकाशक श्री मूलचन्द किशनदासजी कापडिया ( दि० जैन पुस्तकालय ) सूरत हैं । श्रीमान् नेमचन्दजी वकीलसे मेरा निकटका सम्बन्ध था । वे उदाराशय और विद्याव्यासगी विचारक वकील थे । अध्यात्म मे तो उनका प्रवेश था ही, कर्मशास्त्रका भी उन्हें अच्छा ज्ञान था । उनकी यह सेवा सराहनीय है । मेरा विश्वास है कि बहुजन प्रचारित हिन्दीमे इसका अनुवाद हो जानेके कारण अध्यात्म जैसे गूढ़तम तत्त्वके प्रचारमे यह टीका अधिक सहायक होगी । विज्ञेयु किमधिकम् ।

—मूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

## \* विषय-सूची \*



क्रम सं०	विषय	पृ० सं०
१	जीव-अधिकार	१-३३
२	अजीव-अधिकार	३४-४४
३	कर्ता-कर्मअधिकार	४५-७८
४	पुण्य-पाप-अधिकार	७९-९३
५	आस्रव-अधिकार	९४-१०६
६	सवर-अधिकार	१०७-११२
७	निर्जरा-अधिकार	११३-१४१
८	बन्ध-अधिकार	१४२-१५५
९	मोक्ष-अधिकार	१५६-१६८
१०	सर्वविशुद्धज्ञान-अधिकार	१६९-२१०
११	स्याद्वाद-अधिकार	२११-२३०
१२	साध्य-साधक-अधिकार	२३१-२४३





# श्री समयसार कलश





आचार्यवर श्री अमृतचन्द्रदेव



पण्डितप्रवर श्री राजमन्लजी कुठ टीकाके आधुनिक हिन्दी-अनुवाद सहित

श्रीमद् भ्रमृतचन्द्राचार्यदेव विरचित

श्री

## समयसार-कलश

—१—

जीव-अधिकार

( मनुष्टुप् )

नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते ।

चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ॥१॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“भावाय नमः” [ भावाय ] पदार्थ । पदार्थ संज्ञा है सत्त्वस्वरूपकी । उससे यह अर्थ ठहराया—जो कोई शाश्वत वस्तुरूप, उसे मेरा [ नमः ] नमस्कार । वह वस्तुरूप कैसा है ? “चित्स्वभावाय” [ चित् ] ज्ञान—चेतना वही है [ स्वभावाय ] स्वभाव—सर्वस्व जिसका, उसको मेरा नमस्कार । यह विशेषण कहने पर दो समाधान होते हैं—एक तो भाव कहने पर पदार्थ; वे पदार्थ कोई चेतन है, कोई अचेतन है; उनमें चेतन पदार्थ नमस्कार करने योग्य है ऐसा अर्थ उपजता है । दूसरा समाधान ऐसा कि यद्यपि वस्तुका गुण वस्तुमें गर्भित है, वस्तु गुण एक ही सत्त्व है, तथापि भेद उपजाकर कहने योग्य है; विशेषण कहे बिना वस्तुका ज्ञान उपजता नहीं । और कैसा है भाव ? “समयसाराय” यद्यपि समय शब्दका बहुत अर्थ है तथापि इस अवसर पर समय शब्दसे सामान्यतया जीवादि सकल पदार्थ जानने । उनमें जो कोई सार है, सार अर्थात् उपादेय है जीव

वस्तु, उसको मेरा नमस्कार । इस विशेषणका यह भावार्थ—सार पदार्थ जानकर चेतन पदार्थको नमस्कार प्रमाण रखा । असारपना जानकर अचेतन पदार्थको नमस्कार निषेधा । आगे कोई वितर्क करेगा कि सर्व ही पदार्थ अपने अपने गुण-पर्याय विराजमान है, स्वाधीन है, कोई किसीके आधीन नहीं, जीव पदार्थका सारपना कैसे घटता है ? उसका समाधान करनेके लिए दो विशेषण कहते हैं—और कैसा है भाव ? “स्वानुभूत्या चक्रासते सर्वभावान्तरच्छिदे” [ स्वानुभूत्या ] इस अवसर पर स्वानुभूति कहनेसे निराकुलत्वलक्षण शुद्धात्मपरिणामरूप अतीन्द्रिय सुख जानना, उसरूप [ चक्रासते ] अवस्था है जिसकी । [ सर्वभावान्तरच्छिदे ] सर्व भाव अर्थात् अतीत-अनागत-वर्तमान पर्याय सहित अनन्त गुण विराजमान जिनने जीवादि पदार्थ, उनका अन्तरछेदी अर्थात् एक समयमे युगपत् प्रत्यक्षरूपसे जाननशील जो कोई शुद्ध जीववस्तु, उसको मेरा नमस्कार । शुद्ध जीवके सारपना घटता है । सार अर्थात् हितकारी, असार अर्थात् अहितकारी । सो हितकारी सुख जानना, अहितकारी दुख जानना । कारण कि अजीव पदार्थ पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, कालके और समारी जीवके सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं, और उनका स्वरूप जाननेपर जाननहारे जीवको भी सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं, इसलिए इनके सारपना घटता नहीं । शुद्ध जीवके सुख है, ज्ञान भी है, उसको जाननेपर—अनुभवनेपर जाननहारे को सुख है, ज्ञान भी है, इसलिए शुद्ध जीवके सारपना घटता है ॥१॥

( अनुष्टुप् )

**अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः ।**

**अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् ॥२॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“नित्यमेव प्रकाशताम्” [ नित्यं ] सदा त्रिकाल [ प्रकाशताम् ] प्रकाशको करो । इतना कहकर नमस्कार किया । वह कौन ? “अनेकान्तमयी मूर्ति” [ अनेकान्तमयी ] न एकान्त अनेकान्त । अनेकान्त अर्थात् स्याद्वाद, उसमयी अर्थात् वही है [ मूर्तिः ] स्वरूप जिसका, ऐसी है सर्वज्ञकी वाणी अर्थात् दिव्यध्वनि । इस अवसर पर आशका उपजती है कि कोई जानेगा कि अनेकान्त तो संशय है, संशय मिथ्या है । उसके प्रति ऐसा समाधान करना—अनेकान्त तो संशयको दूरीकरणीशील है और वस्तुस्वरूपको साधनशील है । उसका विवरण—जो कोई सत्तास्वरूप वस्तु है वह द्रव्य-गुणात्मक है । उसमे जो सत्ता

अभेदरूपसे द्रव्यरूप कहलाती है वही सत्ता भेदरूपसे गुणरूप कहलाती है। इसका नाम अनेकान्त है। वस्तुस्वरूप अनादि—निघन ऐसा ही है। किसीका सहारा नहीं। इसलिए अनेकान्त प्रमाण है। आगे जिस बाणीको नमस्कार किया वह वाणी कैसी है? “प्रत्यगात्मनस्तत्त्वं पश्यन्ती” [ प्रत्यगात्मनः ] सर्वज्ञ वीतराग। उसका विवरण—प्रत्यक् अर्थात् भिन्न; भिन्न अर्थात् द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मसे रहित, ऐसा है आत्मा—जीवद्रव्य जिसका वह कहलाता है प्रत्यगात्मा; उसका [ तत्त्वं ] स्वरूप, उसको [ पश्यन्ती ] अनुभवनशील है। भावार्थ इस प्रकार है—कोई वितर्क करेगा कि दिव्यध्वनि तो पुद्गलात्मक है, अचेतन है, अचेतनको नमस्कार निषिद्ध है। उसके प्रति समाधान करनेके निमित्त यह अर्थ कहा कि वाणी सर्वज्ञस्वरूप-अनुसारिणी है, ऐसा माने बिना भी बने नहीं। उसका विवरण—वाणी तो अचेतन है। उसको सुनने पर जीवादि पदार्थका स्वरूपज्ञान जिस प्रकार उपजता है उसी प्रकार जानना—वाणीका पूज्यपना भी है। कैसे हैं सर्वज्ञ वीतराग? “अनन्तधर्मणः” [ अनन्त ] अति बहुत हैं [ धर्मणः ] गुण जिनके ऐसे हैं। भावार्थ इस प्रकार है—कोई मिथ्यावादी कहता है कि परमात्मा निर्गुण है, गुण विनाश होनेपर परमात्मपना होता है। सो ऐसा मानना भूठा है, कारण कि गुणोंका विनाश होनेपर द्रव्यका भी विनाश है ॥२॥

( मालिनी )

**परपरिणतिहेतोर्भोहनाम्नोऽनुभावा-  
वविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः ।**

**मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूर्ते-  
र्भवतु समयसारव्याख्ययवानुभूतेः ॥ ३ ॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“मम परमविशुद्धिः भवतु” शास्त्रकर्ता है अमृतचन्द्र-सूरि। वह कहता है—[ मम ] मुझे [ परमविशुद्धिः ] शुद्धस्वरूपप्राप्ति। उसका विवरण—परम—सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि—निर्मलता [ भवतु ] होओ। किससे? “समयसारव्याख्यया” [ समयसार ] शुद्ध जीव, उसके [ व्याख्यया ] उपदेशसे हमको शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति होओ। भावार्थ इसप्रकार है—यह शास्त्र परमार्थरूप है, वैराग्योत्पादक है। भारत-रामायणके समान रागवर्धक नहीं है। कैसा हूँ मैं? “अनुभूतेः” अनुभूति—अतीन्द्रिय सुख, वही है स्वरूप जिसका ऐसा हूँ। और कैसा हूँ? “शुद्धचिन्मात्रमूर्तेः” [ शुद्ध ] रागादि-उपाधिरहित [ चिन्मात्र ] चेतनामात्र [ मूर्तेः ]

स्वभाव है जिसका ऐसा हूँ। भावार्थ इसप्रकार है—द्रव्याधिकनय से द्रव्यस्वरूप ऐसा ही है। और कैसा हूँ मैं ? “अविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः” [ अविरतं ] निरन्तररूपने अनादि सन्तानरूप [ अनुभाव्य ] विषय-कषायादिरूप अशुद्ध चेतना, उसके साथ है [ व्याप्ति ] व्याप्ति अर्थात् उसरूप है विभाव-परिणमन, ऐसा है [ कल्माषितायाः ] कलकपना जिसका ऐसा हूँ। भावार्थ इस प्रकार है—पर्यायाधिकनयसे जीववस्तु अशुद्धरूपसे अनादिकी परिणमी है। उस अशुद्धताके विनाश होने पर जीववस्तु ज्ञान-स्वरूप मुखस्वरूप है। आगे कोई प्रश्न करता है कि जीववस्तु अनादिसे अशुद्धरूप परिणमी है, वहाँ निमित्तमात्र कुछ है कि नहीं है ? उत्तर इसप्रकार—निमित्तमात्र भी है। वह कौन, वही कहते है—“मोहनाम्नोज्जुभावात्” [ मोहनाम्नः ] पुद्गलपिण्ड-रूप आठ कर्मोंमें मोह एक कर्मजाति है, उसका [ अनुभावात् ] उदय अर्थात् विपाक-अवस्था। भावार्थ इस प्रकार है—रागादि-अशुद्धपरिणामरूप जीवद्रव्य व्याप्य-व्यापकरूप परिणमे है पुद्गलपिण्डरूप मोहकर्मका उदय निमित्तमात्र है जैसे कोई धतूरा पीनेसे घूमता है, निमित्तमात्र धतूराका उसको है। कैसा है मोहनामक कर्म ? “परपरिणति-हेतो” [ पर ] अशुद्ध [ परिणति ] जीवका परिणाम, जिसका [ हेतोः ] कारण है। भावार्थ इसप्रकार है—जीवके अशुद्ध परिणामके निमित्त ऐसा रस लेकर मोहकर्म बँधना है, बादमें उदय समयमें निमित्तमात्र होता है ॥३॥

( मालिनी )

उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदांके  
जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः ।  
सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चै-  
रनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव ॥ ४ ॥

खण्डान्वय महित अर्थ—“ति समयसारं ईक्षन्ते एव” [ ते ] आसन्नभय जीव [ समयसारं ] शुद्ध जीवको [ ईक्षन्ते एव ] प्रत्यक्षपने प्राप्त होते हैं। “सपदि” थोड़े ही कालमें। कैसा है शुद्ध जीव। “उच्चैः परं ज्योतिः” अतिशयमान ज्ञानज्योति है। और कैसा है ? “अनव” अनादिसिद्ध है। और कैसा है ? “अनयपक्षाक्षुण्ण” [ अनयपक्ष ] मिथ्यावादसे [ अक्षुण्णं ] अखण्डित है। भावार्थ इस प्रकार है—मिथ्यावादी बौद्धादि मूठी कल्पना बहुत प्रकार करते हैं, तथापि वे ही

भूठे हैं। आत्मतत्त्व जैसा है वैसा ही है। आगे वे भव्य जीव क्या करते हुए शुद्ध स्वरूप पाते हैं, वही कहते हैं—“ये जिनवचसि रमन्ते” [ये] आसन्नभव्य जीव [जिनवचसि] दिव्य-ध्वनि द्वारा कही है उपादेयरूप शुद्ध जीववस्तु, उसमें [रमन्ते] सावधानपने रुचि—श्रद्धा—प्रतीति करते हैं। विवरण—शुद्ध जीववस्तुका प्रत्यक्षपने अनुभव करते हैं उसका नाम रुचि—श्रद्धा—प्रतीति है। भावार्थ इस प्रकार है—वचन पुद्गल है, उसकी रुचि करने पर स्वरूपकी प्राप्ति नहीं। इसलिए वचनके द्वारा कही जाती है जो कोई उपादेय वस्तु, उसका अनुभव करने पर फलप्राप्ति है। कैसा है जिनवचन ? “उभयनयविरोधध्वंसिनि” [उभय] दो [नय] पक्षपात [विरोध] परस्पर वैरभाव। विवरण—एक सत्त्वको द्रव्याधिक-नय द्रव्यरूप, उसी सत्त्वको पर्यायार्थिकनय पर्यायरूप कहता है, इसलिए परस्पर विरोध है; उसका [ध्वंसिनि] भेटनशील है। भावार्थ इस प्रकार है—दोनों नय विकल्प हैं, शुद्ध जीवस्वरूपका अनुभव निविकल्प है, इसलिए शुद्ध जीववस्तुका अनुभव होनेपर दोनों नयविकल्प भूठे हैं। और कैसा है जिनवचन ? “स्यात्पदाङ्क” [स्यात्पद] स्याद्वाद अर्थात् अनेकान्त—जिसका स्वरूप पीछे कहा है, वही है [अङ्क] चिह्न जिसका, ऐसा है। भावार्थ इस प्रकार है—जो कुछ वस्तुमात्र है वह तो निर्भेद है। वह वस्तुमात्र वचनके द्वारा कहनेपर जो कुछ वचन बोला जाता है वही पक्षरूप है। कैसे हैं आसन्नभव्य जीव ? “स्वय वान्तमोहा。” [स्वयं] सहजपने [वान्त] वमा है [मोहा:] मिथ्यात्व—विपरीतपना, ऐसे है। भावार्थ इस प्रकार है—अनन्त संसार जीवके भ्रमते हुए जाता है। वे संसारी जीव एक भव्यराशि हैं, एक अभव्यराशि है। उसमें अभव्यराशि जीव त्रिकाल ही मोक्ष जानेके अधिकारी नहीं। भव्य जीवोंमें कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य है। उनके मोक्ष पहुँचनेका कालपरिमाण है। विवरण—यह जीव इतना काल बीतनेपर मोक्ष जायेगा ऐसी नोंध केवलज्ञानमें है। वह जीव संसारमें भ्रमते भ्रमते जभी अर्धपुद्गलपरावर्तनमात्र रहता है तभी सम्यक्त्व उपजने योग्य है। इसका नाम काललब्धि कहलाता है। यद्यपि सम्यक्त्व-रूप जीवद्रव्य परिणामता है तथापि काललब्धिके बिना करोड उपाय जो किये जायें तो भी जीव सम्यक्त्वरूप परिणामन योग्य नहीं ऐसा नियम है। इससे जानना कि सम्यक्त्व-वस्तु यत्नसाध्य नहीं, सहजरूप है ॥४॥

(मालिनी)

व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्या-

मिह्निहितव्यानां हन्त हस्तावलम्बः ।

## तदपि परममर्थं चिच्चमत्कारमात्रं परविरहितमन्तः पश्यतां नैष किञ्चित् ।५।

खण्डान्वय सहित अर्थ—“व्यवहरणनयः यद्यपि हस्तावलम्बः स्यात्” [व्यवहरण नयः] जितना कथन । उसका विवरण—जीववस्तु निर्विकल्प है । वह तो ज्ञानगोचर है । वही जीववस्तुको कहना चाहे, तब ऐसे ही कहनेमें आता है कि जिसके गुण-दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य वह जीव । जो कोई बहुत साधिक (अधिक बुद्धिमान्) हो तो भी ऐसे ही कहना पड़े । इतने कहनेका नाम व्यवहार है । यहाँ कोई आशंका करेगा कि वस्तु निर्विकल्प है, उसमें विकल्प उपजाना अयुक्त है । वहाँ समाधान इस प्रकार है कि व्यवहारनय हस्तावलम्ब है । [हस्तावलम्ब] जैसे कोई नीचे पडा हो तो हाथ पकड़कर ऊपर लेते है वैसे ही गुण-गुणीरूप भेद कथन ज्ञान उपजनेका एक अंग है । उसका विवरण—जीवका लक्षण चेतना इतना कहनेपर पुद्गलादि अचेतन द्रव्यसे भिन्नपनेकी प्रतीति उपजती है । इसलिए जबतक अनुभव होता है तबतक गुण-गुणी भेदरूप कथन ज्ञानका अंग है । व्यवहारनय जिनका हस्तावलम्ब है वे कैसे है ? “प्राक्पदव्यामिह निहितपदानां” [इह] विद्यमान ऐसी जो [प्राक्पदव्यां] ज्ञान उत्पन्न होनेपर प्रारम्भिक अवस्था उसमें [निहितपदानां] निहित-रखा है पद-सर्वस्व जिन्होंने ऐसे है । भावार्थ इस प्रकार है—जो कोई सहजरूपसे अज्ञानी है, जीवादि पदार्थोंका द्रव्य-गुण-पर्याय-स्वरूप जाननेके अभिलाषी है, उनके लिए गुण-गुणीभेदरूप कथन योग्य है । “हन्त तदपि एष न किञ्चित्” यद्यपि व्यवहारनय हस्तावलम्ब है तथापि कुछ नहीं, नोध (ज्ञान, समझ) करनेपर भूठा है । वे जीव कैसे हैं जिनके व्यवहारनय भूठा है ? “चिच्चमत्कारमात्रं अर्थं अन्तः पश्यतां” [चित्] चेतना [चमत्कार] प्रकाश [मात्रं] इतनी ही है [अर्थ] शुद्ध जीववस्तु, उसको [अंतःपश्यतां] प्रत्यक्षपने अनुभवते है । भावार्थ इस प्रकार है—वस्तुका अनुभव होनेपर वचनका व्यवहार सहज ही छूट जाता है । कंसी है वस्तु ? “परम” उत्कृष्ट है, उपादेय है । और कंसी है वस्तु ? “परविरहित” [पर] द्रव्यकर्म-नोकर्म-भावकर्मसे [विरहितं] भिन्न है ॥५॥

(शादूँलविक्रीडित)

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्यवस्यात्मनः  
पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ।



**सम्यग्दर्शनभेददेव नियमादात्मा च तावानयं  
तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तत् नः अयं एकः आत्मा अस्तु” [ तत् ] इस कारण [ नः ] हमें [ अयं ] यह विद्यमान [ एकः ] शुद्ध [ आत्मा ] चेतनपदार्थ [ अस्तु ] होओ। भावार्थ इस प्रकार है—जीववस्तु चेतनालक्षण तो सहज ही है। परन्तु मिथ्यात्वपरिणामके कारण भ्रमित हुआ अपने स्वरूपको नहीं जानता, इससे अज्ञानी ही कहना। अतएव ऐसा कहा कि मिथ्या परिणामके जानेसे यही जीव अपने स्वरूपका अनुभवशीली होओ। क्या करके ? “इमा नवतत्त्वसन्तति मुक्त्वा” [ इमा ] आगे कहे जानेवाले [ नवतत्त्व ] जीव-अजीव-आत्मव-बन्ध-संवर-निर्जरा-मोक्ष-पुण्य-पापके [ सन्तति ] अनादि सम्बन्धको [ मुक्त्वा ] छोड़कर। भावार्थ इस प्रकार है—संसार-अवस्थामें जीव-द्रव्य नौ तत्त्वरूप परिणामा है, वह तो विभाव परिणति है, इसलिए नौ तत्त्वरूप वस्तुका अनुभव मिथ्यात्व है। “यदस्यात्मनः इह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् दर्शनं नियमात् एतदेव सम्यग्दर्शनं” [ यत् ] जिस कारण [ अस्यात्मनः ] यही जीवद्रव्य [ द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ] सकल कर्मोपाधिसे रहित जंसा है [ इह दर्शनं ] वंसा ही प्रत्यक्षपने उसका अनुभव [ नियमात् ] निश्चयसे [ एतदेव सम्यग्दर्शनं ] यही सम्यग्दर्शन है। भावार्थ इसप्रकार है—सम्यग्दर्शन जीवका गुण है। वह गुण संसार-अवस्थामें विभावरूप परिणामा है। वही गुण जब स्वभावरूप परिणामे तब मोक्षमार्ग है। विवरण—सम्यक्त्वभाव होनेपर नूतन ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मास्त्र मिटता है, पूर्वबद्ध कर्म निर्जरता है, इस कारण मोक्षमार्ग है। यहाँपर कोई आशंका करेगा कि मोक्षमार्ग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र इन तीनोंके मिलनेसे होता है। उत्तर इस प्रकार है—शुद्ध जीवस्वरूपका अनुभव करनेपर तीनों ही है। कंसा है शुद्ध जीव ? “शुद्धनयतः एकत्वे नियतस्य” [ शुद्धनयतः ] निर्विकल्प वस्तु-मात्रकी दृष्टिसे देखते हुए [ एकत्वे ] शुद्धपना [ नियतस्य ] उसरूप है। भावार्थ इसप्रकार है—जीवका लक्षण चेतना है। वह चेतना तीन प्रकारकी है—एक ज्ञानचेतना, एक कर्मचेतना, एक कर्मफलचेतना। उनमेंसे ज्ञानचेतना शुद्ध चेतना है, शेष अशुद्ध चेतना है। उनमेंसे अशुद्ध चेतनारूप वस्तुका स्वाद सर्व जीवोको अनादिसे प्रगत ही है। उसरूप अनुभव सम्यक्त्व नहीं। शुद्ध चेतनामात्र वस्तुस्वरूपका आस्वाद आवे तो सम्यक्त्व है। और कंसी है जीववस्तु ? “व्याप्तुः” अपने गुण पर्यायोको लिये हुए है इतना कहकर शुद्धपना दृढ किया है। कोई आशंका करेगा कि सम्यक्त्व-गुण और जीव-

वस्तुका भेद है कि अभेद है ? उत्तर ऐसा कि अभेद है “आत्मा च तावानयम्” [अयम्] यह [ आत्मा ] जीववस्तु [ तावान् ] सम्यक्त्व—गुणमात्र है ।६।\*

( अनुष्टुप् )

**अतः शुद्धनयायत्तं प्रत्यग्ज्योतिश्चकास्ति तत् ।**

**नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुञ्चति ॥७॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अतः तत् प्रत्यग्ज्योतिश्चकास्ति” [ अतः ] यहाँ से आगे [ तत् ] वही [ प्रत्यग्ज्योतिः ] शुद्ध चेतनामात्र वस्तु [ चकास्ति ] शब्दों द्वारा युक्तिसे कही जाती है । कौसी है वस्तु ? “शुद्धनयायत्तम्” [ शुद्धनय ] वस्तुमात्रके [ आयत्तम् ] आधीन है । भावार्थ इस प्रकार है—जिसका अनुभव करनेपर सम्यक्त्व होता है उस शुद्ध स्वरूपको कहते हैं—“यदेकत्वं न मुञ्चति” [ यत् ] जो शुद्ध वस्तु [ एकत्वं ] शुद्धपनेको [ न मुञ्चति ] नहीं छोड़ती है । यहाँपर कोई आशंका करेगा कि जीववस्तु जब संसारसे छूटती है तब शुद्ध होती है । उत्तर इस प्रकार है—जीववस्तु द्रव्यदृष्टिसे विचार करनेपर त्रिकाल ही शुद्ध है । वही कहते हैं—“नवतत्त्वगतत्वेऽपि” [ नवतत्त्व ] जीव-अजीव-आस्रव-बन्ध-सवर-निर्जरा-मोक्ष-पुण्य-पाप [ गतत्वेऽपि ] उसरूप परिणत है तथापि शुद्ध-स्वरूप है भावार्थ इस प्रकार है—जैसे अग्नि दाहक लक्षणवाली है, वह काष्ठ, तृण, कण्डा आदि समस्त दाह्यको दहती है, दहती हुई अग्नि दाह्याकार होती है, पर उसका विचार है कि जो उसे काष्ठ, तृण और कण्डेकी आकृतिमें देखा जाय तो काष्ठकी अग्नि तृणकी अग्नि और कण्डेकी अग्नि ऐसा कहना सँचा ही है और जो अग्निकी उष्णता-मात्र विचारा जाय तो उष्णमात्र है । काष्ठकी अग्नि, तृणकी अग्नि और कण्डेकी अग्नि ऐसे समस्त विकल्प भूठे हैं । उसीप्रकार नौ तत्त्वरूप जीवके परिणाम है । वे परिणाम कितने ही शुद्धरूप हैं, किन्तु नौ अशुद्धरूप हैं । जो नौ परिणाममें ही देखा जाय तो नौ ही तत्त्व सँचे हैं और जो चेतनामात्र अनुभव किया जाय तो नौ ही विकल्प भूठे हैं ।७।

( मालिनी )

**चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नमुन्नीयमानं**

**कनकमिव निभग्नं वर्णमालाकलापे ।**

ॐ यहाँ मूल श्लोकमें “पूर्वाज्ञानघनस्य” शब्द है उसका अर्थ १० श्री राजमल्लजीसे करना रह गया है । जो अर्थ निम्न प्रकार हो सकता है । कैसा है शुद्ध जीव ? “पूर्वाज्ञानघनस्य” पूर्ण स्व-पर ग्राहक शक्तिका पुंज है ।

## अथ सततविविक्तं दृश्यतामेकरूपं

प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानम् ॥८॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“आत्मज्योतिर्दृश्यताम्” [ आत्मज्योतिः ] जीवद्रव्यका शुद्ध ज्ञानमात्र, [ दृश्यतां ] सर्वथा अनुभवरूप हो। कैसी है आत्मज्योति ? “चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नं अथ सततविविक्तं” इस अवसर पर नाट्यरसके समान एक जीववस्तु आश्चर्यकारी अनेक भावरूप एक ही समयमें दिखलाई देती है। इसी कारणसे इस शास्त्रका नाम नाटक समयसार है। वही कहते हैं—[ चिरं ] अमर्याद कालसे [ इति ] जो विभावरूप रागादि परिणाम-पर्यायमात्र विचारा जाय तो ज्ञानवस्तु [ नवतत्त्वच्छन्नं ] पूर्वोक्त जीवादि नौ तत्त्वरूपसे आच्छादित है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीववस्तु अनादि कालसे धातु और पाषाणके संयोगके समान कर्म पर्यायसे मिली ही चली आ रही है सो मिली हुई होकर वह रागादि विभाव परिणामोंके साथ व्याप्य-व्यापक रूपसे स्वय परिणामन कर रही है। वह परिणामन देखा जाय, जीवका स्वरूप न देखा जाय तो जीववस्तु नौ तत्त्वरूप है ऐसा दृष्टि में आता है। ऐसा भी है, सर्वथा भूठ नहीं है, क्योंकि विभावरूप रागादि परिणाम शक्ति जीवमें ही है। “अथ” अब ‘अथ’ पद द्वारा दूसरा पक्ष दिखलाते हैं—वही जीववस्तु द्रव्यरूप है, अपने गुण-पर्यायोंमें विराजमान है। जो शुद्ध द्रव्यस्वरूप देखा जाय, पर्यायस्वरूप न देखा जाय तो वह कैसी है ? “सततविविक्तम्” [ सतत ] निरन्तर [ विविक्तं ] नौ तत्त्वोंके विकल्पसे रहित है, शुद्ध वस्तुमात्र है। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूपका अनुभव सम्यक्त्व है। और कैसी है वह आत्मज्योति ? “वर्णमालाकलापे कनकमिव निमग्नं” [ वर्णमाला ] पदके दो अर्थ हैं—एक तो बनवारी\* और दूसरा भेदपंक्ति। भावार्थ इस प्रकार है कि गुण-गुणीके भेदरूप भेदप्रकाश। ‘कलाप’ का अर्थ समूह है। इसलिये ऐसा अर्थ निष्पन्न हुआ कि जैसे एक ही सोना बानभेदसे अनेकरूप कहा जाता है वैसे एक ही जीववस्तु द्रव्य-गुण-पर्यायरूपसे अथवा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूपसे अनेकरूप कही जाती है। “अथ” अब ‘अथ’ पद द्वारा पुनः दूसरा पक्ष दिखलाते हैं—“प्रतिपदं एकरूपं” [ प्रतिपदं ] गुण-पर्यायरूप, अथवा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप अथवा दृष्टांतकी अपेक्षा बानभेदरूप जितने भेद है उन सब भेदोंमें भी [ एकरूपं ] आप (एक) ही है। वस्तुका विचार करनेपर भेदरूप भी वस्तु

\*. बनवारी-सोमारकी मूँठ ।

ही है, वस्तुसे भिन्न भेद कुछ वस्तु नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि सुवर्णमात्र न देखा जाय, बानभेदमात्र देखा जाय तो बानभेद है; सुवर्णकी शक्ति ऐसी भी है। जो बानभेद न देखा जाय, केवल सुवर्णमात्र देखा जाय तो बानभेद भूटा है। इसी प्रकार जो शुद्ध जीववस्तुमात्र न देखी जाय, गुण-पर्यायमात्र या उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमात्र देखा जाय तो गुण-पर्याय है तथा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य है; जीववस्तु ऐसी भी है। जो गुण-पर्यायभेद या उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यभेद न देखा जाय, वस्तुमात्र देखी जाय तो समस्त भेद भूटा है। ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है। और कैसी है आत्मज्योति ? “उन्नीयमानं” चेतना लक्षणसे जानी जाती है, इसलिये अनुमानगोचर भी है। अथ दूसरा पक्ष—“उद्योतमानं” प्रत्यक्ष ज्ञानगोचर है। भावार्थ इस प्रकार है—जो भेदबुद्धि करते हुए जीववस्तु चेतना लक्षणसे जीवको जानती है; वस्तु विचारनेपर इतना विकल्प भी भूटा है, शुद्ध वस्तु-मात्र है। ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है। ८।

( मालिनी )

**उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं**

**क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेपचक्रम् ।**

**किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वकषेऽस्मिन्**

**अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अस्मिन् धाम्नि अनुभवमुपयाते द्वैतमेव न भाति” [ अस्मिन् ] इस—स्वयसिद्ध [ धाम्नि ] चेतनात्मक जीव वस्तुका [ अनुभवं ] प्रत्यक्षरूप आस्वाद [ उपयाते ] आनेपर [ द्वैतमेव ] सूक्ष्म-स्थूल अन्तर्जल्प और बहिर्जल्परूप सभी विकल्प [ न भाति ] नहीं शोभते है। भावार्थ इस प्रकार है—अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान है अर्थात् वेद्य-वेदकभावसे आस्वादरूप है और वह अनुभव परसहायसे निरपेक्ष है। ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञानविशेष है तथापि सम्यक्त्वके साथ अविनाभूत है, क्योंकि यह सम्यग्दृष्टिके होता है, मिथ्यादृष्टिके नहीं होता है ऐसा निश्चय है। ऐसा अनुभव होनेपर जीववस्तु अपने शुद्धस्वरूपको प्रत्यक्षरूपसे आस्वादती है। इसलिये जितने कालतक अनुभव होता है उतने कालतक वचनव्यवहार सहज ही बन्द रहता है, क्योंकि वचन व्यवहार तो परोक्षरूपसे कथक है। यह जीव तो प्रत्यक्षरूप अनुभवशील है, इसलिये (अनुभवकालमे) वचनव्यवहार पर्यन्त कुछ रहा नहीं। कैसी है जीववस्तु ?

“सर्वकषे” [ सर्व ] सब प्रकारके विकल्पोंका [ कषे ] क्षयकरणशील (क्षय करनेरूप स्वभाववाली) है। भावार्थ इस प्रकार है—जैसे सूर्यप्रकाश अन्वकारसे सहज ही भिन्न है वैसे अनुभव भी समस्त विकल्पोंसे रहित ही है। यहाँ पर कोई प्रश्न करेगा कि अनुभवके होनेपर कोई विकल्प रहता है कि जिनका नाम विकल्प है वे समस्त ही मिटते हैं ? उत्तर इस प्रकार है कि समस्त ही विकल्प मिट जाते हैं, उसीको कहते हैं—“नयश्चरिपि न उदयति, प्रमाणमपि अस्तमेति, न विद्मः निक्षेपचक्रमपि क्वचित् याति, अपरं कि अभिदध्मः” जो अनुभवके आनेपर प्रमाण-नय-निक्षेप ही भूटा है। वहाँ रागादि विकल्पोंकी क्या कथा ? भावार्थ इस प्रकार है—जो रागादि तो भूटा ही है, जीवस्वरूपसे बाह्य है। प्रमाणनय-निक्षेपरूप बुद्धिके द्वारा एक ही जीव द्रव्यका द्रव्य-गुण-पर्यायरूप अथवा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप भेद किया जाता है, वे समस्त भूटे हैं। इन सबके भूटे होनेपर जो कुछ वस्तुका स्वाद है सो अनुभव है। (प्रमाण) युगपत् अनेक धर्मग्राहक ज्ञान, वह भी विकल्प है, (नय) वस्तुके किसी एक गुणका ग्राहक ज्ञान वह भी विकल्प है और (निक्षेप) उपचार घटनारूप ज्ञान, वह भी विकल्प है। भावार्थ इस प्रकार है कि अनादिकालसे जीव अज्ञानी है, जीवस्वरूपको नहीं जानता है। वह सब जीवसत्त्वकी प्रतीति आनी चाहे तब जैसे ही प्रतीति आवे तैसे ही वस्तु-स्वरूप साधा जाता है। सो साधना गुण-गुणीज्ञान द्वारा होती है, दूसरा उपाय तो कोई नहीं है। इसलिये वस्तुस्वरूपका गुण-गुणीभेदरूप विचार करनेपर प्रमाण-नय-निक्षेपरूप विकल्प उत्पन्न होते हैं। वे विकल्प प्रथम अवस्थामें भले ही हैं, तथापि स्वरूप मात्र अनुभवनेपर भूटे हैं। १६।

( उपजाति )

**आत्मस्वभावं परभावभिन्न-**

**मापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् ।**

**विलीनसंकल्पविकल्पजालं-**

**प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥१०॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“शुद्धनयः अभ्युदेति” [ शुद्धनय ] निरुपाधि जीव-वस्तुस्वरूपका उपदेश [ अभ्युदेति ] प्रगट होता है। क्या करता हुआ प्रगट होता है ? “एकं प्रकाशयन्” [ एकं ] शुद्धस्वरूप जीववस्तुको [ प्रकाशयन् ] निरूपण करता हुआ।

कैसा है शुद्ध जीवस्वरूप ? “आद्यन्तविमुक्त” [ आग्रन्त ] समस्त पिछले और आगामी कालसे [ विमुक्त ] रहित है । भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध जीववस्तुकी आदि भी नहीं है, अन्त भी नहीं है । जो ऐसे स्वरूपको सूचित करता है उसका नाम शुद्धनय है । पुनः कैसी है जीववस्तु ? “विलीनसकल्पविकल्पजाल” [ विलीन ] विलयको प्राप्त हो गया है [ संकल्प ] रागादि परिणाम और [ विकल्प ] अनेक नयविकल्परूप ज्ञानकी पर्याय जिसके ऐसी है । भावार्थ इस प्रकार है कि समस्त संकल्प-विकल्पसे रहित वस्तुस्वरूपका अनुभव सम्यक्त्व है । पुनः कैसी है शुद्ध जीववस्तु ? “परभावभिन्न” रागादि भावोंसे भिन्न है । और कैसी है ? “आपूर्ण” अपने गुणोंसे परिपूर्ण है । और कैसी है ? “आत्मस्वभाव” आत्माका निज भाव है ॥१०॥

( मालिनी )

न हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयोऽभी

स्फुटमुपरि तरन्तोऽप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम् ।

अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात्

जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावम् ॥११॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“जगत् तमेव स्वभाव सम्यक् अनुभवतु” [ जगत् ] सर्व जीवराशि [ तमेव ] निश्चयसे पूर्वोक्त [ स्वभावं ] शुद्ध जीववस्तुको [ सम्यक् ] जैसी है वैसी [ अनुभवतु ] प्रत्यक्षपनेमे स्वसवेदनरूप आस्वादे । कैसी होकर आस्वादे ? “अपगतमोहीभूय” [ अपगत ] चली गई है [ मोहीभूय ] शरीरादि परद्रव्यसम्बन्धी एकत्वबुद्धि जिसकी ऐसी होकर । भावार्थ इस प्रकार है कि ससारी जीवको ससारमे बसते हुए अनन्तकाल गया । शरीरादि परद्रव्य स्वभाव था, परन्तु यह जीव अपना ही जानकर प्रवृत्त हुआ, सो जभी यह विपरीत बुद्धि छूटती है तभी यह जीव शुद्धस्वरूपका अनुभव करनेके योग्य होता है । कैसा है शुद्धस्वरूप ? “समन्तात् द्योतमान” [ समन्तात् ] सब प्रकारसे [ द्योतमानं ] प्रकाशमान है । भावार्थ इस प्रकार है कि अनुभवगोचर होनेपर कुछ भ्रान्ति नहीं रहती । यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि जीवको तो शुद्ध-स्वरूप कहा और वह ऐसा ही है, परन्तु राग-द्वेष-मोहरूप परिणामोको अथवा सुख-दुःख आदिरूप परिणामोको कौन करता है, कौन भोगता है ? उत्तर इस प्रकार है कि इन परिणामोको करे तो जीव करता है और जीव भोक्ता है परन्तु यह परिणति

विभावरूप है, उपाधिरूप है। इस कारण निजस्वरूप विचारनेपर यह जीवका स्वरूप नहीं है ऐसा कहा जाता है। कैसा है शुद्धस्वरूप ? “यत्र अमी बद्धस्पृष्टभावादयः प्रतिष्ठां न हि विदधति” [ यत्र ] जिस शुद्धात्मस्वरूपमें [ अमी ] विद्यमान [ बद्ध ] अशुद्ध रागादिभाव, [ स्पृष्ट ] परस्पर पिण्डरूप एक क्षेत्रावगाह और [ भावादयः ] आदि शब्दसे गृहीत अन्यभाव, अनियतभाव, विशेषभाव और संयुक्तभाव इत्यादि जो विभावपरिणाम हैं वे समस्त भाव शुद्धस्वरूपमें [ प्रतिष्ठां ] शोभाको [ न हि विदधति ] नहीं धारण करते हैं। नर, नारक, तिर्यश्च और देवपर्यायरूप भावका नाम अन्यभाव है। असंख्यात प्रदेशसम्बन्धी संकोच और विस्ताररूप परिणामनका नाम अनियतभाव है। दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप भेदकथनका नाम विशेषभाव है तथा रागादि उपाधि सहितका नाम संयुक्तभाव है। भावार्थ इस प्रकार है कि बद्ध, स्पृष्ट, अन्य, अनियत, विशेष और संयुक्त ऐसे जो छह विभाव परिणाम है वे समस्त संसार अवस्थायुक्त जीवके हैं, शुद्ध जीवस्वरूपका अनुभव करनेपर जीवके नहीं हैं। कैसे हैं बद्ध-स्पृष्ट आदि विभावभाव ? “स्फुटं” प्रगटरूपसे “एत्य अपि” उत्पन्न होते हुए विद्यमान ही है तथापि “उपरि तरन्त.” ऊपर ही ऊपर रहते हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि जीवका ज्ञानगुण त्रिकालगोचर है उस प्रकार रागादि विभावभाव जीववस्तुमें त्रिकालगोचर नहीं है। यद्यपि संसार अवस्थामे विद्यमान ही है तथापि मोक्ष अवस्थामे सर्वथा नहीं हैं, इसलिए ऐसा निश्चय है कि रागादि जीवस्वरूप नहीं है ॥११॥

( शाङ्खलविक्रीडित )

**भूतं भान्तमभूतमेव रभसा निर्भिद्य बन्धं सुधी-**

**यद्यन्तः किल काऽप्यहो कलयति व्याहृत्यमोहं हठात् ।**

**आत्मात्मानुभवैकगन्धमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवं**

**नित्यं कर्मकलङ्कपङ्कविकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥१२॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अयं आत्मा व्यक्त आस्ते” [ अयं ] इस प्रकार [ आत्मा ] चेतनालक्षणा जीव [ व्यक्तः ] स्वस्वभावरूप [ आस्ते ] होता है। कैसा होता है ? “नित्यं कर्मकलंकपङ्कविकलः” [ नित्यं ] त्रिकालगोचर [ कर्म ] अशुद्धतारूप [ कलंकपङ्क ] कलुषता-कीचड़से [ विकलः ] सर्वथा भिन्न होता है। और कैसा है ? “ध्रुवं” चार गतिमें भ्रमता हुआ रह (रुक) गया। और कैसा है ? “देवः” त्रैलोक्यसे

पूज्य है। और कैसा है? “स्वयं शाश्वतः” द्रव्यरूप विद्यमान ही है। और कैसा होता है? “आत्मानुभवैकगम्यमहिमा” [ आत्मा ] चेतन वस्तुके [ अनुभव ] प्रत्यक्ष-आस्वादके द्वारा [ एक ] अद्वितीय [ गम्य ] गोचर है [ महिमा ] बड़ाई जिसकी ऐसा है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीवका जिस प्रकार एक ज्ञानगुण है उसी प्रकार एक अतीन्द्रिय सुखगुण है सो सुखगुण ससार अवस्थामे अशुद्धपनेसे प्रगट आस्वादरूप नहीं है। अशुद्धपनाके जानेपर प्रगट होता है। वह सुख अतीन्द्रिय परमात्माके होता है। उस सुखको कहनेके लिये कोई दृष्टात चारों गतियोंमें नहीं है, क्योंकि चारों ही गतियाँ दुःखरूप है, इसलिये ऐसा कहा कि जिसको शुद्धस्वरूपका अनुभव है सो जीव परमात्मारूप जीवके सुखको जाननेके योग्य है। क्योंकि शुद्धस्वरूप अनुभवनेपर अतीन्द्रिय सुख है—ऐसा भाव सूचित किया है। कोई प्रश्न करता है कि कैसा कारण करनेसे जीव शुद्ध होता है? उत्तर इस प्रकार है कि शुद्धका अनुभव करनेसे जीव शुद्ध होता है। “किल यदि कोऽपि सुधी अन्त कलयति” [ किल ] निश्चयसे [ यदि ] जो [ कोऽपि ] कोई जीव [ अन्तः कलयति ] शुद्धस्वरूपको निरन्तर अनुभवता है। कैसा है जीव? “सुधी” शुद्ध है बुद्धि जिसकी। क्या करके अनुभवता है? “रभसा बन्धं निर्भिद्य” [ रभसा ] उसी काल [ बन्धं ] द्रव्यपिण्डरूप मिथ्यात्व कर्मके [ निर्भिद्य ] उदयको मेट करके अथवा मूलसे सत्ता मेट करके, तथा “हठात् मोह व्याहृत्य” [ हठात् ] बलमे [ मोहं ] मिथ्यात्वरूप जीवके परिणामको [ व्याहृत्य ] समूल नाश करके। भावार्थ इस प्रकार है कि अनादि कालका मिथ्यादृष्टि ही जीव काललब्धिके प्राप्त होनेपर सम्यक्त्वके ग्रहणकालके पूर्व तीन करण करता है। वे तीन करण अन्तर्भूतमें होते हैं। करण करनेपर द्रव्यपिण्डरूप मिथ्यात्वकर्मकी शक्ति मिटती है। उस शक्तिके मिटनेपर भावमिथ्यात्वरूप जीवका परिणाम मिटता है। जिस प्रकार धतूराके रसका पाक मिटनेपर गहलपना मिटता है। कैसा है बन्ध अथवा मोह? “भूत भान्तं अभूत एव” [ एव ] निश्चयसे [ भूतं ] अतीत काल सम्बन्धी, [ भान्तं ] वर्तमान काल सम्बन्धी, [ अभूतं ] आगामी कालसम्बन्धी। भावार्थ इस प्रकार है—त्रिकाल संस्काररूप है जो शरीरादिमे एकत्वबुद्धि उसके मिटनेपर जो जीव शुद्ध जीवको अनुभवता है वह जीव निश्चयसे कर्मोंसे मुक्त होता है ॥१२॥



( वसन्ततिलका )

आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिका या  
ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा ।

आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्प-

मेकोऽस्ति नित्यमवबोधघनः समन्तात् ॥१३॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“आत्मा सुनिष्प्रकम्पं एकोऽस्ति” [ आत्मा ] चेतन  
द्रव्य [ सुनिष्प्रकम्पं ] अशुद्ध परिणामनसे रहित [ एकः ] शुद्ध [ अस्ति ] होता है ।  
कौसा है आत्मा ? “नित्यं समन्तात् अवबोधघनः” [ नित्यं ] सदाकाल [ समन्तात् ] सर्वाङ्ग  
[ अवबोधघनः ] ज्ञानगुणका समूह है—ज्ञानपुञ्ज है । क्या करके आत्मा शुद्ध होता है ?  
“आत्मना आत्मनि निवेश्य” [ आत्मना ] अपनेसे [ आत्मनि ] अपने ही में [ निवेश्य ]  
प्रविष्ट होकर । भावार्थ इस प्रकार है कि आत्मानुभव परद्रव्यकी सहायतासे रहित है ।  
इस कारण अपने ही में अपनेसे आत्मा शुद्ध होता है । यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि  
इस अवसरपर तो ऐसा कहा कि आत्मानुभव करनेपर आत्मा शुद्ध होता है और कहींपर  
यह कहा है कि ज्ञानगुण-मात्र अनुभव करनेपर आत्मा शुद्ध होता है सो इसमें विशेषता  
क्या है ? उत्तर इस प्रकार है कि विशेषता तो कुछ भी नहीं है । वही कहते हैं—“या  
शुद्धनयात्मिका आत्मानुभूति इति किल इय एव ज्ञानानुभूतिः इति बुद्ध्वा” [ या ]  
जो [ आत्मानुभूतिः ] आत्मद्रव्यका प्रत्यक्षरूपसे आस्वाद है । कौसी है अनुभूति ?  
[ शुद्धनयात्मिका ] शुद्धनय अर्थात् शुद्धवस्तु सो ही है आत्मा अर्थात् स्वभाव जिसका  
ऐसी है । भावार्थ इस प्रकार है—निरुपाधिरूपसे जीवद्रव्य जैसा है वैसा ही प्रत्यक्षरूपसे  
आस्वाद आवे इसका नाम शुद्धात्मानुभव है । [ किल ] निश्चयसे [ इयं एव  
ज्ञानानुभूतिः ] यह जो आत्मानुभूति कही वही ज्ञानानुभूति है [ इतिबुद्ध्वा ] इतनामात्र  
जानकर । भावार्थ इस प्रकार है कि जीववस्तुका जो प्रत्यक्षरूपसे आस्वाद, उसको  
नामसे आत्मानुभव ऐसा कहा जाय अथवा ज्ञानानुभव ऐसा कहा जाय । नामभेद है,  
वस्तुभेद नहीं है । ऐसा जानना कि आत्मानुभव मोक्षमार्ग है । इस प्रसंगमें और भी  
संशय होता है कि कोई जानेगा कि द्वादशाङ्ग ज्ञान कुछ अपूर्व लब्धि है । उसके प्रति  
समाधान इस प्रकार है कि द्वादशाङ्गज्ञान भी विकल्प है । उसमें भी ऐसा कहा है कि  
शुद्धात्मानुभूति मोक्षमार्ग है, इसलिए शुद्धात्मानुभूतिके होनेपर शास्त्र पढ़ने की कुछ  
अटक नहीं है ॥१३॥

( पृथ्वी )

**अखण्डितमनाकुलं ज्वलन्बनन्तमन्तर्बहिः-****महः परममस्तु नः सहजमुद्धिलासं सदा ।****चिदुच्छलननिर्भरं सकलकालमालम्बते****यदेकरसमुल्लसत्स्ववर्णखिल्यलीलायितम् ॥१४॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तत् मह. न. अस्तु” [ तत् ] वही [ महः ] शुद्ध ज्ञानमात्र वस्तु [ नः ] हमारे [ अस्तु ] हो। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्धस्वरूपका अनुभव उपादेय है, अन्य समस्त हेय है। कैसा है वह ‘महः’ ? “परमं” उत्कृष्ट है। और कैसा है ‘महः’ ? “अखण्डित” खण्डित नहीं है—परिपूर्ण है। भावार्थ इस प्रकार है कि इन्द्रियज्ञान खण्डित है सो यद्यपि वर्तमान कालमें उसरूप परिणत हुआ है तथापि स्वरूपसे ज्ञान अतीन्द्रिय है। और कैसा है ? “अनाकुल” आकुलतासे रहित है। भावार्थ इस प्रकार है कि यद्यपि संसार अवस्थामें कर्मजनित सुख-दुःखरूप परिणमता है तथापि स्वाभाविक सुखस्वरूप है। \* और कैसा है ? “अन्तर्बहि ज्वलत्” [ अन्तः ] भीतर [ बहि ] बाहर [ ज्वलत् ] प्रकाशरूप परिणत हो रहा है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीववस्तु असंख्यातप्रदेशी है, ज्ञानगुण सब प्रदेशोमे एक समान परिणम रहा है। कोई प्रदेशमे घट-बढ़ नहीं है। और कैसा है ? “सहज” स्वयंसिद्ध है। और कैसा है ? “उद्धिलास” अपने गुण-पर्यायसे धाराप्रवाहरूप परिणमता है। और कैसा है ? “यत् (मह) सकलकालं एकरसं आलम्बते” [ यत् ] जो [ महः ] ज्ञानपुञ्ज [ सकलकालं ] त्रिकाल ही [ एकरसं ] चेतनास्वरूपको [ आलम्बते ] आधारभूत है। कैसा है एकरस ? “चिदुच्छलननिर्भर” [ चित् ] ज्ञान [ उच्छलन ] परिणमन उससे [ निर्भरं ] भरितावस्थ है। और कैसा है एकरस ? “लवणखिल्यलीलायितं” [ लवण ] क्षाररसकी [ खिल्य ] काँकरीकी [ लीलायितं ] परिणतिके समान जिसका स्वभाव है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार नमककी काँकरी सर्वांग ही क्षार है उसी प्रकार चेतनद्रव्य सर्वांग ही चेतन है ॥१४॥

( अनुष्टुप् )

**एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः ।****साध्य-साधकभावेन द्विधैकः सम्पास्यताम् ॥१५॥**

**खण्डान्वय सहित अर्थ**—“सिद्धिमभीप्सुभिः एष आत्मा नित्यं समुपास्यताम्” [ सिद्धि ] सकल कर्मक्षयलक्षण मोक्षको [ अभीप्सुभिः ] उपादेयरूपसे अनुभव करनेवाले जीवों को [ एष आत्मा ] उपादेय ऐसा अपना शुद्ध चैतन्यद्रव्य [ नित्यं ] सदाकाल [ समुपास्यताम् ] अनुभवना । कैसा है आत्मा ? “ज्ञानघनः” [ ज्ञान ] स्व-परग्राहक शक्तिका [ घनः ] पुञ्ज है । और कैसा है ? “एकः” समस्त विकल्प रहित है । और कैसा है ? “साध्य-साधकभावेन द्विधा” [ साध्य ] सकल कर्मक्षयलक्षण मोक्ष [ साधक ] मोक्षका कारण शुद्धोपयोगलक्षण शुद्धात्मानुभव [ भावेन ] ऐसी जो दो अवस्था उनके भेदसे [ द्विधा ] दो प्रकारका है । भावार्थ इस प्रकार है कि एक ही जीवद्रव्य कारणरूप भी अपनेमें ही परिणामता है और कार्यरूप भी अपनेमें ही परिणामता है । इस कारण मोक्ष जानेमें किसी द्रव्यान्तरका सहारा नहीं है, इसलिये शुद्ध आत्माका अनुभव करना चाहिये ॥१५॥

( अनुष्टुप् )

**दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यैस्त्रित्वादेकत्वतः स्वयम् ।**

**मेचकोऽमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥१६॥**

**खण्डान्वय सहित अर्थ**—“आत्मा मेचकः” [ आत्मा ] चेतन द्रव्य [ मेचकः ] मलिन है । किसकी अपेक्षा मलिन है ? “दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यैस्त्रित्वात्” सामान्यरूपसे अर्थग्राहक शक्तिका नाम दर्शन है, विशेषरूपसे अर्थग्राहक शक्तिका नाम ज्ञान है और शुद्धत्वशक्तिका नाम चारित्र्य है । इस प्रकार शक्तिभेद करनेपर एक जीव तीन प्रकार होता है । इससे मलिन कहनेका व्यवहार है । “आत्मा अमेचकः” [ आत्मा ] चेतन द्रव्य [ अमेचकः ] निर्मल है । किसकी अपेक्षा निर्मल है ? “स्वयं एकत्वतः” [ स्वयं ] द्रव्यका सहज [ एकत्वतः ] निर्भेदपना होनेसे, ऐसा निश्चयनय कहा जाता है । “आत्मा प्रमाणतः सम मेचकः अमेचकोऽपि च” [ आत्मा ] चेतनद्रव्य [ सम ] एक ही काल [ मेचकः अमेचकोऽपि च ] मलिन भी है और निर्मल भी है । किसकी अपेक्षा ? [ प्रमाणतः ] युगपत् अनेक धर्मग्राहक ज्ञानकी अपेक्षा । इसलिये प्रमाणदृष्टिसे देखनेपर एक ही काल जीवद्रव्य भेदरूप भी है, अभेदरूप भी है ॥१६॥

( अनुष्टुप् )

**दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यैस्त्रिभिः परिणतत्वतः ।**

**एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद्ब्रह्मवहारेण मेचकः ॥१७॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“एकोऽपि व्यवहारेण मेचकः” [ एकोऽपि ] द्रव्य-दृष्टिसे यद्यपि जीवद्रव्य शुद्ध है तो भी [ व्यवहारेण ] गुण-गुणीरूप भेददृष्टिसे [ मेचकः ] मलिन है। सो भी किसकी अपेक्षा ? “त्रिस्वभावत्वात्” [ त्रि ] दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य, ये तीन है [ स्वभावत्वात् ] सहजगुण जिसके, ऐसा होनेसे। वह भी कैसा होनेसे ? “दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य त्रिभिः परिगतत्वत्” क्योंकि वह दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य इन तीन गुणरूप परिगमता है, इसलिये भेदबुद्धि भी घटित होती है ॥१७॥

( अनुष्टुप् )

**परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिषं ककः ।**

**सर्वभावान्तरध्वंसिस्वभावत्वाद्मेचकः ॥१८॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तु परमार्थेन एककः अमेचकः” [ तु ] पद द्वारा दूसरा पक्ष क्या है यह व्यक्त किया है। [ परमार्थेन ] शुद्ध द्रव्यदृष्टिसे [ एककः ] शुद्ध जीववस्तु [ अमेचकः ] निर्मल है—निर्विकल्प है। कैसा है परमार्थ ? “व्यक्तज्ञातृत्व-ज्योतिषा” [ व्यक्त ] प्रगत है [ ज्ञातृत्व ] ज्ञानमात्र [ ज्योतिषा ] प्रकाश-स्वरूप जिसमें ऐसा है। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध-निर्भेद वस्तुमात्रग्राहक ज्ञान निश्चयनय कहा जाता है। उम निश्चयनयसे जीवपदार्थ सर्वभेदरहित शुद्ध है। और कैसा होनेसे शुद्ध है ? “सर्वभावान्तरध्वमिस्वभावत्वात्” [ सर्व ] समस्त द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकेर्म अथवा श्रेयरूप परद्रव्य ऐसे जो [ भावान्तर ] उपाधिरूप विभावभाव उनका [ ध्वंसि ] मेटनशील है [ स्वभावत्वात् ] निज स्वरूप जिसका, ऐसा स्वभाव होनेसे शुद्ध है ॥१८॥

( अनुष्टुप् )

**आत्मनश्चिन्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः ।**

**दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यैः साध्यसिद्धिर्न चान्यथा ॥१९॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“मेचकामेचकत्वयो आत्मनः चिन्तया एव अलं” आत्मा [ मेचक ] मलिन है और [ अमेचक ] निर्मल है, इस प्रकार ये दोनों नय पक्षपातरूप है। [ आत्मनः ] चेतनद्रव्यके ऐसे [ चिन्तया ] विचारसे [ अलं ] बस हो। ऐसा विचार करनेसे तो साध्यकी सिद्धि नहीं होती [ एव ] ऐसा निश्चय जानना। भावार्थ इस प्रकार है कि श्रुतज्ञानसे आत्मस्वरूप विचारनेपर बहुत विकल्प उत्पन्न होते हैं। एक पक्षसे विचारनेपर आत्मा अनेक रूप है, दूसरे पक्षसे विचारनेपर आत्मा अभेदरूप है। ऐसे विचारने हुए तो स्वरूप अनुभव नहीं। यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि विचारते

हुए तो अनुभव नहीं, तो अनुभव कहाँ है ? उत्तर इस प्रकार है कि प्रत्यक्षरूपसे वस्तुको आस्वादते हुए अनुभव है । वही कहते हैं—“दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यैः साध्यसिद्धिः” [ दर्शन ] शुद्धस्वरूपका अवलोकन, [ ज्ञान ] शुद्धस्वरूपका प्रत्यक्ष जानपना, [ चारित्र्य ] शुद्ध-स्वरूपका आचरण ऐसे कारण करनेसे [ साध्य ] सकलकर्मक्षयलक्षण मोक्षकी [ सिद्धिः ] प्राप्ति होती है । भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्धस्वरूपका अनुभव करनेपर मोक्षकी प्राप्ति है । कोई प्रश्न करता है कि इतना ही मोक्षमार्ग है कि कुछ और भी मोक्षमार्ग है । उत्तर इस प्रकार है कि इतना ही मोक्षमार्ग है । “ न चान्यथा ” [ च ] पुनः [ अन्यथा ] अन्य प्रकारसे [ न ] साध्यसिद्धि नहीं होती ॥१६॥

(मालिनी)

**कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकतायाः**

**अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्गच्छदच्छम् ।**

**सततमनुभवामोऽनन्तचैतन्यचिह्नं**

**न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥२०॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“इद आत्मज्योतिः सतत अनुभवामः” [ इदं ] प्रगट [ आत्मज्योतिः ] चैतन्यप्रकाशको [ सततं ] निरन्तर [ अनुभवामः ] प्रत्यक्षरूपसे हम आस्वादते है । कैसी है आत्मज्योति ? “कथमपि समुपात्तत्रित्वं अपि एकतायाः अपतितं” [ कथमपि ] व्यवहारदृष्टिसे [ समुपात्तत्रित्वं ] ग्रहण किया है तीन भेदोंको जिसने ऐसी है तथापि [ एकतायाः ] शुद्धतासे [ अपतितं ] गिरती नहीं है । और कैसी है आत्म-ज्योति ? “उद्गच्छत्” प्रकाशरूप परिणामती है । और कैसी है ? “अच्छं” निर्मल है । और कैसी है ? “अनन्तचैतन्यचिह्नं” [ अनन्त ] अतिबहुत [ चैतन्य ] ज्ञान है [ चिह्नं ] लक्षण जिसका ऐसी है । कोई आशंका करता है कि अनुभवको बहुतकर दूढ़ किया सो किस कारण ? वही कहते हैं—“यस्मात् अन्यथा साध्यसिद्धिः न खलु न खलु” [ यस्मात् ] जिस कारण [ अन्यथा ] अन्य प्रकार [ साध्यसिद्धिः ] स्वरूपकी प्राप्ति [ न खलु न खलु ] नहीं होती नहीं होती, ऐसा निश्चय है ॥२०॥

( मालिनी )

**कथमपि हि लभन्ते भेदविज्ञानमूला-**

**मबलितमनुभूतिं ये स्वतो वान्यतो वा ।**

### प्रतिफलननिमग्नानन्तभावस्वभावै-

मुं कुरवदविकाराः सन्ततं स्युस्त एव ॥२१॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ये अनुभूति लभन्ते” [ ये ] जो कोई निकट संसारी जीव [ अनुभूति ] शुद्ध जीववस्तुके आस्वादको [ लभन्ते ] प्राप्त करते हैं। कंसी है अनुभूति ? “भेदविज्ञानमूला” [ भेद ] स्वस्वरूप-परस्वरूपको द्विधा करना ऐसा जो [ विज्ञान ] जानपना वही है [ मूलां ] सर्वस्व जिसका ऐसी है। और कैसी है ? “अचलित” स्थिरतारूप है। ऐसी अनुभूति कैसे प्राप्त होती है, वही कहते हैं—कथमपि स्वतो वा अन्यतो वा” [ कथमपि ] अनन्त संसारमें भ्रमण करते हुए कैसे ही करके काललब्धि प्राप्त होती है तब सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। तब अनुभव होता है, [ स्वतो वा ] मिथ्यात्व कर्मका उपशम होनेपर उपदेशके विना ही अनुभव होता है, अथवा [ अन्यतो वा ] अन्तरङ्गमें मिथ्यात्व कर्मका उपशम होनेपर और बहिरंगमे गुरुके ममीप सूत्रका उपदेश मिलनेपर अनुभव होता है। कोई प्रश्न करता है कि जो अनुभवको प्राप्त करते है वे अनुभवको प्राप्त करनेसे कैसे होते है ? उत्तर इस प्रकार है कि वे निर्विकार होते है, वही कहते है—“त एव सन्तत मुकुरवत् अविकारा स्यु” [ ते एव ] अर्थात् वे ही जीव [ सन्ततं ] निरन्तर [ मुकुरवत् ] दर्पणके समान [ अविकाराः ] रागद्वेष रहित [ स्युः ] हैं। किन्से निर्विकार है ?। “प्रतिफलननिमग्नानन्तभावस्वभावै” [ प्रतिफलन ] प्रतिबिम्बरूपमे [ निमग्न ] गर्भित जो [ अनन्तभाव ] सकल द्रव्योंके [ स्वभावैः ] गुण-पर्याय, उनमे निर्विकार है। भावार्थ इम प्रकार है—जो जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है उसके ज्ञानमे सकल पदार्थ उद्दीप्त होते है, उसके भाव अर्थात् गुण-पर्याय, उनमे निर्विकाररूप अनुभव है ॥२१॥

( मालिनी )

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीढं  
रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत् ।

इह कथमपि नात्माऽनात्मना साकमेकः

किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम् ॥२२॥

खण्डान्वय महित अर्थ—“जगत् मोह त्यजतु” [ जगत् ] मसारी जीवराशि [ मोह ] मिथ्यात्व परिणामको [ त्यजतु ] सर्वथा छोडो। छोडनेका अवसर कौनसा ?

“इदानी” तत्काल । भावार्थ इस प्रकार है कि शरीरादि पर द्रव्योंके साथ जीवकी एकत्वबुद्धि विद्यमान है, वह सूक्ष्म कालमात्र भी आदर करने योग्य नहीं है । कैसा है मोह ? “आजन्मलीड” [ आजन्म ] अनादिकालसे [ लीड ] लगा हुआ है । “ज्ञानं रसयतु” [ ज्ञानं ] शुद्ध चैतन्यवस्तुको [ रसयतु ] स्वानुभव प्रत्यक्षरूपसे आस्वादो । कैसा है ज्ञान ? “रसिकाना रोचन” [ रसिकानां ] शुद्ध स्वरूपके अनुभवशील सम्यग्दृष्टि जीवोंको [ रोचनं ] अत्यन्त सुखकारी है । और कैसा है ज्ञान ? “उद्यत्” त्रिकाल ही प्रकाशरूप है । कोई प्रश्न करता है कि ऐसा करने पर कार्यसिद्धि कैसी होती है । उत्तर कहते हैं—“इह किल एक आत्मा अनात्मना साक तादात्म्यवृत्ति क्वापि काले कथमपि न कलयति” [ इह ] मोहका त्याग, ज्ञान वस्तुका अनुभव—ऐसा बारम्बार अभ्यास करनेपर [ किल ] नि सन्देह [ एकः ] शुद्ध [ आत्मा ] चेतनद्रव्य [ अनात्मना ] द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्म आदि समस्त विभाव परिणामोंके [ साकं ] साथ [ तादात्म्यवृत्तिं ] जीव और कर्मके बन्धात्मक एकक्षेत्रमम्बन्धरूप [ क्वापि ] किसी अतीत, अनागत और वर्तमान सम्बन्धी [ काले ] समय-घडी-प्रहर-दिन-वर्षमें [ कथमपि ] किसी भी तरह [ न कलयति ] नहीं ठहरता है । भावार्थ इस प्रकार है कि जीवद्रव्य धातु और पाषाणके सयोगके समान पुद्गलकर्मके साथ मिला हुआ चला आ रहा है और मिला हुआ होनेसे मिथ्यात्व-राग-द्वेषरूप विभाव चेतन परिणामसे परिणामता ही आ रहा है । ऐसे परिणामते हुए ऐसी दशा निपजी कि जीव द्रव्यका निजस्वरूप जो केवलज्ञान, केवलदर्शन, अतीन्द्रिय सुख और केवलवीर्य, उससे यह जीवद्रव्य भ्रष्ट हुआ तथा मिथ्यात्वरूप विभाव-परिणामसे परिणामते हुए ज्ञानपना भी छूट गया । जीवका निजस्वरूप अनन्तचतुष्टय है, शरीर, सुख, दुःख, मोह, राग, द्वेष इत्यादि समस्त पुद्गलकर्मकी उपाधि है, जीवका स्वरूप नहीं ऐसी प्रतीति भी छूट गई । प्रतीति छूटने पर जीव मिथ्यादृष्टि हुआ । मिथ्यादृष्टि होता हुआ ज्ञानावरगादि कर्मबन्ध करगशील हुआ । उस कर्मबन्धका उदय होनेपर जीव चारों गतियोंमें भ्रमता है । इसप्रकार संसारकी परिपाटी है । इस संसारमें भ्रमण करते हुए किसी भव्यजीवका जब निकट संसार आ जाता है तब जीव सम्यक्त्वको ग्रहण करता है । सम्यक्त्वको ग्रहण करनेपर पुद्गलपिण्डरूप मिथ्यात्वकर्मोंका उदय मिटता है तथा मिथ्यात्वरूप विभावपरिणाम मिटता है विभावपरिणामके मिटनेपर शुद्धस्वरूपका अनुभव होता है । ऐसी सामग्री मिलनेपर जीवद्रव्य पुद्गलकर्मसे तथा विभाव परिणामसे सर्वथा भिन्न होता है । जीवद्रव्य अपने अनन्त चतुष्टयको प्राप्त होता

है । दृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार सुवर्गधातु पाषाणमें ही मिली चली आरही है तथापि अग्निका संयोग पाकर पाषाणसे सुवर्ग जुदा होता है ॥२२॥

( मालिनी )

**अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन्**

**अनुभव भव मूर्तेः पार्श्ववर्ती मुहूर्तम् ।**

**पृथगथ विलसन्तं स्वं समालोक्य येन**

**त्यजसि जगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम् ॥२३॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अयि मूर्तेः पार्श्ववर्ती भव, अथ मुहूर्त पृथक् अनुभव” [ अयि ] हे भव्यजीव ! [ मूर्तेः ] शरीरसे [ पार्श्ववर्ती ] भिन्नस्वरूप [ भव ] हो । भावार्थ इस प्रकार है कि अनादिकालसे जीवद्रव्य (शरीर के साथ) एक सस्काररूप होकर चला आरहा है, इसलिये जीवको ऐसा कहकर प्रतिबोधित किया जाता है कि भो जीव ! ये जितनी शरीरादि पर्याय है वे सब पुद्गलकर्मकी है तेरी नहीं । इसलिये इन पर्यायोंसे अपने को भिन्न जान । [ अथ ] भिन्न जानकर [ मुहूर्त ] थोड़े ही काल [ पृथक् ] शरीरसे भिन्न चेतन द्रव्यरूप [ अनुभव ] प्रत्यक्षरूपसे आस्वाद ले । भावार्थ इस प्रकार है कि शरीर तो अचेतन है, विनश्वर है । शरीरसे भिन्न कोई तो पुरुष है ऐसा जानपना—ऐसी प्रतीति मिथ्यादृष्टि जीवके भी होती है पर साध्यसिद्धि तो कुछ नहीं । जब जीवद्रव्यका द्रव्य-गुण-पर्यायस्वरूप प्रत्यक्ष आस्वाद आता है तब सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य है, सकल कर्मक्षयलक्षण मोक्ष भी है । कंसा है अनुभवशील जीव ? “तत्त्वकौतूहली सन्” [ तत्त्व ] शुद्धचैतन्य वस्तुका [ कौतूहली सन् ] स्वरूपको देखना चाहता है, ऐसा होता हुआ । और कंसा होकर ? “कथमपि मृत्वा” [ कथमपि ] किसी प्रकार—किमी उपायसे [ मृत्वा ] मरकरके भी शुद्ध जीवस्वरूपका अनुभव करो । भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध चैतन्यका अनुभव तो सहज साध्य है, यत्नसाध्य तो नहीं है पर इतना कहकर अत्यन्त उपादेयपनेको दृढ किया है, यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि अनुभव तो ज्ञानमात्र है, उससे क्या कुछ कार्यसिद्धि है ? वह भी उपदेश द्वारा कहते हैं—“येन मूर्त्या साक एकत्वमोह भगिति त्यजसि” [ येन ] जिस शुद्ध चैतन्यके अनुभव-द्वारा [ मूर्त्या साक ] द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मत्मक समस्त कर्मरूप पर्यायके साथ [ एकत्व मोह ] एक सस्काररूप-मै देव हैं, मैं मनुष्य हैं, मैं तिर्यच हूँ, मैं नारकी हूँ



आदि; मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ आदि; मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ आदि तथा मैं यति हूँ, मैं गृहस्थ हूँ आदिरूप प्रतीति' ऐसा है मोह अर्थात् विपरीतपना, उसको [ ज्ञानिति ] अनुभवने मात्रपर [ त्वजसि ] भो जीव ! अपनी बुद्धिसे तू ही छोड़ेगा । भावार्थ इस प्रकार है कि अनुभव ज्ञानमात्र वस्तु है, एकत्वमोह मिथ्यात्वरूप द्रव्यका विभाव परिणाम है तो भी इनको (अनुभवको और मिथ्यात्वके मिटनेको) आपसमें कारण-कार्यपना है । उसका विवरण—जिसकाल जीवको अनुभव होता है उस काल मिथ्यात्व परिणामन मिटता है, सर्वथा अवश्य मिटता है । जिस काल मिथ्यात्व परिणामन मिटता है, उसकाल अवश्य अनुभवशक्ति होती है । मिथ्यात्व परिणामन जिस प्रकार मिटता है उसीको कहते हैं—“स्व समालोक्य” [ स्व ] अपनी शुद्ध चेतन्य वस्तुका [ समालोक्य ] स्वसवेदन प्रत्यक्षरूपसे आस्वाद कर । कैसा है शुद्धचेतन ? “विलसन्त” अनादिनिधन प्रगटरूपसे चेतनारूप परिणाम रहा है ॥२३॥

( शाद्वलविकीर्तित )

**कान्त्यैव स्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये**

**धामोद्दाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये ।**

**दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्क्षरन्तोऽमृतं**

**वन्द्यास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वराः सूरयः ॥२४॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—यहाँ पर कोई मिथ्यादृष्टि कुवादी मतान्तरको स्थापता है कि जीव और शरीर एक ही वस्तु है । जैसा कि जैन मानते हैं कि शरीरमे जीवद्रव्य भिन्न है वैसा नहीं है, एक ही है, क्योंकि शरीरका स्तवन करनेपर आत्मा का स्तवन होता है ऐसा जैन भी मानते हैं । उसीको बतलाते हैं—“ते तीर्थेश्वराः वन्द्याः” [ ते ] अवश्य विद्यमान है ऐसे, [ तीर्थेश्वराः ] तीर्थकरदेव [ वन्द्याः ] त्रिकाल नमस्कार करने योग्य हैं । कैसे हैं वे तीर्थकर ? “ये कान्त्या एव दश दिशः स्नपयन्ति” [ ये ] तीर्थकर [ कान्त्या ] शरीरकी दीप्तिद्वारा [ एव ] निश्चयसे [ दश दिशः ] पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण ये चार दिशा, चार कोणरूप विदिशा तथा ऊर्ध्वदिशा और अधोदिशा इन दस दिशाओंको [ स्नपयन्ति ] प्रक्षालते हैं—पवित्र करते हैं । ऐसे हैं जो तीर्थकर उनको नमस्कार है । ( जैनो के यहाँ ) ऐसा जो कहा सो तो शरीरका वर्णन किया, इसलिये हमें

ऐसी प्रतीति उपजी की शरीर और जीव एक ही है। और कैसे हैं तीर्थकर ? “ये धाम्ना उद्दाममहस्विना धाम निरुन्धन्ति” [ ये ] तीर्थकर [ धाम्ना ] शरीरके तेज द्वारा [ उद्दाममहस्विना ] उग्र तेजवाले करोड़ों सूर्यके [ धाम ] प्रतापको [ निरुन्धन्ति ] रोकते हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि तीर्थकरके शरीरमें ऐसी दीप्ति है कि यदि कोटि सूर्य हों तो कोटि ही सूर्यकी दीप्ति रुक जावे। ऐसे वे तीर्थकर है। यहाँ भी शरीरकी ही बड़ाई की है। और कैसे हैं तीर्थकर ? “ये रूपेण जनमनो मुष्णन्ति” [ ये ] तीर्थकर [ रूपेण ] शरीरकी शोभा द्वारा [ जन ] सर्व जितने देव-मनुष्य-तिर्यच, उनके [ मनः ] अन्तरगको [ मुष्णन्ति ] चुगा लेते हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव तीर्थकरके शरीर की शोभा देखकर जैसा सुख मानते है वैसा सुख त्रैलोक्यमें अन्य वस्तुको देखनेसे नहीं मानते है। ऐसे वे तीर्थकर है। यहाँ भी शरीरकी बड़ाई की है। और कैसे हैं तीर्थकर ? “ये दिव्येन ध्वनिना श्रवणयोः साक्षात् सुखं अमृतं क्षरन्तः” [ ये ] तीर्थकरदेव [ दिव्येन ] समस्त त्रैलोक्यमें उत्कृष्ट ऐसी [ ध्वनिना ] निरक्षरी वागीके द्वारा [ श्रवणयोः ] सर्व जीवकी जो कर्णेंद्रिय, उनमें [ साक्षात् ] उसी काल [ सुखं अमृतं ] सुखमयी शान्तरमको [ क्षरन्तः ] बरसाते है। भावार्थ इस प्रकार है कि तीर्थकरकी वाणी सुननेपर सब जीवोंको वागी रुचती है, जीव वहुन सुखी होते हैं। तीर्थकर गेमे है। यहाँ भी शरीरकी बड़ाई है। और कैसे है तीर्थकर ? “अष्टसहस्रलक्षणधरा” [ अष्टसहस्र ] आठ अधिक एक हजार [ लक्षणधराः ] शरीरके चिह्नोंको सहज ही धारण करने है ऐसे तीर्थकर है। भावार्थ इस प्रकार है कि तीर्थकरके शरीरमें शख, चक्र, गदा, पद्य, कमल, मगर, मच्छ, ध्वजा आदि रूप आकारको लिये हुए, रेखाये होती है जिन सबकी गिनती करनेपर वे सब एक हजार आठ होते है। यहाँ भी शरीरकी बड़ाई है। और कैसे है तीर्थकर ? “सूर्य” मोक्षमार्गके उपदेष्टा है। यहाँ भी शरीरकी बड़ाई है। इससे जीव-शरीर एक ही है ऐसी मेरी प्रतीति है। ऐसा कोई मिथ्यामतवादी मानना है सो उसके प्रति उत्तर इस प्रकार आगे कहेंगे। ग्रन्थकर्ता कहते हैं कि वचन व्यवहारमात्रसे जीव-शरीरका एकपना कहनेमें आता है। इसीसे ऐसा कहा है कि जो शरीरका स्तोत्र है सो वह तो व्यवहार मात्रसे जीवका स्तोत्र है। द्रव्यदृष्टिसे देखने पर जीव शरीर भिन्न २ है। इसलिये जैसा स्तोत्र कहा है वह निज नामसे भूठा है (अर्थात् उसकानाम स्तोत्र घटित नहीं होता), क्योंकि शरीरके गुण कहने पर जीवकी स्तुति नहीं होती है। जीवके ज्ञानगुणकी स्तुति करनेपर (जीवकी) स्तुति होती है। कोई प्रश्न करता है कि जिस प्रकार

नगरका स्वामी राजा है, इसलिये नगरकी स्तुति करनेपर राजाकी स्तुति होती है, उसी प्रकार शरीरका स्वामी जीव है, इसलिये शरीरकी स्तुति करनेपर जीवकी स्तुति होती है, उत्तर ऐसा है कि इस प्रकार स्तुति नहीं होती है। राजाके निजगुणकी स्तुति करनेपर राजाकी स्तुति होती है उसी प्रकार जीवके निज चैतन्य गुणकी स्तुति करनेपर जीवकी स्तुति होती है। इसीको कहते हैं ॥२४॥

( धार्या )

**प्राकारकवलिताम्बरमुपवनराज्ञीनिगीर्णभूमितलम् ।**

**पिवतीव हि नगरमिवं परिखावलयेन पातालम् ॥२५॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“इदं नगरं परिखावलयेन पातालं पिवति इव” [ इदं ] प्रत्यक्ष [ नगरं ] राजग्राम [ परिखावलयेन ] खाईके द्वारा घिरा होनेसे [ पातालं ] अधोलोकको [ पिवति इव ] खाई इतनी गहरी है जिससे मालूम पड़ता है कि पी रहा है। कैसा है नगर ? “प्राकारकवलिताम्बरं” [ प्राकार ] कोटके द्वारा [ कवलिताम्बरं ] निगल लिया है [ अम्बरं ] आकाशको जिसने ऐसा नगर है। भावार्थ इस प्रकार है—कोट अति ही ऊँचा है। और कैसा है नगर ? “उपवनराज्ञीनिगीर्णभूमितलं” [ उपवनराज्ञी ] नगरके समीप चारों ओर फले हुए बागसे [ निगीर्ण ] रुँधी है [ भूमितलं ] समस्त भूमि जिसकी ऐसा वह नगर है। भावार्थ इस प्रकार है कि नगरके बाहर घने बाग है। ऐसी नगरकी स्तुति करनेपर राजाकी स्तुति नहीं होती है। यहाँ पर खाई-कोट-बागका वर्णन किया सो तो राजाके गुण नहीं है। राजाके गुण हैं दान, पौरुष और जानपना, उनकी स्तुति करने पर राजाकी स्तुति होती है ॥२५॥

( धार्या )

**नित्यमविकारसुस्थितसर्वांगमपूर्वसहजलावण्यम् ।**

**अक्षोभमिव समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥२६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“जिनेन्द्ररूपं जयति” [ जिनेन्द्ररूपं ] तीर्थङ्करके शरीरकी शोभा [ जयति ] जयवन्त हो। कैसा है जिनेन्द्ररूप ? “नित्यं” आयुपर्यन्त एकरूप है। और कैसा है ? “अविकारसुस्थितसर्वांगं” [ अविकार ] जिसमें बालपन, युवापन और बृद्धापन न होनेसे [ सुस्थित ] समाधानरूप हैं (सुस्थित है) [ सर्वांगं ] सर्वप्रदेश जिसके ऐसा है। और कैसा है जिनेन्द्रका रूप ? “अपूर्वसहजलावण्यं” [ अपूर्व ]

आश्चर्यकारी तथा [ सहज ] बिना यत्नके शरीरके साथ मिले हैं [ लावण्यं ] शरीरके गुण जिसे ऐसा है। और कंसा है ? "समुद्रमिव अक्षोभं" [ समुद्रमिव ] समुद्रके समान [ अक्षोभं ] निश्चल है। और कंसा है ? "पर" उत्कृष्ट है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार वायुके बिना समुद्र निश्चल होता है वैसे ही तीर्थंकरका शरीर भी निश्चल है। इस प्रकार शरीरकी स्तुति करनेपर आत्माकी स्तुति नहीं होती है, क्योंकि शरीरके गुण आत्मामे नहीं है। आत्माका ज्ञानगुण है; ज्ञानगुणकी स्तुति करनेपर आत्माकी स्तुति होती है ॥२६॥

( शादूँलविश्रीदित )

**एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चयात्  
नः स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्त्वतः ॥  
स्तोत्रं निश्चयतश्चित्तो भवति चित्तस्तुत्यैव सैवं भवेत्  
नातस्तोर्थकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्मांगयोः ॥ २७ ॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अन तीर्थंकरस्तवोत्तरबलात् आत्माङ्गयो एकत्व न भवेत्” [ अनः ] इस कारण से [ तीर्थंकरस्तव ] परमेश्वरके शरीरकी स्तुति करनेपर आत्माकी स्तुति होती है ऐसा जो मिथ्यामती जीव कहता है उसके प्रति [ उत्तरबलात् ] शरीरकी स्तुति करनेपर आत्माकी स्तुति नहीं होती, आत्माके ज्ञानगुणकी स्तुति करनेपर आत्माकी स्तुति होती है। इस प्रकार उत्तरके बलसे अर्थात् उस उत्तरके द्वारा सन्देह नष्ट हो जानेमे [ आत्मा ] चेतनवस्तुको और [ अंगयोः ] समस्त कर्मकी उपाधिको [ एकत्वं ] एक द्रव्यपना [ न भवेत् ] नहीं होता है। आत्माकी स्तुति जिस प्रकार होती है उसे कहते हैं—“सा एव” [ सा ] वह जीवस्तुति [ एवं ] मिथ्यादृष्टि जिस प्रकार कहना था उस प्रकार नहीं है। किन्तु जिस प्रकार अब कहते हैं उस प्रकार ही है—“कायात्मनोः व्यवहारत एकत्व तु न निश्चयात्” [ कायात्मनोः ] शरीरादि और चेतनद्रव्य इन दोनोंको [ व्यवहारतः ] कथनमात्रसे [ एकत्वं ] एकपना है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार सुवर्ण और चाँदी इन दोनोंको श्रेष्ठकर एक रत्नी बना लेते हैं सो उन सबको कहनेमे तो सुवर्ण ही कहने हैं उसीप्रकार जीव और कर्म अनादिसे एक क्षेत्र सबधरूप मिले चले आरहे हैं, इसलिये उन सबको कथनमे तो जीव ही कहते

१-रत्नी=चाँदी या सोनेकी वह गुळी जो तार खींचनेके लिये बनाई जाती है।

हैं। [ तु ] दूसरे पक्षसे [ न ] जीव-कर्मको एकपना नहीं है। सो किस पक्षसे ? [ निश्चयात् ] द्रव्यके निज स्वरूपको विचारने पर। भावार्थ इस प्रकार है कि सुवर्ण और चाँदी यद्यपि एक क्षेत्रमें मिले हैं—एक पिण्डरूप हैं। तथापि सुवर्ण पीला, भारी और चिकना ऐसे अपने गुणोंको लिए हुए है, चाँदी भी अपने श्वेतगुणको लिए हुए है। इसलिये एकपना कहना झूठा है। उसी प्रकार जीव और कर्म भी यद्यपि अनादिसे एक बन्धपर्यायरूप मिले चले आ रहे हैं—एक पिण्डरूप हैं। तथापि जीव द्रव्य अपने ज्ञान गुणसे विराजमान है, कर्म-पुद्गलद्रव्य भी अपने अचेतन गुणको लिए हुए है। इसलिये एकपना कहना झूठा है। इस कारण स्तुतिमें भेद है। (उसीको दिखलाते हैं—) “व्यवहारतः वपुषः स्तुत्या नुः स्तोत्रं अस्ति न तत् तत्त्वतः” [ व्यवहारतः ] बन्धपर्यायरूप एक क्षेत्रावगाहदृष्टिसे देखनेपर [ वपुषः ] शरीरकी [ स्तुत्या ] स्तुति करनेसे [ नुः ] जीवकी [ स्तोत्रं ] स्तुति [ अस्ति ] होती है। [ न तत् ] दूसरे पक्षका विचार करनेपर स्तुति नहीं होती है। किस अपेक्षा नहीं होती है ? [ तत्त्वतः ] शुद्ध जीवद्रव्य स्वरूप विचारनेपर। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार श्वेत सुवर्ण ऐसा यद्यपि कहनेमें आता है तथापि श्वेतगुण चाँदीका होता है, इसलिये श्वेत सुवर्ण ऐसा कहना झूठा है। उसी प्रकार—

वे रक्ता वे सावला वे नीलुप्पलवन्न ।

मरगजपद्मा दो वि जिन सोलह कंचन वन्न ।

भावार्थ—दो तीर्थङ्कर रक्तवर्ण, दो कृष्ण, दो नील, दो पद्मा और सोलह सुवर्ण रंग हैं, यद्यपि ऐसा कहनेमें आता है तथापि श्वेत, रक्त और पीत आदि पुद्गल द्रव्यके गुण हैं, जीवके गुण नहीं हैं। इसलिये श्वेत, रक्त और पीत ऐसा कहनेपर जीव नहीं होता, ज्ञानगुण कहनेपर जीव है। कोई प्रश्न करता है कि शरीरकी स्तुति करनेपर तो जीवकी स्तुति नहीं होती तो जीवकी स्तुति कैसे होती है ? उत्तर इस प्रकार है कि चिद्रूप कहने पर होती है। “निश्चयतः चित्स्तुत्या एव चित्तस्तोत्रं भवति” [ निश्चयतः ] शुद्ध जीव द्रव्यरूप विचारने पर [ चित् ] शुद्ध ज्ञानादिकी [ स्तुत्या ] बार बार वर्णन-स्मरण-अभ्यास करनेसे [ एव ] निःसन्देह [ चित्तस्तोत्रं ] जीव द्रव्यकी स्तुति [ भवति ] होती है। भावार्थ इस प्रकार है—जिस प्रकार पीला, भारी और चिकना सुवर्ण ऐसा कहनेपर सुवर्णकी स्वरूपस्तुति होती है उसी प्रकार केवली ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रथम ही शुद्ध जीवस्वरूप का अनुभव किया अर्थात् इन्द्रिय-विषय-रूपायको जीते हैं, बादमें

मूलसे क्षपण किया है, सकल कर्मक्षय किया है अर्थात् केवलज्ञान, केवलदर्शन, केवलवीर्य और केवलसुख रूपसे विराजमान प्रगट हैं, ऐसा कहने-जानने-अनुभवनेपर केवलीकी गुणस्वरूप स्तुति होती है। इससे यह अर्थ निश्चित किया कि जीव और कर्म एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। विवरण—जीव और कर्म एक होते तो इतना स्तुतिभेद कैसे होता ॥२७॥

( मालिनी )

**इति परिचिततत्त्वेरात्मकार्यकतायां  
नयविभजनयुक्त्यात्यन्तमुच्छादितायाम् ।  
अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य  
स्वरसरभसकृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव ॥२८॥**

**खण्डान्वय सहित अर्थ**—“इति कस्य बोध बोध अद्य न अवतरति” [ इति ] इस प्रकार भेद द्वारा समझानेपर [ कस्य ] त्रैलोक्यमे ऐसा कौन जीव है जिमकी [ बोधः ] ज्ञानशक्ति [ बोधं ] स्वस्वरूपकी प्रत्यक्ष अनुभवशीलरूपतासे [ अद्य ] आज भी [ न अवतरति ] नहीं परिगमनशील होवे ? भावार्थ इस प्रकार है कि जीव-कर्मका भिन्नपना अति ही प्रगटकर दिखाया, उमे मुननेपर जिस जीवको ज्ञान नहीं उत्पन्न होता उसको उलाहना है। किस प्रकारसे भेदद्वारा समझानेपर ? उसी भेद-प्रकारको दिखलाने है—“आत्मकार्यकताया परिचिततत्त्वं नयविभजनयुक्त्या अत्यन्त उच्छादिताया” [ आत्म ] चेतनद्रव्य, [ काय ] कर्मपिण्डका [ एकतायां ] एकत्वपनाको। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव-कर्म अनादि बन्धपर्यायरूप एकपिण्ड है उसको। परिचिततत्त्वं—सर्वज्ञे, सर्वज्ञोके द्वारा विवरण—[ परिचित ] प्रत्यक्ष जाना है [ तत्त्वं ] जीवादि समस्त द्रव्योके गुण-पर्यायोको जिन्होंने ऐमे सर्वज्ञदेवके द्वारा [ नय ] द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक-रूप पक्षपातके [ विभजन ] विभाग-भेदनिरूपण, [ युक्त्या ] भिन्न स्वरूप वस्तुको साधना, उसमे [ अत्यन्त ] अति ही नि सन्देहरूपसे [ उच्छादितायां ] जिस प्रकार ढँकी निधिको प्रगट करते है उसी प्रकार जीवद्रव्य प्रगट ही है परन्तु कर्मसयोगसे ढँका हुआ होनेसे मरणको प्राप्त हो रहा था सो वह भ्रान्ति परमगुरु श्री तीर्थकरदेवके उपदेश मुननेपर मिटनी है, कर्मसयोगसे भिन्न शुद्ध जीवस्वरूपका अनुभव होता है, ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है। कैसा है बोध ? “स्वरसरभसकृष्ट” [ स्वरस ] ज्ञानस्वभावका [ रभस ] उत्कर्ष—अति ही समर्थपना उमसे [ कृष्टः ] पूज्य है। और कैसा है ? “प्रस्फुटन्”

प्रगटरूप है। और कैसा है ? “एक एव” निश्चयसे चैतन्यरूप है ॥२८॥

( मालिनी )

**अवतरति न यावद् वृत्तिमत्यन्तवेगा-**

**दनवमपरभावत्यागवृष्टान्तदृष्टिः ।**

**झटिति सकलभावंरन्यदीयंविमुक्ता**

**स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव ॥२९॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“इयं अनुभूतिः तावत् भटिति स्वय आविर्बभूव” [ इयं ] यह विद्यमान [ अनुभूतिः ] शुद्ध चैतन्य वस्तुका प्रत्यक्ष जानपना [ तावत् ] उतने काल तक [ झटिति ] उसी समय [ स्वयं ] सहज ही अपने ही परिणामरूप [ आविर्बभूव ] प्रगट हुआ। कैसी है वह अनुभूति ? “अन्यदीयैः सकलभावंः विमुक्ता” [ अन्यदीयैः ] शुद्ध चैतन्यस्वरूपसे अत्यन्त भिन्न ऐसे द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म-सवधी [ सकलभावंः ] ‘सकल’ अर्थात् जितने है गुणस्थान, मार्गगास्थानरूप जो राग, द्वेष, मोह इत्यादि अतिबहुत विकल्प ऐसे जो ‘भाव’ अर्थात् विभावरूप परिणाम उनसे [ विमुक्ता ] सर्वथा रहित है। भावार्थ इस प्रकार है कि जितने भी विभाव परिणाम-स्वरूप विकल्प है, अथवा मन-वचनसे उपचार कर द्रव्य-गुण-पर्याय भेदरूप या उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य भेदरूप विकल्प है उनसे रहित शुद्ध चेतनामात्रका आस्वादरूप ज्ञान उसका नाम अनुभव कहा जाता है। वह अनुभव जिस प्रकार होता है उसीको बतलाते हैं—“यावत् अपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टि अत्यन्तवेगात् अनवं वृत्ति न अवतरति” [ यावत् ] जितने काल तक, जिस कालमें [ अपरभाव ] शुद्ध चैतन्यमात्रसे भिन्न द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्मरूप जो समस्त भाव उनके [ त्याग ] ये भाव समस्त भूटे है, जीवके स्वरूप नहीं हैं ऐसे प्रत्यक्ष आस्वादरूप ज्ञानके सूचक [ दृष्टांत ] उदाहरणके समान। विवरण जैसे किसी पुरुषने धोबीके घरसे अपने वस्त्रके धोखेसे दूसरेका वस्त्र आनेपर बिना पहिचानके उसे पहिनकर अपना जाना। बादमें उस वस्त्रका धनी जो कोई था उसने अश्रल पकड़कर कहा कि ‘यह वस्त्र तो मेरा है, पुन’ कहा कि मेरा ही है’ ऐसा सुनने-पर उस पुरुषने चिह्न देखा, जाना कि मेरा चिह्न तो मिलता नहीं इससे निश्चयसे यह वस्त्र मेरा नहीं है, दूसरेका है। उसके ऐसी प्रतीति होनेपर त्याग हुआ घटित होता है। वस्त्र पहिने ही है तो भी त्याग घटित होता है, क्योंकि स्वामित्वपना छूट गया है।

उसी प्रकार अनादि कालसे जीव मिथ्यादृष्टि है, इसलिए कर्मसंयोगजनित है जो शरीर, दुःख-सुख, राग-द्वेष आदि विभाव पर्याय, उन्हे अपना ही कर जानता है और उन्हींरूप प्रवर्तता है। हेय-उपादेय नहीं जानता है। इस प्रकार अनन्तकाल तक भ्रमण करते हुए जब थोड़ा संसार रहता है और परमगुरुका उपदेश प्राप्त होता है। उपदेश ऐसा कि भो जीव ! जितने है जो शरीर, सुख, दुःख, राग, द्वेष, मोह जिनको तू अपना कर जानता है और इनमें रत हुआ है वे तो सब ही तेरे नहीं हैं। अनादि कर्म-संयोगकी उपाधि है। ऐसा बार-बार सुननेपर जीववस्तुका विचार उत्पन्न हुआ कि जीवका लक्षण तो शुद्ध चिद्रूप है, इस कारण यह सब उपाधि तो जीवकी नहीं है, कर्मसंयोगकी उपाधि है। ऐसा निश्चय जिस काल हुआ उसी काल सकल विभाव भावोंका त्याग है। शरीर, सुख, दुःख जैसे ही थे, वैसे ही हैं, परिणामोंसे त्याग है, क्योंकि स्वामित्वपना छूट गया है। इसीका नाम अनुभव है, इसीका नाम सम्यक्त्व है। इस प्रकार दृष्टान्तके समान उत्पन्न हुई है दृष्टि अर्थात् शुद्ध चिद्रूपका अनुभव जिसके ऐसा जो कोई जीव है वह [ अनर्ब ] अनादि कालसे चले आ रहे [ श्रुति ] कर्मपर्यायके साथ एकत्वपनेके संस्कार तद्रूप [ न अवतरति ] नहीं परिणामता है। भावार्थ इस प्रकार है—कोई जानेगा कि जितना भी शरीर, सुख, दुःख, राग, द्वेष, मोह है उसकी त्याग बुद्धि कुछ अन्य है—कारणरूप है। तथा शुद्ध चिद्रूपमात्रका अनुभव कुछ अन्य है—कार्यरूप है। उसके प्रति उत्तर इस प्रकार है कि राग, द्वेष, मोह, शरीर, सुख, दुःख आदि विभाव पर्यायरूप परिणत हुए जीवका जिस कालमे ऐसा अशुद्ध परिणामरूप संस्कार छूट जाता है उसी कालमे इसके अनुभव है। उसका विवरण—जो शुद्ध चेतनामात्रका आस्वाद आये बिना अशुद्ध भावरूप परिणाम छूटता नहीं और अशुद्ध संस्कार छूटे बिना शुद्ध स्वरूपका अनुभव होता नहीं। इसलिये जो कुछ है सो एक ही काल, एक ही वस्तु, एक ही ज्ञान, एक ही स्वाद है। आगे जिसका शुद्ध अनुभव हुआ है वह जीव जैसा है वैसा ही कहते हैं ॥ २६ ॥

( स्वागता )

सर्वतः स्वरसनिर्भरभावं  
 चेतये स्वयमहं स्वमिहैकम् ।  
 नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः  
 शुद्धचिद्घनमहोनिधिरस्मि ॥३०॥



खण्डान्वय सहित अर्थ—“इह ग्रहं एक स्वं स्वयं चेतये” [ इह ] विभाव परिणाम छूट गये होनेसे [ अहं ] अनादि निधन चिद्रूप वस्तु ऐसा मैं [ एकं ] समस्त भेदबुद्धिसे रहित शुद्ध वस्तुमात्र [ स्वं ] शुद्ध चिद्रूपमात्र वस्तुको [ स्वयं ] परोपदेशके बिना ही अपनेमे स्वसंवेदन प्रत्यक्षरूप [ चेतये ] आस्वादता हू—( द्रव्यदृष्टिसे ) जैसे हम हैं ऐसा अब ( पर्यायमें ) आस्वाद आता है। कैसी है शुद्ध चिद्रूपवस्तु ? “सर्वतः स्वरसनिर्भरभाव” [ सर्वतः ] असंख्यात प्रदेशोंमें [ स्वरस ] चैतन्यपनेसे [ निर्भर ] संपूर्ण है [ भावं ] सर्वस्व जिसका ऐसी है। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि जैनसिद्धान्तका बार बार अभ्यास करनेसे दृढ प्रतीति होती है उसका नाम अनुभव है सो ऐसा नहीं है। मिथ्यात्वकर्मका रस पाक मिटनेपर मिथ्यात्वभावरूप परिणामन मिटता है तब वस्तुस्वरूपका प्रत्यक्षरूपसे आस्वाद आता है, उसका नाम अनुभव है। और अनुभवशील जीव जैसे अनुभवता है वैसा कहते हैं—“मम कश्चन मोहो नास्ति नास्ति” [ मम ] मेरे [ कश्चन ] द्रव्य-पिण्डरूप अथवा जीवसम्बन्धी भावपरिणामनरूप [ मोहः ] जितने विभावरूप अशुद्ध परिणाम [ नास्ति नास्ति ] सर्वथा नहीं है, नहीं है। अब ये जैसा है वैसा कहते हैं—“शुद्धचिद्रूपमहोनिधिरस्मि” [ शुद्ध ] समस्त विकल्पोसे रहित [ चित् ] चैतन्यके [ धन ] समूहरूप [ महः ] उद्योतका [ निधिः ] समुद्र [ अस्मि ] मैं हू। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि सर्व ही का नास्तित्वा होता है, इसलिये ऐसा कहा कि शुद्ध चिद्रूपमात्र वस्तु प्रगट है ॥ ३० ॥

(मालिनी)

**इति सति सह सर्वैरन्यभावंविवेके**

**स्वयमयमुपयोगो विभूदात्मानमेकम् ।**

**प्रकटितपरमार्थैर्दर्शनज्ञानवृत्तैः**

**कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥३१॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“एवं अय उपयोगः स्वयं प्रवृत्तः” [ एवं ] निश्चयसे जो अनादि निधन है ऐसा [ अयं ] यही [ उपयोगः ] जीव द्रव्य [ स्वयं ] जैसा द्रव्य था वैसा शुद्धपर्यायरूप [ प्रवृत्तः ] प्रगट हुआ। भावार्थ इस प्रकार है कि जीवद्रव्य शक्तिरूपसे तो शुद्ध था परन्तु कर्म संयोगसे अशुद्धरूप परिणत हुआ था। अब अशुद्ध-पनाके जानेसे जैसा था वैसा हो गया। कैसा होनेपर शुद्ध हुआ ? “इति सर्वैरन्यभावैः”

सह विवेके सति” [ इति ] पूर्वोक्त प्रकारसे [ सर्वैः ] शुद्ध चिद्रूपमात्रसे भिन्न जितने समस्त [ अन्यभावैः सह ] द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मसे [ विवेकैः ] शुद्ध चैतन्यका भिन्नपना [ सति ] होनेपर । भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार सुवर्णपत्रके पकानेपर कालिमाके चले जानेसे सहज ही सुवर्णमात्र रह जाता है उसी प्रकार मोह-राग-द्वेषरूप विभाव परिणाममात्रके चले जानेपर सहज ही शुद्ध चैतन्यमात्र रह जाता है । कैसी होती हुई जीव वस्तु प्रगट होती है ? “एकं आत्मानं विभ्रत्” [ एकं ] निर्भेद-निर्विकल्प चिद्रूप वस्तु ऐसा जो [ आत्मानं ] आत्मस्वभाव उसरूप [ विभ्रत् ] परिणत हुआ है । और कैसा है आत्मा ? “दर्शनज्ञानवृत्तं कृतपरिणतिः” [ दर्शन ] श्रद्धा-रुचि-प्रतीति, [ ज्ञान ] जानपना, [ वृत्तैः ] शुद्ध परिणति, ऐसा जो रत्नत्रय उस रूपसे [ कृत ] किया है [ परिणतिः ] परिणामन जिसने ऐसा है । भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्यात्व परिणतिका त्याग होनेपर, शुद्ध स्वरूपका अनुभव होनेपर साक्षात् रत्नत्रय घटित होता है । कैसे है दर्शन-ज्ञान-चारित्र “प्रकटितपरमार्थं” [ प्रकटित ] प्रगट किया है [ परमार्थैः ] सकल कर्मक्षय लक्षण मोक्ष जिन्होंने ऐसे है । भावार्थ इस प्रकार है कि ‘सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः’ ऐसा कहना तो सर्व जैन सिद्धान्तमे है और यही प्रमाण है । और कैसा है शुद्धजीव ? “आत्माराम” [ आत्मा ] आप ही है [ आरामं ] क्रीडावन जिसका ऐसा है । भावार्थ इस प्रकार है कि चेतनद्रव्य अशुद्ध अवस्थारूप परके साथ परिणमता था सो तो मिटा । साम्प्रत (वर्तमानकालमें) स्वरूप परिणामनमात्र है ॥३१॥

( वसन्ततिलका )

**मज्जन्तु निर्भरममी सममेव लोका**

**आलोकमुच्छलति शान्तरसे समस्ताः ।**

**आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण**

**प्रोन्मग्न एष भगवानवबोधसिन्धुः ॥३२॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“एष भगवान् प्रोन्मग्न ” [ एष ] सदाकाल प्रत्यक्षपनेसे चेतन स्वरूप है ऐसा [ भगवान् ] जीवद्रव्य [ प्रोन्मग्नः ] शुद्धागस्वरूप दिखलाकर प्रगट हुआ । भावार्थ इस प्रकार है कि इस ग्रन्थ का नाम नाटक अर्थात् अखाडा है । तहाँ भी प्रथम ही शुद्धाङ्ग नाचता है तथा यहा भी प्रथम ही जीवका शुद्धस्वरूप प्रगट हुआ । कैसा है भगवान् ? “अवबोधसिन्धुः” [ अवबोध ] ज्ञान मात्रका [ सिन्धुः ] पात्र है । अखाडामें भी पात्र नाचता है, यहाँ भी ज्ञानपात्र जीव है । अब जिस प्रकार प्रगट हुआ उसे कहते

हैं—“भरेण विभ्रमतिरस्करिणीं आप्लाव्य” [ भरेण ] मूलसे उखाड़कर दूर किया। सो कौन ? [ विभ्रम ] विपरीत अनुभव-मिथ्यात्वरूप परिणाम वही है [ तिरस्करिणीं ] शुद्धस्वरूपको आच्छादनशील अन्तर्ज्वनिका ( अन्दर का परदा ) उसको, [ आप्लाव्य ] मूलसे ही दूर करके। भावार्थ इस प्रकार है कि अखाड़ेमें प्रथम ही अन्तर्ज्वनिका कपड़े की होती है। उसी दूरकर शुद्धाङ्ग नाचता है, यहाँ भी अनादि कालसे मिथ्यात्व परिणति है। उसके छूटनेपर शुद्धस्वरूप परिणामता है। शुद्धस्वरूप प्रगट होनेपर जो कुछ है वही कहते हैं—“अमी समस्ताः लोकाः शान्तरसे समं एव मज्जन्तु” [ अमी ] जो विद्यमान हैं ऐसे [ समस्ताः ] जितने [ लोकाः ] जीव [ शान्तरसे ] जो अतीन्द्रिय सुख गर्भित है शुद्धस्वरूपका अनुभव उसमें [ समं एव ] एक ही काल [ मज्जन्तु ] मग्न होओ—तन्मय होओ। भावार्थ इस प्रकार है कि अखाड़ेमें तो शुद्धाङ्ग दिखाता है। वहाँ जितने देखनेवाले हैं वे सब एक ही साथ मग्न होकर देखते हैं उसी प्रकार जीवका स्वरूप शुद्धरूप दिखलाया होने पर सर्व ही जीवोंके द्वारा अनुभव करने योग्य है। कैसा है शान्तरस ? “आलोकमुच्छलति” [ आलोकं ] समस्त त्रैलोक्यमें [ उच्छलति ] सर्वोत्कृष्ट है, उपादेय है अथवा लोकालोकका ज्ञाता है। अब अनुभव जिस प्रकारका है उस प्रकार कहते हैं। “निर्भरं” अति ही मग्नस्वरूप है ॥३२॥



[ २ ]

## अजीव अधिकार

( शार्दूल विक्रीडित )

जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा प्रत्याययत्पार्श्वबा-  
नासंसारनिबद्धबन्धनविधिध्वंसाद्विशुद्धं स्फुटत् ।

आत्माराममनन्तधाम महसाध्यक्षेण नित्योदितं

धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो हावयत् ॥१-३३॥

खण्डान्वय महित अर्थ—“ज्ञान विलसति” [ ज्ञानं ] जीव द्रव्य [ विलसति ]  
जैसा है वैसा प्रगट होता है । भावार्थ इस प्रकार है कि अबतक विधिरूपसे शुद्धाग  
तत्त्वरूप जीवका निरूपण किया अब आगे उसी जीवका प्रतिषेधरूपसे निरूपण करते  
है । उसका विवरण—शुद्ध जीव है, टङ्कोत्कीर्ण है, चिद्रूप है ऐसा कहना विधि कही  
जाती है । जीवका स्वरूप गुणस्थान नहीं, कर्म-नोकर्म जीवके नहीं, भावकर्म जीवका नहीं  
ऐसा कहना प्रतिषेध कहलाता है । कैसा होता हुआ ज्ञान प्रगट होता है ? “मनो ह्लादयत्”  
[ मनः ] अन्त करगेन्द्रियको [ ह्लादयत् ] आनन्दरूप करता हुआ और कैसा होता हुआ ?  
“विशुद्ध” आठ कर्मोंसे रहितपनेकर स्वरूपरूपसे परिगुण हुआ । और कैसा होता हुआ ?  
“स्फुटत्” स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता हुआ । और कैसा होता हुआ ? “आत्माराम”  
[ आत्म ] स्वस्वरूप ही है [ आराम ] क्रीड़ावन जिसका ऐसा होता हुआ । और कैसा  
होता हुआ ? “अनन्तधाम” [ अनन्त ] मर्यादासे रहित है [ धाम ] तेजपुञ्ज जिसका  
ऐसा होता हुआ । और कैसा होता हुआ ? “अध्यक्षेण महसा नित्योदित” [ अध्यक्षेण ]  
निरावरण प्रत्यक्ष [ महसा ] चैतन्यशक्तिके द्वारा [ नित्योदितं ] त्रिकाल शाश्वत है  
प्रताप जिसका ऐसा होता हुआ । और कैसा होता हुआ ? “धीरोदात्त” [ धीर ] अडोल  
और [ उदात्तं ] सबसे बड़ा ऐसा होता हुआ । और कैसा होता हुआ ? “अनाकुल”  
इन्द्रियजनित मुख-दुःखसे रहित अतीन्द्रिय सुखरूप विराजमान होता हुआ । ऐसा जीव

जैसे प्रगट हुआ उसे कहते हैं—“आसंसारनिबद्धबन्धनविधिध्वंसात्” [ आसंसार ] अनादि-कालसे [ निबद्ध ] जीवसे मिली हुई चली आई है ऐसी [ बन्धनविधि ] ज्ञानावरणकर्म, दर्शनावरणकर्म, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय ऐसे हैं जो द्रव्यपिण्डरूप आठकर्म तथा भावकर्मरूप हैं जो राग, द्वेष, मोह परिणाम इत्यादि हैं बहुत विकल्प उनका [ ध्वंसात् ] विनाश से जीवस्वरूप जैसा कहा है वैसा है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार जल और कीचड़ जिस कालमें एकत्र मिले हुए हैं उसी काल जो स्वरूपका अनुभव किया जाय तो कीचड़ जलसे भिन्न है, जल अपने स्वरूप है, उसी प्रकार संसार अवस्थामे जीव कर्मबन्ध पर्याय रूपसे एक क्षेत्रमें मिला है। उसी अवस्था मे जो शुद्ध स्वरूपका अनुभव किया जाय तो समस्त कर्म जीव स्वरूपसे भिन्न हैं। जीव द्रव्य स्वच्छ स्वरूपरूप जैसा कहा वैसा है। ऐसी बुद्धि जिस प्रकारसे उत्पन्न हुई उसीको कहते हैं—“यत्पार्षदान् प्रत्याययत्” [ यत् ] जिस कारणसे [ पार्षदान् ] गणघर मुनीश्वरोको [ प्रत्याययत् ] प्रतीति उत्पन्न कराकर। किस कारणसे प्रतीति उत्पन्न हुई वही कहते हैं—“जीवाजीव विवेकपुष्कलदृशा” [ जीव ] चेतनद्रव्य, [ अजीव ] जड़कर्म-नोकर्म-भावकर्म उनके [ विवेक ] भिन्नभिन्नपनेसे [ पुष्कल ] विस्तीर्ण [ दृशा ] ज्ञानदृष्टिके द्वारा। जीव और कर्मका भिन्न-भिन्न अनुभव करनेपर जीव जैसा कहा गया है वैसा है ॥१-३३॥

( मालिनी )

**विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन**

**स्वयमपि निभृतः सन् पश्य षण्मासमेकम् ।**

**हृदयसरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्नधाम्नो**

**ननु किमनुपलब्धिर्भाति किं चोपलब्धिः ॥२-३४॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“विरम अपरेण अकार्यकोलाहलेन किं” [ विरम ] भो जीव ! विरक्त हो, हठ मतकर [ अपरेण ] मिथ्यात्वरूप है [ अकार्य ] कर्मबन्धको करते है [ कोलाहलेन किं ] ऐसे जो भूठे विकल्प उनसे क्या। उसका विवरण—कोई मिथ्यादृष्टि जीव शरीरको जीव कहता है, कोई मिथ्यादृष्टि जीव आठ कर्मोंको जीव कहता है, कोई मिथ्यादृष्टि जीव रागादि सूक्ष्म अध्यवसायको जीव कहता है इत्यादि रूपसे नाना प्रकारके बहुत विकल्प करता है। भो जीव ! उन समस्त ही विकल्पोंको छोड़, क्योंकि वे भूठे हैं। “निभृतः सन् स्वयं एक पश्य” [ निभृतः ] एकारूप [ सन् ]

होता हुआ [ एकं ] शुद्धचिद्रूपमात्रका [ स्वयं ] स्वसवेदन प्रत्यक्ष रूपसे [ परय ] अनुभव कर। “षण्मास” विपरीतपना जिस प्रकार छूटे उसी प्रकार छोड़कर “अपि” बारम्बार बहुत क्या कहे। ऐसा अनुभव करनेपर स्वरूप प्राप्ति है, इसीको कहते हैं—“ननु हृदय सरसि पुंसः अनुपलब्धि कि भाति” [ ननु ] भो जीव ! [ हृदयसरसि ] मनरूपी सरोवरमें है [ पुंसः ] जो जीवद्रव्य उसकी [ अनुपलब्धिः ] अप्राप्ति [ किंभाति ] शोभती है क्या ? भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूपका अनुभव करनेपर स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती ऐसा तो नहीं है। “च उपलब्धि” [ च ] है तो ऐसा ही है कि [ उपलब्धिः ] अवश्य प्राप्ति होनी है। कंसा है जीव द्रव्य ? “पुद्गलात् भिन्नधाम्न” [ पुद्गलात् ] द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मसे [ भिन्नधाम्नः ] भिन्न है चेतनरूप है तेज पुञ्ज जिसका ऐसा है ॥२-३४॥

( अनुष्टुप् )

**चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयम् ।**

**अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्गलिका अमी ॥३-३५॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अयं जीव इयान्” [ अयं ] विद्यमान है ऐसा [ जीवः ] चेतनद्रव्य [ इयान् ] इतना ही है। कंसा है ? “चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसार” [ चिच्छक्ति ] चेतना मात्रसे [ व्याप्त ] मिला है [ सर्वस्वसारः ] दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, सुख, वीर्य इत्यादि अनन्त गुण जिसके ऐसा है। “अमी सर्वे अपि पौद्गलिका भावा अत अतिरिक्ता” [ अमी ] विद्यमान है ऐसे [ सर्वे अपि ] द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मरूप जितने हैं उन सब [ पौद्गलिकाः ] अचेतन पुद्गलद्रव्योसे उत्पन्न हुए हैं ऐसे [ भावाः ] अशुद्ध रागादिरूप समस्त विभाव परिणाम [ अतः ] शुद्धचेतनामात्र जीव वस्तुसे [ अतिरिक्ताः ] अति ही भिन्न है। ऐसे ज्ञानका नाम अनुभव कहते हैं ॥३-३५॥

( मालिनी )

**सकलमपि विहायाद्वाय चिच्छक्तिरिक्तं**

**स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रम् ।**

**इममुपरि चरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात्**

**कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम् ॥४-३६॥\***

\* मुद्रित “आत्मस्याति” टीकामे श्लोक न० ३५ और ३६ आगे पीछे आया है ।

खण्डान्वय सहित अर्थ—“आत्मा आत्मनि इमं आत्मानं कलयतु” [ आत्मा ] जीवद्रव्य [ आत्मनि ] अपनेमें [ इमं आत्मानं ] अपनेको [ कलयतु ] निरन्तर अनुभवो । कैसा है अनुभव योग्य आत्मा ? “विश्वस्य साक्षात् उपरि चरन्तं” [ विश्वस्य ] समस्त त्रैलोक्यमें [ उपरिचरन्तं ] सर्वोत्कृष्ट है, उपादेय है । (साक्षात्) ऐसा ही है । बड़ाई करके नहीं कह रहे हैं । और कैसा है ? “चारु” सुख स्वरूप है । और कैसा ? “परं” शुद्ध-स्वरूप है । और कैसा है ? “अनन्त” शाश्वत है । अब जैसे अनुभव होता है वही कहते हैं—“चिच्छक्तिरिक्तं सकल अपि अन्हाय विहाय” [ चिच्छक्तिरिक्तं ] ज्ञानगुणसे शून्य ऐसे [ सकलं अपि ] समस्त द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मको [ अन्हाय ] मूलसे [ विहाय ] छोड़कर । भावार्थ इस प्रकार है कि जितनी कुछ कर्मजाति है वह समस्त हेय है । उसमें कोई कर्म उपादेय नहीं है । और अनुभव जैसे होता है वही कहते हैं—“चिच्छक्तिमात्र स्व च स्फुटतरं अवगाह्य” [ चिच्छक्तिमात्रं ] ज्ञानगुण ही है स्वरूप जिसका ऐसे [ स्वं च ] अपनेको [ स्फुटतरं ] प्रत्यक्ष रूपसे [ अवगाह्य ] आस्वादकर । भावार्थ इस प्रकार है कि जितने भी विभाव परिणाम हैं वे सब जीवके नहीं हैं । शुद्धचैतन्यमात्र जीव है ऐसा अनुभव कर्तव्य है ॥४-३६॥

( शालिनी )

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा

भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः ।

तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽभी

नो दृष्टाः स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ॥५-३७॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अस्य पुंसः सर्व एव भावाः भिन्नाः” [ अस्य ] विद्यमान है ऐसे [ पुंसः ] शुद्ध चैतन्य द्रव्यसे [ सर्व ] जितने हैं वे सब [ भावाः ] अशुद्धविभाव परिणाम [ एव ] निश्चयसे [ भिन्नाः ] भिन्न हैं—जीव स्वरूपसे निराले है । वे कौनसे भाव ? “वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा” [ वर्णाद्या ] एक कर्म अचेतन शुद्ध पुद्गलपिण्डरूप हैं वे तो जीवके स्वरूपसे निराले ही है [ वा ] एक तो ऐसा है कि [ रागमोहादयः ] विभावरूप अशुद्धरूप हैं, देखनेपर चेतन जैसे दीखते हैं, ऐसे जो राग-द्वेष-मोहरूप जीवसम्बन्धी परिणाम वे भी शुद्धजीव स्वरूपको अनुभवनेपर जीवस्वरूपसे भिन्न हैं । यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि विभाव परिणामको जीवस्वरूपसे भिन्न

कहा सो भिन्नका भावार्थ तो मैं समझा नहीं। भिन्न कहनेपर, भिन्न है। सो वस्तुरूप है कि भिन्न है सो अवस्तुरूप है ? उत्तर इस प्रकार है कि अवस्तुरूप हैं। “तेन एव अन्तस्तत्त्वतः पश्यतः अमी दृष्टाः नो स्युः” [ तेन एव ] उसी कारणसे [ अन्तस्तत्त्वतः पश्यतः ] शुद्ध स्वरूपका अनुभवशील है जो जीव उसको [ अमी ] विभाव परिणाम [ दृष्टाः ] दृष्टिगोचर [ नो स्युः ] नहीं होते। “परं एकं दृष्टं स्यात्” [ परं ] उत्कृष्ट है ऐसा [ एकं ] शुद्ध चैतन्य द्रव्य [ दृष्टं ] दृष्टिगोचर [ स्यात् ] होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि वर्णादिक और रागादिक विद्यमान दिखलाई पडते हैं तथापि स्वरूप अनुभवनेपर स्वरूपमात्र है, विभावपरिणति रूप वस्तु तो कुछ नहीं ॥५-३७॥

( उपजाति )

निर्वर्त्यते येन यदत्र किञ्चि-

त्तदेव तत्स्यान्न कथं च नान्यत् ।

रुक्मेण निर्वृत्तामिहासिकोशं

पश्यन्ति रुक्मं न कथंचनासिम् ॥६-३८॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अत्र येन यत् किञ्चित् निर्वर्त्यते तत् तत् एव म्यात् कथञ्चन न अन्यत्” [ अत्र ] वस्तुके स्वरूपका विचार करनेपर [ येन ] मूलकारणरूप वस्तुमे [ यत्किञ्चित् ] जो कुछ कार्य-निष्पत्तिरूप वस्तुका परिणाम [ निर्वर्त्यते ] पर्यायरूप निपजता है, [ तत् ] जो निपजा है वह पर्याय [ तत् एवम्यात् ] निपजता हुआ जिस द्रव्यसे निपजा है वही द्रव्य है [ कथञ्चन न अन्यत् ] निश्चयसे अन्य द्रव्यरूप नहीं हुआ है। वही दृष्टात द्वारा कहते हैं। यथा—“इह रुक्मेणा असिकोशं निर्वृत्तं” [ इह ] प्रत्यक्ष है कि [ रुक्मेण ] चाँदी धातुसे [ असिकोशं ] तलवारकी म्यान [ निर्वृत्तं ] घडकर मौजूद की सो “रुक्मं पश्यन्ति कथञ्चन न असि” [ रुक्मं ] जो म्यान मौजूद हुई वह वस्तु तो चाँदी ही है ऐसा [ पश्यन्ति ] प्रत्यक्षरूपसे सर्वलोक देखता है और मानता है [ कथञ्चन ] चाँदी की तलवार ऐसा कहने मे तो कहा जाता है तथापि [ न असि ] चाँदी की तलवार नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि चाँदीकी म्यान मे तलवार रहती है। इस कारण ‘चाँदीकी तलवार’ ऐसा कहनेमे आता है। तथापि चाँदीकी म्यान है, तलवार लोहेकी है, चाँदीकी तलवार नहीं है ॥६-३८॥

१-भावार्थ इसी को रूपाका म्यान माहे खाडो रहे छे इसी कहावत छे, तिहित रूपाको खाडो कहावां इसी कहिने छे ॥मूल पाठ ॥



( उपजाति )

**वर्णादिसामग्रधमिबं विदन्तु**

**निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ।**

**ततोऽस्त्विबं पुद्गल एव नात्मा**

**यतः स विज्ञानघनस्ततोऽन्यः ॥७-३६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“हि इदं वर्णादिसामग्रधं एकस्य पुद्गलस्य निर्माणं विदन्तु” [ हि ] निश्चयसे [ इदं ] विद्यमान [ वर्णादिसामग्रधं ] गुणस्थान, मार्गणा-स्थान, द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म इत्यादि जितनी अशुद्ध पर्यायें हैं वे समस्त ही [ एकस्य पुद्गलस्य ] अकेले पुद्गल द्रव्यका [ निर्माणं ] कार्य अर्थात् पुद्गल द्रव्यका चित्राम जैसा है ऐसा [ विदन्तु ] भो जीव ! नि.सन्देहरूपसे जानो । “ततः इदं पुद्गल एव अस्तु न आत्मा” [ ततः ] उस कारणसे [ इदं ] शरीरादि सामग्री [ पुद्गलः ] जिस पुद्गल द्रव्यसे हुई है वही पुद्गल द्रव्य है । [ एव ] निश्चयसे [ अस्तु ] वही है । [ न आत्मा ] आत्मा अजीव द्रव्यरूप नहीं हुआ । “यतः सः विज्ञानघनः” [ यतः ] जिस कारणसे [ सः ] जीवद्रव्य [ विज्ञानघनः ] ज्ञान गुणका समूह है । “ततः अन्यः” [ ततः ] उस कारणसे [ अन्यः ] जीवद्रव्य भिन्न है, शरीरादि पर द्रव्य भिन्न हैं । भावार्थ इस प्रकार है कि लक्षण भेदसे वस्तुका भेद होता है, इसलिये चैतन्यलक्षणसे जीववस्तु भिन्न है, अचेतनलक्षणसे शरीरादि भिन्न है । यहाँ पर कोई आशंका करता है कि कहनेमें तो ऐसा ही कहा जाता है कि एकेन्द्रिय जीव, द्वीन्द्रिय जीव इत्यादि; देव जीव, मनुष्य जीव इत्यादि; रागी जीव, ब्रेषी जीव इत्यादि । उत्तर इस प्रकार है कि कहनेमें तो व्यवहारसे ऐसा ही कहा जाता है, निश्चयसे ऐसा कहना झूठा है । सो कहते हैं ॥७-३६॥

( अनुष्टुप् )

**घृतकुम्भाभिधानेऽपि कुम्भो घृतमयो न चेत् ।**

**जीवो वर्णादिवमज्जीवो जल्पनेऽपि न तन्मयः ॥८-४०॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—दृष्टात कहते हैं—“चेत् कुम्भः घृतमयः न” [ चेत् ] जो ऐसा है कि [ कुम्भः ] घड़ा [ घृतमयो न ] धीका तो नहीं है, मिट्टीका है ।

“धृतकुम्भाभिधानेऽपि” [ धृतकुम्भ ] घीका घडा [ अभिधानेऽपि ] ऐसा कहा जाता है तथापि घडा मिट्टीका है। भावार्थ इस प्रकार है—जिस घड़ेमे घी रखा जाता है उस घड़ेको यद्यपि घीका घडा ऐसा कहा जाता है तथापि घडा मिट्टीका है, घी भिन्न है तथा “वर्णादिमज्जीव. जल्पनेऽपि जीव. तन्मयो न” [ वर्णादिमज्जीवः जल्पने अपि ] यद्यपि शरीर-मुख-दु.ख-राग-द्वेषसयुक्त जीव ऐसा कहा जाता है तथापि [ जीवः ] चेतन-द्रव्य ऐसा [ तन्मयः न ] जीव तो शरीर नहीं, जीव तो मनुष्य नहीं, जीव चेतनस्वरूप भिन्न है। भावार्थ इस प्रकार है कि आगममे गुणस्थानका स्वरूप कहा है, वहाँ ऐसा कहा है कि देव जीव, मनुष्य जीव, रागी जीव, द्वेषी जीव इत्यादि बहुत प्रकारसे कहा है सो यह सब ही कहना व्यवहारमात्रसे है। द्रव्यस्वरूप देखनेपर ऐसा कहना भूठा है। कोई प्रश्न करता है कि जीव कैसा है ? उत्तर—जैसा है वैसा आगे कहते हैं ॥८-४०॥

( अनुष्टुप् )

**अनाद्यनन्तमचलं स्वसंवेद्यमबाधितम् ।**

**जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकचकायते ॥८-४१॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तु जीव चैतन्यं स्वयं उच्चैः चकचकायते” [ तु ] द्रव्यके स्वरूपका विचार करनेपर [ जीवः ] आत्मा [ चैतन्यं ] चैतन्य स्वरूप है, [ स्वयं ] अपनी सामर्थ्यसे [ उच्चैः ] अतिशयरूपसे [ चकचकायते ] अति ही प्रकाशता है। कैसा है चैतन्य ? “अनाद्यनन्त” [ अनादि ] जिसकी आदि नहीं है [ अनन्तं ] जिसका अन्त-विनाश नहीं है, ऐसा है। और कैसा है चैतन्य ? “अचलं” नहीं है चलता प्रदेश-कम्प जिसको, ऐसा है। और कैसा है ? “स्वसंवेद्य” अपने द्वारा ही आप जाना जाता है। और कैसा है ? “अबाधित” अमित है जिसका स्वरूप, ऐसा है ॥८-४१॥

( शार्दूलविक्रीडित )

**वर्णाद्यः सहितस्तथा विरहितो द्वेषास्त्यजीवो यतो**

**नामूर्त्तत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं ततः ।**

**इत्यालोच्य विवेचकैः समुच्चितां नाव्याप्यतिव्यापि वा**

**व्यक्तं व्यञ्जितजीवतत्त्वमचलं चैतन्यमालम्ब्यताम् ॥९-४२॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“विवेचकैरिति आलोच्य चैतन्यं आलम्ब्यताम्” [ विवेचकैः ] जिन्हे भेदज्ञान है ऐसे पुरुष [ इति ] जिस प्रकारसे कहेंगे उस प्रकारसे

[आलोच्य] विचारकर [चैतन्यं] चेतनमात्रका [आलम्ब्यता] अनुभव करो । कैसा है चैतन्य ? “समुचित” अनुभव करने योग्य है । और कैसा है ? “अव्यापि न” जीव द्रव्यसे कभी भिन्न नहीं होता है । “अतिव्यापि न” जीवसे अन्य है जो पाँच द्रव्य उनसे अन्य है । और कैसा है ? “व्यक्त” प्रगट है । और कैसा है ? “व्यंजितजीवतत्त्वं” [व्यंजित] प्रगट किया है [जीवतत्त्वं] जीवके स्वरूपको जिसने, ऐसा है । और कैसा है ? “अचल” प्रदेशकम्पसे रहित है । “ततः जगत् जीवस्य तत्त्वं अमूर्तत्वं उपास्य न पश्यति” [ततः] उस कारणसे [जगत्] सब जीवराशि [जीवस्य तत्त्वं] जीवके निज स्वरूपको [अमूर्तत्वं] स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण गुणसे रहितपना [उपास्य] मानकर [न पश्यति] नहीं अनुभवता है । भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि ‘जीव अमूर्त’ ऐसा जानकर अनुभव किया जाता है सो ऐसे तो अनुभव नहीं । जीव अमूर्त तो है परन्तु अनुभव कालमें ऐसा अनुभवता है कि ‘जीव चैतन्यलक्षणः’ । “यतः अजीवः द्वेषा अस्ति” [यतः] जिस कारणसे [अजीवः] अचेतन द्रव्य [द्वेषा अस्ति] दो प्रकारका है । वे दो प्रकार कौनसे हैं ? “वर्णाद्यैः सहितः तथा विरहितः” [वर्णाद्यैः] वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्शसे [सहितः] सयुक्त है, क्योंकि एक पुद्गलद्रव्य ऐसा भी है । तथा [विरहितः] वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्शसे रहित भी है, क्योंकि धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य और आकाशद्रव्य ये चार द्रव्य और भी है, वे अमूर्तद्रव्य कहे जाते हैं । वह अमूर्तपना अचेतन द्रव्यको भी है । इसलिये अमूर्तपना जानकर जीवका अनुभव नहीं किया जाता, चेतन जानकर जीवका अनुभव किया जाता है ॥१०-४२॥

( बसन्ततिलका )

जीवावजीवमिति लक्षणतो विभिन्नं

ज्ञानो जनोऽनुभवति स्वयमुल्लसन्तम् ।

अज्ञानिनो निरवधिप्रविजृम्भितोऽयं

मोहस्तु तत्कथमहो वत नानटोति ॥११-४३॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ज्ञानो जन. लक्षणतः जीवात् अजीवं विभिन्नं इति स्वयं अनुभवति” [ज्ञानो जनः] सम्यग्दृष्टि जीव [लक्षणतः] जीवका लक्षण चेतना तथा अजीवका लक्षण जड़ ऐसे बड़ा भेद है इसलिये [जीवात्] जीवसे [अजीवं] पुद्गल आदि [विभिन्नं] सहज ही भिन्न हैं [इति] इस प्रकार [स्वयं] स्वानुभव

प्रत्यक्षरूपसे [ अनुभवति ] आस्वाद करता है। कैसा है जीव ? “उल्लसन्तं” अपने गुण-पर्यायसे प्रकाशमान है। “तत् तु अज्ञानिन अयं मोहः कथं अहो नानटीति वत” [ तत् तु ] ऐसा है तो फिर [ अज्ञानिनः ] मिथ्यादृष्टि जीवको [ अयं ] जो प्रगट है ऐसा [ मोहः ] जीवकर्मका एकत्वरूप विपरीत संस्कार [ कथं नानटीति ] क्यों प्रवर्त रहा है, [ वत अहो ] आश्चर्य है। भावार्थ इस प्रकार है कि सहज ही जीव-अजीव भिन्न है ऐसा अनुभवनेपर तो ठीक है, सत्य है, मिथ्यादृष्टि जो एककर अनुभवता है सो ऐसा अनुभव कैसे आता है इसका बड़ा अचम्भा है। कैसा है मोह ? “निरवधिप्रविजृम्भितः” [ निरवधि ] अनादिकालसे [ प्रविजृम्भितः ] सन्तानरूपसे पसर रहा है ॥११-४३॥

( वसन्ततिलका )

**अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाटघे**

**वर्णादिमात्रटति पुद्गल एव नान्यः ।**

**रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्ध-**

**चैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥१२-४४॥**

खण्डान्वय महित अर्थ—“अस्मिन् अविवेकनाटघे पुद्गल एव नटति” [अस्मिन् ] अनन्तकालसे विद्यमान ऐसा जो [ अविवेक ] जीव-अजीवकी एकत्व बुद्धिपर मिथ्या संस्कार उस रूप है [ नाट्ये ] धारासन्तानरूप बाग्म्बार विभाव परिणाम उसमे [ पुद्गलः ] अचेतन मूर्तिमान द्रव्य [ एव ] निश्चयमे [ नटति ] अनादि कालसे नाचता है। “न अन्य ” चेतनद्रव्य नहीं नाचता है। भावार्थ इस प्रकार है—चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य अनादि है, अपना-अपना स्वरूप लिये हुए है, परस्पर भिन्न है ऐसा अनुभव प्रगटरूपसे सुगम है। जिसको एकत्व संस्काररूप अनुभव है वह अचम्भा है। ऐसा क्यों अनुभवता है ? क्योंकि एक चेतन द्रव्य, एक अचेतन द्रव्य ऐसे अन्तर तो घना। अथवा अचम्भा भी नहीं, क्योंकि अशुद्धपनाके कारण बुद्धिको भ्रम होता है। जिस प्रकार धतूराके पीनेपर दृष्टि विचलित होती है, श्वेत शखको पीना देखती है सो वस्तु विचारनेपर ऐसी दृष्टि सहजकी तो नहीं, दृष्टिदोष है। दृष्टिदोषको धतूरा उपाधि भी है उसी प्रकार जीव द्रव्य अनादिमे कर्मसंयोगरूप मिला ही चला आ रहा है, मिला होनेसे विभावरूप अशुद्धपनेसे परिगत हो रहा है। अशुद्धपनाके कारण ज्ञानदृष्टि अशुद्ध है, उस अशुद्ध दृष्टिके द्वारा चेतन द्रव्यको पुद्गल कर्मके साथ एकत्व संस्काररूप अनुभवता है।

ऐसा संस्कार तो विद्यमान है। सो वस्तुस्वरूप विचारने पर ऐसी अशुद्धदृष्टि सहजकी तो नहीं, अशुद्ध है, दृष्टिदोष है। और दृष्टिदोषको पुद्गल पिण्डरूप मिथ्यात्वकर्मका उदय उपाधि है। आगे जिस प्रकार दृष्टिदोषसे श्वेत शंखको पीला अनुभवता है तो फिर दृष्टिमें दोष है, शंख तो श्वेत ही है, पीला देखनेपर शंख तो पीला हुआ नहीं है उसी प्रकार मिथ्या दृष्टिसे चेतनवस्तु और अचेतनवस्तुको एक कर अनुभवता है तो फिर दृष्टिका दोष है, वस्तु जैसी भिन्न है वैसी ही है। एक कर अनुभवनेपर एक नहीं हुई है, क्योंकि घना अन्तर है। कैसा है अविवेकनाट्य ? “अनादिनि” अनादिसे एकत्व संस्कारबुद्धि चली आई है ऐसा है। और कैसा है। अविवेकनाट्य ? “महति” जिसमें थोडासा विपरीतपना नहीं है, घना विपरीतपना है। कैसा है पुद्गल ? “वर्णादिमान्” स्पर्श, रस, गन्ध, बर्ण गुणसे संयुक्त है। “च अयं जीवः रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्धचेतन्यघातुमयमूर्तिः” [ च अयं जीवः ] और यह जीव वस्तु ऐसी है [ रागादि ] राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे असंख्यात लोकमात्र अशुद्धरूप जीवके परिणाम—[ पुद्गलविकार ] अनादि बन्ध पर्यायसे विभाव परिणाम—उनसे [ विरुद्ध ] रहित है ऐसी [ शुद्ध ] निर्विकार है ऐसी [ चैतन्यघातु ] शुद्ध चिद्रूप वस्तु [ मय ] उस रूप है [ मूर्तिः ] सर्वस्व जिसका ऐसी है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार पानी कीचड़के मिलनेपर मैला है। सो वह मैलापन रंग है, सो रंगको अंगीकार न कर बाकी जो कुछ है सो पानी ही है। उसी प्रकार जीवकी कर्मबन्ध पर्यायरूप अवस्थामें रागादिभाव रंग है, सो रंगको अंगीकार न कर बाकी जो कुछ है सो चेतन घातुमात्र वस्तु है। इसीका नाम शुद्धस्वरूप—अनुभव जानना सो सम्यग्दृष्टिके होता है ॥१२-४४॥

( मन्दाक्रान्ता )

इत्थं ज्ञानक्रकचकलनापाटनं नाटयित्वा

जीवाजीवौ स्फुटविद्यतनं नैव यावत्प्रयातः ।

विश्वं व्याप्य प्रसम्भक्तिसद्वृत्तचिन्मात्रशक्त्या

ज्ञातुद्रव्यं स्वयमतिरसात्तावच्चैरचकाशे ॥१३-४५॥

सूत्रान्वय सहित अर्थ—“ज्ञातुद्रव्य तावत् स्वयं अतिरसात् उच्चैः चकाशे”

[ ज्ञातुद्रव्यं ] चेतनवस्तु [ तावत् ] वर्तमान कालमें [ स्वयं ] अपने आप [ अतिरसात् ] अत्यन्त अपने स्वादको लिये हुए [ उच्चैः ] सब प्रकारसे [ चकाशे ] प्रगट हुआ। क्या करके ? “विश्व व्याप्य” [ विश्वं ] समस्त ज्ञेयको [ व्याप्य ] प्रत्यक्षरूपसे प्रतिविम्बित

कर। तीन लोकको किसके द्वारा जानता है ? “प्रसभविकसद्व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या” [ प्रसभ ] बलात्कारसे [ विकसत् ] प्रकाशमान है [ व्यक्त ] प्रगटपने ऐसा है जो [ चिन्मात्रशक्त्या ] ज्ञानगुणस्वभाव उसके द्वारा जाना है त्रैलोक्य जिसने ऐसा है। और क्या कर ? “इत्थं ज्ञानक्रकचकलनात् पाटनं नाटयित्वा” [ इत्थं ] पूर्वोक्त विधिसे [ ज्ञान ] भेदबुद्धिरूपी [ क्रकच ] करोंतके [ कलनात् ] बार-बार अभ्याससे [ पाटनं ] जीव-अजीवकी भिन्नरूप दो फार [ नाटयित्वा ] करके। कोई प्रश्न करता है कि जीव-अजीवकी दो फार तो ज्ञानरूपी करोंतके द्वारा किये, उसके पहले वे किसरूप थे ? उत्तर—“यावत् जीवाजीवौ स्फुटविघटन न एव प्रयात ” [ यावत् ] अनन्तकालसे लेकर [ जीवाजीवौ ] जीव और कर्मकी एक पिण्डरूप पर्याय [ स्फुटविघटनं ] प्रगटरूपसे भिन्न-भिन्न [ न एव प्रयातः ] नहीं हुई है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार सुवर्ण और पाषाण मिले हुए चले आ रहे हैं और भिन्न-भिन्नरूप है। तथापि अग्निका संयोग बिना प्रगटरूपसे भिन्न होते नहीं, अग्निका संयोग जब ही पाते हैं तभी तत्काल भिन्न-भिन्न होते हैं। उसी प्रकार जीव और कर्मका संयोग अनादिसे चला आ रहा है और जीव कर्म भिन्न-भिन्न है। तथापि शुद्ध स्वरूप-अनुभव बिना प्रगटरूपसे भिन्न-भिन्न होते नहीं; जिस काल शुद्ध स्वरूप-अनुभव होता है उस काल भिन्न-भिन्न होते हैं ॥१३-४५॥



## कर्ता-कर्म-अधिकार

( मन्दाक्रान्ता )

एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी

इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्मप्रवृत्तिम् ।

ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यन्तधीरं

साक्षात्कुर्वन्निरुपधि पृथग्द्रव्यनिर्भासिविश्वम् ॥१-४६॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ज्ञानज्योतिः स्फुरति” [ ज्ञानज्योतिः ] शुद्ध ज्ञानप्रकाश [ स्फुरति ] प्रगट होता है। कैसा है ? “परमोदात्त” सर्वोत्कृष्ट है। और कैसा है ? “अत्यन्तधीरं” त्रिकाल शाश्वत है। और कैसा है ? “विश्व साक्षात् कुर्वन्” [ विश्वं ] सकल ज्ञेय वस्तुको [ साक्षात् कुर्वन् ] एक समयमें प्रत्यक्ष जानता है। और कैसा है ? “निरुपधि” समस्त उपाधिसे रहित है। और कैसा है ? “पृथग्द्रव्यनिर्भासि” [ पृथक् ] भिन्न-भिन्न रूपसे [ द्रव्यनिर्भासि ] सकल द्रव्य-गुण-पर्यायको जाननशील है। क्या करता हुआ प्रगट होता है ? “इति अज्ञाना कर्तृकर्मप्रवृत्ति अभितः शमयत्” [ इति ] उक्त प्रकारसे [ अज्ञानां ] जो मिथ्यादृष्टि जीव है उनकी [ कर्तृ-कर्मप्रवृत्ति ] जीववस्तु पुद्गलकर्मकी कर्ता है ऐसी प्रतीतिको [ अभितः ] सम्पूर्णरूपसे [ शमयत् ] दूर करता हुआ। वह कर्तृ-कर्मप्रवृत्ति कैसी है ? “एकः अहं चित् कर्ता इह अमी कोपादयः मे कर्म” [ एकः ] अकेला [ अहं ] मैं जीवद्रव्य [ चित् ] चेतनस्वरूप [ कर्ता ] पुद्गल कर्मको करता हूँ। [ इह ] ऐसा होनेपर [ अमी कोपादयः ] विद्यमानरूप है जो ज्ञानावर्णादिक पिण्ड वे [ मे ] मेरी [ कर्म ] करती है। ऐसा है मिथ्यादृष्टिका विपरीतपना उसको दूर करता हुआ ज्ञान प्रगट होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि यहाँ से लेकर कर्तृ-कर्म अधिकार प्रारम्भ होता है ॥१-४६॥

( मालिनी )

परपरिणतिमुज्झत् खण्डयद्भवेवादा-  
निवमुवितमखण्डं ज्ञानमुच्चण्डमुच्चैः ।

ननु कथमवकाशः कर्तृकर्मप्रवृत्ते-

रिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबन्धः ॥२-४७॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“इद ज्ञान उदित” [ इदं ] विद्यमान है ऐसी [ ज्ञान ] चिद्रूप शक्ति [ उदित ] प्रगट हुई । भावार्थ इस प्रकार है कि जीवद्रव्य ज्ञानशक्तिरूप तो विद्यमान ही है, परन्तु काललब्धि पाकर अपने स्वरूपका अनुभवशील हुआ । कैसा होता हुआ ज्ञान [ चिद्रूपशक्ति ] प्रगट हुआ ? “परपरिणति उज्झत्” [ परपरिणति ] जीव-कर्मकी एकत्वबुद्धिको [ उज्झत् ] छोड़ता हुआ । और क्या करता हुआ ? “भेदवादान् खण्डयत्” [ भेदवादान् ] उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य अथवा द्रव्य-गुण-पर्याय अथवा आत्माको ज्ञानगुणके द्वारा अनुभवता है—इत्यादि अनेक विकल्पोंको [ खण्डयत् ] मूलसे उखाड़ता हुआ । और कैसा है ? “अखण्डं” पूर्ण है । और कैसा है ? “उच्चैः उच्चण्ड” [ उच्चैः ] अतिशयरूप [ उच्चण्डं ] कोई वर्जनशील नहीं है । “ननु इह कर्तृ-कर्मप्रवृत्ते कथं अवकाश” [ ननु ] ग्रहो शिष्य ! [ इह ] यहाँ शुद्ध ज्ञानके प्रगट होनेपर [ कर्तृ-कर्मप्रवृत्तेः ] जीव कर्ता और जानावरणादि पुद्गलपिण्ड कर्म ऐसे विपरीतरूपसे बुद्धिका व्यवहार उसका [ कथं अवकाशः ] कौन अवसर । भावार्थ इस प्रकार है कि जैसे सूर्यका प्रकाश होनेपर अन्धकारको अवसर नहीं, वैसे शुद्धस्वरूप अनुभव होनेपर विपरीतरूप मिथ्यात्वबुद्धिका प्रवेश नहीं । यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि शुद्ध ज्ञानका अनुभव होनेपर विपरीत बुद्धिमात्र मिटती है कि कर्मबन्ध मिटता है ? उत्तर इस प्रकार है कि विपरीत बुद्धि मिटती है, कर्मबन्ध भी मिटता है । “इह पौद्गलः कर्मबन्धः वा कथं भवति” [ इह ] विपरीत बुद्धिके मिटनेपर [ पौद्गलः ] पुद्गलसम्बन्धी है जो द्रव्य-पिण्डरूप [ कर्मबन्धः ] जानावरणादि कर्मोंका आगमन [ वा कथं भवति ] वह भी कैसे हो सकता है ॥२-४७॥

( शाङ्खलिकीडित )

इत्येवं विरचय्य सम्प्रति परब्रह्माग्निवृत्ति परां  
स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिघ्नवानः परम् ।



**अज्ञानोत्थितकर्तृ कर्मकलनात् क्लेशान्निवृत्तः स्वयं  
ज्ञानीभूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान् ॥३-४८॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“पुमान् स्वयं ज्ञानीभूतः इतः जगतः साक्षी चकास्ति” [ पुमान् ] जीवद्रव्य [ स्वयं ज्ञानीभूतः ] अपने आप अपने शुद्ध स्वरूपके अनुभवनमें समर्थ हुआ, [ इतः ] यहाँसे लेकर [ जगतः साक्षी ] सकल द्रव्यस्वरूपको जाननशील होकर [ चकास्ति ] शोभता है। भावार्थ इस प्रकार है कि यदा जीवको शुद्धस्वरूपका अनुभव होता है तदा सकल पर द्रव्यरूप द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्ममे उदासीनपना होता है। कैसा है जीवद्रव्य ? “पुराणः” द्रव्यकी अपेक्षा अनादिनिघन है। और कैसा है ? “क्लेशात् निवृत्तः” [ क्लेशात् ] दुःखसे [ निवृत्तः ] रहित है। कैसा है क्लेश ? “अज्ञानोत्थितकर्तृ-कर्मकलनात्” [ अज्ञान ] जीव-कर्मके एक सस्काररूप भूठे अनुभवसे [ उत्थित ] उत्पन्न हुई है। [ कर्तृ-कर्मकलनात् ] जीव कर्ता और जीवकी करतूति ज्ञानावरणादि द्रव्यपिण्ड ऐसी विपरीत प्रतीति जिसको, ऐसा है। और कैसी है जीववस्तु ? “इति एवं सम्प्रति परद्रव्यात् परा निवृत्ति विरचय्य स्वं आस्तिघ्नुवानः” [ इति ] इतने [ एवं ] पूर्वोक्त प्रकारसे [ सम्प्रति ] विद्यमान [ परद्रव्यात् ] पर वस्तु जो द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्म उससे [ निवृत्ति ] सर्वथा त्यागबुद्धि [ परां ] मूलसे [ विरचय्य ] करके [ स्व ] शुद्ध चिद्रूपको [ आस्तिघ्नुवानः ] आस्वादती हुई। कैसा है स्व ? “विज्ञानघनस्वभाव” [ विज्ञानघन ] शुद्ध ज्ञानका समूह है [ स्वभावं ] सर्वस्व जिसका ऐसा है। और कैसा है स्व ? “परं” सदा शुद्धस्वरूप है। “अभयात्” [ जीववस्तु शुद्धचिद्रूपको ] सात भयोंसे रहितरूपसे आस्वादती है ॥३-४८॥

( शार्ङ्गलविक्रीडित )

**व्याप्य-व्यापकता तदात्मनि भवेन्नैवातदात्मन्यपि  
व्याप्य-व्यापकभावसम्भवमृते का कर्तृ-कर्मस्थितिः ।**

**इत्युद्दामविवेकघस्मरमहोभारेण भिन्दैस्तमो**

**ज्ञानीभूय तदा स एष लसितः कर्तृत्वशून्यः पुमान् ॥४-४९॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तदा स एष पुमान् कर्तृत्वशून्यः लसितः” [ तदा ] उस काल [ स एष पुमान् ] जो जीव अनादि कालसे मिथ्यात्वरूप परिणत हुआ था वही जीव [ कर्तृत्वशून्यः लसितः ] कर्मके करनेसे रहित हुआ। कैसा है जीव ? “ज्ञानीभूय

तम- भिन्दन्” [ ज्ञानीभूय ] अनादिसे मिथ्यात्वरूप परिणामता हुआ, जीव-कर्मकी एक पर्यायस्वरूप परिणत हो रहा था सो छूटा, शुद्ध चेतन-अनुभव हुआ, ऐसा होनेपर [ तमः ] मिथ्यात्वरूपी अन्धकारको [ भिन्दन् ] छेदता हुआ । किसके द्वारा मिथ्यात्वरूपी अन्धकार छूटा ? “इति उद्दामविवेकधस्मरमहोभारेण” [ इति ] जो कहा है [ उद्दाम ] बलवान् है ऐसा [ विवेक ] भेदज्ञानरूपी [ धस्मरमहोभारेण ] सूर्यके तेजके समूह द्वारा । आगे जैसा विचार करनेपर भेदज्ञान होता है वही कहते हैं—“व्याप्य-व्यापकता तदात्मनि भवेत्” [ व्याप्य ] समस्त गुणरूप वा पर्यायरूप भेद-विकल्प तथा [ व्यापकता ] एक द्रव्यरूप वस्तु [ तदात्मनि ] एक सत्त्वरूप वस्तुमें [ भवेत् ] होता है । भावार्थ इस प्रकार है कि जैसे सुवर्ण पीला, भारी, चिकना ऐसा कहनेका है, परन्तु एक सत्त्व है वैसे जीव द्रव्य ज्ञाता, दृष्टा ऐसा कहनेका है, परन्तु एक सत्त्व है । ऐसे एक सत्त्वमे व्याप्य-व्यापकता भवेत् अर्थात् भेदबुद्धि की जाय तो व्याप्य-व्यापकता होती है । विवरण—व्यापक अर्थात् द्रव्य परिणामी अपने परिणामका कर्ता होता है । व्याप्य अर्थात् वह परिणाम द्रव्यने किया । जिसमे ऐसा भेद किया जाय तो होता है, नहीं किया जाय तो नहीं होता । “अतदात्मनि अपि न एव” [ अतदात्मनि ] जीव सत्त्वसे पुद्गल द्रव्यका सत्त्व भिन्न है, [ अपि ] निश्चयसे [ न एव ] व्याप्य-व्यापकता नहीं है । भावार्थ इस प्रकार है कि जैसे उपचारमात्रसे द्रव्य अपने परिणामका कर्ता है, वही परिणाम द्रव्यका किया हुआ है वैसे अन्य द्रव्यका कर्ता अन्य द्रव्य उपचारमात्रसे भी नहीं है, क्योंकि एक सत्त्व नहीं, भिन्नसत्त्व है । “व्याप्य-व्यापकभावसम्भवमृते कर्तृ-कर्मस्थिति का” [ व्याप्य-व्यापकभाव ] परिणाम-परिणामीमात्र भेदकी [ सम्भवं ] उत्पत्तिके [ ऋते ] बिना [ कर्तृ-कर्मस्थितिः का ] ज्ञानावरणादि पुद्गलकर्मका कर्ता जीवद्रव्य ऐसा अनुभव घटता नहीं । कारण कि जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य एक सत्ता नहीं, भिन्न सत्ता है । ऐसे ज्ञान सूर्यके द्वारा मिथ्यात्वरूप अन्धकार मिटता है और जीव सम्यग्दृष्टि होता है ॥४-४९॥

( स्रग्धरा )

ज्ञानी जानन्नपीमां स्वपरपरिणतिं पुद्गलश्चाप्यजानन्  
व्याप्तृव्याप्यत्वमन्तः कलयितुमसहौ नित्यमत्यन्तभेदात् ।

अज्ञानात्कर्तृ-कर्मभ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न याव-

द्विज्ञानान्चिश्चकास्ति क्रकचवदयं भेदमुत्पाद्य सद्यः ॥५-५०॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“यावत् विज्ञानार्चिः न चकास्ति तावत् अनयोः कर्तृ-कर्मभ्रममतिः अज्ञानात् भाति” [ यावत् ] जितने काल [ विज्ञानार्चिः ] भेदज्ञानरूप अनुभव [ न चकास्ति ] नहीं प्रगत होता है [ तावत् ] उतने काल [ अनयोः ] जीव-पुद्गलमें [ कर्तृ-कर्मभ्रममतिः ] ज्ञानावरणादिका कर्ता जीवद्रव्य ऐसी है जो मिथ्या प्रतीति वह [ अज्ञानात् भाति ] अज्ञानपनेसे है। वस्तुका स्वरूप ऐसा तो नहीं है। कोई प्रश्न करता है कि ज्ञानावरणादि कर्मका कर्ता जीव सो अज्ञानपना है, सो क्यों है ? “ज्ञानी पुद्गल. च व्याप्तु-व्याप्यत्व अन्त कलयितुं असहौ” [ ज्ञानी ] जीववस्तु [ च ] और [ पुद्गलः ] ज्ञानावरणादि कर्मपिण्ड [ व्याप्तु-व्याप्यत्वं ] परिणामी-परिणामभावरूपसे [ अन्तः कलयितुं ] एक सक्रमणरूप होनेको [ असहौ ] असमर्थ है, क्योंकि “नित्यं अत्यन्तभेदान्” [ नित्यं ] द्रव्यस्वभावसे [ अन्यन्तभेदात् ] अति ही भेद है। विवरण— जीवद्रव्यके भिन्न प्रदेश चैतन्यस्वभाव, पुद्गलद्रव्यके भिन्न प्रदेश अचेतन स्वभाव ऐसे भेद घना। कैसा है ज्ञानी ? “इमा स्व-पर-परिणति जानन् अपि” [ इमां ] प्रसिद्ध है ऐसे [ स्व ] अपने और [ पर ] समस्त ज्ञेय-वस्तुके [ परिणतिं ] द्रव्य-गुण-पर्यायिका अथवा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यका [ जानन् ] ज्ञाता है। [ अपि ] (जीव तो) ऐसा है। तो फिर कैसा है पुद्गल ? वही कहते हैं—“इमा स्व-पर-परिणति अजानन्” [ इमां ] प्रगत है ऐसे [ स्व ] अपने और [ पर ] अन्य समस्त पर द्रव्योके [ परिणतिं ] द्रव्य-गुण-पर्याय आदिको [ अजानन् ] नहीं जानता है, ऐसा है पुद्गलद्रव्य। भावार्थ इस प्रकार है कि जीवद्रव्य ज्ञाता है, पुद्गलकर्म ज्ञेय है ऐसा जीवको कर्मको ज्ञेय-ज्ञायकसम्बन्ध है, तथापि व्याप्य-व्यापकसम्बन्ध नहीं है, द्रव्योका अत्यन्त भिन्नपना है, एकपना नहीं है। कैसा है भेदज्ञानरूप अनुभव ? ‘अयं क्वचवत् सद्य भेद उत्पाद्य’ जिसने करीतके समान शीघ्र ही जीव और पुद्गलका भेद उत्पन्न किया है ॥५-५०॥

( पार्या )

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत् तत्कर्म ।

या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥६-५१॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“यः परिणमति स कर्ता भवेत्” [ यः ] जो कोई सत्तामात्र वस्तु [ परिणमति ] जो कोई अवस्था है उसरूप ग्रहण ही है, इस कारण [ स कर्ता भवेत् ] उस अवस्थाका सत्तामात्र वस्तु कर्ता भी होता है। और ऐसा कहना

विरुद्ध भी नहीं है, कारण कि अवस्था भी है। “यः परिणाम तत्कर्म” [ यः परिणामः ] उस द्रव्यका जो कुछ स्वभावपरिणाम है [ तत् कर्म ] वह द्रव्यका परिणाम कर्म इस नामसे कहा जाता है। “या परिणतिः सा क्रिया” [ या परिणतिः ] द्रव्यका जो कुछ पूर्व अवस्थामे उत्तर अवस्थारूप होना है [ सा क्रिया ] उसका नाम क्रिया कहा जाता है। जैसे मृत्तिका घटरूप होती है, इसलिये मृत्तिका कर्ता कहलाती है, उत्पन्न हुआ घडा कर्म कहलाता है तथा मृत्तिका पिण्डसे घटरूप होना क्रिया कहलाती है। वैसे ही सत्त्व-रूप वस्तु कर्ता कहा जाता है, उस द्रव्यका उत्पन्न हुआ परिणाम कर्म कहा जाता है और उस क्रियारूप होना क्रिया कही जाती है। “वस्तुतया त्रय अपि न भिन्न” [ वस्तुतया ] सत्तामात्र वस्तुके स्वरूपका अनुभव करनेपर [ त्रयं ] कर्ता-कर्म-क्रिया ऐसे तीन भेद [ अपि ] निश्चयसे [ न भिन्नं ] तीन सत्त्व तो नहीं, एक ही सत्त्व है। भावार्थ इस प्रकार है कि कर्ता-कर्म-क्रियाका स्वरूप तो इस प्रकार है, इसलिये ज्ञानावरणादि द्रव्य पिण्डरूप कर्मका कर्ता जीवद्रव्य है ऐसा जानना भूटा है, क्योंकि जीवद्रव्यका और पुद्गलद्रव्यका एक सत्त्व नहीं, कर्ता-कर्म-क्रियाकी कौन घटना ? ॥६-५१॥

( ग्रायां )

**एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य ।**

**एकस्य परिणतिः स्यादनेकमध्येकमेव यतः ॥७-५२॥**

गण्डान्वय महित अर्थ—“मदा एक परिणामति” [ मदा ] त्रिकालमे [ एकः ] सत्तामात्र वस्तु [ परिणामति ] अपनेमे अवस्थान्तररूप होती है। “मदा एकस्य परिणाम जायते” [ मदा ] त्रिकालगोचर [ एकस्य ] सत्तामात्र है वस्तु उसकी [ परिणामः जायते ] अवस्था वस्तुरूप है। भावार्थ इस प्रकार है कि यथा सत्तामात्र वस्तु अवस्थारूप है तथा अवस्था भी वस्तुरूप है। “परिणति एकस्य स्यात्” [ परिणतिः ] क्रिया [ एकस्य स्यात् ] सो भी सत्तामात्र वस्तुकी है। भावार्थ इस प्रकार है कि क्रिया भी वस्तुमात्र है, वस्तुसे भिन्न सत्त्व नहीं। “यत अनेक अपि एक एव” [ यतः ] जिस कारणसे [ अनेकं ] एक सत्त्वके कर्ता-कर्म-क्रियारूप तीन भेद [ अपि ] यद्यपि इस प्रकार भी है तथापि [ एकं एव ] सत्तामात्र वस्तु है। तीन ही विकल्प भूटे हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानावरणादि द्रव्यरूप पुद्गलपिण्ड कर्मका कर्ता जीववस्तु है ऐसा जानपना मिथ्याज्ञान है, क्योंकि एक सत्त्वमे कर्ता-कर्म-क्रिया उपचारमे कहा जाता है।

भिन्न सत्त्वरूप है जो जीवद्रव्य-पुद्गलद्रव्य उनको कर्ता-कर्म-क्रिया कहां से घटेगा ? ॥७-५२॥

( भार्या )

**नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत ।**

**उभयोर्न परिणतिः स्याद्यदनेकमनेकमेव स्यात् ॥८-५३॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“खलु उभौ न परिणमतः” [ खलु ] ऐसा निश्चय है कि [ उभौ ] एक चेतनलक्षण जीवद्रव्य और एक अचेतन कर्मपिण्डरूप पुद्गलद्रव्य [ न परिणमतः ] मिलकर एक परिणामरूप नहीं परिणामते हैं । भावार्थ इस प्रकार है कि जीवद्रव्य अपनी शुद्ध चेतनारूप अथवा अशुद्ध चेतनारूप व्याप्य-व्यापकरूप परिणामता है । पुद्गलद्रव्य भी अपने अचेतन लक्षणरूप शुद्ध परमाणुरूप अथवा ज्ञानावरणादि कर्मपिण्डरूप अपनेमे व्याप्य-व्यापकरूप परिणामता है । वस्तुका स्वरूप ऐसे तो है । परन्तु जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य दोनों मिलकर अशुद्ध चेतनारूप है राग-द्वेषरूप परिणाम उनसे परिणामते हैं ऐसा तो नहीं है । “उभयोः परिणामः न प्रजायेत” [ उभयोः ] जीवद्रव्य-पुद्गलद्रव्य उनके [ परिणामः ] दोनों मिलकर एक पर्यायरूप परिणाम [ न प्रजायेत ] नहीं होते हैं । “उभयो परिणतिः न स्यात्” [ उभयोः ] जीव और पुद्गलकी [ परिणतिः ] मिलकर एक क्रिया [ न स्यात् ] नहीं होती है । वस्तुका स्वरूप ऐसा ही है । “यत् अनेक अनेक एव सदा” [ यतः ] जिस कारणसे [ अनेकं ] भिन्न सत्त्वरूप हैं जीव-पुद्गल [ अनेकं एव सदा ] वे तो जीव-पुद्गल सदा ही भिन्नरूप हैं, एकरूप कैसे हो सकते हैं । भावार्थ इस प्रकार है कि जीवद्रव्य-पुद्गलद्रव्य भिन्न सत्त्वरूप हैं सो जो पहले भिन्न सत्तापन छोड़कर एक सत्त्वरूप हों तो पीछे कर्ता-कर्म-क्रियापना घटित हो । सो तो एकरूप होने नहीं, इसलिये जीव-पुद्गलका आपसमें कर्ता-कर्म-क्रियापना घटित नहीं होता ॥८-५३॥

( भार्या )

**नैकस्य हि कर्तारौ द्वौ स्तो द्वे कर्मणि न चैकस्य ।**

**नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतौ न स्यात् ॥९-५४॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—यहाँ पर कोई मतान्तर निरूपण करेगा कि द्रव्यकी अन्तः शक्तियाँ हैं सो एक शक्ति ऐसी भी होगी कि एक द्रव्य दो द्रव्योंके परिणामको

करे । जैसे जीवद्रव्य अपने अशुद्ध चेतनारूप राग-द्वेष-मोह परिणामको व्याप्य-व्यापकरूप करे वैसे ही ज्ञानावरणादि कर्मपिण्डको व्याप्य-व्यापकरूप करे । उत्तर इस प्रकार है कि द्रव्यके अनन्त शक्तियाँ हैं पर ऐसी शक्ति तो कोई नहीं कि जिससे जैसे अपने गुणके साथ व्याप्य-व्यापकरूप है, वैसे ही पर द्रव्यके गुणके साथ भी व्याप्य-व्यापकरूप होवे । “हि एकस्य द्वौ कर्तागे न” [ हि ] निश्चयसे [ एकस्य ] एक परिणामके [ द्वौ कर्तारौ न ] दो कर्ता नहीं है । भावार्थ इप प्रकार है कि अशुद्ध चेतनारूप राग-द्वेष-मोह परिणामका जिस प्रकार व्याप्य-व्यापकरूप जीवद्रव्य कर्ता है उसी प्रकार पुद्गलद्रव्य भी अशुद्ध चेतनारूप राग-द्वेष-मोह परिणामका कर्ता है ऐसा तो नहीं । जीवद्रव्य अपने राग-द्वेष-मोह परिणामका कर्ता है, पुद्गलद्रव्य कर्ता नहीं है । “एकस्य द्वे कर्मणी न स्तः” [ एकस्य ] एक द्रव्यके [ द्वे कर्मणी न स्तः ] दो परिणाम नहीं होते हैं । भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार जीवद्रव्य राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध चेतना परिणामका व्याप्य-व्यापकरूप कर्ता है उस प्रकार ज्ञानावरणादि अचेतन कर्मका कर्ता जीव है ऐसा तो नहीं है । अपने परिणामका कर्ता है, अचेतन परिणामरूप कर्मका कर्ता नहीं है । “च एकस्य द्वे क्रिये न” [ च ] तथा [ एकस्य ] एक द्रव्यकी [ द्वे क्रिये न ] दो क्रिया नहीं होती । भावार्थ इस प्रकार है कि जीवद्रव्य जिस प्रकार चेतन परिणामतिरूप परिणामता है वैसे ही अचेतन परिणामतिरूप परिणामता हो ऐसा तो नहीं है । “यन एक अनेकं न म्यात्” [ यतः ] जिस कारणसे [ एक ] एक द्रव्य [ अनेकं न म्यात् ] दो द्रव्यरूप कैसे होवे ? भावार्थ इस प्रकार है कि जीवद्रव्य एक चेतन द्रव्यरूप है सो जो पहले वह अनेक द्रव्यरूप होवे तो ज्ञानावरणादि कर्मका कर्ता भी होवे, अपने राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध चेतन परिणामका भी कर्ता होवे, सो ऐसा तो है नहीं । अनादिनिधन जीवद्रव्य एकरूप ही है, इसलिए अपने अशुद्ध चेतन परिणामका कर्ता है, अचेतनकर्मका कर्ता नहीं है । ऐसा वस्तु-स्वरूप है ॥६-५४॥

( शाङ्खलविकीर्तित )

आ संसारत एव धावति परं कुर्वेऽहमित्युच्चकै-  
 दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः ।  
 तद्भूतार्थपरिग्रहेण विलयं यद्येकवारं ब्रजेत्  
 तर्त्तिकं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः ॥१०-५५॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ननु मोहिना अहं कुर्वे इति तम आससारत एव धावति” [ ननु ] अहो जीव ! [ मोहिना ] मिथ्यादृष्टि जीवोंके [ अहं कुर्वे इति तमः ] ज्ञानावरणादि कर्मका कर्ता जीव ऐसा है जो मिथ्यात्वरूप अन्धकार [ आसमारतः एव धावति ] अनादि कालसे एक सन्तानरूप चला आ रहा है। कैसा है मिथ्यात्वरूपी तम ? “पर” पर द्रव्यस्वरूप है। और कैसा है ? “उच्चकं दुर्वार” अति ठीठ है। और कैसा है ? “महाहकाररूप” [ महाहंकार ] मैं देव, मैं मनुष्य, मैं तिर्यञ्च, मैं नारक ऐसी जो कर्मकी पर्याय उसमें आत्मबुद्धि [ रूपं ] वही है स्वरूप जिसका ऐसा है। “यदि तद् भूतार्थपरिग्रहेण एकवारं विलयं ब्रजेत्” [ यदि ] जो कभी [ तत् ] ऐसा है जो मिथ्यात्व अन्धकार [ भूतार्थपरिग्रहेण ] शुद्धस्वरूप अनुभवके द्वारा [ एकवारं ] अन्तर्मुहूर्त मात्र [ विलयं ब्रजेत् ] विनाशको प्राप्त हो जाय। भावार्थ इस प्रकार है कि जीवके यद्यपि मिथ्यात्व अन्धकार अनन्तकालसे चला आ रहा है। तथा जो सम्यक्त्व हो तो मिथ्यात्व छूटे, जो एकवार छूटे तो “अहो तत् आत्मन भूय बन्धन कि भवेत्” [ अहो ] भो जीव ! [ तत् ] उस कारणसे [ आत्मनः ] जीवके [ भूयः ] पुनः [ बन्धनं किं भवेत् ] एकत्वबुद्धि क्या होगी अपितु नहीं होगी। कैसा है आत्मा ? “ज्ञानघनस्य” ज्ञानका समूह है। भावार्थ—शुद्धस्वरूपका अनुभव होनेपर ससाम्ये रुलना नहीं होता ॥१०-५५॥

( अनुष्टुप् )

**आत्मभावान् करोत्यात्मा परभावान् सदा परः ।**

**आत्मैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ॥११-५६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“आत्मा आत्मभावान् करोति” [ आत्मा ] जीवद्रव्य [ आत्मभावान् ] अपने शुद्धचेतनरूप अथवा अशुद्धचेतनरूप राग-द्वेष-मोहभाव, [ करोति ] उनरूप परिणामता है। “पर परभावान् सदा करोति” [ परः ] पुद्गलद्रव्य [ परभावान् ] पुद्गलद्रव्यके ज्ञानावरणादिरूप पर्यायको [ सदा ] त्रिकालगोचर [ करोति ] करता है। “हि आत्मनो भावा आत्मा एव” [ हि ] निश्चयसे [ आत्मनो भावा ] जीवके परिणाम [ आत्मा एव ] जीव ही है। भावार्थ इस प्रकार है कि चेतन परिणामको जीव करता है, वे चेतन परिणाम भी जीव ही है, द्रव्यान्तर नहीं हुआ। “परस्य पर एव” [ परस्य ] पुद्गलद्रव्यके [ भावाः ] परिणाम [ पर एव ] पुद्गलद्रव्य है, जीवद्रव्य नहीं हुआ। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानावरणादि कर्मका कर्ता पुद्गल है और वस्तु भी पुद्गल है, द्रव्यान्तर नहीं ॥११-५६॥

( वसन्ततिलका )

अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी  
 ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः ।  
 पीत्वा दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृद्ध्या  
 गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालम् ॥१२-५७॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“यः अज्ञानतः तु रज्यते” [ यः ] जो कोई मिथ्यादृष्टि जीव [ अज्ञानतः तु ] मिथ्या दृष्टिसे ही [ रज्यते ] कर्मकी विचित्रतासे अपनापन जानकर रजायमान होता है। वह जीव कैसा है ? “सतृणाभ्यवहारकारी” [ सतृण ] घासके साथ [ अभ्यवहारकारी ] आहार करता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जैसे हाथी अन्न-घास मिला ही बराबर जान खाता है, घासका और अन्नका विवेक नहीं करता है, वैसे मिथ्यादृष्टि जीव कर्मकी सामग्रीको अपनी जानता है। जीवका और कर्मका विवेक नहीं करता है। कैसा है ? “किल स्वयं ज्ञानं भवन्नपि” [ किल स्वयं ] निश्चयसे स्वरूपमात्रकी अपेक्षा [ ज्ञानं भवन्नपि ] यद्यपि ज्ञानस्वरूप है। और जीव कैसा है ? “असौ नूनं रसालं पीत्वा गां दुग्धं दोग्धि इव” [ अस्मी ] यह है जो विद्यमान जीव [ नूनं ] निश्चयसे [ रसालं ] शिखरग्रीको [ पीत्वा ] पीकर ऐसा मानता है कि [ गां दुग्धं दोग्धि इव ] मानो गायके दूधको पीता है। क्या करके ? ‘दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृद्ध्या’ [ दधीक्षु ] शिखरग्रीमे [ मधुराम्लरस ] मीठे और खट्टे स्वादकी [ अतिगृद्ध्या ] अति ही आसक्तिसे। भावार्थ इस प्रकार है कि स्वादलम्पट हुआ शिखरग्री पीता है, स्वाद-भेद नहीं करता है। ऐसा निर्भेदपना मानता है, जैसा गायके दूधको पीते हुए निर्भेदपना माना जाता है ॥१२-५७॥

( शादूलविक्रीडित )

अज्ञानात् मृगतृणिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा  
 अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः ।  
 अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तरंगाब्धिव-  
 च्छुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्रीभवन्त्याकुलाः ॥१३-५८॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अमी स्वयं शुद्धज्ञानमयाः अपि अज्ञानात् आकुलाः कर्त्रीभवन्ति” [ अमी ] सब मसारी मिथ्यादृष्टि जीव [ स्वयं ] सहजसे [ शुद्धज्ञानमयाः ]



शुद्धस्वरूप हैं [ अपि ] तथापि [ अज्ञानात् ] मिथ्या दृष्टिसे [ आकुलः ] आकुलित होते हुए [ कर्त्रीभवन्ति ] बलात्कार ही कर्ता होते हैं। किस कारणसे ? “विकल्पचक्र-करणत्” [ विकल्प ] अनेक रागादिके [ चक्र ] समूहके [ करणात् ] करनेसे। किसके समान ? “वानोत्तरंगाब्धिवत्” [ वात ] वायुसे [ उत्तरंग ] डोलते-उछलते हुए [ अब्धिवत् ] समुद्रके समान। भावार्थ इस प्रकार है कि जैसे समुद्रका स्वरूप निश्चल है, वायुसे प्रेरित होकर उछलता है और उछलनेका कर्ता भी होता है, वैसे ही जीवद्रव्य स्वरूपसे अकर्ता है। कर्मसयोगसे विभावरूप परिगमता है, इसलिए विभावपनेका कर्ता भी होता है। परन्तु अज्ञानसे, स्वभाव तो नहीं। दृष्टात कहते हैं—“मृगाः मृगतृष्णिकां अज्ञानात् जलधिया पातुं धावन्ति” [ मृगाः ] जिस प्रकार हरिरण [ मृगतृष्णिकां ] मरीचिकाको [ अज्ञानात् ] मिथ्या भ्रान्तिके कारण [ जलधिया ] पानीकी बुद्धिसे [ पातुं धावन्ति ] पीनेके लिये दौड़ते हैं। “जना रज्जौ तमसि अज्ञानात् भुजगाध्यासेन द्रवन्ति” [ जनाः ] जिस प्रकार मनुष्य जीव [ रज्जौ ] रस्सीमें [ तमसि ] अन्धकारके होनेपर [ अज्ञानात् ] भ्रान्तिके कारण [ भुजगाध्यासेन ] सर्पकी बुद्धिसे [ द्रवन्ति ] डरने हैं ॥१३-५८॥

( वमन्नतिलका )

ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्षो  
जानाति हंस इव वाः-पयसोर्विशेषं ।  
चैतन्यधातुमचलं स सदाधिरूढो  
जानीत एव हि करोति न किञ्चनापि ॥१४-५९॥

सुण्डान्वय सहित अर्थ—“यः तु परात्मनो विशेषं जानाति” [ यः तु ] जो कोई सम्यग्दृष्टि जीव [ पर ] द्रव्यकर्मपिण्ड [ आत्मनोः ] शुद्ध चैतन्यमात्र, उनका [ विशेषं ] भिन्नपना [ जानाति ] अनुभवता है। कैसा करके अनुभवता है ? “जानात् विवेचकतया” [ ज्ञानात् ] सम्यग्ज्ञान द्वारा [ विवेचकतया ] लक्षणभेद कर। उसका विवरण—शुद्ध चैतन्यमात्र जीवका लक्षण, अचेतनपना पुद्गलका लक्षण; इससे जीव पुद्गल भिन्न भिन्न है ऐसा भेद भेदज्ञान कहना। दृष्टात कहते हैं—“वा-पयसो. हंस इव” [ वाः ] पानी [ पयसोः ] दूध [ हंस इव ] हंसके समान। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार हंस दूध पानी भिन्न भिन्न करता है उस प्रकार जो कोई जीव-पुद्गलको भिन्न

भिन्न अनुभवना है। “स हि जानीत एव किञ्चनापि न करोति” [ सः हि ] वह जीव [ जानीत एव ] जायक तो है, [ किञ्चनापि ] परमाणुमात्र भी [ न करोति ] करता तो नहीं है। कौंसा है जानी जीव ? “स सदा अचल चैतन्यधातुं अधिरूढ.” वह सदानिश्चल चैतन्य धातुमय आत्माके स्वरूपमे दृढतासे रहा है ॥१४-५६॥

( मन्दाक्रान्ता )

**ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौष्ण्यशैत्यव्यवस्था**

**ज्ञानादेवोऽल्लसति लवणस्वादभेदव्युदासः ।**

**ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातोः**

**क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिन्दती कर्तृ भावम् । १५-६० ।**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“जानात् एव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातो क्रोधादे च भिदा प्रभवति” [ ज्ञानात् एव ] शुद्ध स्वरूपमात्र वस्तुको अनुभवन करते ही [ स्वरम् ] चेतनस्वरूप, उससे [ विक्रमत् ] प्रकाशमान है [ नित्य ] अविनश्वर ऐसा जो [ चैतन्यधातोः ] शुद्ध जीवस्वरूपका (और) [ क्रोधादेश्च ] जिनने अशुद्ध चेतनारूप रागादि परिणामका [ भिदा ] भिन्नपना [ प्रभवति ] होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि साम्प्रत (-वर्तमान मे) जीवद्रव्य रागादि अशुद्ध चेतनारूप परिणामा है, सो तो ऐसा प्रतिभामता है कि ज्ञान क्रोधरूप परिणामा है, सो ज्ञान भिन्न क्रोध भिन्न ऐसा अनुभवना अति ही कठिन है। उन्पर इस प्रकार है कि माँचा ही कठिन है, पर वस्तुका शुद्धस्वरूप विचारनेपर भिन्नपनेरूप स्वाद आता है। कौंसा है भिदा (-भिन्नपना) ? “कर्तृ भाव भिन्दती” [ कर्तृ भावं ] कर्मका कर्ता जीव ऐसी भ्रान्ति, उसको [ भिन्दती ] मूलसे दूर करता है। दृष्टान कहते हैं—“एव ज्वलनपयसो. औष्ण्यशैत्यव्यवस्था ज्ञानात् उल्लसति” [ एव ] जिस प्रकार [ ज्वलन ] अग्नि [ पयसोः ] पानी, उनका [ औष्ण्य ] उष्णपना [ शैत्य ] शीतपना, उनका [ व्यवस्था ] भेद [ ज्ञानात् ] निजस्वरूपग्राही ज्ञानके द्वारा [ उल्लसति ] प्रगट होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार अग्नि संयोगसे पानी ताता (उष्ण) किया जाता है, फिर ‘ताता पानी’ ऐसा कहा जाता है तथापि स्वभाव विचारनेपर उष्णपना अग्निका है, पानी तो स्वभावसे शीला (ठडा) है ऐसा भेदज्ञान विचारनेपर उपजता है। और दृष्टान—“एव लवणस्वादभेदव्युदास ज्ञानात्

उल्लसति” [ एव ] जिस प्रकार [ लवण ] खारा रस, उसका [ स्वादभेद ] व्यंजनसे भिन्नपनेके द्वारा खारा लवणका स्वभाव ऐसा जानपना, उससे [ व्युदासः ] व्यंजन खारा ऐसा कहा जाता था, जाना जाता था सो छूटा । (ऐसा) [ ज्ञानात् ] निज स्वरूपका जानपना उसके द्वारा [ उल्लसति ] प्रगट होता है । भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार लवणके सयोगसे व्यंजन सभारते है तो खारा व्यंजन ऐसा कहा जाता है, जाना भी जाता है; स्वरूप विचारनेपर खारा लवण, व्यंजन जैसा है वैसा ही है ॥१५-६०॥

( अनुष्टुप् )

**अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमञ्जसा ।**

**स्यात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित् ॥१६-६१॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“एव आत्मा आत्मभावस्य कर्ता स्यात्” [ एवं ] सर्वथा प्रकार [ आत्मा ] जीवद्रव्य [ आत्मभावस्य कर्ता स्यात् ] अपने परिणामका कर्ता होता है । “परभावस्य कर्ता न क्वचित् स्यात्” [ परभावस्य ] कर्मरूप अचेतन पुद्गलद्रव्यका [ कर्ता क्वचित् न स्यात् ] कभी तीनों कालमें कर्ता नहीं होता । कैसा है आत्मा ? “ज्ञान अपि आत्मानं कुर्वन्” [ ज्ञानं ] शुद्ध चेतनमात्र प्रगटरूप सिद्धअवस्था [ अपि ] उम रूप भी [ आत्मानं कुर्वन् ] आप तद्रूप परिणमता है । और कैसा है ? “अज्ञानं अपि आत्मानं कुर्वन्” [ अज्ञानं ] अशुद्ध चेतनारूप विभाव परिणाम [ अपि ] उसरूप भी [ आत्मानं कुर्वन् ] आप तद्रूप परिणमता है । भावार्थ इस प्रकार है—जीवद्रव्य अशुद्ध चेतनारूप परिणमता है, शुद्ध चेतनारूप परिणमता है, इसलिये जिस कालमें जिस चेतनारूप परिणमता है उस कालमे उसी चेतनाके साथ व्याप्य-व्यापकरूप है, इसलिए उस कालमे उसी चेतनाका कर्ता है । तो भी पुद्गलपिण्डरूप जो ज्ञानावरणादि कर्म है उसके साथ तो व्याप्य-व्यापकरूप नहीं है, इसलिये उसका कर्ता नहीं है । “अञ्जसा” समस्तरूपसे ऐसा अर्थ है ॥१६-६१॥

( अनुष्टुप् )

**आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किम् ।**

**परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् ॥१७-६२॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“आत्मा ज्ञानं करोति” [ आत्मा ] चेतनद्रव्य [ ज्ञानं ] चेतनामात्र परिणामको [ करोति ] करता है । कैसा होता हुआ ? “स्वयं ज्ञानं” जिस

कारणसे आत्मा स्वयं चेतना परिणाममात्र स्वरूप है। “ज्ञानात् अन्यत् करोति कि” [ ज्ञानात् अन्यत् ] चेतन परिणामसे भिन्न जो अचेतन पुद्गल परिणामरूप कर्म उसका [ कि करोति ] करता है क्या ? अपि तु न करोति—सर्वथा मही करता है। “आत्मा परभावस्य कर्ता अयं व्यवहारिणा मोहः” [ आत्मा ] चेतनद्रव्य [ परभावस्य कर्ता ] ज्ञानावरणादि कर्मको करता है [ अयं ] ऐसा जानपना, ऐसा कहना [ व्यवहारिणां मोहः ] मिथ्यादृष्टि जीवोका अज्ञान है। भावार्थ इस प्रकार है कि कहनेमें ऐसा आना है कि ज्ञानावरणादि कर्मका कर्ता जीव है सो कहना भी भूटा है ॥१७-६२॥

( वसन्ततिलका )

**जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव**

**कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिशंकयैव ।**

**एतर्हि तीव्ररयमोहनिवर्हणाय**

**संकीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्म कर्तृ ॥१८-६३॥**

खण्डान्वय महित अर्थ—“पुद्गलकर्म कर्तृ संकीर्त्यते” [ पुद्गलकर्म ] द्रव्य-पिण्डरूप आठ कर्म उसका [ कर्तृ ] कर्ता [ संकीर्त्यते ] जैसा है वैसा कहते हैं। “शृणुत” सावधान होकर तुम मुनो। प्रयोजन कहते हैं—“एतर्हि तीव्ररयमोहनिवर्हणाय” [ एतर्हि ] इस समय [ तीव्ररय ] दुनिवार उदय है जिसका ऐसा जो [ मोह ] विपरीत ज्ञान उसको [ निवर्हणाय ] मूलमें दूर करनेके निमित्त। विपरीतपना कैसा करके जाना जाता है। “इति अभिशङ्कया एव” [ इति ] जैसी करते हैं [ अभिशङ्कया ] आशका उसके द्वारा [ एव ] ही। वह आशका कैसी है ? “यदि जीव एव पुद्गलकर्म न करोति तर्हि क तत् कुरुते” [ यदि ] जो [ जीव एव ] चेतनद्रव्य [ पुद्गलकर्म ] पिण्डरूप आठ कर्मको [ न करोति ] नहीं करता है [ तर्हि ] तो [ कः तत् कुरुते ] उसे कौन करता है। भावार्थ इस प्रकार है—जो जीवके करनेपर ज्ञानावरणादि कर्म होता है ऐसी आति उपजती है उसके प्रति उत्तर इस प्रकार है कि पुद्गलद्रव्य परिणामी है, स्वयं सहज ही कर्मरूप परिणामता है ॥१८-६३॥

( उपजाति )

**स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य**

**स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।**

**तस्यां स्थितायां स करोति भावं**

**यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ॥१६-६४॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“इति खलु पुद्गलस्य परिणामशक्तिः स्थिता” [ इति ] इस प्रकार [ खलु ] निश्चयसे [ पुद्गलस्य ] मूर्त द्रव्यका [ परिणामशक्तिः ] परिणामन-स्वरूप स्वभाव [ स्थिता ] अनादिनिघन विद्यमान है। कैसा है ? “स्वभावभूता” सहज-रूप है। और कैसा है ? “अविघ्ना” निर्विघ्नरूप है। “तस्यां स्थितायां स. आत्मनः यं भावं करोति स तस्य कर्ता भवेत्” [ तस्यां स्थितायां ] उस परिणामशक्तिके रहते हुए [ सः ] पुद्गलद्रव्य [ आत्मनः ] अपने अचेतन द्रव्यसम्बन्धी [ यं भावं करोति ] जिस परिणामको करता है [ सः ] पुद्गलद्रव्य [ तस्य कर्ता भवेत् ] उस परिणामका कर्ता होता है। भावार्थ इस प्रकार है—ज्ञानावरणादि कर्मरूप पुद्गलद्रव्य परिणामता है उस भावका कर्ता फिर पुद्गलद्रव्य होता है ॥१६-६४॥

( उपजाति )

**स्थितेति जीवस्य निरन्तराया**

**स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।**

**तस्यां स्थितायां स करोति भावं**

**यं स्वस्य तस्यैव भवेत् स कर्ता ॥२०-६५॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“जीवस्य परिणामशक्तिः स्थिता इति” [ जीवस्य ] चेतनद्रव्यकी [ परिणामशक्तिः ] परिणामनरूप सामर्थ्य [ स्थिता ] अनादिसे विद्यमान है। [ इति ] ऐसा द्रव्यका सहज है। “स्वभावभूता” जो शक्ति [ स्वभावभूता ] सहजरूप है। और कैसी है ? “निरन्तराया” प्रवाहरूप है, एक समयमात्र खण्ड नहीं है। “तस्यां स्थिताया” उस परिणामशक्तिके होते हुए “स स्वस्य य भावं करोति” [ सः ] जीववस्तु [ स्वस्य ] आपसम्बन्धी [ यं भावं ] जिस किसी शुद्ध चेतनारूप अशुद्ध चेतनारूप परिणामको [ करोति ] करता है “तस्य एव स कर्ता भवेत्” [ तस्य ] उस परिणामका [ एव ] निश्चयसे [ सः ] जीववस्तु [ कर्ता ] कर्गशील [ भवेत् ] होता है। भावार्थ इस प्रकार है—जीवद्रव्यकी अनादिनिघन परिणामनशक्ति है ॥२०-६५॥

( धार्या )

**ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेत् ज्ञानिनो न पुनरन्यः ।**

**अज्ञानमयः सर्वः कुतोऽयमज्ञानिनो नान्यः ॥२१-६६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—यहाँपर कोई प्रश्न करता है—“ज्ञानिन. ज्ञानमय एव भाव कुतो भवेत् पुनः न अन्य.” [ ज्ञानिनः ] सम्यग्दृष्टिके [ ज्ञानमय एव भावः ] भेद-विज्ञानस्वरूप परिणाम [ कुतो भवेत् ] किस कारणसे होता है [ न पुनः अन्यः ] अज्ञान-नहीं होता । भावार्थ इस प्रकार है—सम्यग्दृष्टि जीव कर्मके उदयको भोगनेपर विचित्र रागादिरूप परिणामता है सो ज्ञानभावका कर्ता है और [ उभके ] ज्ञानभाव है, अज्ञानभाव नहीं है सो कैसे है ऐसा कोई ब्रूकता है । “अयं सर्व. अज्ञानिनः अज्ञानमयः नान्य” [ अयं ] परिणाम [ सर्वः ] सबका सब परिणामन [ अज्ञानिनः ] मिथ्यादृष्टिके [ अज्ञानमयः ] अशुद्ध चेतनारूप बन्धका कारण होता है । [ कुतः ] कोई प्रश्न करता है ऐसा है सो कैसे है, [ न अन्यः ] ज्ञानजातिका कैसे नहीं होता । भावार्थ इस प्रकार है—मिथ्यादृष्टिके जो कुछ परिणाम होता है वह बन्धका कारण है ॥२१-६६॥  
( अनुष्टुप् )

**ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ता सर्वे भावा भवन्ति हि ।**

**सर्वेऽप्यज्ञाननिर्वृत्ताः भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥२२-६७॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—‘हि ज्ञानिन सर्वे भावा ज्ञाननिर्वृत्ता भवन्ति’ [ हि ] निश्चयमे [ ज्ञानिनः ] सम्यग्दृष्टिके [ सर्वे भावाः ] जितने परिणाम है [ ज्ञाननिर्वृत्ताः भवन्ति ] ज्ञानस्वरूप होते हैं । भावार्थ इस प्रकार है—सम्यग्दृष्टिका द्रव्य शुद्धत्वरूप परिणाम है इसलिये सम्यग्दृष्टिका जो कोई परिणाम होता है वह ज्ञानमय शुद्धत्व जातिरूप होता है, कर्मका अवन्धक होता है । “तु ते सर्वे अपि अज्ञानिनः अज्ञाननिर्वृत्ता भवन्ति” [ तु ] यो भी है कि [ ते ] जितने परिणाम [ सर्वे अपि ] शुभोपयोगरूप अथवा अशुभोपयोगरूप है वे सब [ अज्ञानिनः ] मिथ्यादृष्टिके [ अज्ञाननिर्वृत्ताः ] अशुद्धत्वमे निपजे हैं । [ भवन्ति ] विद्यमान है । भावार्थ इस प्रकार है—सम्यग्दृष्टि जीवकी और मिथ्यादृष्टि जीवकी क्रिया तो एकसी है, क्रियासम्बन्धी विषय कषाय भी एकसी है, परन्तु द्रव्यका परिणामभेद है । विवरण—सम्यग्दृष्टिका द्रव्य शुद्धत्वरूप परिणाम है, इसलिये जो कोई परिणाम बुद्धिपूर्वक अनुभवरूप है अथवा विचाररूप है अथवा व्रत-क्रियारूप है अथवा भोगाभिलाषरूप है अथवा चारित्र्यमोहके उदय क्रोध, मान, माया, लोभरूप है वह सभी परिणाम ज्ञानजातिमे घटता है । कारण कि जो कोई परिणाम है वह संवर-निर्जराका कारण है, ऐसा ही कोई द्रव्य-परिणामनका विशेष है । मिथ्यादृष्टिका द्रव्य अशुद्धरूप परिणाम है, इसलिये जो कोई

मिथ्यादृष्टिका परिणाम अनुभवरूप तो होता ही नहीं। इस कारण सूत्रमिद्धान्तके पाठरूप है अथवा व्रत-तपश्चरणरूप है अथवा दान, पूजा, दया, शीलरूप है अथवा भोगाभिलाष-रूप है अथवा क्रोध, मान, माया, लोभरूप है ऐसा समस्त परिणाम अज्ञानजातिका है, क्योंकि बन्धका कारण है, संवर-निर्जराका कारण नहीं है। द्रव्यका ऐसा ही परिणाम-विशेष है ॥२२-६७॥

( अनुष्टुप् )

**अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकाः ।**

**द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानामेति हेतुताम् ॥२३-६८॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—ऐसा कहा है कि सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यादृष्टि जीवकी बाह्य क्रिया तो एकसी है परन्तु द्रव्य परिणामविशेष है सो विशेषके अनुगार दिखलाते हैं। सर्वथा तो प्रत्यक्ष ज्ञानगोचर है। “अज्ञानी द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानां हेतुता एति” [ अज्ञानी ] मिथ्यादृष्टि जीव [ द्रव्यकर्म ] धाराप्रवाहरूप निरन्तर बंधने ह—पुद्गलद्रव्यकी पर्यायरूप कर्मणवर्गणा ज्ञानावरणादि कर्म पिण्डरूप बंधते है जीवके प्रदेशके साथ एक क्षेत्रावगाही है, परंपर बन्ध्यबन्धकभाव भी है। उनके [ निमित्तानां ] बाह्य कारगरूप है [ भावानां ] मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्व, राग, द्वेषरूप अशुद्ध परिणाम। भावार्थ इस प्रकार है—जैसे कलशरूप मृत्तिका परिणमती है, जैसे कुम्भकारका परिणाम उमका बाह्य निमित्तकारण है, व्याप्य-व्यापकरूप नहीं है उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मपिण्डरूप पुद्गलद्रव्य स्वयं व्याप्य-व्यापकरूप है। तथापि जीवका अशुद्ध चेतनारूप मोह, राग, द्वेषादि परिणाम बाह्य निमित्तकारण है, व्याप्य-व्यापकरूप तो नहीं है। उस परिणामके [ हेतुतां ] कारगरूप [ एति ] आप परिणामा है। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि जीवद्रव्य तो शुद्ध है, उपचारमात्र कर्मबन्धका कारण होता है सो ऐसा तो नहीं है। आप स्वयं मोह, राग, द्वेष अशुद्ध चेतना परिणामरूप परिणमता है, इसलिये कर्मका कारण है। मिथ्यादृष्टि जीव अशुद्धरूप जिस प्रकार परिणमता है उसी प्रकार कहते है—“अज्ञानमयभावानां भूमिकाः प्राप्य” [ अज्ञानमय ] मिथ्यात्व जाति ऐसी है [ भावानां ] कर्मके उदयकी अवस्था उनकी [ भूमिकाः ] जिसके पानेपर अशुद्ध परिणाम होते है ऐसी सगतिको [ प्राप्य ] प्राप्त कर मिथ्यादृष्टि जीव अशुद्ध परिणामरूप परिणमता है। भावार्थ इस प्रकार है—द्रव्यकर्म अनेक प्रकारका है, उमका उदय अनेक प्रकारका है। एक कर्म ऐसा है जिसके उदय शरीर होता है, एक

कर्म ऐसा है जिसके उदय मन, वचन, काय होता है, एक कर्म ऐसा है जिसके उदय सुख, दुःख होता है। ऐसे अनेक प्रकारके कर्मका उदय होनेपर मिथ्यादृष्टि जीव कर्मके उदयको आपरूप अनुभवता है, इसमें राग, द्वेष, मोह परिणाम होते हैं, उनके द्वारा नूतन कर्मबन्ध होता है। इस कारण मिथ्यादृष्टि जीव अशुद्ध चेतन परिणामका कर्ता है। क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीवके शुद्धस्वरूपका अनुभव नहीं है, इसलिये कर्मके उदय कार्यको आपरूप अनुभवता है। जिस प्रकार मिथ्यादृष्टिके कर्मका उदय है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टिके भी है, परन्तु सम्यग्दृष्टि जीवको शुद्धस्वरूपका अनुभव है, इस कारण कर्मके उदयको कर्मजातिरूप अनुभवता है, आपको शुद्धस्वरूप अनुभवता है। इसलिये कर्मके उदयमें नहीं रजायमान होता है, इसलिये मोह, राग, द्वेषरूप नहीं परिणामता है, इसलिये कर्मबन्ध नहीं होता है, इसलिये सम्यग्दृष्टि अशुद्ध परिणामका कर्ता नहीं है। ऐसा विशेष है ॥२३-६८॥

( उपेन्द्रवज्रा )

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं  
स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम् ।  
विकल्पजालच्युतशान्तचित्ता-  
स्त एव साक्षावमृतं पिबन्ति ॥२४-६९॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ये एव नित्य स्वरूपगुप्ता निवसन्ति ते एव साक्षात् अमृत पिबन्ति”—[ ये एव ] जो कोई जीव [ नित्य ] निरन्तर [ स्वरूप ] शुद्ध चैतन्यमात्र वस्तुमें [ गुप्ताः ] तन्मय हुए है [ निवसन्ति ] तिष्ठते हैं [ ते एव ] वे ही जीव [ साक्षात् अमृतं ] अतीन्द्रिय सुखका [ पिबन्ति ] आस्वाद करते हैं। क्या करके ? “नयपक्षपात मुक्त्वा”—[ नय ] द्रव्यपर्यायरूप विकल्पबुद्धि, उसके [ पक्षपातं ] एक पक्षरूप अंगीकार, उसको [ मुक्त्वा ] छोड़कर। कैसे है वे जीव ? “विकल्पजालच्युत-शान्तचित्ता” [ विकल्पजाल ] एक सत्त्वका अनेकरूप विचार, उसमें [ च्युत ] रहित हुआ है, [ शान्तचित्ताः ] निर्विकल्प समाधान मन जिनका, ऐसे हैं। भावार्थ इस प्रकार है—जो एक सत्त्वरूप वस्तु है उसका द्रव्य-गुण-पर्यायरूप, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप विचार करनेपर विकल्प होता है, उस विकल्पके होनेपर मन आकुल होता है, आकुलता दुःख है, इसलिये वस्तुमात्रके अनुभवनेपर विकल्प मिटता है, विकल्पके मिटनेपर आकुलता



मिटती है, आकुलताके मिटनेपर दुःख मिटता है, इससे अनुभवशीली जीव परम सुखी है ॥२४-६६॥

( उपजाति )

एकस्य बद्धो न तथा परस्य  
चित् द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्चिदेव ॥२५-७०॥

खण्डान्वय महित अर्थ—“चित् द्वयोः इति द्वौ पक्षपातौ”—[ चित् ] चैतन्य-मात्र वस्तुमें [ द्वयोः ] द्रव्याधिक पर्यायाधिक दो नयोंके [ इति ] इस प्रकार [ द्वौ पक्षपातौ ] दो ही पक्षपात है । “एकस्य बद्धः तथा अपरस्य न”—[ एकस्य ] अशुद्ध पर्यायमात्र ग्राहक ज्ञानका पक्ष करने पर [ बद्धः ] जीवद्रव्य बँधा है । भावार्थ इस प्रकार है—जीवद्रव्य अनादिसे कर्मसंयोगके साथ एक पर्यायरूप चला आया है, विभावरूप परिणामा है । इस प्रकार एक बन्धपर्यायको अंगीकार करिये, द्रव्यस्वरूपका पक्ष न करिये तब जीव बँधा है, एक पक्ष इस प्रकार है । [ तथा ] दूसरा पक्ष— [ अपरस्य ] द्रव्याधिक नयका पक्ष करने पर [ न ] नहीं बँधा है । भावार्थ इस प्रकार है—जीव द्रव्य अनादिनिधन चेतनालक्षण है, इस प्रकार द्रव्यमात्रका पक्ष करने पर जीव द्रव्य बँधा तो नहीं है, सदा अपने स्वरूप है, क्योंकि कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य-गुण-पर्यायरूप नहीं परिणामना है, सभी द्रव्य अपने स्वरूपरूप परिणामते है । “यः तत्त्ववेदी” जो कोई शुद्ध चेतनामात्र जीवके स्वरूपका अनुभवनशील है जीव “च्युतपक्षपातः”—वह जीव पक्षपातसे रहित है । भावार्थ इस प्रकार है—एक वस्तुकी अनेकरूप कल्पना की जाती है उसका नाम पक्षपात कहा जाता है, इसलिये वस्तुमात्रका स्वाद आने पर कल्पना-बुद्धि सहज ही मिटती है । “तस्य चित् चित् एव अस्ति”—[ तस्य ] शुद्धस्वरूपको अनुभवता है, उसको [ चित् ] चैतन्य वस्तु [ चित् एव अस्ति ] चेतनामात्र वस्तु है ऐसा प्रत्यक्षपने स्वाद आता है ॥२५-७०॥\*

\* आगे २६से ४४ तकके श्लोक २५ वे श्लोकके साथ मिलने-जुलते है । इसलिये प० श्री राजमलजीने उन श्लोकका “खण्डान्वय महित अर्थ” नहीं किया है । मूल श्लोक, उनका अर्थ और भावार्थ हिन्दी समयसारमेंके वहाँ दिया गया है ।

( उपजाति )

एकस्य मूढो न तथा परस्य  
चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।  
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-  
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२६-७१॥

अर्थ—जीव मूढ (मोही) है ऐसा एक नयका पक्ष है और वह मूढ नहीं है  
ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमे दो नयोके दो पक्षपात  
है । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है  
(अर्थात् उसे चित्स्वरूप जीव जैसा है वैसा ही निरन्तर अनुभवमें आता है) ॥२६-७१॥

( उपजाति )

एकस्य रक्तो न तथा परस्य  
चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।  
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-  
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२७-७२॥

अर्थ—जीव रागी है ऐसा एक नयका पक्ष है और वह रागी नहीं है ऐसा  
दूसरे नयका पक्ष है, इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमे दो नयोके दो पक्षपात है ।  
जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥२७-७२॥

( उपजाति )

एकस्य दुष्टो न तथा परस्य  
चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।  
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-  
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२८-७३॥

अर्थ—जीव द्वेषी है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव द्वेषी नहीं है ऐसा  
दूसरे नयका पक्ष है, इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमे दो नयोके दो पक्षपात है ।  
जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥२८-७३॥

( उपजाति )

**एकस्य कर्ता न तथा परस्य  
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।  
यस्तत्त्ववेदो च्युतपक्षपात-  
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२६-७४॥**

अर्थ—जीव कर्ता है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव कर्ता नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात है । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥२६-७४॥

( उपजाति )

**एकस्य भोक्ता न तथा परस्य  
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।  
यस्तत्त्ववेदो च्युतपक्षपात-  
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३०-७५॥**

अर्थ—जीव भोक्ता है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव भोक्ता नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥३०-७५॥

( उपजाति )

**एकस्य जीवो न तथा परस्य  
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।  
यस्तत्त्ववेदो च्युतपक्षपात-  
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३१-७६॥**

अर्थ—जीव जीव है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव जीव नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥३१-७६॥

( उपजाति )

**एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य  
चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।  
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-  
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३२-७७॥**

अर्थ—जीव सूक्ष्म है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव सूक्ष्म नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात है । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥३२-७७॥

( उपजाति )

**एकस्य हेतुर्न न तथा परस्य  
चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।  
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-  
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३३-७८॥**

अर्थ—जीव हेतु (कारण) है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव हेतु (कारण) नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात है । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥३३-७८॥

( उपजाति )

**एकस्य कार्यं न तथा परस्य  
चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।  
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-  
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३४-७९॥**

अर्थ—जीव कार्य है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव कार्य नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात है । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥३४-७९॥

( उपजाति )

**एकस्य भावो न तथा परस्य  
चित्ति द्वयोर्द्विविति पक्षपातौ ।**

**यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-**

**स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३५-८०॥**

अर्थ—जीव भाव है (अर्थात् भावरूप है) ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव भाव नहीं है (अर्थात् अभावरूप है) ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमे दो नयोके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥३५-८०॥

( उपजाति )

**एकस्य चैको न तथा परस्य  
चित्ति द्वयोर्द्विविति पक्षपातौ ।**

**यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-**

**स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३६-८१॥**

अर्थ—जीव एक है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव एक नहीं है (अनेक है) ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमे दो नयोके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥३६-८१॥

( उपजाति )

**एकस्य सांतो न तथा परस्य  
चित्ति द्वयोर्द्विविति पक्षपातौ ।**

**यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-**

**स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३७-८२॥**

अर्थ—जीव सान्त है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव सांत नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमे दो नयोके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥३७-८२॥

( उपजाति )

एकस्य नित्यो न तथा परस्य  
चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।  
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-  
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३८-८३॥

अर्थ—जीव नित्य है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव नित्य नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोके दो पक्षपात है । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥३८-८३॥

( उपजाति )

एकस्य वाच्यो न तथा परस्य  
चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।  
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-  
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३९-८४॥

अर्थ—जीव वाच्य (अर्थात् वचनसे कहा जा सके ऐसा) है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव वाच्य (वचनगोचर) नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है । इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोके दो पक्षपात है । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥३९-८४॥

( उपजाति )

एकस्य नाना न तथा परस्य  
चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।  
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-  
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४०-८५॥

अर्थ—जीव नानारूप है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव नानारूप नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोके दो पक्षपात है । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥४०-८५॥

( उपजाति )

एकस्य चेत्यो न तथा परस्य  
चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।  
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-  
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४१-८६॥

अर्थ—जीव चेत्य (जाननेयोग्य) है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव चेत्य नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात है । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥४१-८६॥

( उपजाति )

एकस्य दृश्यो न तथा परस्य  
चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।  
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-  
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४२-८७॥

अर्थ—जीव दृश्य ( देखनेयोग्य ) है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव दृश्य नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात है । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥४२-८७॥

( उपजाति )

एकस्य वेद्यो न तथा परस्य  
चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।  
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-  
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४३-८८॥

अर्थ—जीव वेद्य (वेदनेयोग्य-ज्ञात होनेयोग्य) है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव वेद्य नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात है । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥४३-८८॥

( उपजाति )

**एकस्य भातो न तथा परस्य  
चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।  
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-  
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४४-८६॥**

अर्थ—जीव भात (प्रकाशमान अर्थात् वर्तमान प्रत्यक्ष) है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव भात नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है उसे निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ॥४४-८६॥

भावार्थ—बद्ध अबद्ध, मूढ अमूढ, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्त्ता अकर्त्ता, भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल, कारण अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक, सात अनन्त, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना, चेत्य अचेत्य, दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य, भात अभात इत्यादि नयोंके पक्षपात है । जो पुरुष नयोंके कथनानुसार यथा योग्य विवक्षापूर्वक तत्त्वका—वस्तुस्वरूपका निर्णय करके नयोंके पक्षपातको छोड़ता है उसे चित्स्वरूप जीवका चित्स्वरूप अनुभव होता है ।

जीवमें अनेक साधारण धर्म हैं, परन्तु चित्स्वभाव उसका प्रगट अनुभवगोचर असाधारण धर्म है; इसलिये उसे मुख्य करके यहाँ जीवको चित्स्वरूप कहा है ॥४४-८६॥

( वसन्ततिलका )

**स्वेच्छासमुच्छलबनल्पविकल्पजाला-**

**मेवं व्यतीत्य महती नयपक्षकक्षाम् ।**

**अन्तर्बहिः समरसैकरसस्वभावं**

**स्वं भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम् ॥४५-६०॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“एव स तत्त्ववेदी एकं स्व भाव उपयाति” [ एवं ] पूर्वोक्त प्रकार [ सः ] सम्यग्दृष्टि जीव—[ तत्त्ववेदी ] शुद्धस्वरूपका अनुभवशील, [ एकं स्वं भावं उपयाति ] एक शुद्धस्वरूप चिद्रूप आत्माको आस्वादाता है । कैसा है आत्मा ? “अन्तर्बहिः समरसैकरसस्वभाव” [ अन्तः ] भीतर [ बहिः ] बाहर [ समरस ] तुल्यरूप ऐसी [ एकरस ] चेतनशक्ति ऐसा है [ स्वभावं ] सहजरूप जिसका ऐसा है ।



किं कृत्वा—क्या करके शुद्धस्वरूप पाता है ? “नयपक्षकक्षा व्यतीत्य” [ नय ] द्रव्याधिक पर्यायाधिक भेद, उनका [ पक्ष ] अंगीकार, उसकी [ कक्षा ] समूह है—अनन्त नयविकल्प है, उनको [ व्यतीत्य ] दूरसे ही छोड़कर । भावार्थ इस प्रकार है—अनुभव निविकल्प है । उस अनुभवके कालमे समस्त विकल्प छूट जाते है । ( नयपक्षकक्षा ) कैसी है ? “महती” जितने बाह्य-अभ्यन्तर बुद्धिके विकल्प उतने ही नयभेद ऐसी है । और कैसी है ? “स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाला” [ स्वेच्छा ] बिना ही उपजाए गये [ समुच्छलत् ] उपजते है ऐसे जो [ अनल्प ] अति बहु [ विकल्प ] निर्भेद वस्तुमे भेदकल्पना, उसका [ जालां ] समूह है जिसमे ऐसी है । कैसा है आत्मस्वरूप ? “अनुभूतिमात्र” अतीन्द्रिय सुखस्वरूप है ॥४५-९०॥

( रथोदता )

**इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलत्**

**पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभिः ।**

**यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं**

**कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥४६-९१॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तत् चिन्महः अस्मि” मै ऐसा ज्ञानपुङ्गरूप हूँ, “यस्य विस्फुरणं” जिसका प्रकाशमात्र होने पर “इदं कृत्स्नं इन्द्रजालं तत्क्षणं एव अस्यति” [ इदं ] विद्यमान अनेक नयविकल्प जो [ कृत्स्नं ] अति बहुत है [ इन्द्रजालं ] भूठा है पर विद्यमान है, वह [ तत्क्षणं ] जिस कालमे शुद्ध चिद्रूप अनुभव होता है उसी कालमे [ एव ] निश्चयमे [ अस्यति ] विनश जाता है । भावार्थ इस प्रकार है—जैसे सूर्यका प्रकाश होनेपर अन्धकार फट जाना है उसी प्रकार शुद्ध चैतन्यमात्रका अनुभव होनेपर यावत् समस्त विकल्प मिटते है ऐसी शुद्ध चैतन्य वस्तु है सो मेरा स्वभाव; अन्य समस्त कर्मकी उपाधि है । कैसा है इन्द्रजाल ? “पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभि उच्छलत्” [ पुष्कल ] अति बहुत [ उच्चल ] अति स्थूल ऐसी जो [ विकल्प ] भेद कल्पना ऐसी जो [ वीचिभिः ] तरगावली उस द्वारा [ उच्छलत् ] आकुलतारूप है इसलिए हेय है, उपादेय नहीं है ॥४६-९१॥

( स्वागता )

**चित्स्वभावभरभावितभावा-**

**भावभावपरमार्थतयैकम् ।**

## बन्धपद्धतिमपास्य समस्तां

चेतये समयसारमपारम् ॥४७-६२॥

खण्डान्वय महित अर्थ—“समयसार चेतये” शुद्ध चैतन्यका अनुभव करना कार्यसिद्धि है। कैसा है ? “अपार” अनादि-अनन्त है। और कैसा है ? “एक” शुद्धस्वरूप है। कैसा करके शुद्धस्वरूप है ? “चित्स्वभावभरभावितभावाभावभावपरमार्थतया एक” [चित्स्वभाव] जानगुरा, उसका [ भर ] अर्थग्रहण व्यापार उसके द्वारा [ भावित ] होते है [ भाव ] उत्पाद [ अभाव ] विनाश [ भाव ] ध्रौव्य ऐसे तीन भेद उनके द्वारा [ परमार्थतया एक ] साधा है एक अस्तित्व जिसका। कि कृत्वा—क्या करके ? “समस्ता बन्धपद्धति अपास्य” [ ममस्तां ] जितनी असम्ख्यात लोकमात्र भेदरूप है ऐसी जो [ बन्धपद्धति ] जानावरणादि कर्मबन्धरचना, उसका [ अपास्य ] ममत्व छोडकर। भावार्थ इस प्रकार है—शुद्धस्वरूपका अनुभव होनेपर जिस प्रकार नयविकल्प मिटते है उसी प्रकार समस्त कर्मके उदयमे होनेवाले जितने भाव है वे भी अवश्य मिटते है ऐसा स्वभाव है ॥४७-६२॥

( शाङ्ख्यलघुश्रुति )

आक्रामन्नविकल्पभावमचलं पक्षैर्नयानां विना

सारो यः समयस्य भाति निभूतैरास्वाद्यमानः स्वयम् ।

विज्ञानैकरसः स एष भगवान्पुण्यः पुराणः पुमान्

ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किञ्चनैकोऽप्ययम् ॥४८-६३॥

खण्डान्वय महित अर्थ—“य समयस्य सार भाति” [ यः ] जो [ समयस्य सारः ] शुद्धस्वरूप आत्मा [ भाति ] अपने शुद्ध स्वरूपरूप परिगमता है। जैसा परिगमता है वैसा कहते है—“नयाना पक्षै विना अचल अविकल्पभाव आक्रामन्” [ नयानां ] द्रव्याधिक पर्यायाधिक ऐसे जो अनेक विकल्प उनके [ पक्षैः विना ] पथापात विना किये [ अचलं ] त्रिकाल ही एक रूप है ऐसी [ अविकल्पभावं ] निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य वस्तु, उस रूप [ आक्रामन् ] जिस प्रकार शुद्धस्वरूप है उस प्रकार परिगमता हुआ। भावार्थ इस प्रकार है—जितना नय है उतना श्रुतज्ञान है, श्रुतज्ञान परोक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष है, इसलिए श्रुतज्ञान विना जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष अनुभवता है। इस कारण प्रत्यक्ष-रूपसे अनुभवता हुआ जो कोई शुद्धस्वरूप आत्मा “स विज्ञानैकरस” वही ज्ञानपुञ्ज वस्तु है ऐसा कहा जाता है। “स भगवान्” वही परब्रह्म परमेश्वर ऐसा कहा जाता है।

“एषः पुण्यः” वही पवित्र पदार्थ ऐसा भी कहा जाता है। “एषः पुराणः” वही अनादि-निधन वस्तु ऐसा भी कहा जाता है। “एषः पुमान्” वही अनन्त गुण विराजमान पुरुष ऐसा भी कहा जाता है। “अयं ज्ञानं दर्शन अपि” वही सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान ऐसा भी कहा जाता है। “अथवा कि” अथवा बहुत क्या कहे “अथ एकः यत् किञ्चन अपि” [ अयं एकः ] यह जो है शुद्ध चैतन्य वस्तुकी प्राप्ति [ यत् किञ्चन अपि ] उसे जो कुछ कहा जाय वही है जैसी भी कही जाय वैसी ही है। भावार्थ इस प्रकार है—शुद्ध चैतन्य-मात्र वस्तुप्रकाश निर्विकल्प एकरूप है, उसके नामकी महिमा की जाय सो अनन्त नाम कहे जाय तो उतने ही घटित हो जाय, वस्तु तो एकरूप है। कैसा है वह शुद्ध स्वरूप आत्मा ? “निश्चलैः स्वय आस्वाद्यमानः” निश्चल ज्ञानी पुरुषोंके द्वारा आप स्वय अनुभवशील है ॥४८-६३॥

( गार्हो लविक्रीडित )

दूरं भूरिविकल्पजालगहने भ्राम्यन्निजौघाच्च्युतो  
दूरादेव विवेकनिम्नगमनाज्ञीतो निजौघं बलात् ।  
विज्ञानैकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्माहरन्  
आत्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत् ॥४६-६४॥

खण्डान्वय महित अर्थ—“अय आत्मा गतानुगतता आयाति तोयवत्” [ अयं ] द्रव्यरूप विद्यमान है ऐसा [ आत्मा ] चेतन पदार्थ [ गतानुगततां ] स्वरूपसे नष्ट हुआ था सो फिर उस स्वरूपको प्राप्त हुआ. ऐसे भावको [ आयाति ] प्राप्त होता है। दृष्टात [ तोयवत् ] पानीके समान। क्या करके ? “आत्मान आत्मनि सदा आहरन्” आपको आपमे निरन्तर अनुभवता हुआ। कैसा है आत्मा ? “तदेकरसिना विज्ञानैकरसः” [ तदेकरसिनां ] अनुभवरसिक है जो पुरुष उनको [ विज्ञानैकरसः ] ज्ञानगुण आस्वादरूप है। कैसा हुआ है ? “निजौघात् च्युत ” [ निजौघात् ] जिस प्रकार पानीका शीत, स्वच्छ, द्रवत्व स्वभाव है, उस स्वभावसे कभी च्युत होता है, अपने स्वभावको छोड़ता है उसी प्रकार जीव द्रव्यका स्वभाव केवलज्ञान, केवलदर्शन, अतीन्द्रिय मुख इत्यादि अनन्त गुण-स्वरूप है, उससे [ च्युतः ] अनादिकालसे लेकर भ्रष्ट हुआ है, विभावरूप परिणामा है। भ्रष्टपना जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं—“दूर भूरिविकल्पजालगहने भ्राम्यन्”

[ दूरं ] अनादि कालसे लेकर [ भूरि ] अति बहुत हैं [ विकल्प ] कर्मजनित जितने भाव, उनमें आत्मरूप संस्कारबुद्धि, उसका [ जाल ] समूह, वही है [ गहने ] अटवीवन, उसमें [ भ्राम्यन् ] भ्रमता हुआ । भावार्थ इस प्रकार है—जिस प्रकार पानी अपने स्वादसे भ्रष्ट हुआ नाना वृक्षरूप परिणामता है उसी प्रकार जीव द्रव्य अपने शुद्ध स्वरूपसे भ्रष्ट हुआ नाना प्रकार चतुर्गति पर्यायरूप अपनेको आस्वादता है । हुआ तो कैसा हुआ ? “बलात् निजौषं नीत ” [ बलात् ] बलजोरीसे [ निजौषं ] अपने शुद्धस्वरूपलक्षण निष्कर्म अवस्था [ नीतः ] उसरूप परिणाम है । ऐसा जिस कारणसे हुआ वही कहते हैं—“दूरात् एव” अनन्त काल फिरते हुए प्राप्त हुआ ऐसा जो “विवेकनिम्नगमनात्” [ विवेक ] शुद्धस्वरूपका अनुभव, ऐसा जो [ निम्नगमनात् ] नीचा मार्ग, उस कारणसे जीव द्रव्यका जैसा स्वरूप था वैसा प्रगट हुआ । भावार्थ इस प्रकार है—जिस प्रकार पानी अपने स्वरूपसे भ्रष्ट होता है, काल निमित्त पाकर पुनः जलरूप होता है, नीचे मार्गसे ढलकता हुआ पुञ्जरूप भी होता है उसी प्रकार जीव द्रव्य अनादिसे स्वरूपसे भ्रष्ट है । शुद्ध-स्वरूपलक्षण सम्यक्त्व गुणके प्रगट होने पर मुक्त होता है, ऐसा द्रव्यका परिणाम है ॥४६-६८॥

( अनुष्टुप् )

**विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलम् ।**

**न जातु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥५०-६५॥**

खण्डान्वय महित अर्थ—“सविकल्पस्य कर्तृ-कर्मत्वं जातु न नश्यति” [सविकल्पस्य] कर्मजनित है जो अशुद्ध रागादि भाव, उनको आपरूप जानता है ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवके [ कर्तृ-कर्मत्वं ] कर्तापना कर्मपना [ जातु ] सर्व काल [ न नश्यति ] नहीं मिटता है । जिस कारणसे “परं विकल्पकः कर्ता केवल विकल्पः कर्म” [ परं ] एतावन्मात्र [ विकल्पकः ] विभाव मिथ्यात्व परिणामरूप परिणामा है जो जीव वह [ कर्ता ] जिस भावरूप परिणामा है उसका कर्ता अवश्य होता है । [ केवलं ] एतावन्मात्र [ विकल्पः ] मिथ्यात्व रागादिरूप अशुद्ध चेतनपरिणामको [ कर्म ] जीवकी करतूति जानना । भावार्थ इस प्रकार है—कोई ऐसा मानेगा कि जीव द्रव्य सदा ही अकर्ता है उसके प्रति ऐसा समाधान कि जितने काल तक जीवका सम्यक्त्व गुण प्रगट नहीं होता उतने काल तक जीव मिथ्यादृष्टि है । मिथ्यादृष्टि हो तो अशुद्ध परिणामका कर्ता होता है सो जब सम्यक्त्व

गुण प्रगट होता है तब अशुद्ध परिणाम मिटता है, तब अशुद्ध परिणामका कर्ता नहीं होता ॥५०-६५॥

( रघोदता )

**य करोति स करोति केवलं**

**यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम् ।**

**यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित्**

**यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् ॥५१-६६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—इस समय सम्यग्दृष्टि जीवका व मिथ्यादृष्टि जीवका परिणाम भेद बहुत है वही कहते हैं—“यः करोति स केवलं करोति” [ यः ] जो कोई मिथ्यादृष्टि जीव [ करोति ] मिथ्यात्व रागादि परिणामरूप परिणामता है [ स केवलं करोति ] वह वैसे ही परिणामका कर्ता होता है। “तु यः वेत्ति” जो कोई सम्यग्दृष्टि जीव शुद्धस्वरूपके अनुभवरूप परिणामता है “स केवलं वेत्ति” वह जीव उस ज्ञानपरिणामरूप है, इसलिए केवल ज्ञाता है, कर्ता नहीं है। “यः करोति स क्वचित् न वेत्ति” जो कोई मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्व रागादि रूप परिणामता है वह शुद्ध स्वरूपका अनुभवशील एक ही काल तो नहीं होता। “यः तु वेत्ति स क्वचित् न करोति” जो कोई सम्यग्दृष्टि जीव शुद्ध स्वरूपको अनुभवता है वह जीव मिथ्यात्व रागादि भावका परिणामनशील नहीं होता। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक्त्व मिथ्यात्वके परिणाम परस्पर विरुद्ध है। जिस प्रकार सूर्यके प्रकाश होते हुए अन्धकार नहीं होता, अन्धकार होते हुए प्रकाश नहीं होता उसीप्रकार सम्यक्त्व के परिणाम होते हुए मिथ्यात्व परिणामन नहीं होता। इस कारण एक कालमें एक परिणामरूप जीव द्रव्य परिणामता है, अतः उस परिणामका कर्ता होता है, इसलिए मिथ्यादृष्टि जीव कर्मका कर्ता, सम्यग्दृष्टि जीव कर्मका अकर्ता ऐसा सिद्धान्त सिद्ध हुआ ॥ ५१-६६ ॥

( इन्द्रवज्रा )

**ज्ञप्तिः करोतौ न हि भासतेऽन्तः**

**ज्ञप्तौ करोतिश्च न भासतेऽन्तः ।**

## ज्ञप्ति करोतिश्च ततो विभिन्ने ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥५२-६७॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अन्तः” सूक्ष्म द्रव्यस्वरूप दृष्टिसे “ज्ञप्तिः करोती न हि भासते” [ ज्ञप्तिः ] ज्ञानगुण [ करोती ] मिथ्यात्व रागादिरूप चिक्करणता इनमें [ न हि भासते ] एकत्वपना नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है—ससार अवस्था [ रूप ] मिथ्यादृष्टि जीवके ज्ञानगुण भी है और रागादि चिक्करणता भी है, कर्मबन्ध होता है सो रागादि सचिक्करणतासे होता है। ज्ञानगुणके परिणामनसे नहीं होता ऐसा वस्तुका स्वरूप है। तथा “जप्तौ करोति अन्तः न भासते” [ ज्ञप्तौ ] ज्ञानगुणमे [ करोतिः ] अशुद्धरागादि परिणामनका [ अन्तः न भासते ] अन्तरगमे एकत्वपना नहीं है। “ततः ज्ञप्तिः करोतिश्च विभिन्ने” [ ततः ] उस कारणसे [ ज्ञप्तिः ] ज्ञानगुण [ करोतिः ] अशुद्धपना [ विभिन्ने ] भिन्न-भिन्न है, एकरूप तो नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है—ज्ञान-गुण, अशुद्धपना देखने पर तो मिलेके समान दिखता है, परन्तु स्वरूपसे भिन्न-भिन्न है। विवरण—ज्ञानपना मात्र ज्ञानगुण है, उसमे गर्भित यही दिखता है। सचिक्करणपना सो रागादि है, उसमे अशुद्धपना कहा जाता है। “ततः स्थितं ज्ञाता न कर्ता” [ ततः ] इस कारणसे [ स्थितं ] ऐसा सिद्धान्त निष्पन्न हुआ—[ ज्ञाता ] सम्यग्दृष्टि पुरुष [ न कर्ता ] रागादि अशुद्ध परिणामका कर्ता नहीं होता। भावार्थ इस प्रकार है—द्रव्यके स्वभावसे ज्ञानगुण कर्ता नहीं है, अशुद्धपना कर्ता है। सो सम्यग्दृष्टिके अशुद्धपना नहीं है, इसलिए सम्यग्दृष्टि कर्ता नहीं है ॥ ५२-६७ ॥

( शाङ्खल्विक्रीडित )

कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तरि  
द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्मस्थितिः ।  
ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तं ति वस्तुस्थिति-  
नैपथ्ये वत नानटीति रभसा मोहस्तथाप्येष किम् ॥५३-६८॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“कर्ता कर्मणि नियतं नास्ति” [ कर्ता ] मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध परिणाम परिणत जीव [ कर्मणि ] ज्ञानावरणादि पुद्गलपिण्डमे [ नियतं ] निश्चयसे [ नास्ति ] नहीं है अर्थात् इन दोनोमे एक द्रव्यपना नहीं है। “तत् कर्म अपि कर्तरि नास्ति” [ तत् कर्म अपि ] वह भी ज्ञानावरणादि पुद्गलपिण्ड [ कर्तरि ] अशुद्ध

भाव परिणत मिथ्यादृष्टि जीवमें [ नास्ति ] नहीं है अर्थात् इन दोनोंमें एक द्रव्यपना नहीं है। “यदि द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते तदा कर्तुं-कर्मस्थितिः का” [ यदि ] जो [ द्वन्द्वं ] जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यके एकत्वपनेका [ विप्रतिषिध्यते ] निषेध किया [ तदा ] तो [ कर्तुं-कर्मस्थितिः का ] जीवकर्ता ज्ञानावरणादि कर्म ऐसी व्यवस्था कैसे घटती है, अपितु नहीं घटती है। “ज्ञाता ज्ञातरि” जीवद्रव्य अपने द्रव्यत्वसे एकत्वको लिए हुए है। “सदा” सर्व ही काल ऐसा वस्तुका स्वरूप है। “कर्म कर्मणि” ज्ञानावरणादि पुद्गल-पिण्ड अपने पुद्गलपिण्डरूप है। “इति वस्तुस्थितिः व्यक्ता” [ इति ] इसरूप [ वस्तुस्थितिः ] द्रव्यका स्वरूप [ व्यक्ता ] अनादिनिधनपने प्रगट है। “तथापि एषः मोहः नेपथ्ये वत कथं रभसा नानटीति” [ तथापि ] स्वरूप तो वस्तुका ऐसा है, जैसा कहा वैसा, फिर भी [ एषः मोहः ] यह है जो जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यकी एकत्वरूप बुद्धि, वह [ नेपथ्ये ] मिथ्यामार्गमें [ वत ] इस बातका अचम्भा है कि [ रभसा ] निरन्तर [ कथं नानटीति ] क्यों प्रवर्तती है। इस प्रकार बातका विचार क्यों है। भावार्थ इस प्रकार है—जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य भिन्न भिन्न है, मिथ्यात्वरूप परिणामा हुआ जीव एकरूप जानता है इसका घना अचम्भा है ॥ ५३-६८ ॥

आगे मिथ्यादृष्टि एकरूप जानो तथापि जीव पुद्गल भिन्न भिन्न हैं ऐसा कहते हैं—

( मन्दाक्रान्ता )

कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव  
ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि  
ज्ञानज्योतिर्ज्वलितमचलं व्यक्तमन्तस्तथोच्चै-  
श्चिच्छक्तीनां निकरभरतौऽत्यन्तगम्भीरमेतत् ॥५४-६६॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“एतत् ज्ञानज्योतिः तथा ज्वलितं” [एतत् ज्ञानज्योतिः] विद्यमान शुद्धचैतन्यप्रकाश [ तथा ज्वलितं ] जैसा था वैसा प्रगट हुआ। कैसा है ? “अचलं” स्वरूपसे चलायमान नहीं होता। और कैसा है ? “अन्त व्यक्तं” असख्यात प्रदेशोंमें प्रगट है। और कैसा है ? “उच्चैः अत्यन्तगम्भीरं” अनन्त से अनन्त शक्ति विराजमान है। किस कारण गम्भीर है ? “चिच्छक्तीनां निकरभरतं” [ चिच्छक्तीनां ] ज्ञान गुणके जितने निरंश भेद-भाग उनके

[ निकरभरतः ] अनन्तानन्त समूह होते हैं, उनसे अत्यन्त गम्भीर है। आगे ज्ञान-गुणका प्रकाश होने पर कैसे फलसिद्धि है वही कहते हैं—“यथा कर्ता कर्ता न भवति” [ यथा ] ज्ञानगुण ऐसा प्रगट हुआ। जैसे [ कर्ता ] अज्ञानपनाको लिए हुए जीव मिथ्यात्व परिणामका कर्ता होता था सो तो [ कर्ता न भवति ] ज्ञान प्रकाश होने पर अज्ञान भावका कर्ता नहीं होता। “कर्म अपि कर्म एव न”—[ कर्म अपि ] मिथ्यात्व रागादि विभाव कर्म भी [ कर्म एव न भवति ] रागादिरूप नहीं होता। “यथा च” जैसे कि “ज्ञानं ज्ञान भवति” जो शक्ति विभाव परिणामरूप परिणामी थी वही फिर अपने स्वभावरूप हुई। “यथा” जिस प्रकार “पुद्गलः अपि पुद्गलः” [ पुद्गलः अपि ] ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणाम था जो पुद्गल द्रव्य वही [ पुद्गलः ] कर्म-पर्यायको छोड़कर पुद्गल द्रव्य हुआ ॥५४-६६॥





## पुण्य-पाप-अधिकार



( द्रुतविलम्बित )

तदथ कर्म शुभाशुभभेदतो  
द्वितयतां गतमंक्यमुपानयन् ।  
ग्लपितनिर्भरमोहरजा अयं  
स्वयमुदेत्यवबोधसुधाप्लवः ॥१-१००॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अयं अवबोधः सुधाप्लवः स्वयं उदेति” [ अयं ]  
विद्यमान [ अवबोधः ] शुद्ध ज्ञानप्रकाश, वही है [ सुधाप्लवः ] चन्द्रमा [ स्वयं उदेति ]  
जैसा है वैसा अपने तेजपुञ्जके द्वारा प्रगट होता है। कैसा है ? “ग्लपितनिर्भरमोहरजा”  
[ ग्लपित ] दूर किया है [ निर्भर ] अतिशय सघन [ मोहरजा ] मिथ्यात्व अन्धकार  
जिसने, ऐसा है। भावार्थ इस प्रकार है—चन्द्रमाका उदय होने पर अन्धकार मिटता  
है, शुद्ध ज्ञान प्रकाश होने पर मिथ्यात्व परिणामन मिटता है। क्या करता हुआ ज्ञान  
चन्द्रमा उदय करता है—“अथ तन् कर्म ऐक्यं उपानयन्” [ अथ ] यहाँ से लेकर  
[ तन् कर्म ] रागादि अशुद्ध चेतना परिणामरूप अथवा जानावरणादि पुद्गल पिण्डरूप  
कर्म, इनका [ ऐक्यं उपानयन् ] एकत्वपना साधता हुआ। कैसा है कर्म ? “द्वितयतां  
गतं” दोपना करता है। कैसा दोपना ? “शुभाशुभभेदतः” [ शुभ ] भला [ अशुभ ] बुरा  
ऐसा [ भेदतः ] भेद करता है। भावार्थ इस प्रकार है—किसी मिथ्यादृष्टि जीवका  
अभिप्राय ऐसा है जो दया, व्रत, तप, शील, सयम आदिसे देहरूप लेकर जितनी है शुभ  
क्रिया और शुभ क्रियाके अनुसार है उसरूप जो शुभोपयोगपरिणाम तथा उन परिणामोंको  
निमित्त कर बाँधता है जो माताकर्म आदिसे लेकर पुण्यरूप पुद्गलपिण्ड, वे भले है,  
जीवको सुखकारी है। हिंसा विषय कपायरूप जितनी है क्रिया, उस क्रियाके अनुसार  
अशुभोपयोगरूप सक्लेश परिणाम, उस परिणामके निमित्त कर होता है जो असानाकर्म

आदिसे लेकर पाप बन्धरूप पुद्गलपिण्ड, वे बुरे हैं, जीवको दुःखकर्ता हैं । ऐसा कोई जीव मानता है । उसके प्रति समाधान ऐसा कि जैसे अशुभ कर्म जीवको दुःख करता है उसी प्रकार शुभ कर्म भी जीवको दुःख करता है । कर्ममें तो भला कोई नहीं है । अपने मोहको लिये हुए मिथ्यादृष्टि जीव कर्मको भला करके मानता है । ऐसी भेद प्रतीति शुद्ध स्वरूपका अनुभव हुआ तबसे पायी जाती है ॥१-१००॥

ऐसा जो कहा कि कर्म एकरूप है उसके प्रति दृष्टात कहते हैं—

( मन्दाक्रान्ता )

**एको दूरात्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमाना-**

**दन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तयैव ।**

**द्वावप्येतौ युगपदुदराभिर्गतौ शूद्रिकायाः**

**शूद्रौ साक्षादपि च चरतो जातिभेदभ्रमेण ॥२-१०१॥**

खण्डान्वय महित अर्थ—“द्वौ अपि एतौ साक्षात् शूद्रौ” [ द्वौ अपि ] विद्यमान दोनों [ एतौ ] ऐसे हैं—[ साक्षात् ] नि सन्देहपने [ शूद्रौ ] दोनो चंडाल है । कैसा होनेमे ? “शूद्रिकाया उदरात् युगपत् निर्गतौ”—जिस कारगमे [ शूद्रिकायाः उदरात् ] चाण्डालीके पेटसे [ युगपत् निर्गतौ ] एक ही बार जन्मे है । भावार्थ इस प्रकार है—किसी चाण्डालीने युगल दो पुत्रोको एक ही बार जन्मा । कर्मके योगसे एक पुत्र ब्राह्मणका प्रतिपाल हुआ सो तो ब्राह्मणकी क्रिया करने लगा । दूसरा पुत्र चाण्डालीका प्रतिपाल हुआ सो तो चाण्डालकी क्रिया करने लगा । अब जो दोनोके वशकी उत्पत्ति विचारिये तो दोनो चाण्डाल है । उसी प्रकार कोई जीव दया, व्रत, शील, सयममें मग्न है, उनके शुभ कर्मबन्ध भी होता है । कोई जीव हिंसा विषय कपाय मे मग्न है, उनके पापबन्ध भी होता है । सो दोनो अपनी अपनी क्रियामे मग्न है । मिथ्यादृष्टिसे ऐसा मानते है कि शुभ कर्म भला, अशुभ कर्म बुरा । सो ऐसे दोनो जीव मिथ्यादृष्टि है, दोनो जीव कर्मबन्ध करणशील है । कैसे है वे ? “अथ च जातिभेदभ्रमेण चरतः” [ अथ च ] दोनों चाण्डाल है तो भी [ जातिभेद ] ब्राह्मण शूद्र ऐसा वर्णभेद उमरूप है [ भ्रमेण ] परमार्थ शून्य अभिमान-मात्र, उस रूपमे [ चरतः ] प्रवर्तते है । कैसा है जातिभेदभ्रम ? “एक मदिरा दूरात् त्यजति” [ एकः ] चाण्डालीके पेटसे उपजा है पर प्रतिपाल ब्राह्मणके घर हुआ है ऐसा जो है वह [ मदिरां ] मुगपानको [ दूरात् न्यजति ] अत्यन्त त्याग करता है, छूता भी

नहीं है, नाम भी नहीं लेता है ऐसा विरक्त है। किस कारण से ? “ब्राह्मणत्वाभिमानात्” [ ब्राह्मणत्व ] अहं ब्राह्मणः ऐसा संस्कार, उसका [ अभिमानात् ] पक्षपातसे। भावार्थ इस प्रकार है—शूद्रिके पेटसे उपजा हूँ ऐसे मर्मको नहीं जानता है, मैं ब्राह्मण, मेरे कुलमे मदिरा निषिद्ध है’ ऐसा जानकर मदिराको छोडा है, सो भी विचार करने पर, चाण्डाल है, उसी प्रकार कोई जीव शुभोपयोगी होता हुआ यतिक्रियामे मग्न होता हुआ—शुद्धोपयोगको नहीं जानता, केवल यतिक्रियामात्र मग्न है, वह जीव ऐसा मानता है कि मैं तो मुनीश्वर, हमको विषय-कषाय सामग्री निषिद्ध है। ऐसा जानकर विषय-कषाय-सामग्रीको छोडता है, आपको धन्यपना मानता है, मोक्षमार्ग मानता है. सो विचार करने पर ऐसा जीव मिथ्यादृष्टि है, कर्मबन्धको करता है, कोई भलापन तो नहीं है। “अन्यः तथा एव नित्यं स्नाति” [ अन्यः ] शूद्रिके पेटसे उपजा है, शूद्रका प्रतिपाल हुआ है, ऐसा जीव [ तथा ] मदिरासे [ एव ] अवश्य ही [ नित्यं स्नाति ] नित्य अति मग्न हो पीता है। क्या जानकर पीता हूँ ? “स्वयं शूद्रः इति” ‘मै शूद्र, हमारे कुल मदिरा योग्य है,’ ऐसा जानकर। ऐसा जीव विचार करने पर चाण्डाल है। भावार्थ इस प्रकार है—कोई मिथ्यादृष्टि जीव अशुभोपयोगी है, गृहस्थ क्रियामें रत है—‘हम गृहस्थ, मेरे विषय-कषाय क्रिया योग्य है’ ऐसा जानकर विषय-कषाय सेवता है सो भी जीव मिथ्यादृष्टि है, कर्मबन्ध करता है, क्योंकि कर्मजनित पर्यायमात्रको आपरूप जानता है, जीवके शुद्ध स्वरूपका अनुभव नहीं है। १२-१०१।

( उपजाति )

हेतुस्वभावानुभवाश्रयणां  
सदाप्यभेदान्न हि कर्मभेदः ।  
तद्बन्धमार्गाश्रितमेकमिष्टं  
स्वयं समस्तं खलु बन्धहेतुः ॥३-१०२॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—यहां कोई मतान्तररूप होकर आशंका करता है—ऐसा कहता है कि कर्मभेद है—कोई कर्म शुभ है, कोई कर्म अशुभ है। किस कारणसे ? हेतुभेद है, स्वभावभेद है, अनुभवभेद है, आश्रय भिन्न है—इन चार भेदोके कारण कर्म-भेद है। वहाँ हेतु अर्थात् कारणभेद है। विवरण—सक्लेशपरिणामसे अशुभ कर्म बंधता है, विशुद्धपरिणामसे शुभबन्ध होता है। स्वभाव भेद अर्थात् प्रकृतिभेद है।

विवरणा—अशुभकर्मसम्बन्धी प्रकृति भिन्न है—पुद्गल कर्मवर्गणा भिन्न है, शुभकर्मसम्बन्धी प्रकृति भिन्न है—पुद्गलकर्म वर्गणा भी भिन्न है। अनुभव अर्थात् कर्मका रस, सो भी रसभेद है। विवरणा—अशुभ कर्मके उदयमे जीव नारकी होता है अथवा तिर्यञ्च होता है अथवा हीन मनुष्य होता है, वहा अनिष्ट विषयसंयोगरूप दुःखको पाता है, अशुभ कर्मका स्वाद ऐसा है। शुभ कर्मके उदयमे जीव देव होता है अथवा उत्तम मनुष्य होता है, वहा इष्ट विषयसंयोगरूप सुखको पाता है; शुभ कर्मका स्वाद ऐसा है। इसलिए स्वादभेद भी है। आश्रय अर्थात् फलकी निष्पत्ति ऐसा भी भेद है। विवरणा—अशुभ कर्मके उदयमे हीन पर्याय होती है, वहाँ अधिक संक्लेश होता है, उससे संसारकी परिपाटी होती है, शुभ कर्मके उदयमे उत्तम पर्याय होती है, वहाँ धर्मकी मामग्री मिलती है, उस धर्मकी सामग्रीसे जीव मोक्ष जाता है, इसलिए मोक्षकी परिपाटी शुभ कर्म है—ऐसा कोई मिथ्यावादी मानता है। उसके प्रति उत्तर ऐसा जो “कर्मभेद. न हि” कोई कर्म शुभरूप, कोई कर्म अशुभरूप—ऐसा भेद तो नहीं है। किस कारणसे ? “हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणा सदा अपि अभेदात्” [ हेतु ] कर्मबन्धके कारण विद्युद्धपरिणाम संक्लेशपरिणाम ऐसे दोनों परिणाम अशुद्धरूप हैं, अज्ञानरूप है, इससे कारणभेद भी नहीं है, कारण एक ही है। [ स्वभाव ] शुभकर्म अशुभकर्म ऐसे दोनों कर्म पुद्गल पिण्डरूप है, इस कारण एक ही स्वभाव है, स्वभावभेद तो नहीं। ( अनुभव ) रस भी तो एक ही है, रसभेद तो नहीं। विवरणा—शुभ कर्मके उदयसे जीव बँधा है, सुखी है, अशुभ कर्मके उदयसे जीव बँधा है, दुखी है, विशेष तो कुछ नहीं। [ आश्रय ] फलकी निष्पत्ति, वह भी एक ही है, विशेष तो कुछ नहीं। विवरणा—शुभ कर्मके उदयससार, त्यो ही अशुभ कर्मके उदय ससार, विशेष तो कुछ नहीं। इससे ऐसा अर्थ निश्चित हुआ कि कोई कर्म भला, कोई कर्म बुरा ऐसा तो नहीं, सब ही कर्म दुःखरूप है। ‘तत् एक बन्धमार्गाश्रित इष्ट’ [ तत् ] कर्म [ एकं ] नि सन्देह [ बन्धमार्गाश्रित ] बन्धको करता है, [ इष्ट ] गणधरदेवने ऐसा माना है। किस कारणसे ? जिस कारण “खलु ममस्त स्वय बन्धहेतु.” [ खलु ] निश्चयसे [ ममस्त ] सब कर्म जाति [ स्वयं बन्धहेतुः ] आप भी बन्धरूप है। भावार्थ इम प्रकार है—आप मुक्तस्वरूप होवे तो कदाचित् मुक्तिको करे, कर्मजाति आप स्वय बन्ध पर्यायरूप पुद्गलपिण्ड बँधी है सो मुक्ति कैसे करेगी। इससे कर्म सर्वथा बन्धमार्ग है ॥ ३-१०२ ॥

( स्वागता )

**कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्****बन्धसाधनमुशन्त्यविशेषात् ।****तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं****ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥४-१०३॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“यत् सर्वविदः सर्व अपि कर्म अविशेषात् बंधसाधनं उशन्ति” [ यत् ] जिस कारण [ सर्वविदः ] सर्वज्ञ वीतराग [ सर्व अपि कर्म ] जितनी शुभरूप व्रत, संयम, तप, शील, उपवास इत्यादि क्रिया अथवा विषय-कषाय, असंयम इत्यादि क्रिया उसको [ अविशेषात् ] एकसी दृष्टिकर [ बन्धसाधनं उशन्ति ] बन्धका कारण कहते हैं, भावार्थ इस प्रकार है—जैसे जीवको अशुभ क्रिया करते हुए बंध होता है वैसे ही शुभ क्रिया करते हुए जीवको बन्ध होता है, बन्धनमें तो विशेष कुछ नहीं; “तेन तत् सर्व अपि प्रतिषिद्धं” [ तेन ] इस कारण [ तत् ] कर्म [ सर्व अपि ] शुभरूप अथवा अशुभरूप, (उनमें) [ प्रतिषिद्धं ] कोई मिथ्यादृष्टि जीव शुभ क्रियाको मोक्षमार्ग जानकर पक्ष करता है सो निषेध किया, ऐसा भाव स्थापित किया कि मोक्षमार्ग कोई कर्म नहीं। “एव ज्ञानं शिवहेतु विहितं” [ एव ज्ञानं ] निश्चयसे शुद्धस्वरूप अनुभव [ शिवहेतुः ] मोक्षमार्ग है, [ विहितं ] अनादि परम्परा ऐसा उपदेश है ॥४-१०३॥

( शिखरिणी )

**निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल****प्रवृत्ते नैष्कर्म्ये न खलु मुनयः संत्यशरणाः ।****तवा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं****स्वयं विन्बन्त्येते परमममृतं तत्र निरताः ॥५-१०४॥**

खण्डान्वय सहित अर्थः—यहाँ कोई प्रश्न करता है कि शुभ क्रिया तथा अशुभ क्रिया सर्वं निषिद्ध की, मुनीश्वर किसे भ्रवलम्बते हैं ? उसका ऐसा समाधान किया जाता है—“सर्वस्मिन् सुकृत-दुरिते कर्मणि निषिद्धे” [ सर्वस्मिन् ] ग्रामूल चूल [ सुकृत ] व्रत संयम तपरूप क्रिया अथवा शुभोपयोगरूप परिणाम [ दुरिते ] विषय-कषायरूप क्रिया अथवा अशुभोपयोगरूप सबलेश परिणाम, ऐसी [ कर्मणि ] कर्तृतिरूप [ निषिद्धे ] मोक्षमार्ग नहीं ऐसा मानते हुए, “किल नैष्कर्म्ये प्रवृत्ते” [ किल ] निश्चयसे [ नैष्कर्म्ये ]

सूक्ष्म स्थूलरूप अन्तर्जल्पबहिर्जल्परूप समस्त विकल्पोसे रहित निर्विकल्प शुद्ध चैतन्यमात्र-प्रकाशरूप वस्तु मोक्षमार्ग ऐसा [ प्रबुद्धे ] एकरूप ऐसा ही है ऐसा निश्चयसे ठहराते हुए, “खलु मुनयः अशरणा न सन्ति” [ खलु ] निश्चयसे [ मनुयः ] संसार शरीर भोगसे विरक्त होकर धरा है यतिपना जिन्होने, वे [ अशरणाः न सन्ति ] आलम्बनके बिना शून्य मन ऐसे तो नहीं है। तो कैसा है ? “तदा हि एषा ज्ञान स्वय शरण” [ तदा ] जिस कालमे ऐसी प्रतीति आती है कि अशुभ क्रिया मोक्षमार्ग नहीं, शुभ क्रिया भी मोक्षमार्ग नहीं, उस कालमे [ हि ] निश्चयसे [ एषां ] मुनीश्वरोंको [ ज्ञानं स्वयं शरणं ] शुद्ध स्वरूपका अनुभव सहज ही आलम्बन है। कैसा है ज्ञान ? “ज्ञाने प्रतिचरित” जो बाह्य-रूप परिणामा था वही अपने शुद्धस्वरूप परिणामा है। शुद्ध स्वरूपका अनुभव होने पर कुछ विशेष भी है, कहते है—“एते तत्र निरताः परमं अमृतं विन्दन्ति” [ एते ] विद्यमान जो सम्यग्दृष्टि मुनीश्वर [ तत्र ] शुद्ध स्वरूपके अनुभवमे [ निरताः ] मग्न है वे [ परमं अमृतं ] सर्वोत्कृष्ट अतीन्द्रिय मुखको [ विन्दन्ति ] आस्वादेते है। भावार्थ इस प्रकार है—शुभ अशुभ क्रियामे मग्न होता हुआ जीव विकल्पी है, इससे दुखी है। क्रियामस्कार छूटकर शुद्धस्वरूपका अनुभव होते ही जीव निर्विकल्प है, इसमे मुखी है ॥५-१०४॥

( शिखरिणी )

यदेतद् ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनं  
शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति ।  
अतोऽन्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत्  
ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम् ॥६-१०५॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“यत् एतत् ज्ञानात्मा भवनं ध्रुवमचलमाभाति अयं शिवस्य हेतुः” [ यत् एतत् ] जो कोई [ज्ञानात्मा] चेतनालक्षण ऐसा [भवनं] सत्त्वस्वरूप वस्तु [ ध्रुवं अचलं ] निश्चयसे स्थिर होकर [ आभाति ] प्रत्यक्षरूपसे स्वरूपका आस्वादक कहा है [ अयं ] यही [ शिवस्य हेतुः ] मोक्षका मार्ग है। किस कारणसे ? “यतः स्वयमपि यत् शिव इति” [यतः] जिस कारण [ स्वयं अपि ] अपने आप भी [तच्छिव इति] मोक्षरूप है। भावार्थ इस प्रकार है— जीवका स्वरूप सदा कर्ममे मुक्त है, उसको अनुभवने पर मोक्ष होता है ऐसा घटता है, विरुद्ध तो नहीं। “अतः अन्यत् बन्धस्य हेतुः” [ अतः ] शुद्धस्वरूपका अनुभव मोक्षमार्ग है, इसके बिना [ अन्यत् ] जो कुछ है शुभ

क्रियारूप, अशुभ क्रियारूप अनेक प्रकार [ बन्धस्य हेतुः ] वह सब बन्धका मार्ग है, “यतः स्वयं अपि बन्ध इति” [ यतः ] जिस कारण [ स्वयं अपि ] अपने आप भी [ बन्ध इति ] सर्व ही बन्धरूप है । “ततः तत् ज्ञानात्मा स्वं भवनं विहित हि अनुभूतिः” [ ततः ] तिस कारण [ तत् ] पूर्वोक्त [ ज्ञानात्मा ] चेतनालक्षण, ऐसा है [ स्वं भवनं ] अपना जीवका सत्त्व [ विहितम् ] मोक्षमार्ग है, [ हि ] निश्चयसे [ अनुभूतिः ] प्रत्यक्षपने आस्वाद किया होता हुआ ॥६-१०५॥

( प्रनुष्टप् )

**वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा ।**

**एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥७-१०६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ज्ञानस्वभावेन वृत्तं तत् तत् मोक्षहेतुः एव” [ ज्ञान ] शुद्ध वस्तुमात्र, उसकी [ स्वभावेन ] स्वरूपनिष्पत्ति, उससे जो [ वृत्तं ] स्वरूपाचरण चारित्र [ तत् तत् मोक्षहेतुः ] वही वही मोक्षमार्ग है; [ एव ] इस बातमें सन्देह नहीं । भावार्थ इस प्रकार है—कोई जानेगा कि स्वरूपाचरण चारित्र ऐसा कहा जाता है जो आत्माके शुद्ध स्वरूपको विचारे अथवा चिन्तवे अथवा एकाग्ररूपसे मग्न होकर अनुभवे । सो ऐसा तो नहीं, उसके करने पर बन्ध होता है, क्योंकि ऐसा तो स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है । तो स्वरूपाचरण चारित्र कैसा है ? जिस प्रकार पत्रा [ सुवर्णपत्र ] पकानेसे सुवर्णमेंकी कालिमा जाती है, सुवर्ण शुद्ध होता है, उसी प्रकार जीव द्रव्यके अनादिसे अशुद्ध चेतनारूप रागादि परिणमन था, वह जाता है, शुद्ध स्वरूपमात्र शुद्धचेतनारूप जीवद्रव्य परिणमता है, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र कहा जाता है, ऐसा मोक्षमार्ग है । कुछ विशेष—वह शुद्धपरिणमन जहा तक सर्वोत्कृष्ट होता है वहां तक शुद्धपनाके अनन्त भेद है । वे भेद जातिभेदकी अपेक्षा तो नहीं । बहुत शुद्धता, उससे बहुत, उससे बहुत ऐसा थोडा-बहुतरूप भेद है । भावार्थ इस प्रकार है—जितनी शुद्धता होती है उतनी ही मोक्षका कारण है । जब सर्वथा शुद्धता होती है तब सकल कर्मक्षय-लक्षण मोक्षपदकी प्राप्ति होती है । किस कारण ? “सदा ज्ञानस्य भवने एकद्रव्यस्वभावत्वात्” [ सदा ] तीनो कालोंमें ही [ ज्ञानस्य भवने ] ऐसा है जो शुद्धचेतना-परिणमनरूप स्वरूपाचरणचारित्र वह आत्मद्रव्यका निजस्वरूप है, शुभाशुभ क्रियाके समान उपाधिरूप नहीं है, इस कारण [ एकद्रव्यस्वभावत्वात् ] एक जीवद्रव्यस्वरूप है । भावार्थ इस प्रकार है—कि जो गुण-गुणीरूप भेद करते हैं तो ऐसा भेद होता है कि

जीवका शुद्धपना गुण; जो वस्तुमात्र अनुभव करते हैं तो ऐसा भेद भी मिटता है, क्योंकि शुद्धपना तथा जीवद्रव्य वस्तु तो एक सत्ता है, ऐसा शुद्धपना मोक्षकारण है, इसके बिना जो कुछ करतूतिरूप है वह समस्त बन्धका कारण है ॥७-१०६॥

( अनुष्टुप् )

**वृत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि ।**

**द्रव्यान्तरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्न कर्म तत् ॥८-१०७॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“कर्मस्वभावेन वृत्त ज्ञानस्य भवन न हि” [ कर्म-स्वभावेन ] जितना शुभ क्रियारूप अथवा अशुभ क्रियारूप आचरणगुणक्षण चारित्र उसके स्वभावसे अर्थात् उसरूप जो [ वृत्त ] चारित्र वह [ ज्ञानस्य ] शुद्ध चैतन्यवस्तुका [ भवनं ] शुद्धस्वरूपपरिणामन [ न हि ] नहीं होता ऐसा निश्चय है । भावार्थ इस प्रकार है—जितना शुभ-अशुभक्रियारूप आचरण अथवा बाह्यरूप वक्तव्य अथवा सूक्ष्म अन्तरंगरूप चिन्तवन अभिलाष स्मरण इत्यादि समस्त अशुद्धत्वरूप परिणामन है, शुद्ध परिणामन नहीं; इसलिए बन्धका कारण है, मोक्षका कारण नहीं है । इस कारण जिस प्रकार कामलाका नाहर ( सिंह ) कहनेके लिए नाहर है उसी प्रकार आचरणरूप ( क्रियारूप ) चारित्र कहनेके लिए चारित्र है, परन्तु चारित्र नहीं है, नि सन्देहरूपसे ऐसा जानो । “तत् कर्म मोक्षहेतु न” [ तत् ] इम कारण [ कर्म ] बाह्य-आभ्यन्तररूप सूक्ष्म-स्थूलरूप जितना आचरणरूप ( चारित्र ) है वह [ मोक्षहेतुः न ] कर्मक्षपरणका कारण नहीं, बन्धका कारण है । किस कारणसे ? “द्रव्यान्तरस्वभावत्वात्” [ द्रव्यान्तर ] आत्मद्रव्यसे भिन्न पुद्गलद्रव्य, उसके [ स्वभावत्वात् ] स्वभावरूप होनेसे, अर्थात् यह सब पुद्गल द्रव्यके उदयका कार्य है, जीवका स्वरूप नहीं है । भावार्थ इम प्रकार है—जो शुभ-अशुभ क्रिया, सूक्ष्म-स्थूल अन्तर्जल्प बहिर्जल्परूप जितना विकल्परूप आचरण है वह सब कर्मका उदयरूप परिणामन है, जीवका शुद्ध परिणामन नहीं है, इसलिए समस्त ही आचरण मोक्षका कारण नहीं है, बन्धका कारण है ॥ ८-१०७ ॥

( अनुष्टुप् )

**मोक्षहेतुतिरोधानाद्बन्धत्वात्स्वयमेव च ।**

**मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्तन्निषिध्यते ॥९-१०८॥**



खण्डान्वय सहित अर्थ—यहाँ कोई जानेगा कि शुभ-अशुभ क्रियारूप जो आचरणरूप चारित्र्य है सो करनेयोग्य नहीं है उसी प्रकार वर्जन करनेयोग्य भी नहीं है ? उत्तर इस प्रकार है—वर्जन करने योग्य है । कारण कि व्यवहार चारित्र्य होता हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है, इसलिए विषय-कषायके समान क्रियारूप चारित्र्य निषिद्ध है ऐसा कहते हैं—“तत् निषिध्यते” [ तत् ] शुभ-अशुभरूप करतूति [ निषिध्यते ] तजनीय है । कैसा होनेसे निषिद्ध है ? “मोक्षहेतुतिरोधानात्” [ मोक्ष ] निष्कर्म अवस्था, उसका [ हेतु ] कारण है जीवका शुद्धरूप परिणमन, उसका [ तिरोधानात् ] घातक ऐसा है । इसलिए करतूति निषिद्ध है । और कैसा होनेसे ? “स्वयं एव बन्धत्वात्” अपने आप भी बन्धरूप है । भावार्थ इस प्रकार है—जितना शुभ अशुभ आचरण है वह सब कर्मके उदयके कारण अशुद्धरूप है, इसलिए त्याज्य है, उपादेय नहीं है । और कैसा होनेसे ? “मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्” [ मोक्ष ] सकल कर्मक्षयलक्षण परमात्म-पद, उसका [ हेतु ] जीवका गुण जो शुद्ध चेतनारूप परिणमन उसका [ तिरोधायि ] घातनशील ऐसा है [ भावत्वात् ] सहज लक्षण जिसका, ऐसा है इसलिए कर्म निषिद्ध है । भावार्थ इस प्रकार है—जिस प्रकार पानी स्वरूपसे निर्मल है, कीचड़के संयोगसे मैला होता है—पानीका शुद्धपना घाता जाता है, उसी प्रकार जीवद्रव्य स्वभावसे स्वच्छस्वरूप है—केवलज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्यरूप है, वह स्वच्छपना विभावरूप अशुद्ध चेतनालक्षण मिथ्यात्व विषय-कषायरूप परिणामके कारण मिटा है । अशुद्ध परिणामका ऐसा ही स्वभाव है जो शुद्धपनाको मेटे, इसलिए समस्त कर्म निषिद्ध है । भावार्थ इस प्रकार है—कोई जीव क्रियारूप यतिपना पाते है, उस यतिपनेमें मग्न होते हैं—जो ‘हमने मोक्षमार्ग पाया, जो कुछ करना था सो किया,’ सो उन जीवोको समझाते है कि यतिपनाका भरोसा छोड़कर शुद्ध चैतन्य स्वरूपको अनुभवो ॥६-१०८॥

( शाङ्ख्यलविक्रीडिन )

संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षार्थिना

संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा ।

सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवानामोक्षस्य हेतुर्भवन्

नेष्कर्म्यप्रतिबद्धमुद्धतरसं ज्ञानं स्वयं धावति ॥१०-१०६॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“मोक्षार्थिना तत् इदं समस्तं अपि कर्म संन्यस्तव्यं” [ मोक्षार्थिना ] सकलकर्मक्षयलक्षण मोक्ष-अतीन्द्रिय पद, उसमें जो अनन्त

सुख उसको उपादेय अनुभवता है ऐसा है जो कोई जीव उसके द्वारा [ तत् इदं ] वही कर्म जो पहले ही कहा था [ समस्तं अपि ] जितना शुभ क्रियारूप अशुभ क्रियारूप, अन्नजल्परूप बहिर्जल्परूप इत्यादि करतूतिरूप [ कर्म ] क्रिया अथवा ज्ञानावरणादि पुद्गलका पिण्ड, अशुद्ध रागादिरूप जीवके परिणाम—ऐसा कर्म [ संन्यस्तव्यं ] जीवस्वरूपका घातक है ऐसा जानकर आमूलचूल त्याज्य है। “तत्र संन्यस्ते सति” उस समस्त ही कर्मका त्याग होनेपर “पुण्यस्य वा पापस्य वा का कथा” पुण्यका पापका कौन भेद रहा ? भावार्थ इस प्रकार है—समस्त कर्मजाति हेय है, पुण्य-पापके विवरणकी क्या बात रही। “किल” ऐसी बात निश्चयसे जानो, पुण्यकर्म भला ऐसी भ्रान्ति मत करो। “ज्ञानं मोक्षस्य हेतु भवन् स्वय धावति” [ ज्ञानं ] आत्माका शुद्ध चेतनारूप परिणामन [ मोक्षस्य ] सकल कर्मक्षयलक्षण ऐसी अवस्थाका [ हेतुः भवन् ] कारण होता हुआ [ स्वयं धावति ] स्वयं दौडता है ऐसा सहज है ! भावार्थ इस प्रकार है—जैसे सूर्यका प्रकाश होनेपर सहज ही अन्धकार मिटता है वैसे ही जीवके शुद्ध चेतनारूप परिणामने पर सहज ही समस्त विकल्प मिटते हैं, ज्ञानावरणादि कर्म अकर्म-रूप परिणामते हैं, रागादि अशुद्ध परिणाम मिटता है। कैसा है ज्ञान ? “नैककर्मप्रतिबद्ध” निर्विकल्पस्वरूप है। और कैसा है ? “उद्धतरस” प्रगटरूपसे चैतन्यस्वरूप है। कैसा होनेसे मोक्षका कारण होता है ? “सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनात्” [ सम्यक्त्वं ] जीवका गुण सम्यग्दर्शन [ आदि ] सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र ऐसे हैं जो [ निजस्वभाव ] जीवके क्षायिक गुण उनके [ भवनात् ] प्रगटपनेके कारण। भावार्थ इस प्रकार है—कोई आशंका करेगा कि मोक्षमार्ग सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनका मिला हुआ है, यहा ज्ञानमात्र मोक्षमार्ग कहा सो क्यों कहा ? उसका समाधान ऐसा है—शुद्धस्वरूप ज्ञानमें सम्यग्दर्शन सम्यक्चारित्र सहज ही गर्भित है, इसलिए दोष तो कुछ नहीं, गुण है ॥१०-१०६॥

( शार्दूललिपिःश्रीडित )

यावत्पाकमुपैति कर्मविरतिर्ज्ञानस्य सम्यङ् न सा  
 कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः ।  
 किंत्वन्नापि समुल्लसत्यवशतो यत्कर्म बन्धाय तन्  
 मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः ॥११-११०॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—यहां कोई भ्रान्ति करेगा जो मिथ्यादृष्टिका यतिपना क्रियारूप है, सो बन्धका कारण है सम्यग्दृष्टिका है, जो यतिपना शुभ क्रियारूप, सो मोक्षका कारण है; कारण कि अनुभवज्ञान तथा दया, व्रत, तप, सयमरूप क्रिया दोनों मिलकर ज्ञानावरणादि कर्मका क्षय करते हैं। ऐसी प्रतीति कितने ही अज्ञानी जीव करते हैं। वहा समाधान ऐसा—जितनी शुभ अशुभ क्रिया, बहिर्जल्परूप विकल्प अथवा अन्तर्जल्परूप अथवा द्रव्योंका विचाररूप अथवा शुद्ध स्वरूपका विचार इत्यादि समस्त कर्मबन्धका कारण है। ऐसी क्रियाका ऐसा ही स्वभाव है। सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टिका ऐसा भेद तो कुछ नहीं। ऐसी करतूतिसे ऐसा बन्ध है। शुद्धस्वरूप परिणामनमात्रसे मोक्ष है। यद्यपि एक ही कालमें सम्यग्दृष्टि जीवके शुद्ध ज्ञान भी है, क्रियारूप परिणाम भी है। तथापि क्रियारूप है जो परिणाम उससे अकेला बन्ध होता है, कर्मका क्षय एक अशमात्र भी नहीं होता है। ऐसा वस्तुका स्वरूप, सहारा किसका ? उसी समय शुद्ध-स्वरूप अनुभव ज्ञान भी है। उसी समय ज्ञानसे कर्मक्षय होता है, एक अशमात्र भी बंध नहीं होता है। वस्तुका ऐसा ही स्वरूप है। ऐसा जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं—“तावत्कर्मज्ञानसमुच्चयः अपि विहितः” [ तावत् ] तब तक [ कर्म ] क्रियारूप परिणाम [ ज्ञान ] आत्मद्रव्यका शुद्धस्वरूप परिणामन, उनका [ समुच्चयः ] एक जीवमे एक ही काल अस्तित्वपना है, [ अपि विहितः ] ऐसा भी है, परन्तु एक विशेष—“काचित् क्षतिः न” [ काचित् ] कोई भी [ क्षतिः ] हानि [ न ] नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है—एक जीवमे एक ही काल ज्ञान, क्रिया दोनों कैसे होते हैं ? समाधान ऐसा—विरुद्ध तो कुछ नहीं, कितने ही काल तक दोनों होते हैं, ऐसा ही वस्तुका परिणाम है, परन्तु विरोधीके समान दिखता है, परन्तु अपने अपने स्वरूप है, विरोध तो नहीं करता है। उनने काल तक जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं—“यावत् ज्ञानस्य सा कर्मविरतिः सम्यक् पाक न उपैति” [ यावत् ] जितने काल [ ज्ञानस्य ] आत्माका मिथ्यात्वरूप विभावपरिणाम मिटा है, आत्मद्रव्य शुद्ध हुआ है, उसकी [ सा ] पूर्वोक्त [ कर्म ] क्रिया, उसका [ विरतिः ] त्याग [ सम्यक् पाकं न उपैति ] बराबर परिपक्वताको नहीं पाता है अर्थात् क्रियाका मूलसे विनाश नहीं हुआ है। भावार्थ इस प्रकार है—जब तक अशुद्ध परिणामन है तब तक जीवका विभाव परिणामनरूप है। उस विभाव परिणामनका अन्तरंग निमित्त है, बहिरंग निमित्त है। विवरण—अन्तरंग निमित्त जीवकी विभावरूप परिणामनशक्ति, बहिरंग निमित्त मोहनीय कर्मरूप परिणामा है

पुद्गलपिण्डका उदय । सो मोहनीयकर्म दो प्रकारका है:— एक मिथ्यात्वरूप है, दूसरा चारित्रमोहरूप है । जीवका विभाव परिणाम भी दो प्रकारका है:— जीवका एक सम्यक्त्व गुण है वही विभावरूप होकर मिथ्यात्वरूप परिणामा है । उसके प्रति बहिरंग निमित्त मिथ्यात्वरूप परिणामा है पुद्गलपिण्डका उदय, जीवका एक चारित्रगुण है, वह विभावरूप परिणामता हुआ विषय कषायलक्षण चारित्रमोहरूप परिणामा है, उसके प्रति बहिरंग निमित्त है चारित्रमोहरूप परिणामा पुद्गलपिण्डका उदय । विशेष ऐसा— उपशमका, क्षपणका क्रम इस प्रकार है, पहले मिथ्यात्व कर्मका उपशम होता है अथवा क्षपण होता है, उसके बाद चारित्रमोहका उपशम होता है अथवा क्षपण होता है । इसलिए समाधान ऐसा—किसी आसन्न भव्य जीवके काललब्धि प्राप्त होनेसे मिथ्यात्वरूप पुद्गलपिण्ड—कर्म उपशमता है अथवा क्षपण होता है । ऐसा होने पर जीव सम्यक्त्वगुणरूप परिणामता है, वह परिणामन शुद्धतरूप है । वही जीव जब तक क्षपक-श्रेणिपर चढ़ेगा तब तक चारित्रमोह कर्मका उदय है । उस उदयके रहते हुए जीव भी विषय कषायरूप परिणामता है, वह परिणामन रागरूप है, अशुद्धरूप है, इस कारण किसी कालमें जीवका शुद्धपना अशुद्धपना एक ही समय घटता है, विरुद्ध नहीं । “किन्तु” कुछ विशेष है, वह विशेष जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं—“अत्र अपि” एक ही जीवके एक ही काल शुद्धपना अशुद्धपना यद्यपि होता है तथापि अपना अपना कार्य करते हैं । “यत् कर्म अवशत. बन्धाय समुल्लसति” [ यत् ] जितनी [ कर्म ] द्रव्यरूप भावरूप—अन्तर्जल्प-बहिर्जल्परूप—सूक्ष्म-स्थूलरूप क्रिया, [ अवशतः ] सम्यग्दृष्टि पुरुष सर्वथा क्रियासे विरक्त है पर चारित्रमोह कर्मके उदयमे बलात्कार होती है ऐसी [ बन्धाय समुल्लसति ] जितनी क्रिया है उतनी—ज्ञानावरणादि कर्मबन्ध करती है, सवर निर्जरा अशमात्र भी नहीं करती है । “तत् एक ज्ञान मोक्षाय स्थित” [ तत् ] पूर्वोक्त [ एकं ज्ञानं ] एक शुद्ध चैतन्यप्रकाश [ मोक्षाय स्थितं ] ज्ञानावरणादि कर्मक्षयका निमित्त है । भावार्थ इस प्रकार है—एक जीवमे शुद्धपना अशुद्धपना एक ही काल होता है, परन्तु जितना अश शुद्धपना है उतना अश कर्मक्षपण है, जितना अश अशुद्धपना है उतना अश कर्मबन्ध होता है । एक ही काल दोनो कार्य होते हैं । “एव” ऐसा ही है, सन्देह करना नहीं । कैसा है शुद्धज्ञान ? “परम” सर्वोत्कृष्ट है—पूज्य है । और कैसा है ? “स्वतः विमुक्त” तीनों कालमे समस्त पर द्रव्यसे भिन्न है ॥ ११-११० ॥

( शार्ङ्गलविक्रीडित )

**मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति यन्  
मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि यदतिस्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ।  
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं  
ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य च ॥१२-१११॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“कर्मनयावलम्बनपरा मग्ना” [ कर्म ] अनेक प्रकार की क्रिया, ऐसा है [ नय ] पक्षपात, उसका [ अवलम्बन ] क्रिया मोक्षमार्ग है ऐसा जानकर क्रियाका प्रतिपाल, उसमे [ पराः ] तत्पर है जो कोई अज्ञानी जीव वे भी [ मग्नाः ] धारमे डूबे है । भावार्थ इस प्रकार है—ससारमे रलेगा, मोक्षका अधिकारी नहीं है । किस कारणसे डूबे है ? “यत् ज्ञानं न जानन्ति” [ यत् ] जिस कारण [ ज्ञानं ] शुद्ध चैतन्यवस्तुका [ न जानन्ति ] प्रत्यक्षरूपसे आस्वाद करनेको समर्थ नहीं हैं, क्रिया-मात्र मोक्षमार्ग ऐसा जानकर क्रिया करनेको तत्पर है । “ज्ञाननयैषिणाः अपि मग्नाः” [ ज्ञान ] शुद्ध चैतन्यप्रकाश, उसका [ नय ] पक्षपात, उसके [ एषिणः ] अभिलाषी है । भावार्थ इस प्रकार है—शुद्ध स्वरूपका अनुभव तो नहीं है, परन्तु पक्षमात्र बोलते है । [ अपि ] ऐसे भी जीव [ मग्नाः ] ससारमे डूबे ही है । कैसे होकर डूबे ही है ? “यत् अतिस्वच्छन्दमन्दोद्यमा” [ यत् ] जिस कारण [ अतिस्वच्छन्द ] अति ही स्वेच्छाचारपना, ऐसा है [ मन्दोद्यमाः ] शुद्ध चैतन्यस्वरूपका विचारमात्र भी नहीं करते है । ऐसे जो कोई है उन्हे मिथ्यादृष्टि जानना । यहा कोई आशका करता है कि शुद्ध स्वरूपका अनुभव मोक्षमार्ग ऐसी प्रतीति करने पर मिथ्यादृष्टिपना क्यों होता है ? समाधान इस प्रकार है—वस्तुका स्वरूप इस प्रकार है कि जिम काल शुद्ध स्वरूपका अनुभव है उस काल अशुद्धतारूप है जितनी भाव द्रव्यरूप क्रिया उतनी सहज ही मिटती है । मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा मानता है कि जितनी क्रिया जैसी है वैसी ही रहती है, शुद्धस्वरूप अनुभव मोक्षमार्ग है, सो वस्तुका स्वरूप ऐसा तो नहीं है । इससे जो ऐसा मानता है वह जीव मिथ्यादृष्टि है, वचनमात्रसे कहता है कि ‘शुद्धस्वरूप अनुभव मोक्षमार्ग है; ऐसा कहनेसे कार्यसिद्धि तो कुछ नहीं है । “ते विश्वस्य उपरि तरन्ति” [ ते ] ऐसे जीव सम्यग्दृष्टि है जो कोई, वे [ विश्वस्य उपरि ] कहे है जो दोनो जानिके जीव उन दोनोके उपर होकर, [ तरन्ति ] सकल कर्मोंका क्षय कर मोक्षपदको प्राप्त होते है । कैसे है वे ? “ये सततं स्वयं ज्ञानं भवन्तः कर्म न कुर्वन्ति प्रमादस्य वशं जातु न यान्ति” [ ये ] जो कोई

निकट संसारी सम्यग्दृष्टि जीव [ सततं ] निरन्तर [ स्वयं ज्ञानं ] शुद्ध ज्ञानस्वरूप [ भवन्तः ] परिणमते हैं, [ कर्म न कुर्वन्ति ] अनेक प्रकारकी क्रियाको मोक्षमार्ग जानकर नहीं करते हैं, भावार्थ इस प्रकार है—जिस प्रकार कर्मके उदयमें शरीर विद्यमान है पर हेयरूप जानते हैं, उसी प्रकार अनेक प्रकारकी क्रियाये विद्यमान हैं पर हेयरूप जानते हैं। [ प्रमादस्य वशं जातु न यान्ति ] ‘क्रिया तो कुछ नहीं’—ऐसा जानकर विषयी असंयमी भी कदाचित् नहीं होते, क्योंकि असंयमका कारण तीव्र संक्लेश परिणाम है सो तो संक्लेश मूल ही से गया है। ऐसे जो सम्यग्दृष्टि जीव वे जीव तत्काल मात्र मोक्षपदको पाते हैं ॥१२-१११॥

( मन्दाक्रान्ता )

**भेदोन्मादं भ्रमरसभराघ्नाटयत्पीतमोहं**

**मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन ।**

**हेलोन्मीलत्परमकलया सार्धमारब्धकेलि**

**ज्ञानज्योतिःकवलिततमःप्रोज्ज्वम्भे भरेण ॥१३-११२॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ज्ञानज्योतिः भरेण प्रोज्ज्वम्भे” [ ज्ञानज्योतिः ] शुद्ध स्वरूपका प्रकाश [ भरेण ] अपनी सम्पूर्ण सामर्थ्यके द्वारा [ प्रोज्ज्वम्भे ] प्रगट हुआ। कैसा है ? “हेलोन्मीलत्परमकलया सार्धं आरब्धकेलि” [ हेला ] सहजरूपसे [ उन्मीलत् ] प्रगट हुए [ परमकलया ] निरन्तरपने अतीन्द्रिय सुखप्रवाहके [ सार्धं ] साथ [ आरब्धकेलि ] प्राप्त किया है परिणमन जिसने, ऐसा है। और कैसा है ? “कवलिततमः” [ कवलित ] दूर किया है [ तमः ] मिथ्यात्वग्रन्धकार जिसने, ऐसा है। ऐसा जिस प्रकार हुआ है उस प्रकार कहते हैं—“तत्कर्म सकलमपि बलेन मूलोन्मूलं कृत्वा” [ तत् ] कही है अनेक प्रकार [ कर्म ] भावरूप अथवा द्रव्यरूप क्रिया—[ सकलं अपि ] पापरूप अथवा पुण्यरूप—( उसे ) [ बलेन ] बलजोरीसे [ मूलोन्मूलं कृत्वा ] जितनी क्रिया है वह सब मोक्षमार्ग नहीं है ऐसा जान समस्त क्रियाये ममत्वका त्याग कर शुद्ध ज्ञान मोक्षमार्ग है ऐसा सिद्धान्त सिद्ध हुआ। कैसा है कर्म ? “भेदोन्माद” [ भेद ] शुभ क्रिया मोक्षमार्ग ऐसा पक्षपातरूप भेद ( अन्तर ) उससे [ उन्मादं ] हुआ है गहिलपना ( पागलपना ) जिसमें, ऐसा है। और कैसा है ? “पीतमोह” [ पीत ]

निगला है [ मोहं ] विपरीतपना जिसने, ऐसा है। जैसे कोई धतूराका पान कर गहिल होता है ऐसा है जो पुण्यकर्मको भला मानता है। और कैसा है ? “अमरसभरात् नाटयत्” [ अम ] धोखा, उसका [ रम ] अमल, उसका [ भरात् ] अत्यन्त चढ़ना, उससे [ नाटयत् ] नाचता है। भावार्थ इस प्रकार है—जिस प्रकार कोई धतूरा पीकर सुघ जानेपर नाचता है उसी प्रकार मिथ्यात्वकर्मके उदयमे शुद्ध स्वरूपके अनुभवसे भ्रष्ट है। शुभ कर्मके उदयसे जो देव आदि पदवी, उसमे रंजायमान होता है कि मैं देव, मेरे ऐसी विभूति, सो तो पुण्यकर्मके उदयसे, ऐसा मानकर बार-बार रंजायमान होता है ॥१३-११२॥



[ ५ ]

## आस्रव-अधिकार

( द्रुतविलम्बित )

अथ महामदनिर्भरमन्थरं

समररंगपरागतमास्रवम् ।

अयमुदारगंभीरमहोदयो

जयति दुर्जयबोधधनुर्धरः ॥१-११३॥

खण्डान्वय महित अर्थ—“अथ अयं दुर्जयबोधधनुर्धर आस्रव जयति” [ अथ ]  
यहाँसे लेकर [ अयं दुर्जय ] यह अखण्डित प्रताप, ऐसा [ बोध ] शुद्ध स्वरूप अनुभव,  
ऐसा है [ धनुर्धरः ] महायोधा, वह [ आस्रवं ] अशुद्ध रागादि परिणामलक्षण आस्रव,  
उसको [ जयति ] मेटता है । भावार्थ इस प्रकार है—यहाँसे लेकर आस्रवका स्वरूप  
कहते हैं । कैसा है ज्ञान योद्धा ? “उदार-गम्भीरमहोदय ” [ उदार ] शाश्वत ऐसा है  
[ गम्भीर ] अनन्त शक्ति विराजमान, ऐसा है [ महोदयः ] स्वरूप जिसका ऐसा है ।  
कैसा है आस्रव ? “महामदनिर्भरमन्थरं” [ महामद ] समस्त ससारी जीवगति आस्रव-  
के आधीन है, उससे हुआ है गर्व-प्रभिमान, उससे [ निर्भर ] मग्न हुआ है [ मन्थरं ]  
मनवालाकी भाँति, ऐसा है । “समररङ्गपरागत” [ समर ] सग्राम ऐसी ही [ रङ्ग ] भूमि,  
उससे [ परागतं ] सन्मुख आया है । भावार्थ इस प्रकार है—जिस प्रकार प्रकाश  
अन्धकारका परस्पर विरोध है उमी प्रकार शुद्ध ज्ञान और आस्रवको परस्पर  
विरोध है ॥१-११३॥

( शालिनी )

भावो रागद्वेषमोहैर्विना यो

जीवस्य स्याद् ज्ञाननिर्वृत्त एव ।



**रुन्धन् सर्वान् द्रव्यकर्मास्त्रौघान्**

**एषोऽभावःसर्वभावास्त्राणाम् ॥२-११४॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“जीवस्य यः भावः ज्ञाननिवृत्त एव स्यात्” [ जीवस्य ] काललब्धि प्राप्त होनेसे प्रगट हुआ है सम्यक्त्वगुण जिसका ऐसा है जो कोई जीव, उसका [ यः भावः ] जो कोई सम्यक्त्वपूर्वक शुद्धस्वरूपअनुभवरूप परिणाम । ऐसा परिणाम कैसा होता है ? [ ज्ञाननिवृत्त एव स्यात् ] शुद्ध ज्ञानचेतनामात्र है । उस कारणसे “एषः” ऐसा है जो शुद्ध चेतनामात्र परिणाम, वह “सर्वभावास्त्राणां अभावः” [ सर्व ] असंख्यात लोकमात्र जितने [ भावः ] अशुद्ध चेतनारूप राग, द्वेष, मोह आदि जीवके विभावपरिणाम होते हैं जो [ आस्रवाणां ] ज्ञानावरणादि पुद्गलकर्मके आगमनको निमित्तमात्र है उनके [ अभावः ] मूलोन्मूल विनाश है । भावार्थ इस प्रकार है—जिस काल शुद्ध चैतन्यवस्तुकी प्राप्ति होती है उस काल मिथ्यात्व राग द्वेषरूप जीवका विभावपरिणाम मिटता है, इसलिए एक ही काल है, समयका अन्तर नहीं है । कैसा है शुद्ध भाव ? “रागद्वेष-मोहैः विना” रागादि परिणाम रहित है । शुद्ध चेतनामात्र भाव है । और कैसा है ? “द्रव्य-कर्मान्नवौघान् सर्वान् रुन्धन्” [ द्रव्यकर्म ] ज्ञानावरणादि कर्मपर्ययरूप परिणामा है पुद्गलपिण्ड, उसका [ आस्रवः ] होता है धाराप्रवाहरूप समय-समय आत्मप्रदेशोंके साथ एकक्षेत्रावगाह, उसका [ ओषः ] समूह । भावार्थ इस प्रकार है—ज्ञानावरणादिरूप कर्मवर्गगा परिणमती है, उसके भेद असंख्यात लोकमात्र है । उसके [ सर्वान् ] जितने धारारूप आते हैं कर्म उन सबको [ रुन्धन् ] रोकता हुआ । भावार्थ इस प्रकार है— जो कोई ऐसा मानेगा कि जीवका शुद्ध भाव होता हुआ रागादि अशुद्ध परिणामका नाश करता है, आस्रव जैसा ही होता है वैसा ही होता है सो ऐसा तो नहीं, जैसा कहते हैं वैसा है— जीवके शुद्ध भावरूप परिणामने पर अवश्य ही अशुद्धभाव मिटता है । अशुद्ध भावके मिटने पर अवश्य ही द्रव्यकर्मरूप आस्रव मिटता है, इसलिये शुद्ध भाव उपादेय है, अन्य समस्त विकल्प हेय है ॥२-११४॥

( उपजाति )

**भावास्त्रावाभावमयं प्रपन्नो**

**द्रव्यास्त्रवेभ्यः स्वत एव भिन्नः ।**

**ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो**

**निरास्रवो ज्ञायक एक एव ॥३-११५॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अयं ज्ञानी निरास्रव एव” [ अयं ] द्रव्यरूप विद्यमान ! वह [ ज्ञानी ] सम्यग्दृष्टि जीव [ निरास्रवः एव ] आस्रवसे रहित है। भावार्थ इस प्रकार है—सम्यग्दृष्टि जीवोंको नीध कर ( समझ पूर्वक ) विचारने पर आस्रव घटता नहीं। कौसा है ज्ञानी ? “एकः” रागादि अशुद्ध परिणामसे रहित है, शुद्धस्वरूप परिणाम है। और कौसा है ? “ज्ञायकः” स्वद्रव्यस्वरूप परद्रव्यस्वरूप समस्त वस्तुको जाननेके लिए समर्थ है। भावार्थ इस प्रकार है—ज्ञायकमात्र है, रागादि अशुद्धरूप नहीं है। और कौसा है ? “सदा ज्ञानमयैकभाव” [ सदा ] सर्व काल धारा-वाहुरूप [ ज्ञानमय ] चेतनरूप ऐसा है [ एकभावः ] एक परिणाम जिसका, ऐसा है, भावार्थ इस प्रकार है—जितने विकल्प है वे सब मिथ्या। ज्ञानमात्र वस्तुका स्वरूप था तो अविनश्वर रहा। निरास्रवपना सम्यग्दृष्टि जीवको जिस प्रकार घटता है उस प्रकार रहते हैं—“भावास्रवाभाव प्रपन्न” [ भावास्रव ] मिथ्यात्व राग द्वेषरूप अशुद्ध चेतना-परिणाम, उसका [ अभावं ] विनाश, उसको [ प्रपन्नः ] प्राप्त हुआ है। भावार्थ इस प्रकार है—ग्रन्थ कालसे लेकर जीव मिथ्यादृष्टि होता हुआ मिथ्यात्व, राग, द्वेषरूप परिणामता था, उसका नाम आस्रव है। सो तो काललब्धि प्राप्त होने पर वही जीव सम्यक्त्व पर्यायरूप परिणामा, शुद्धतारूप परिणामा, अशुद्ध परिणाम मिटा इसलिए भावास्रवसे तो इस प्रकार रहित हुआ। “द्रव्यास्रवेभ्यः स्वत एव भिन्न” [ द्रव्यास्रवेभ्यः ] ज्ञाना-वरणादि कर्म पर्यायरूप जीवके प्रदेशोमे बैठे है पुद्गलपिण्ड, उनसे [ स्वतः ] स्वभावसे भिन्नः एव ] सर्व काल निराला ही है। भावार्थ इस प्रकार है—आस्रव दो प्रकारका है। विवरण—एक द्रव्यास्रव है, एक भावास्रव है। द्रव्यास्रव कहने पर कर्मरूप बैठे आत्माके प्रदेशोमे पुद्गलपिण्ड, ऐसे द्रव्यास्रवसे जीव स्वभाव ही मे रहित है। यद्यपि जीवके प्रदेश कर्म पुद्गलपिण्डके प्रदेश एक ही क्षेत्रमें रहते है तथापि परस्पर एक द्रव्य-रूप नहीं होते है, अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायरूप रहते है। इसलिये पुद्गलपिण्डसे जीव भिन्न है। भावास्रव कहने पर मोह राग द्वेषरूप विभाव अशुद्धचेतन परिणाम सो ऐसा परिणाम यद्यपि जीवके मिथ्यादृष्टि अवस्थामे विद्यमान ही था तथापि सम्यक्त्वरूप परिणामने पर अशुद्ध परिणाम मिटा। इस कारण सम्यग्दृष्टि जीव भावास्रवसे रहित है। तसे ऐसा अर्थ निपजा कि सम्यग्दृष्टि जीव निरास्रव है ॥३-११५॥

और सम्यग्दृष्टि जीव जिस प्रकार निरास्रव है उस प्रकार कहते है—

( शार्दूललिपीलिखित )

सन्न्यस्यन्नजबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं  
वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् ।  
उच्छिन्वन्परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवन्  
आत्मा नित्यनिरास्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥४-११६॥

खण्डान्वयसहित अर्थ—“आत्मा यदा ज्ञानी स्यात् तदा नित्यनिरास्रवःभवति”  
[ आत्मा ] जीवद्रव्य [ यदा ] जिसी काल [ ज्ञानी स्यात् ] अनंत कालसे विभाव  
मिथ्यात्वभावरूप परिणामा था सो निकट सामग्री पाकर सहज ही विभाव परिणाम कूट  
जाता है, स्वभाव सम्यक्त्वरूप परिणामत्रा है। ऐसा कोई जीव होता है। [ तदा ] उस  
कालसे लेकर पूरे आगामी कालमें [ नित्यनिरास्रवः ] सर्वथा सर्व काल सम्यग्दृष्टि जीव  
आस्रवसे रहित [ भवति ] होता है। भावार्थ इस प्रकार है—कोई संदेह करेगा कि  
सम्यग्दृष्टि आस्रव सहित है कि आस्रव रहित हैं ? समाधान ऐसा कि आस्रवसे रहित  
है। क्या करता हुआ निरास्रव है ? “निजबुद्धिपूर्व राग समग्रं अनिशं स्वयं सन्न्यस्यन्”  
[ निज ] अपने [ बुद्धि ] मनको [ पूर्व ] आलम्बन कर होता है जितना मोह राग द्वेष-  
रूप अशुद्ध परिणाम ऐसा जो [ रागं ] पर द्रव्यके साथ रंजित परिणाम, जो [ समग्रं ]  
असख्यात लोकमात्र भेदरूप है, उसे [ अनिशं ] सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके कालसे लेकर  
आगामी सर्व कालमें [ स्वयं ] सहज ही [ सन्न्यस्यन् ] छोड़ता हुआ। भावार्थ इस  
प्रकार है—नाना प्रकारके कर्मके उदयमें नाना प्रकारकी ससार-शरीर-भोग सामग्री  
होती है। इस समस्त सामग्रीको भोगता हुआ मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं  
दुःखी हूँ, इत्यादिरूप रजायमान नहीं होता। जानता है—मैं चेतनामात्र शुद्धस्वरूप हूँ,  
यह समस्त कर्मकी रचना है। ऐसा अनुभवते हुए मनका व्यापाररूप राग मिटता है।  
“अबुद्धिपूर्व अपि तं जेतुं वारंवारं स्वशक्तिं स्पृशन्” [ अबुद्धिपूर्व ] मनके आलम्बन विना  
मोहकर्मके उदयरूप निमित्तकारणसे परिणाम है अशुद्धतारूप जीवके प्रदेश, [ तं अपि ]  
उसको भी [ जेतुं ] जीतनेके लिए [ वारंवारं ] अखण्डतारुधाराप्रवाहरूप [ स्वशक्तिं ]  
शुद्ध चैतन्य वस्तु, उसको [ स्पृशन् ] स्वानुभवप्रत्यक्षरूपसे आस्वादता हुआ। भावार्थ इस  
प्रकार है—मिथ्यात्व रागद्वेषरूप है जो जीवके अशुद्धचेतनारूप विभाव परिणाम वे दो  
प्रकारके हैं—एक परिणाम बुद्धिपूर्वक है, एक परिणाम अबुद्धिपूर्वक है। विवरण—

बुद्धिपूर्वक कहने पर जो सब परिणाम मनके द्वारा प्रवर्तते हैं, बाह्य विषयके आधारसे प्रवर्तते हैं। प्रवर्तते हुए वह जीव आप भी जानता है कि मेरा परिणाम इस रूप है। तथा अन्य जीव भी अनुमान करके जानता है जो इस जीवके ऐसा परिणाम है। ऐसा परिणाम बुद्धिपूर्वक कहा जाता है। सो ऐसे परिणामको सम्यग्दृष्टि जीव भेट सकता है, क्योंकि ऐसा परिणाम जीवकी जानकारीमें है। शुद्धस्वरूपका अनुभव होने पर जीवके सहाराका भी है, इसलिए सम्यग्दृष्टि जीव पहले ही ऐसा परिणाम भेटता है। अबुद्धिपूर्वक परिणाम कहने पर पाँच इन्द्रिय और मनके व्यापारके बिना ही मोहकर्मके उदयका निमित्त कर मोह राग द्वेषरूप अशुद्धविभावपरिणामरूप आप स्वयं जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशोमे परिणामता है सो ऐसा परिणामन जीवकी जानकारीमे नहीं है और जीवके सहाराका भी नहीं है, इसलिए जिस किसी प्रकार भेटा जाता नहीं। अतएव ऐसे परिणामको भेटनेके लिये निरन्तरपने शुद्ध स्वरूपको अनुभवता है, शुद्ध स्वरूपका अनुभव करने पर सहज ही भिटेगा। दूसरा उपाय तो कोई नहीं, इसलिए एक शुद्ध स्वरूपका अनुभव उपाय है। और क्या करता हुआ निराश्रय होता है? “एव परवृत्ति सकला उच्छिन्दन्” [ एव ] अवश्य ही [ पर ] जितनी ज्ञेय वस्तु है उसमे [ वृत्ति ] रजकपना ऐसी परिणाम-क्रिया, जो [ सकला ] जितनी है शुभरूप अथवा अशुभरूप, उसको [ उच्छिन्दन् ] मूलमे ही उखारता हुआ सम्यग्दृष्टि निराश्रय होता है। भावार्थ इस प्रकार है—ज्ञेय-ज्ञायकका सम्बन्ध दो प्रकार है—एक तो जानपनामात्र है, राग-द्वेषरूप नहीं है। यथा—केवली सकल ज्ञेय वस्तुको देखते जानते है परन्तु किसी वस्तुमे राग-द्वेष नहीं करते। उसका नाम शुद्ध ज्ञानचेतना कहा जाता है। सो सम्यग्दृष्टि जीवके शुद्ध ज्ञानचेतनारूप जानपना है, इसलिए मोक्षका कारण है—बन्धका कारण नहीं है। दूसरा जानपना ऐसा जो कितनी ही विषयरूप वस्तुका जानपना भी है और मोह कर्मके उदयका निमित्त पाकर इष्टमे राग करता है, भोगकी अभिलाषा करता है तथा अनिष्टमे द्वेष करता है, अरुचि करता है सो ऐसे राग-द्वेषसे मिला हुआ है जो ज्ञान उसका नाम अशुद्ध चेतनालक्षण कर्मचेतना कर्मफलचेतनारूप कहा जाता है, इसलिए बन्धका कारण है। ऐसा परिणामन सम्यग्दृष्टिके नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वरूप परिणाम गया होनेसे ऐसा परिणामन नहीं होता है। ऐसा अशुद्ध ज्ञानचेतनारूप परिणाम मिथ्यादृष्टिके होता है। और कैसा होता हुआ निराश्रय होता है? “ज्ञानस्य पूर्णं भवन्” पूर्ण ज्ञानरूप होता हुआ। भावार्थ इस प्रकार है—ज्ञानका खण्डितपना यह कि वह राग-द्वेषसे मिला हुआ है। राग-द्वेष गये होनेसे

ज्ञानका पूर्णपना कहा जाता है। ऐसा होता हुआ सम्यग्दृष्टि जीव निरास्रव है ॥ ४-११६ ॥

( अनुष्टुप् )

**सर्वस्यामेव जीवन्त्यां द्रव्यप्रत्ययसन्ततौ ।**

**कुतो निरास्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥५-११७॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—यहाँ कोई आशंका करता है—सम्यग्दृष्टि जीव सर्वथा निरास्रव कहा और ऐसा ही है। परन्तु ज्ञानावरणादि द्रव्यपिण्ड जैसा था वैसा ही विद्यमान है। तथा उस कर्मके उदयमें नाना प्रकारकी भोगसामग्री जैसी थी वैसी ही है। तथा उस कर्मके उदयमें नाना प्रकारके सुख-दुःखको भोगता है, इन्द्रिय-शरीर-सम्बन्धी भोग सामग्री जैसी थी वैसी ही है। सम्यग्दृष्टि जीव उस सामग्रीको भोगता भी है। इतनी सामग्रीके रहते हुए निरास्रवपना कैसे घटित होता है ऐसा कोई प्रश्न करता है—“द्रव्यप्रत्ययसन्ततौ सर्वस्यामेव जीवन्त्यां ज्ञानी नित्यं निरास्रव कुतः” [ द्रव्यप्रत्यय ] जीवके प्रदेशोंमें परिणामा है पुद्गल पिण्डरूप अनेक प्रकारका मोहनीयकर्म, उसकी [ सन्ततौ ] सन्तति—स्थितिबन्धरूप बहुत काल पर्यन्त जीवके प्रदेशोंमें रहती है। [ सर्वस्यां ] जितनी होती, जैसी होती [ जीवन्त्यां ] उतनी ही है, विद्यमान है, वैसी ही है। [ एव ] निश्चयसे फिर भी [ ज्ञानी ] सम्यग्दृष्टि जीव [ नित्यं निरास्रवः ] सर्वथा सर्व काल आस्रवसे रहित है ऐसा जो कहा सो [ कुतः ] क्या विचार करके कहा “चेत् इति मतिः” [ चेत् ] भो शिष्य ! यदि [ इति मतिः ] तेरे मनमें ऐसी आशंका है तो उत्तर सुन, कहते हैं ॥५-११७॥

( मालिनी )

**विजहति न हि सत्तां प्रत्ययाः पूर्वबद्धाः**

**समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपाः ।**

**तदपि सकलरागद्वेषमोहव्युदासा-**

**द्वतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबन्धः ॥६-११८॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तदपि ज्ञानिनः जातु कर्मबन्धः न अवतरति” [ तदपि ] तो भी [ ज्ञानिनः ] सम्यग्दृष्टि जीवके [ जातु ] कदाचित् किसी भी नयसे [ कर्मबन्धः ]

ज्ञानावरणादिरूप पुद्गलपिण्डका नूतन आगमन—कर्मरूप परिणामन [ न अवतरति ] नहीं होता । अथवा जो कभी सूक्ष्म अद्भुत्पूर्वक राग-द्वेष परिणामसे बन्ध होता है, अति ही अल्प बन्ध होता है तो भी सम्यग्दृष्टि जीवके बन्ध होता है ऐसा कोई तीनों कालोंमें कह सकता नहीं । आगे कैसा होनेसे बन्ध नहीं ? “सकलरागद्वेषमोहव्युदासात्” जिस कारणसे ऐसा है उस कारणसे बन्ध नहीं घटित होता । [ सकल ] जितने शुभरूप अथवा अनुभूत [ राग ] प्रीतिरूप परिणाम [ द्वेष ] दुष्ट परिणाम [ मोह ] पुद्गलद्रव्यकी विचित्रतामें आत्मबुद्धि ऐसा विपरीतरूप परिणाम, ऐसे [ व्युदासात् ] तीनों ही परिणामोंसे रहितपना ऐसा कारण है, इसमें सामग्रीके विद्यमान होते हुए भी सम्यग्दृष्टि जीव कर्मबन्धका कर्ता नहीं है । विद्यमान सामग्री जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं—“यद्यपि पूर्वबद्धा प्रत्यया द्रव्यरूपा सत्ता न हि विजहति” [ यद्यपि ] जो ऐसा भी है कि [ पूर्वबद्धाः ] सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके पहले जीव मिथ्यादृष्टि था, इससे मिथ्यात्व, राग, द्वेषरूप परिणामके द्वारा बाँधे थे जो [ द्रव्यरूपाः प्रत्ययाः ] मिथ्यात्वरूप तथा चारित्रमोहरूप पुद्गल कर्मपिण्ड, वे [ सत्ता ] स्थिति बन्धरूप होकर जीवके प्रदेशोंमें कर्मरूप विद्यमान है ऐसे अपने अस्तित्वको [ न हि विजहति ] नहीं छोड़ते है । उदय भी देते है ऐसा कहते है—“समयं अनुसरन्तः अपि” [ समयं ] समय समय प्रति अखण्डत धाराप्रवाहरूप [ अनुसरन्तः अपि ] उदय भी देते है, तथापि सम्यग्दृष्टि कर्मबन्धका कर्ता नहीं है । भावार्थ इस प्रकार है—कोई अनादिकालका मिथ्यादृष्टि जीव काललब्धिको प्राप्त करता हुआ सम्यक्त्व गुरुरूप परिणामा, चारित्रमोह कर्मकी सत्ता विद्यमान है, उदय भी विद्यमान है, पचेन्द्रिय विषयसंस्कार विद्यमान है, भोगता भी है, भोगता हुआ ज्ञान गुणके द्वारा वेदक भी है, तथापि जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव आत्मस्वरूपको नहीं जानता है, कर्मके उदयको आप कर जानता है, इससे इष्ट-अनिष्ट विषय सामग्रीको भोगता हुआ राग-द्वेष करता है, इससे कर्मका बंधक होता है उस प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव नहीं है । सम्यग्दृष्टि जीव आत्माको शुद्धस्वरूप अनुभवता है, शरीर आदि समस्त सामग्रीको कर्मका उदय जानता है, आये उदयको खपाता है । परन्तु अन्तरगमें परम उदासीन है, इसलिए सम्यग्दृष्टि जीवको कर्मबन्ध नहीं है । ऐसी अवस्था सम्यग्दृष्टि जीवके सर्वकाल नहीं । जब तक सकल कर्मोंका क्षय कर निर्वाणपदवीको प्राप्त करता है तब तक ऐसी अवस्था है जब निर्वाणपद प्राप्त करेगा उस कालका तो कुछ कहना ही नहीं—साक्षात् परमात्मा है ॥६-११८॥

( अनुष्टुप् )

रागद्वेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसम्भवः ।

तत एव न बन्धोऽस्य ते हि बन्धस्य कारणम् ॥७-११६॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—एसा कहा कि सम्यग्दृष्टि जीवके बन्ध नहीं है सो ऐसी प्रतीति जिस प्रकार होती है उस प्रकार और कहते हैं—“यत् ज्ञानिनः रागद्वेषविमोहानां असम्भव ततः अस्य बन्धः न” [ यत् ] जिस कारण [ ज्ञानिनः ] सम्यग्दृष्टि जीवके [ राग ] रजकपरिणाम [ द्वेष ] उद्वेग [ विमोहानां ] प्रतीतिका विपरीतपना ऐसे अशुद्ध भावोकी [ असम्भवः ] विद्यमानता नहीं है । भावार्थ इस प्रकार है—सम्यग्दृष्टि जीव कर्मके उदयमे रंजायमान नहीं होता, इसलिये रागादिक नहीं हैं [ ततः ] उस कारणसे [ अस्य ] सम्यग्दृष्टि जीवके [ बन्धः न ] ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मका बन्ध नहीं है । “एव” निश्चयसे ऐसा ही द्रव्यका स्वरूप है । “हि ते बन्धस्य कारण” [ हि ] जिस कारण [ ते ] राग, द्वेष, मोह ऐसे अशुद्ध परिणाम [ बन्धस्य कारणं ] बन्धके कारण है । भावार्थ इस प्रकार है—कोई अज्ञानी जीव ऐसा मानेगा कि सम्यग्दृष्टि जीवके चारित्रमोहका उदय तो है, वह उदयमात्र होने पर आगामी ज्ञानावरणादि कर्मका बन्ध होता होगा ? ममाधान इस प्रकार है—चारित्रमोहका उदयमात्र होने पर बन्ध नहीं है । उदयके होने पर जो जीवके राग, द्वेष, मोहपरिणाम हो तो कर्मबन्ध होता है अन्यथा सहस्र कारण हो तो भी कर्मबन्ध नहीं होता । राग, द्वेष, मोह परिणाम भी मिथ्यात्व कर्मके उदयके सहारा है, मिथ्यात्वके जाने पर अकेले चारित्रमोहके उदयके सहारा का राग, द्वेष, मोह परिणाम नहीं है । इस कारण सम्यग्दृष्टिके राग, द्वेष, मोहपरिणाम होता नहीं, इसलिए कर्मबन्धका कर्ता सम्यग्दृष्टि जीव नहीं होता ॥७-११६॥

( वसन्ततिलका )

अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतबोधचिह्न-

मैकाग्र्यमेव कलयन्ति सदैव ये ते ।

रागादिमुक्तमनसः सततं भवन्तः

पश्यन्ति बन्धविधुरं समयस्य सारम् ॥८-१२०॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ये शुद्धनयं एकाग्र्यं एव सदा कलयन्ति” [ ये ] जो कोई आसन्न भव्य जीव [ शुद्धनयं ] निर्विकल्प शुद्ध चैतन्यवस्तुमात्रका, [ एकाग्र्यं ] समस्त रागादि विकल्पसे चित्तका निरोध कर [ एव ] चित्तमें निश्चय लाकर [ कलयन्ति ] अखण्डित धाराप्रवाहरूप अभ्यास करते हैं [ सदा ] सर्व काल । कैसा है ? “उद्धतबोधचित्त” [ उद्धत ] सर्व काल प्रगट जो [ बोध ] ज्ञानगुण वही है [ चिह्नं ] लक्षण जिसका, ऐसा है । क्या करके “अध्यास्य” जिस किसी प्रकार मनमें प्रतीति लाकर । “ते एव समयस्य सारं पश्यन्ति” [ ते एव ] वे ही जीव निश्चयसे [ समयस्य सारं ] सकल कर्मसे रहित अनन्तचतुष्टय विराजमान परमात्मपदको [ पश्यन्ति ] प्रगटरूपसे पाते हैं । कैसा पाते हैं ? “बन्धविधुर” [ बन्ध ] अनादि कालसे एकबन्धपर्यायरूप चला आया था ज्ञानावरगादि कर्मरूप पुद्गलपिण्ड, उससे [ विधुरं ] सर्वथा रहित है । भावार्थ इस प्रकार है—सकल कर्मके क्षयसे हुआ है शुद्ध, उसकी प्राप्ति होती है शुद्धस्वरूपका अनुभव करते हुए । कैसे है वे जीव ? “रागादिमुक्तमनस” राग, द्वेष, मोहसे रहित है परिणाम जिनका, ऐसे हैं । और कैसे है ? “सतत भवन्तः” [ सततं ] निरन्तरपणे [ भवन्तः ] ऐसे ही हैं । भावार्थ इस प्रकार है—कोई जानेगा कि सर्वकाल प्रमादी रहना है, कभी एक जैसा कहा वैसा होता है सो इस प्रकार तो नहीं, सदा सर्वकाल शुद्धपनेरूप रहता है ॥८-१२०॥

( त्रसन्ततिलका )

प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु  
रागादियोगमुपयान्ति विमुक्तबोधाः ।

ते कर्मबन्धमिह बिभ्रति पूर्वबद्ध-

द्रव्यास्त्रैः कृतविचित्रविकल्पजालम् ॥६-१२१॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तु पुनः” ऐसा भी है—“ये शुद्धनयतः प्रच्युत्य रागादियोग उपयान्ति ते इह कर्मबन्ध विभ्रति” [ ये ] जो कोई उपशमसम्यग्दृष्टि अथवा वेदकसम्यग्दृष्टि जीव [ शुद्धनयतः ] शुद्ध चैतन्यस्वरूपके अनुभवसे [ प्रच्युत्य ] भ्रष्ट हुए हैं तथा [ रागादि ] राग, द्वेष, मोहरूप अशुद्ध परिणाम [ योगं ] रूप [ उपयान्ति ] होते हैं [ ते ] ऐसे हैं जो जीव वे [ कर्मबन्धं ] ज्ञानावरगादि कर्मरूप पुद्गलपिण्ड [ विभ्रति ] नया उपाजित करते हैं । भावार्थ इस प्रकार है—सम्यग्दृष्टि जीव जब तक सम्यक्त्वके परिणामसे साबुत रहता है तब तक राग, द्वेष, मोहरूप अशुद्ध परिणामके



नहीं होनेसे ज्ञानावरणादि कर्मबन्ध नहीं होता । ( किन्तु ) जो सम्यग्दृष्टि जीव थे पीछे सम्यक्त्वके परिणामसे भ्रष्ट हुए, उनको राग, द्वेष, मोहरूप अशुद्ध परिणामके होनेसे ज्ञानावरणादि कर्मबन्ध होता है, क्योंकि मिथ्यात्वके परिणाम अशुद्धरूप हैं । कैसे हैं वे जीव ? “विमुक्तबोधाः” [ विमुक्त ] छूटा है [ बोधाः ] शुद्धस्वरूपका अनुभव जिनका, ऐसे है । कैसा है कर्मबन्ध ? “पूर्वबद्धद्रव्यास्त्रैः कृतविचित्रविकल्पजाल” [ पूर्व ] सम्यक्त्वके बिना उत्पन्न हुए [ बद्ध ] मिथ्यात्व, राग, द्वेषरूप परिणामके द्वारा बाँधे थे जो [ द्रव्यास्त्रैः ] पुद्गलपिण्डरूप मिथ्यात्वकर्म तथा चारित्र्य मोहकर्म उनके द्वारा [ कृत ] किया है [ विचित्र ] नानाप्रकार [ विकल्प ] राग, द्वेष, मोहपरिणाम, उसका [ जाल ] समूह ऐसा है । भावार्थ इस प्रकार है—जितने काल जीव सम्यक्त्वके भावरूप परिणामा था उतने काल चारित्र्यमोहकर्म कीले हुए सर्पके समान अपना कार्य करनेके लिए समर्थ नहीं था । जब वही जीव सम्यक्त्वके भावने भ्रष्ट हुआ मिथ्यात्व भावरूप परिणामा तब उकीले हुए सर्पके समान अपना कार्य करनेके लिए समर्थ हुआ । चारित्र्यमोहकर्मका कार्य ऐसा जो जीवके अशुद्ध परिणामनका निमित्त होना । भावार्थ इस प्रकार है—जीवके मिथ्यादृष्टि होनेपर चारित्र्यमोहका बन्ध भी होता है । जब जीव सम्यक्त्वको प्राप्त करता है तब चारित्र्यमोहके उदयमें बन्ध होता है परन्तु बन्धशक्ति हीन होती है, इसलिए बंध नहीं कहलाना । इस कारण सम्यक्त्वके होनेपर चारित्र्यमोहको कीले हुए सर्पके समान ऊपर कहा है । जब सम्यक्त्व छूट जाता है तब उकीले हुए सर्प के समान चारित्र्यमोहको कहा सो ऊपरके भावार्थका अभिप्राय जानना ॥६-१२१॥

( अनुष्टुप् )

**इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि ।**

**नास्ति बन्धस्तदत्यागात्तत्त्यागाद्बन्ध एव हि ॥१०-१२२॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अत्र इदं एव तात्पर्यं” [ अत्र ] इस समस्त अधिकारमें [ इदं एव तात्पर्यं ] निश्चयसे इतना ही कार्य है । वह कार्य कैसा ? “शुद्धनयः हेयः न हि” [ शुद्धनयः ] आत्माके शुद्ध स्वरूपका अनुभव [ हेयः न हि ] सूक्ष्म कालमात्र भी विसारने ( भूलने ) योग्य नहीं है । किस कारण ? “हि तत् अत्यागात् बन्धः नास्ति” [ हि ] जिस कारण [ तत् ] शुद्ध स्वरूपका अनुभव, उसके [ अत्यागात् ] नहीं छूटनेसे [ बन्धः नास्ति ] ज्ञानावरणादि कर्मका बन्ध नहीं होता । और किस कारण ? “तत्त्या-

गाल् बन्ध एव" [ तत् ] शुद्ध स्वरूपका अनुभव, उसके [ त्यागात् ] छूटनेसे [ बन्ध एव ] ज्ञानावरणादि कर्मका बन्ध है । भावार्थ प्रगट है ॥१०-१२२॥

( शार्ङ्गलविकीर्तित )

धीरोदारमहिम्न्यादिनिधने बोधे निबध्नन्धृतिं  
त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वकषः कर्मणाम् ।  
तत्रस्थाः स्वमरीचिचक्रमच्चिरात्संहृत्य निर्यद्बहिः  
पूर्णं ज्ञानधनौघमेकमचलं पश्यन्ति शान्तं महः ॥११-१२३॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“कृतिभि जातु शुद्धनयः त्याज्यः न हि” [ कृतिभिः ] सम्यग्दृष्टि जीवोंके द्वारा [ जातु ] सूक्ष्मकालमात्र भी [ शुद्धनयः ] शुद्ध चेतन्यमात्र-वस्तुका अनुभव [ त्याज्यः न हि ] विस्मरण योग्य नहीं है । कैसा है शुद्धनय ? “बोधे धृति निबध्नन्” [ बोधे ] आत्मस्वरूपमे [ धृतिं ] अतीन्द्रिय सुखस्वरूप परिणतिको [ निबध्नन् ] परिणमाता है । कैसा है बोध ? “धीरोदारमहिम्नि” [ धीर ] शाश्वती [ उदार ] धाराप्रवाहरूप परिणामनशील, ऐसी है [ महिम्नि ] बढाई जिसकी, ऐसा है । और कैसा है ? “अनादिनिधने” [ अनादि ] नहीं है आदि [ अनिधने ] नहीं है अन्त जिसका, ऐसा है । और कैसा है शुद्धनय ? “कर्मणा सर्वकष” [ कर्मणां ] ज्ञानावरणादि पुद्गलकर्मपिण्डका अथवा राग, द्वेष, मोहरूप अशुद्ध परिणामोका [ सर्वकषः ] मूलसे क्षयकरणाशील है । “तत्रस्था शान्त मह पश्यन्ति” [ तत्रस्थाः ] शुद्धस्वरूप-अनुभवमे मग्न है जो जीव, वे [ शान्तं ] सर्व उपाधिसे रहित ऐसे [ महः ] चेतन्यद्रव्य को [ पश्यन्ति ] प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त करते हैं । भावार्थ इस प्रकार है—परमात्मपदको प्राप्त होते हैं । कैसा है मह ? “पूर्ण” असख्यात प्रदेश ज्ञान विराजमान है । और कैसा है ? “ज्ञानधनौघ” चेतनागुणका पुज है । और कैसा है ? “एक” समस्त विकल्पसे रहित निर्विकल्प वस्तुमात्र है । और कैसा है ? “अचल” कर्मसयोगके मितनेसे निश्चल है । क्या करके ऐसे स्वरूपकी प्राप्ति होती है ? “स्वमरीचिचक्रं अचिरात् संहृत्य” [ स्वमरीचिचक्रं ] भूठ है, भ्रम है जो कर्मकी सामग्री इन्द्रिय, शरीर रागादिमें आत्मबुद्धि, उसको [ अचिरात् ] तत्कालमात्र [ संहृत्य ] विनाशकर । कैसा है मरीचिचक्र ? “बहिः निर्यत्” अनात्मपदार्थोंमें भ्रमता है । भावार्थ इस प्रकार है—परमात्मपदकी प्राप्ति होनेपर समस्त विकल्प मितते हैं ॥११-१२३॥

( मन्दा कान्ता )

रागादीनां भ्रगिति विगमात्सर्वतोऽप्यास्रवाणां  
नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु संपश्यतोऽन्तः ।  
स्फारस्फारैः स्वरसविसरैः प्लावयत्सर्वभावा-  
नालोकान्तादचलमतुलं ज्ञानमुन्मग्नमेतत् ॥१२-१२४॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“एतत् ज्ञान उन्मग्न” [ एतत् ] जैसा कहा है वैसा शुद्ध [ ज्ञानं ] शुद्ध चेतन्यप्रकाश [ उन्मग्नं ] प्रगट हुआ । जिमको ज्ञान प्रगट हुआ वह जीव कैसा है ? “किमपि वस्तु अन्त सपश्यत.” [ किमपि वस्तु ] निर्विकल्पसत्तामात्र कुछ वस्तु, उसको [ अन्तः संपश्यतः ] भावश्रुतज्ञानके द्वारा प्रत्यक्षपने अवलम्बता है । भावार्थ इस प्रकार है—शुद्ध स्वरूपके अनुभवके काल जीव काष्ठके समान जड़ है ऐसा भी नहीं है, सामान्यतया सविकल्पी जीवके समान विकल्पी भी नहीं है, भावश्रुतज्ञानके द्वारा कुछ निर्विकल्प वस्तुमात्रको अवलम्बता है । अवश्य अवलम्बता है । “परम” ऐसे अवलम्बनको वचनद्वारमे कहनेको समर्थपना नहीं है, इसलिए कहना शक्य नहीं । कैसा है शुद्ध ज्ञानप्रकाश ? “नित्योद्योत” अविनाशी है प्रकाश जिसका । किस कारणसे ? “रागादीना भ्रगिति विगमात्” [ रागादीनां ] राग, द्वेष, मोहकी जातिके हैं जितने असख्यात लोकमात्र अशुद्ध परिणाम उनका [ भ्रगिति विगमात् ] तत्काल विनाश होनेसे । कैसे है अशुद्धपरिणाम ? “सर्वत अपि आस्रवाणा” [ सर्वतः अपि ] सर्वथा प्रकार [ आस्रवाणां ] आस्रव ऐसा नाम-सज्ञा है जिनकी, ऐसे है । भावार्थ इस प्रकार है—जीवके अशुद्ध रागादि परिणामको सच्चा आस्रवपना घटता है, उनका निमित्त पाकर कर्मरूप आस्रवती है जो पुद्गलकी वर्गंगा वे तो अशुद्धपरिणामके सहारेकी है, इसलिए उनकी कौन बात, परिणामको शुद्ध होनेपर सहज ही मिटती है । और कैसा है शुद्ध ज्ञान ? “सर्वभावान् प्लावयन्” [ सर्वभावान् ] जितने ज्ञेयवस्तु अतीत, अनागत, वर्तमानपर्यायसे सहित है उनको [ प्लावयन् ] अपनेमे प्रतिविम्बित करता हुआ । किसके द्वारा ? “स्वरसविसरैः” [ स्वरम ] चिद्रूप गुण, उसकी [ विसरैः ] अनन्तशक्ति, उसके द्वारा । कैसी है वे ? “स्फारस्फारैः” [ स्फार ] अनन्त शक्ति, उससे भी [ स्फारैः ] अनन्तानन्तगुणी है । भावार्थ इस प्रकार है—द्रव्य अनन्त है, उनसे पर्यायभेद अनन्तगुणे

हैं। उन समस्त ज्ञेयोंसे ज्ञानकी अनन्तगुणी शक्ति है। ऐसा द्रव्यका स्वभाव है। और कैसा है शुद्ध ज्ञान ? “आलोकान्तात् अचलं” सकल कर्मोंका क्षय होनेपर जैसा उत्पन्न हुआ वैसा ही अनन्त कालपर्यन्त रहेगा, कभी और-सा नहीं होगा। और कैसा है शुद्ध ज्ञान ? “अतुलं” तीन लोकमे जिसका सुखरूप परिणामनका दृष्टात नहीं है। ऐसा शुद्ध ज्ञानप्रकाश प्रगट हुआ ॥१२-१२४॥



## संवर-अधिकार

( शाङ्खलविक्रीडित )

आसंसारविरोधिसंवरजयैकान्तावलिप्तास्रव-  
न्यक्कारात्प्रतिलब्धनित्यविजयं सम्पादयत्संवरम् ।  
व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक् स्वरूपे स्फुर-  
ज्ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्जृम्भते ॥१-१२५॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“चिन्मय ज्योतिः उज्जृम्भते” [ चित् ] चेतना, वही है [ मयं ] स्वरूप जिसका, ऐसा [ ज्योतिः ] प्रकाशस्वरूप वस्तु [ उज्जृम्भते ] प्रगट होता है । कैसी है ज्योति ? “स्फुरत्” सर्व काल प्रगट है । और कैसी है ? “उज्ज्वलं” कर्मकलकसे रहित है । और कैसी है ? “निजरसप्राग्भार” [ निजरस ] चेतनगुण, उसका [ प्राग्भारं ] समूह है । और कैसी है ? “पररूपत व्यावृत्त” [ पररूपतः ] ज्ञेयाकारपरि-गमन, उससे [ व्यावृत्तं ] परान्मुख है । भावार्थ इस प्रकार है—सकल ज्ञेयवस्तुको जानती है तद्रूप नहीं होती, अपने स्वरूप रहती है । और कैसी है ? “स्वरूपे सम्यक् नियमित” [ स्वरूपे ] जीवका शुद्धस्वरूप, उसमें [ सम्यक् ] जैसी है वैसी [ नियमितं ] गाढरूपसे स्थापित है । और कैसी है ? “सवरं सम्पादयत्” [ संवरं ] धाराप्रवाहरूप आस्रवता है जानावरगादि कर्म उसका निरोध [ सम्पादयत् ] करणशील है । भावार्थ इस प्रकार है—यहाँ से लेकर संवरका स्वरूप कहते हैं । कैसा है संवर ? “प्रतिलब्धनित्यविजयं” [ प्रतिलब्ध ] पाया है [ नित्य ] शाश्वत [ विजयं ] जीतपना, जिसने, ऐसा है । किस कारणसे ऐसा है ? “आसंसारविरोधिसंवरजयैकान्तावलिप्तास्रवन्यक्कारात्” [ आसंसार ] अनन्त कालसे लेकर [ विरोधि ] वैरी है ऐसा जो [ संवर ] बध्यमान कर्मका निरोध, उसका [ जय ] जीतपना, उसके द्वारा [ एकान्तावलिप्त ] मुझसे बडा तीन लोकमें कोई नहीं ऐसा हुआ है गर्व जिसको ऐसा [ आस्रव ] धाराप्रवाहरूप कर्मका आगमन उसको

[ न्यक्कारात् ] दूर करनेरूप मानभंगके कारण । भावार्थ इस प्रकार है—आस्रव तथा संवर परस्पर अति ही बेरी है, इसलिए अनन्तकालसे लेकर सर्व जीवराशि विभाव-मिथ्यात्वपरिरातिरूप परिणमता है, इस कारण शुद्धज्ञानका प्रकाश नहीं है । इसलिए आस्रवके सहारे सर्व जीव हैं । काललब्धि पाकर कोई आसन्नभव्य जीव सम्यक्त्वरूप स्वभावपरिराति परिणमता है, इससे शुद्ध प्रकाश प्रगट होता है, इससे कर्मका आस्रव मिटता है । इससे शुद्ध ज्ञानका जीनपना घटित होता है ॥१-१२५॥

( शाङ्खलविक्रीडित )

**चंद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्वयो-  
रन्तर्दारुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च ।  
भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिताः  
शुद्धज्ञानघनौघमेकमधुना सन्तो द्वितीयच्युताः ॥२-१२६॥**

**खण्डान्वय सहित अर्थ**—“इदं भेदज्ञान उदेति” [ इदं ] प्रत्यक्ष ऐसा [ भेदज्ञानं ] जीवके शुद्धस्वरूपका अनुभव [ उदेति ] प्रगट होता है । कैसा है ? “निर्मल” राग, द्वेष, मोहरूप अशुद्धपरिरातिसे रहित है । और कैसा है ? “शुद्धज्ञानघनौघ” [ शुद्धज्ञान ] शुद्धस्वरूपका ग्राहक ज्ञान, उसका [ घन ] समूह, उसका [ औघं ] पुञ्ज है । और कैसा है ? “एकं” समस्त भेदविकल्पसे रहित है । भेदज्ञान जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं—“ज्ञानस्य रागस्य च द्वयो विभाग परत कृत्वा” [ ज्ञानस्य ] ज्ञान-गुणमात्र [ रागस्य च ] और अशुद्ध परिराति, उन [ द्वयोः ] दोनोंका [ विभागं ] भिन्न-भिन्नपना [ परतः ] एक दूसरेसे [ कृत्वा ] करके भेदज्ञान प्रगट होता है । कैसे है वे दोनो ? “चंद्रूप्यं जडरूपतां च दधतो” चैतन्यमात्र जीवका स्वरूप, जडत्वमात्र अशुद्ध-पनाका स्वरूप । कैसा करके भिन्नपना किया ? “अन्तर्दारुणदारणेन” [ अन्तर्दारुण ] अन्तरंग सूक्ष्म अनुभवदृष्टि, ऐसी है [ दारणेन ] करोंत, उसके द्वारा । भावार्थ इस प्रकार है—शुद्ध ज्ञानमात्र तथा रागादि अशुद्धपना ये दोनो भिन्न-भिन्नरूपसे अनुभव करनेके लिए अति सूक्ष्म है, क्योंकि रागादि अशुद्धपना चेतनसा दीखता है, इसलिए अतिसूक्ष्म दृष्टिसे, जिस प्रकार पानी कीचडसे मिला होनेसे मैला हुआ है तथापि स्वरूपका अनुभव करने पर स्वच्छतामात्र पानी है, मैला है सो कीचडकी उपाधि है उसी प्रकार रागादिपरिरागमेके कारण ज्ञान अशुद्ध ऐसा दीखता है तथापि ज्ञानपनामात्र ज्ञान

है, रागादि अशुद्धपना उपाधि है। “सन्तः अधुना इदं मोदध्व” [ सन्तः ] सम्यग्दृष्टि जीव [ अधुना ] वर्तमान समयमे [ इदं मोदध्वं ] शुद्धज्ञानानुभवको आस्वादो। कैसे है सन्तपुरुष ? “अध्यासितः” शुद्धस्वरूपका अनुभव है जीवन जिनका ऐसे है। और कैसे है ? “द्वितीयच्युताः” हेय वस्तुको नहीं अवलम्बते है ॥२-१२६॥

( मालिनी )

यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन  
ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते ।  
तदयमुदयदात्माराममात्मानमात्मा  
परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति ॥३-१२७॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तत् अयं आत्मा आत्मानं शुद्ध अभ्युपैति” [ तत् ] तिस कारण [ अयं आत्मा ] यह प्रत्यक्ष जीव [ आत्मानं ] अपने स्वरूपको [ शुद्धं ] जितने है द्रव्यकर्म भावकर्म, उनसे रहित [ अभ्युपैति ] प्राप्त करता है। कैसा है आत्मा ? “उदयदात्माराम” [ उदयत् ] प्रगट हुआ है [ आत्मा ] अपना द्रव्य, ऐसा है [ आरामं ] निवास जिसका, ऐसा है। किस कारणसे शुद्धकी प्राप्ति होती है। “परपरिणतिरोधात्” [ परिणति ] अशुद्धपना, उसके [ रोधात् ] विनाशसे। अशुद्धपनाका विनाश जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं—“यदि आत्मा कथमपि शुद्धं आत्मान उपलभमानः आस्ते” [ यदि ] जो [ आत्मा ] चेतन द्रव्य [ कथमपि ] काललब्धिको पाकर सम्यक्त्व पर्यायरूप परिणामता हुआ [ शुद्धं ] द्रव्यकर्म, भावकर्मसे रहित ऐसे [ आत्मानं ] अपने स्वरूपको [ उपलभमानः आस्ते ] आस्वादता हुआ प्रवर्तता है। कैसा करके ? “बोधनेन” भावश्रुतज्ञानके द्वारा। कैसा है भावश्रुतज्ञान ? “धारावाहिना” अखण्डित धाराप्रवाह-रूप निरन्तर प्रवर्तता है। “ध्रुव” इस बातका निश्चय है ॥३-१२७॥

( मालिनी )

निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या  
भवति नियतमेषां शुद्धतत्त्वोपलम्भः ।  
अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरेस्थितानां  
भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ॥४-१२८॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“एषां निजमहिमरतानां शुद्धतत्त्वोपलम्भः भवति” [ एषां ] ऐसे जो है, कैसे ? [ निजमहिम ] जीवके शुद्धस्वरूप परिणमनमें [ रतानां ] मग्न है जो कोई, उनको [ शुद्धतत्त्वोपलम्भः भवति ] सकल कर्मोंसे रहित अनन्त चतुष्टय विराजमान ऐसा जो आत्मवस्तु उसकी प्राप्ति होती है। “नियत” अवश्य होती है। कैसा करके होती है ? “भेदविज्ञानशक्त्या” [ भेदविज्ञान ] समस्त परद्रव्योंसे आत्मस्वरूप भिन्न है ऐसे अनुभवरूप [ शक्त्या ] सामर्थ्यके द्वारा। “तस्मिन् सति कर्ममोक्षो भवति” [ तस्मिन् ] शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति होनेपर [ कर्ममोक्षः भवति ] द्रव्यकर्म भावकर्मका मूलसे विनाश होता है। “अचलित” ऐसा द्रव्यका स्वरूप अमिट है। कैसा है कर्मक्षय ? “अक्षयः” आगामी अनन्त काल तक और कर्मका बन्ध नहीं होगा। जिन जीवोंका कर्मक्षय होता है वे जीव कैसे है ? “अखिलान्यद्रव्यदूरे स्थितानां” [ अखिल ] समस्त ऐसे जो [ अन्यद्रव्य ] अपने जीवद्रव्यसे भिन्न सब द्रव्य, उनसे [ दूरे स्थितानां ] सर्व प्रकार भिन्न है ऐसे जो जीव, उनके ॥४-१२८॥

( उपजाति )

सम्पद्यते संवर एष साक्षा-

च्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलम्भात् ।

स भेदविज्ञानत एव तस्मात्

तद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यम् ॥५-१२९॥

खण्डान्वय महिन अर्थ—“तद् भेदविज्ञान अतीव भाव्य” [ तत् ] उस कारणसे [ भेदविज्ञानं ] समस्त परद्रव्योंसे भिन्न चैतन्यस्वरूपका अनुभव [ अतीव भाव्यं ] सर्वथा उपादेय है ऐसा मानकर अखण्डित धाराप्रवाहरूप अनुभव करना योग्य है। कैसा होनेसे ? “किल शुद्धात्मतत्त्वस्य उपलम्भात् एष संवरः साक्षात् सम्पद्यते” [ किल ] निश्चयसे [ शुद्धात्मतत्त्वस्य ] जीवके शुद्धस्वरूपके [ उपलम्भात् ] प्राप्ति होनेसे [ एषः संवरः ] नूतन कर्मके आगमनरूप आस्रवका निरोधलक्षण संवर [ साक्षात् सम्पद्यते ] सर्वथा प्रकार होता है। “स भेदविज्ञानत एव” [ सः ] शुद्धस्वरूपका प्रगटपना [ भेदविज्ञानतः ] शुद्धस्वरूपके अनुभवसे [ एव ] निश्चयसे होता है। “तस्मात्” तिस कारण भेदविज्ञान भी विनाशीक है तथापि उपादेय है ॥५-१२९॥



( अनुष्टुप् )

**भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।**

**तावद्यावत्पराच्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥६-१३०॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“इदं भेदविज्ञानं तावत् अच्छिन्नधारया भावयेत्” [ इदं भेदविज्ञानं ] पूर्वोक्त लक्षण है जो शुद्ध स्वरूपका अनुभव उसका [ तावत् ] उतने काल तक [ अच्छिन्नधारया ] अखण्डित धाराप्रवाहरूपसे [ भावयेत् ] आस्वाद करे । “यावत् परात् च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते” [ यावत् ] जितने कालमें [ परात् च्युत्वा ] परसे छूट कर [ ज्ञानं ] आत्मा [ ज्ञाने ] शुद्धस्वरूपमे [ प्रतिष्ठते ] एकरूप परिणामे । भावार्थ इस प्रकार है—निरन्तर शुद्धस्वरूपका अनुभव कर्तव्य है । जिस काल सकल कर्मक्षयलक्षण मोक्ष होगा उस काल समस्त विकल्प सहज ही छूट जायेगे । वहां भेद-विज्ञान भी एक विकल्परूप है, केवलज्ञानके समान जीवका शुद्धस्वरूप नहीं है, इसलिए महज ही विनाशीक है ॥६-१३०॥

( अनुष्टुप् )

**भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।**

**अस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥७-१३१॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ये किल केचन सिद्धाः ते भेदविज्ञानतः सिद्धाः” [ ये ] आसन्नभव्य जीव है जो कोई [ किल ] निश्चयसे [ केचन ] संसारी जीवराशिमेंसे जो कोई गिनतीके [ सिद्धाः ] सकल कर्मोंका क्षय कर निर्वाणपदको प्राप्त हुए [ ते ] वे समस्त जीव [ भेदविज्ञानतः ] सकल परद्रव्योंसे भिन्न शुद्धस्वरूपके अनुभवसे [ सिद्धाः ] मोक्षपदको प्राप्त हुए । भावार्थ इस प्रकार है—मोक्षका मार्ग शुद्धस्वरूपका अनुभव, अनादि संसिद्ध यही एक मोक्षमार्ग है । “ये केचन बद्धाः ते किल अस्य एव अभावतः बद्धा” [ ये केचन ] जो कोई [ बद्धाः ] ज्ञानावरणादि कर्मोंसे बंधे है [ ते ] वे समस्त जीव [ किल ] निश्चयसे [ अस्य एव ] ऐसा जो भेदविज्ञान, उसके [ अभावतः ] नहीं होनेसे [ बद्धाः ] बद्ध होकर ससारमे रुल रहे हैं । भावार्थ इस प्रकार है—भेदज्ञान सर्वथा उपादेय है ॥७-१३१॥

( मन्दाक्रान्ता )

**भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलम्भा-**

**द्रागग्रामप्रलयकरणात्कर्मणां संवरेण ।**

## बिभ्रत्तोषं परमममलालोकमम्लानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत् ॥८-१३२॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“एतत् ज्ञान उदित” [ एतत् ] प्रत्यक्ष विद्यमान [ ज्ञानं ] शुद्ध चैतन्यप्रकाश [ उदितं ] आस्रवका निरोध करके प्रगट हुआ। कैसा है ? “ज्ञाने नियत” अनन्त कालसे परिणामता था अशुद्ध रागादि विभावरूप वह काललब्धि पाकर अपने शुद्धस्वरूप परिणाम है। और कैसा है ? “शाश्वतोद्योत” अविनश्वर प्रकाश है जिसका, ऐसा है। और कैसा है ? “तोष विभ्रत्” अतीन्द्रिय सुखरूप परिणाम है। और कैसा है ? “परम” उत्कृष्ट है। और कैसा है ? “अमलालोक” सर्वथा प्रकार सर्व काल सर्व त्रैलोक्यमे निर्मल है—साक्षात् शुद्ध है। और कैसा है ? “अम्लान” सदा प्रकाशरूप है। और कैसा है ? “एक” निर्विकल्प है। शुद्ध ज्ञान ऐसा जिस प्रकार हुआ है उसी प्रकार कहते हैं—“कर्मणा सवरेण” ज्ञानावरणारूप आस्रवते थे जो कर्मपुद्गल उनके निरोधसे। कर्मका निरोध जिस प्रकार हुआ है उस प्रकार कहते हैं—“रागग्रामप्रलयकरणात्” [ राग ] राग, द्वेष, मोहरूप अशुद्ध विभावपरिणाम, उनका [ ग्राम ] समूह—असख्यात् लोकमात्र भेद, उनका [ प्रलय ] मूलसे सत्तानाश, उसके [ करणात् ] करनेसे। ऐसा भी किस कारणसे ? “शुद्धतत्त्वोपलम्भात्” [ शुद्धतत्त्व ] शुद्धचैतन्यवस्तु, उसकी [ उपलम्भात् ] साक्षात् प्राप्ति, उससे। ऐसा भी किस कारणसे ? “भेदज्ञानोच्छलनकलनात् [ भेदज्ञान ] शुद्धस्वरूपज्ञान, उसका [ उच्छलन ] प्रगटपना, उसका [ कलनात् ] निरन्तर अभ्यास, उससे। भावार्थ इस प्रकार है—शुद्ध स्वरूपका अनुभव उपादेय है ॥८-१३२॥



## निर्जरा-अधिकार



( शाद्रूलविक्रीडित )

रागाद्यासवरोधतो निजधुरान्धृत्वा परः संवरः  
कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरात्निरुन्धन् स्थितः ।  
प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याजृम्भते निर्जरा  
ज्ञानज्योतिरपावृत्तं न हि यतो रागादिभिर्मूर्च्छति ॥१-१३३

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अधुना निर्जरा व्याजृम्भते” [ अधुना ] यहाँसे लेकर [ निर्जरा ] पूर्वबद्ध कर्मका अकर्मरूप परिणाम [ व्याजृम्भते ] प्रगट होता है। भावार्थ इस प्रकार है—निर्जराका स्वरूप जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं। निर्जरा किसके निमित्त ( किसके लिए ) है ? “तु तत् एव प्राग्बद्धं दग्धु” [ तु ] संवरपूर्वक [ तत् ] जो ज्ञानावरणादि कर्म [ एव ] निश्चयसे [ प्राग्बद्धं ] सम्यक्त्वके नहीं होने पर मिथ्यात्व, राग, द्वेष परिणामसे बंधा था उसको [ दग्धुं ] जलानेके लिए। कुछ विशेष—“सवरः स्थितः” संवर अग्रेसर हुआ है जिसकी ऐसी है निर्जरा। भावार्थ इस प्रकार है—सवरपूर्वक जो निर्जरा सो निर्जरा, क्योंकि जो संवरके बिना होती है सब जीवोंको उदय देकर कर्मकी निर्जरा सो निर्जरा नहीं है। कैसा है संवर ? “रागाद्यास्रवरोधत निजधुरा धृत्वा आगामि समस्त एव कर्म भरतः दूरात् निरुन्धन्” [ रागाद्यास्रवरोधतः ] रागादि आस्रवभावोंके निरोधसे [ निजधुरां ] अपने एक संवररूप पक्षको [ धृत्वा ] धरता हुआ [ आगामि ] अखण्ड धाराप्रवाहरूप आस्रवित होनेवाले [ समस्तं एव कर्म ] नाना प्रकारके ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय इत्यादि अनेक प्रकारके पुद्गलकर्मको [ भरतः ] अपने बडप्पनसे [ दूरात् निरुन्धन् ] पासमे आने नहीं देता है। संवर-पूर्वक निर्जरा कहने पर जो कुछ कार्य हुआ सो कहते हैं—“यतः ज्ञानज्योतिः अपावृत्तं रागादिभिः न मूर्च्छति” [ यतः ] जिस निर्जरा द्वारा [ ज्ञानज्योतिः ] जीवका शुद्ध

स्वरूप [ अपावृत्तं ] निरावरण होता हुआ [ रागादिभिः ] अशुद्ध परिणामोसे [ न मूर्च्छति ] अपने स्वरूपको छोड़कर रागादिरूप नहीं होता ॥१-१३३॥

( अनुष्टुप् )

**तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल ।**

**यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते ॥२-१३४॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तत् सामर्थ्यं किल ज्ञानस्य एव वा विरागस्य एव” [ तन्सामर्थ्यं ] ऐसी सामर्थ्य [ किल ] निश्चयसे [ ज्ञानस्य एव ] शुद्ध स्वरूपके अनुभवकी है, [ वा विरागस्य एव ] अथवा रागादि अशुद्धपना छूटा है, उसकी है। वह सामर्थ्य कौन ? “यत् कोऽपि कर्म भुञ्जानोऽपि कर्मभिः न बध्यते” [ यत् ] जो सामर्थ्य ऐसी है कि [ कोऽपि ] कोई सम्यग्दृष्टि जीव [ कर्मभुञ्जानोऽपि ] पूर्व ही बाँधा है ज्ञानावरणादि कर्म उसके उदयसे हुई है शरीर, मन, वचन, इन्द्रिय, सुख, दुःखरूप नानाप्रकारकी सामग्री, उसको यद्यपि भोगता है तथापि [ कर्मभिः ] ज्ञानावरणादिसे [ न बध्यते ] नहीं बँधना है। जिस प्रकार कोई वैद्य प्रत्यक्षरूपसे विषको खाता है तो भी नहीं मरता है और गुग्गु जानता है, इससे अनेक यत्न जानता है, उससे विषकी प्राणघातक शक्ति दूर कर दी है। वही विष अन्य जीव खावे तो तत्काल मरे, उससे वैद्य नहीं मरता। ऐसी जानपनेकी सामर्थ्य है। अथवा कोई शूद्र जीव मदिरा पीता है। परन्तु परिणामोमें कुछ दुश्चिन्ता है, मदिरा पीनेमें रुचि नहीं है, ऐसा शूद्रजीव मतवाला नहीं होता। जैसा था वैसा ही रहता है। मद्य तो ऐसा है जो अन्य कोई पीता है तो तत्काल मतवाला होता है। सो जो कोई मतवाला नहीं होता ऐसा अरुचि परिणामका गुग्गु जानो। उसी प्रकार कोई सम्यग्दृष्टि जीव नाना प्रकारकी सामग्रीको भोगता है, सुख-दुःखको जानता है, परन्तु ज्ञानमें शुद्धस्वरूप आत्माको अनुभवता है, उसमें ऐसा अनुभवता है जो ऐसी सामग्री कर्मका स्वरूप है, जीवको दुःखमय है, जीवका स्वरूप नहीं, उपाधि है ऐसा जानता है। उस जीवको ज्ञानावरणादि कर्मका बन्ध नहीं होता है। सामग्री तो ऐसी है जो मिथ्यादृष्टिके भोगनेमात्र कर्मबन्ध होता है। जो जीवको कर्मबन्ध नहीं होता, वह जानपनाकी सामर्थ्य है ऐसा जानना। अथवा सम्यग्दृष्टि जीव नानाप्रकारके कर्मके उदयफल भोगता है, परन्तु अभ्यन्तर शुद्धस्वरूपको अनुभवता है, इसलिए कर्मके उदयफलमें रति नहीं उपजती, उपाधि जानता है, दुःख जानता है, इसलिए अत्यन्त रुखा है। ऐमें जीवके कर्मका बन्ध नहीं होता

है, वह रूखे परिणामोंकी सामर्थ्य है ऐसा जानो। इसलिए ऐसा अर्थ ठहराया जो सम्यग्-दृष्टि जीवके शरीर, इन्द्रिय आदि विषयोंका भोग निर्जराके लेखमें है, निर्जरा होती है। क्योंकि आगामी कर्म तो नहीं बँधता है, पिछला उदयफल देकर मूलसे निर्जरा जाता है, इसलिए सम्यग्दृष्टिका भोग निर्जरा है ॥२-१३४॥

( रथोद्धता )

**नाश्नुते विषयसेवनेऽपि यत् स्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।**

**ज्ञानवैभवविरागताबलात्सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥३-१३५॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तत् असौ सेवकः अपि असेवक ” [ तत् ] तिस कारणसे [ असौ ] सम्यग्दृष्टि जीव [ सेवकः अपि ] कर्मके उदयसे हुआ है जो शरीर पञ्चेन्द्रिय विषय सामग्री, उसको भोगता है तथापि [ असेवकः ] नहीं भोगता है। किस कारण ? “यत् ना विषयसेवनेऽपि विषयसेवनस्य स्व फलं न अश्नुते” [ यत् ] जिस कारणसे [ ना ] सम्यग्दृष्टि जीव [ विषयसेवनेऽपि ] पञ्चेन्द्रियसम्बन्धी विषयोंको सेवता है तथापि [ विषयसेवनस्य स्वं फलं ] पञ्चेन्द्रिय भोगका फल है ज्ञानावरणादि कर्मका बन्ध, उसको [ न अश्नुते ] नहीं पाता है। ऐसा भी किस कारणसे ? “ज्ञानवैभवविरागताबलात्” [ ज्ञानवैभव ] शुद्धस्वरूपका अनुभव, उसकी महिमा, उसके कारण अथवा [ विरागताबलात् ] कर्मके उदयसे है विषयका मुख, जीवका स्वरूप नहीं है, इसलिए विषयमुखमें रति नहीं उत्पन्न होती है, उदासभाव है, इस कारण कर्मबन्ध नहीं होता है। भावार्थ इस प्रकार है—सम्यग्दृष्टि जो भोग भोगता है सो निर्जराके निमित्त है ॥३-१३५॥

( मन्दाक्रान्ता )

**सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः**

**स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या ।**

**यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च**

**स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥४-१३६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“सम्यग्दृष्टेः नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः भवति” [ सम्यग्दृष्टेः ] द्रव्यरूपसे मिथ्यात्वकर्म उपशमा है, भावरूपसे शुद्ध सम्यक्त्वभावरूप परिणामा है जो जीव, उसके [ ज्ञान ] शुद्धस्वरूपका अनुभवरूप जानपना, [ वैराग्य ]

जितने परद्रव्य द्रव्यकर्मरूप, भावकर्मरूप, नोकर्मरूप ज्ञेयरूप है उन समस्त पर द्रव्योंका सर्व प्रकार त्याग [ शक्तिः ] ऐसी दो शक्तियाँ [ नियतं भवति ] अवश्य होती हैं—सर्वथा होती हैं। दोनो शक्तियाँ जिस प्रकार होती है उस प्रकार कहते हैं—“यस्मात् अयं स्वस्मिन् आस्ते परात् सर्वत रागयोगात् विरमति” [ यस्मात् ] जिस कारण [ अयं ] सम्यग्दृष्टि [ स्वस्मिन् आस्ते ] सहज ही शुद्धस्वरूपमे अदुभवरूप होता है तथा [ परात् रागयोगात् ] पुद्गल द्रव्यकी उपाधिसे है जितनी रागादि अशुद्धपरिणति उससे [ सर्वतः विरमति ] सर्व प्रकार रहित होना है। भावायं इस प्रकार है—ऐसा लक्षण सम्यग्दृष्टि जीवके अवश्य होता है। ऐसा लक्षण होने पर अवश्य वैराग्य गुण है। क्या करके ऐसा होता है? “स्व पर च इम व्यतिकर तत्त्वत ज्ञात्वा” [ स्वं ] शुद्धचैतन्यमात्र मेरा स्वरूप है, [ परं ] द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्मका विस्तार पराया—पुद्गल द्रव्यका है, [ इमं व्यतिकरं ] ऐसा विवरण [ तत्त्वतः ज्ञात्वा ] कहनेके लिए नहीं है, वस्तुस्वरूप ऐसा ही है ऐसा अनुभवरूप जानता है सम्यग्दृष्टि जीव, इसलिए ज्ञानशक्ति है। आगे इतना करता है सम्यग्दृष्टि जीव सो किसके लिए? उत्तर इस प्रकार है—“स्व वस्तुत्व कलयितु” [ स्वं वस्तुत्वं ] अपना शुद्धपना, उसके [ कलयितुं ] निरन्तर अभ्यास अर्थात् वस्तुकी प्राप्तिके निमित्त। उस वस्तुकी प्राप्ति किमसे होती है? “स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या” अपने शुद्ध स्वरूपका लाभ परद्रव्यका सर्वथा त्याग ऐसेकारणसे ॥४-१३६॥

( मदाक्रान्ता )

**सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बंधो न मे स्या-**

**दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु ।**

**आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा**

**आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः ॥५-१३७॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—इस बार ऐसा कहते है कि सम्यग्दृष्टि जीवके विषय भोगते हुए कर्मका बन्ध नहीं है, सो कारण ऐसा कि सम्यग्दृष्टिका परिणाम अति ही रूखा है, इसलिये भोग ऐसा लगता है मानो कोई रोगका उपसर्ग होता है। इसलिए कर्मका बन्ध नहीं है, ऐसा ही है। जो कोई मिथ्यादृष्टि जीव पञ्चेन्द्रियोंके विषयके सुखको भोगते है वे परिणामोसे चिकने है, मिथ्यात्व भावका ऐसा ही परिणाम है, सहारा किसका है। सो वे जीव ऐसा मानते है कि हम भी सम्यग्दृष्टि है, हमारे भी विषय सुख भोगते हुए कर्मका बन्ध नहीं है। सो वे जीव धोखेमे पड़े है, उनको कर्मका

बन्ध अवश्य है। इसलिए वे जीव मिथ्यादृष्टि अवश्य है। मिथ्यात्वभावके बिना कर्मकी सामग्रीमें प्रीति नहीं उपजती है, ऐसा कहते हैं—“ते रागिणः अद्यापि पापाः” [ ते ] मिथ्यादृष्टि जीवराशि [ रागिणः ] शरीर पंचेन्द्रियके भोगमुखमें अवश्यकर रंजक हैं। [ अद्यापि ] करोड़ उपाय जो करे अनन्त कालतक तथापि [ पापाः ] पापमय है। ज्ञानावरणादि कर्मबन्धको करते है, महानिन्द्य है। किस कारणसे ऐसे है ? “यतः सम्यक्त्वरिक्ताः सन्ति” [ यतः ] जिस कारणसे विषयसुखरंजक है जितनी जीवराशि वे, [ सम्यक्त्वरिक्ताः सन्ति ] शुद्धात्मस्वरूपके अनुभवसे शून्य है। किस कारणसे ? “आत्मानात्मावगमविरहात्” [ आत्मा ] शुद्धचैतन्य वस्तु, [ आनात्मा ] द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म, उनका [ अवगम ] हेयोपादेयरूप भिन्नपनेरूप जानपना, उसका [ विरहात् ] शून्यपना होनेसे। भावार्थ इस प्रकार है—मिथ्यादृष्टि जीवके शुद्ध वस्तुके अनुभवकी शक्ति नहीं होती ऐसा नियम है, इसलिए मिथ्यादृष्टि जीव कर्मके उदयको आपरूप जानकर अनुभवता है, पर्यायमात्रमें अत्यन्त रत है। इस कारण मिथ्यादृष्टि सर्वथा रागी है। रागी होनेसे कर्मबन्ध कर्ता है। कौसा है मिथ्यादृष्टि जीव ? “अयं अहं स्वयं सम्यग्दृष्टिः जातु मे बन्धः न स्यात्” [ अयं अहं ] यह जो हूँ मैं, [ स्वयं सम्यग्दृष्टिः ] स्वयं सम्यग्दृष्टि हूँ, इस कारण [ जातु ] त्रिकाल ही [ मे बन्धः न स्यात् ] अनेक प्रकारका विषयमुख भोगते हुए भी हमें तो कर्मका बन्ध नहीं है। “इति आचरन्तु” ऐसे जीव ऐसा मानते है तो मानो तथापि उनके कर्मबन्ध है। और कैसे है ? “उत्तानोत्पुलकवदना” [ उत्तान ] ऊचा कर [ उत्पुलक ] फुलाया है [ वदनाः ] गालमुख जिन्होंने, ऐसे है। “अपि” अथवा कैसे है ? ‘समितिपरता आलम्बन्तां’ [ समिति ] मौनपना अथवा थोडा बोलना अथवा अपनेको हीना करके बोलना, इनका [ परतां ] समानरूप सावधानपना उसको [ आलम्बन्तां ] अवलम्बन करते है अर्थात् सर्वथा प्रकार इसरूप प्रकृतिका स्वभाव है जिनका, ऐसे है। तथापि रागी होनेसे मिथ्यादृष्टि है, कर्मका बन्ध करते है। भावार्थ इस प्रकार है—जो कोई जीव पर्याय-मात्रमे रत होते हुए प्रगट मिथ्यादृष्टि है उनकी प्रकृतिका स्वभाव है कि हम सम्यग्दृष्टि, हमें कर्मका बन्ध नहीं ऐसा मुखसे गरजते है, कितने ही प्रकृतिके स्वभावके कारण मौन-सा रहते है, कितने थोडा बोलते हैं। सो ऐसे होकर रहते हैं सो यह समस्त प्रकृतिका स्वभावभेद है। इसमे परमार्थ तो कुछ नहीं। जितने काल तक जीव पर्यायमे

आपापन अनुभवता है उतने कालतक मिथ्यादृष्टि है, रागी है, कर्मका बन्ध करता है  
॥ ५-१३७ ॥

( मन्दाक्रान्ता )

**आसंसारत्प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ताः**

**सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्विबुध्यध्वमन्धाः ।**

**एतैतैतः पदमिवमिवं यत्र चैतन्यधातुः**

**शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति ॥६-१३८॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ओ अन्धा.” [ ओ ] सम्बोधन वचन, [ अन्धाः ] शुद्ध स्वरूपके अनुभवसे शून्य है जितनी जीवराशि । “तत् अपदं अपदं विबुध्यध्वं” [ तत् ] कर्मके उदयसे है जो चार गतिरूप पर्याय तथा रागादि अशुद्ध परिणाम तथा इन्द्रियविषयजनित मुख दुःख इत्यादि अनेक है वह [ अपदं अपदं ] जितना कुछ है—कर्म संयोगकी उपाधि है, दो बार कहने पर सर्वथा जीवका स्वरूप नहीं है, [ विबुध्यध्वं ] ऐसा अवश्य कर जानो । कैसा है मायाजाल ? “यस्मिन् अमी रागिणः आसंसारत् सुप्ताः” [ यस्मिन् ] जिसमें—कर्मका उदयजनित अशुद्ध पर्याय में [ अमी रागिणः ] प्रत्यक्षरूपसे विद्यमान है जो पर्यायमात्रमें राग करनेवाले जीव वे [ आसंसारत् सुप्ताः ] अनादिकालसे लेकर उसरूप अपनेको अनुभवते हैं । भावार्थ इस प्रकार है—अनादिकालसे लेकर ऐसे स्वादको सर्व मिथ्यादृष्टि जीव आस्वादेते हैं कि मैं देव हूँ, मनुष्य हूँ, सुखी हूँ, दुःखी हूँ, ऐसा पर्यायमात्रको आपा अनुभवते हैं, इसलिए सर्व जीवराशि जैसा अनुभवती है सो सर्व भ्रूता है, जीवका तो स्वरूप नहीं है । कैसी है सर्व जीवराशि ? “प्रतिपदं नित्यमत्ता.” [ प्रतिपदं ] जैसी पर्याय ली उसी रूप [ नित्यमत्ताः ] ऐसे मतवाले हुए कि कोई काल कोई उपाय करनेपर मतवालापन उतरता नहीं । शुद्ध चैतन्यस्वरूप जैसा है वैसा दिखलाते हैं—“इत एत एत” पर्यायमात्र अवधारा है आपा, ऐसे मार्ग मत जानो, मत जानो, क्योंकि [ वह ] तेरा मार्ग नहीं है, नहीं है । इस मार्ग पर आओ, अरे ! आओ, क्योंकि “इद पद इद पद” तेरा मार्ग यहाँ है, यहाँ है । “यत्र चैतन्यधातुः” [ यत्र ] जिसमें [ चैतन्यधातुः ] चेतनामात्र वस्तुका स्वरूप है । कैसा है ? “शुद्ध शुद्ध” सर्वथा प्रकार सर्व उपाधिसे रहित है । दो बार कहकर अत्यंत गाढ किया है । और कैसा है ? “स्थायिभावत्व एति” अविनश्वरभावको पाना है । किस कारणसे ? “स्वरस-



भरतः” [ स्वरस ] चेतनास्वरूप उसके [ भरतः ] भारसे अर्थात् कहनामात्र नहीं है, सत्यस्वरूप वस्तु है, इसलिये नित्य शाश्वत है। भावार्थ इस प्रकार है—जिसको—पर्यायको मिथ्यादृष्टि जीव आपा कर जानता है वे तो सर्व विनाशीक है, इसलिए जीवका स्वरूप नहीं है। चेतनामात्र अविनाशी है, इसलिए जीवका स्वरूप है ॥६-१३८॥

( अणुष्टुप् )

**एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपदं पदम् ।**

**अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥७-१३९॥**

खण्डान्वय महित अर्थ—“तत्पदं स्वाद्यं” [ तत् ] शुद्ध चैतन्यमात्र वस्तुरूप [ पदं ] मोक्षके कारणका [ स्वाद्यं ] निरन्तर अनुभव करना। कैसा है ? “हि एकं एव” [ हि ] निश्चयसे [ एकं एव ] समस्त भेद विकल्पसे रहित निर्विकल्प वस्तुमात्र है। और कैसा है ? “विपदा अपद” [ विपदां ] चतुर्गति संसारसम्बन्धी नाना प्रकारके दुःखोका [ अपदं ] अभावलक्षण है। भावार्थ इस प्रकार है—आत्मा सुखस्वरूप है। साता-असाताकर्मके उदयके सयोग होते हैं जो सुख दुःख सो जीवका स्वरूप नहीं हैं, कर्मकी उपाधि है। और कैसा है ? “यत्पुरः अन्यानि पदानि अपदानि एव भासन्ते” [ यत्पुरः ] जिस शुद्ध स्वरूपका अनुभवरूप आस्वाद आने पर [ अन्यानि पदानि ] चारगतिकी पर्याय, राग, द्वेष, मोह, सुख, दुःखरूप इत्यादि जितने अवस्थाभेद है वे [ अपदानि एव भासन्ते ] जीवका स्वरूप नहीं है, उपाधिरूप है, विनश्वर हैं, दुःखरूप हैं, ऐसा स्वाद स्वानुभवप्रत्यक्षरूपसे आता है। भावार्थ इस प्रकार है—शुद्धचिद्रूप उपादेय, अन्य समस्त हेय ॥७-१३९॥

( शार्ङ्गलविक्रीडित )

**एकज्ञायकभावनिर्भरमहास्वाद्यं समासादयन्**

**स्वाद्यं द्वन्द्वमयं विधातुमसहः स्वां वस्तुवृत्तिं विवन् ।**

**आत्मात्मानुभवानुभावविवशो भ्रश्यद्विशेषोदयं**

**सामान्यं कलयन् किलैष सकलं ज्ञानं नयत्येकताम् ॥८-१४०॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“एष आत्मा सकल ज्ञान एकता नयति” [ एष आत्मा ] वस्तुरूप विद्यमान चेतन द्रव्य [ सकलं ज्ञानं ] जितनी पर्यायरूप परिणामा है ज्ञान—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान इत्यादि अनेक विकल्परूप

परिणामा है ज्ञान—उसको [ एकता ] निर्विकल्परूप [ नयति ] अनुभवता है । भावार्थ इस प्रकार है—जिस प्रकार उष्णतामात्र अग्नि है, इसलिए दाह्यवस्तुको जलाती हुई दाह्यके आकार परिणामती है, इसलिए लोगोंको ऐसी बुद्धि उपजती है कि काष्ठकी अग्नि, छानाकी अग्नि, तृणकी अग्नि । सो ये समस्त विकल्प भूठे हैं । अग्निके स्वरूपका विचार करने पर उष्णतामात्र अग्नि है, एकरूप है । काष्ठ, छाना, तृण अग्निका स्वरूप नहीं है उसी प्रकार ज्ञान चेतनाप्रकाशमात्र है, समस्त ज्ञेयवस्तुको जाननेका स्वभाव है, इसलिए समस्त ज्ञेयवस्तुको जानना है, जानता हुआ ज्ञेयाकार परिणामता है । इससे ज्ञानी जीवको ऐसी बुद्धि उपजती है कि मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान ऐसे भेदविकल्प सब भूठे हैं । ज्ञेयकी उपाधिसे मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय, केवल ऐसे विकल्प उपजे हैं । कारण कि ज्ञेयवस्तु नाना प्रकार है । जैसे ही ज्ञेयका ज्ञायक होता है वैसा ही नाम पाता है, वस्तुस्वरूपका विचार करने पर ज्ञानमात्र है । नाम धरना सब भूठा है । ऐसा अनुभव शुद्ध स्वरूपका अनुभव है । “किल” निश्चयसे ऐसा ही है । कैसा है अनुभवशीली आत्मा ? “एकज्ञायकभावनिर्भरमहास्वादं समासादयन्” [ एक ] निर्विकल्प ऐसा जो [ ज्ञायकभाव ] चेतनद्रव्य, उसमें [ निर्भर ] अत्यन्त मग्नपना, उससे हुआ है [ महास्वाद ] अनाकुललक्षण सौख्य, उसको [ समासादयन् ] आम्बादाता हुआ । और कैसा है ? “द्वन्द्वमय स्वाद विधातु असह” [ द्वन्द्वमय ] कर्मके सयोगसे हुआ है विकल्परूप आकुलतारूप [ स्वाद ] अज्ञानीजन मुख करके मानते हैं परन्तु दुखरूप है ऐसा जो इन्द्रिय विषयजनित सुख उसको [ विधातु ] अग्रीकार करनेके लिए [ अमहः ] असमर्थ है । भावार्थ इस प्रकार है—विषय कपायको दुखरूप जानते हैं । और कैसा है ? “स्वा वस्तुवृत्ति विदन्” [ स्वां ] अपना द्रव्यसम्बन्धी [ वस्तुवृत्ति ] आत्माका शुद्धस्वरूप, उससे [ विदन् ] तद्रूप परिणामता हुआ । और कैसा है ? “आत्मात्मानुभवानुभावविवश” [ आत्मा ] चेतनद्रव्य उसका [ आत्मानुभव ] आस्वाद उसकी [ अनुभाव ] महिमा उसके द्वारा [ विवशः ] गोचर है । और कैसा है ? “विशेषोदय भ्रस्यन्” [ विशेष ] ज्ञानपर्याय उसके द्वारा [ उदयं ] नाना प्रकार उनको [ भ्रस्यन् ] मेटता हुआ । और कैसा है ? “सामान्य कलयन्” [ सामान्यं ] निर्भेद सत्तामात्र वस्तुको [ कलयन् ] अनुभव करता हुआ ॥८-१४०॥

( शाब्दं लब्धिकीडित )

**अच्छाच्छाः स्वयमुच्छलन्ति यद्विमाः संवेदनव्यक्तयो**

**निष्पीताखिलभावमण्डलरसप्राग्भारमत्ता इव ।**

**यस्याभिन्नरसः स एष भगवानेकोऽप्यनेकीभवन्**

**वल्गत्यत्कलिकाभिरद्भुतनिधिश्चैतन्यरत्नाकरः ॥६-१४१॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“स एष चैतन्यरत्नाकरः” [ स एषः ] जिसका स्वरूप कहा है तथा कहेगे ऐसा [ चैतन्यरत्नाकरः ] जीव द्रव्यरूपी महासमुद्र । भावार्थ इस प्रकार है—जीवद्रव्य समुद्रकी उपमा देकर कहा गया है सो इतना कहने पर द्रव्यार्थिक नयसे एक है, पर्यायार्थिकनयसे अनेक है । जिसप्रकार समुद्र एक है, तरंगावलिसे अनेक है । “उत्कलिकाभि” समुद्रके पक्षमें तरंगावलि, जीवके पक्षमें एक ज्ञानगुणके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान इत्यादि अनेक भेद उनके द्वारा “वल्गति” अपने बलसे अनादि कालसे परिगम रहा है । कैसा है ? “अभिन्नरसः” जितनी पर्याय हैं उनसे भिन्न सत्ता नहीं है, एक ही मत्त्व है । और कैसा है ? “भगवान्” ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य इत्यादि अनेक गुणोंसे विराजमान है । और कैसा है ? “एकः अपि अनेकीभवन्” [ एकः अपि ] सत्तास्वरूपसे एक है तथापि [ अनेकीभवन् ] अंशभेद करनेपर अनेक है । और कैसा है ? “अद्भुतनिधिः” [ अद्भुत ] अनन्त काल तक चारों गतियोंमें फिरते हुए जैसा सुख कही नहीं पाया ऐसे सुखका [ निधिः ] निधान है । और कैसा है ? “यरय इमाः संवेदनव्यक्तय स्वय उच्छलन्ति” [ यस्य ] जिस द्रव्यके [ इमाः ] प्रत्यक्षरूपसे विद्यमान [ संवेदन ] ज्ञान, उसके [ व्यक्तयः ] मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन-पर्ययज्ञान, केवलज्ञान इत्यादि अनेक पर्यायरूप अंशभेद [ स्वयं ] द्रव्यका सहज ऐसा ही है उस कारण [ उच्छलन्ति ] अवश्य प्रगट होते हैं । भावार्थ इस प्रकार है—कोई आशका करेगा कि ज्ञान तो ज्ञानमात्र है, ऐसे जो मतिज्ञान आदि पाँच भेद वे क्यों है ? समाधान इस प्रकार है—जो ज्ञानकी पर्याय है, विरुद्ध तो कुछ नहीं । वस्तुका ऐसा ही सहज है । पर्यायमात्र विचारने पर मति आदि पाँच भेद विद्यमान है, वस्तुमात्र अनुभवनेपर ज्ञान-मात्र है । विकल्प जितने है उतने समस्त भूठे है, क्योंकि विकल्प कोई वस्तु नहीं है, वस्तु तो ज्ञानमात्र है । कैसी है संवेदन व्यक्ति ? “अच्छाच्छाः” निर्मलसे भी निर्मल है । भावार्थ इस प्रकार है—कोई ऐसा मानेगा कि जितनी ज्ञानकी पर्याय है वे समस्त

अशुद्धरूप है सो ऐसा तो नहीं, कारण कि जिस प्रकार ज्ञान शुद्ध है उसी प्रकार ज्ञान-की पर्याय वस्तुका स्वरूप है, इसलिए शुद्धस्वरूप है। परन्तु एक विशेष—पर्यायमात्रका अवधारण करनेपर विकल्प उत्पन्न होता है, अनुभव निविकल्प है, इसलिए वस्तुमात्र अनुभवनेपर समस्त पर्याय भी ज्ञानमात्र है, इसलिए ज्ञानमात्र अनुभव योग्य है। और कैसी है सबेदनव्यक्ति? “निःपीताखिलभावमण्डलरसप्राग्भारमत्ता इव” [ निःपीत ] निगला है [ अखिल ] समस्त [ भाव ] जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, आकाश ऐसे समस्त द्रव्य उनका [ मण्डल ] अतीत, अनागत, वर्तमान अनन्त पर्याय ऐसा है [ रस ] रसायनभूत दिव्य औषधि उसका [ प्राग्भार ] समूह उसके द्वारा [ मत्ता इव ] मग्न हुई है ऐसी है। भावार्थ इस प्रकार है—कोई परम रसायनभूत दिव्य औषधि पीता है तो सर्वांग तरगावलिनी उपजती है उसी प्रकार समस्त द्रव्योके जाननेमें समर्थ है ज्ञान, इसलिए सर्वांग आनन्दतरगावलिसे गर्भित है ॥६-१४१॥

( शाङ्खलिक्रीडित )

क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरंमोक्षोन्मुखैः कर्मभिः

क्लिश्यन्तां च परे महावृततपोभारेण भग्नाश्चिरम् ।

साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं

ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि । १०-१४२।

खण्डान्वय महित अर्थ—“परे इदं ज्ञान ज्ञानगुण विना प्राप्तुं कथं अपि न हि क्षमन्ते” [ परे ] शुद्धस्वरूप अनुभवमें भ्रष्ट है जो जीव वे [ इदं ज्ञानं ] पूर्व ही कहा है समस्त भेदविकल्पमें रहित ज्ञानमात्र वस्तु उमको [ ज्ञानगुणं विना ] शुद्धस्वरूप अनुभव-शक्तिके विना [ प्राप्तुं ] प्राप्त करनेको [ कथं अपि ] हजार उपाय किये जाँय तो भी [ न हि क्षमन्ते ] निश्चयसे समर्थ नहीं होते हैं। कैसा है ज्ञानपद? “साक्षात् मोक्ष.” प्रत्यक्षतया सर्वथा प्रकार मोक्षस्वरूप है। और कैसा है? “निरामयपद” जितने उपद्रव क्लेश है उन सबमें रहित है। और कैसा है? “स्वयं संवेद्यमान” [ स्वयं ] आपके द्वारा [ संवेद्यमानं ] आस्वाद करने योग्य है। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानगुण ज्ञानगुणके द्वारा अनुभवयोग्य है। कारणान्तरके द्वारा ज्ञान गुण आह्वय नहीं। कैसी है मिथ्यादृष्टि जीवराशि? “कर्मभिः क्लिश्यन्ता” विशुद्ध शुभोपयोगरूप परिणाम, जैनोंक्त सूत्रका अध्ययन, जीवादिद्रव्योंके स्वरूपका बारबार स्मरण, पञ्चपरमेष्ठीकी भक्ति इत्यादि है

जो अनेक क्रियाभेद उनके द्वारा [ क्लिश्यन्तां ] बहुत आक्षेप [ घटाटोप ] करते हैं तो करो तथापि शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति होगी सो तो शुद्ध ज्ञान द्वारा होगी। कैसी है कर-तूति ? “स्वयं एव दुष्करतरैः” [ स्वयं एव ] सहजजने [ दुष्करतरैः ] कष्टसाध्य है। भावार्थ इस प्रकार है कि जितनी क्रिया है वह सब दुःखात्मक है। शुद्धस्वरूप अनुभवकी नाईं सुखस्वरूप नहीं है। और कैसी है ? “मोक्षोन्मुखैः” [ मोक्ष ] सकलकर्मक्षय उसकी [ उन्मुखैः ] परम्परा—आगे मोक्षका कारण होगी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है सो भूठा है। ‘च’ और कैसे है मिथ्यादृष्टि जीव ? “महाव्रततपोभारेण चिरं भग्नाः क्लिश्यन्तां” [ महाव्रत ] हिंसा, अनृत, स्तेय, अन्नह्य, परिग्रहसे रहितपना [ तपः ] महा परीषहोका सहना उनका [ भार ] बहुत बोझ उसके द्वारा [ चिरं ] बहुत काल पर्यन्त [ भग्नाः ] मरके चूरा होते हुए [ क्लिश्यन्तां ] बहुत कष्ट करते हैं तो करो तथापि ऐसा करते हुए कर्मक्षय तो नहीं होता ॥१०-१४२॥

( द्रुतविलम्बित )

पदमिदं ननु कर्मदुरासदं  
सहजबोधकलासुलभं किल ।  
तत इदं निजबोधकलाबलात्  
कलयितुं यततां सततं जगत् ॥११-१४३॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ततः ननु इदं जगत् इदं पदं कलयितुं सततं यततां” [ ततः ] तिस कारणसे [ ननु ] अहो [ इदं जगत् ] विद्यमान है जो त्रैलोक्यवर्ती जीवराशि वह [ इदं पदं ] निर्विकल्प शुद्ध ज्ञानमात्रवस्तु उसका [ कलयितुं ] निरन्तर अभ्यास करनेके निमित्त [ सततं ] अखण्ड धाराप्रवाहरूप [ यततां ] यत्न करे। किस कारणके द्वारा “निजबोधकलाबलात्” [ निजबोध ] शुद्धज्ञान उसका [ कला ] प्रत्यक्ष अनुभव उसका [ बलात् ] समर्थपना उससे। क्योंकि “किल” निश्चयसे ज्ञानपद “कर्मदुरासद” [ कर्म ] जितनी क्रिया है उससे [ दुरासदं ] अप्राप्य है और ? “सहज-बोधकलासुलभ” [ सहजबोध ] शुद्धज्ञान उसका [ कला ] निरन्तर अनुभव उसके द्वारा [ सुलभं ] सहज ही प्राप्त होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि शुभ अशुभरूप है जितनी क्रिया उनका ममत्व छोड़कर एक शुद्ध स्वरूप-अनुभव कारण है ॥११-१४३॥

( उपजाति )

**अचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव देव  
चिन्तात्रचिन्तामणिरेष यस्मात् ।  
सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते  
ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥ १२-१४४॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ज्ञानी ( ज्ञान ) विधत्ते” [ ज्ञानी ] सम्यग्दृष्टि जीव [ ज्ञानं ] निर्विकल्प चिद्रूप वस्तु उसको [ विधत्ते ] निरन्तर अनुभवता है। क्या जानकर ? “सर्वार्थसिद्धात्मतया” [ सर्वार्थसिद्ध ] चतुर्गतिसंसारसम्बन्धी दुःखका विनाश, अतीन्द्रिय सुखकी प्राप्ति [ आत्मनया ] ऐसा कार्य सिद्ध होता है जिससे ऐसा है शुद्ध ज्ञानपद। “अन्यस्य परिग्रहेण किं” [ अन्यस्य ] शुद्धस्वरूप अनुभव उससे बाह्य है जितने विकल्प। विवरण—शुभ-अशुभ क्रियारूप अथवा रागादि विकल्परूप अथवा द्रव्योके भेद विचाररूप ऐसे हैं जो अनेक विकल्प उनका [ परिग्रहेण ] सावधानरूपसे प्रतिपालन अथवा आचरण अथवा स्मरण उसके द्वारा [ किं ] कौन कार्यमिद्धि, अपि तु कोई कार्यसिद्धि नहीं। ऐसा किस कारणसे ? “यस्मात् एष स्वयं चिन्तात्र चिन्तामणि एव” [ यस्मात् ] जिस कारणसे [ एषः ] शुद्ध जीववस्तु [ स्वयं ] आपमे [ चिन्तात्र-चिन्तामणिः ] शुद्ध ज्ञानमात्र ऐसा अनुभव चिन्तामणिरत्न है। [ एव ] इस बातको निश्चय जानना, धोखा कुछ नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार किसी पुण्यवान् जीवके हाथसे चिन्तामणिरत्न होता है, उससे सब मनोरथ पूरा होता है, वह जीव लोहा, तावा, रूपा ऐसी धातुका सग्रह करता नहीं उमी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीवके पास शुद्ध-स्वरूप-अनुभव ऐसा चिन्तामणिरत्न है, उसके द्वारा सकल कर्मक्षय होता है। परमात्म-पदकी प्राप्ति होती है। अतीन्द्रिय सुखकी प्राप्ति होती है। वह सम्यग्दृष्टि जीव शुभ-अशुभरूप अनेक क्रियाविकल्पका सग्रह करता नहीं, कारण कि इनसे कार्यसिद्धि नहीं होती। और कैसा है ? “अचिन्त्यशक्ति” वचनगोचर नहीं है महिमा जिसकी ऐसा है ? और कैसा है ? “देव” परम पूज्य है ॥१२-१४४॥

( उगन्तविलका )

**इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव  
सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुम् ।**

**अज्ञानमुज्झितुमना अधुना विशेषाद्  
भूयस्तमेव परिहर्तुं मयं प्रवृत्तः ॥१३-१४५॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अधुना अयं भूयः प्रवृत्तः” [ अधुना ] यहा से आरम्भ कर [ अयं ] ग्रन्थका कर्ता [ भूयः प्रवृत्तः ] कुछ विशेष कहनेका उद्यम करता है। कैसा है ग्रन्थका कर्ता ? “अज्ञानं उज्झितुमना” [ अज्ञानं ] जीवका कर्मका एकत्वबुद्धिरूप मिथ्यात्वभाव वह [ उज्झितुमना ] जैसे छूटे वैसा है अभिप्राय जिसका ऐसा है। क्या कहना चाहता है ? “तं एव विशेषात् परिहर्तुं” [ तं एव ] जितना पर द्रव्यरूप परिग्रह है उसको [ विशेषात् परिहर्तुं ] भिन्न-भिन्न नामोंके विवरण सहित छोड़नेके लिए अथवा छुड़ानेके लिए। यहाँ तक कहा सो क्या कहा ? “इत्थं समस्तं एव परिग्रह सामान्यतः अपास्य” [ इत्थं ] यहाँ तक जो कुछ कहा सो ऐसा कहा [ समस्तं एव परिग्रहं ] जितनी पुद्गल कर्मकी उपाधिरूप सामग्री उसको [ सामान्यतः अपास्य ] जो कुछ परद्रव्य सामग्री है सो त्याज्य है ऐसा कहकर परद्रव्यका त्याग कहा। अब विशेषरूप कहते हैं। विशेषार्थ इस प्रकार है—जितना परद्रव्य उतना त्याज्य है ऐसा कहा। अब क्रोध परद्रव्य है, इसलिए त्याज्य है। मान परद्रव्य है, इसलिए त्याज्य है इत्यादि। भोजन परद्रव्य है, इसलिए त्याज्य है। पानी पीना पर द्रव्य है, इसलिए त्याज्य है। कैसा है पर द्रव्य परिग्रह ? “स्वपरयोः अविवेकहेतु” [ स्व ] शुद्धचिद्रूपमात्र वस्तु [ परयोः ] द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म उनके [ अविवेक ] एकत्वरूप संस्कार उसका [ हेतु ] कारण है। भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्यादृष्टि जीवकी जीव कर्ममें एकत्वबुद्धि है, इसलिए मिथ्यादृष्टिके पर द्रव्यका परिग्रह घटित होता है। सम्यग्दृष्टि जीवके भेदबुद्धि है, इसलिए परद्रव्यका परिग्रह घटित नहीं होता। ऐसा अर्थ यहा से लेकर कहा जायगा ॥ १३-१४५॥

( स्वागता )

**पूर्वबद्धनिजकर्मविपाकात्  
ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः ।  
तद्भवत्वथ च रागवियोगात्  
नूनमेति न परिग्रहभावम् ॥१४-१४६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“यदि ज्ञानिन. उपभोगः भवति तत् भवतु” [ यदि ] जो कदाचित् [ ज्ञानिनः ] सम्यग्दृष्टि जीवके [ उपभोगः ] शरीर आदि सम्पूर्ण भोग-सामग्री [ भवति ] होती है—सम्यग्दृष्टि जीव भोगता है [ तत् ] तो [ भवतु ] सामग्री होवे। सामग्रीका भोग भी होवे, “तून परिग्रहभाव न एति” [ नूनं ] निश्चयसे [ परिग्रहभावं ] विषय-सामग्रीकी स्वीकारता ऐसे अभिप्रायको [ न एति ] नहीं प्राप्त होता है। किस कारणसे ? “अथ च रागवियोगात्” [ अथ च ] वहां से लेकर सम्यग्दृष्टि हुआ, [ रागवियोगात् ] वहां से लेकर विषयसामग्रीमें राग, द्वेष, मोहसे रहित हुआ, इस कारणसे। कोई प्रश्न करता है कि ऐसे विरागीके—सम्यग्दृष्टि जीवके विषयसामग्री क्यों होती है ? उत्तर इस प्रकार है—“पूर्वबद्धनिजकर्मविपाकात्” [ पूर्वबद्ध ] सम्यक्त्व उत्पन्न होनेके पहले मिथ्यादृष्टि जीव था, रागी था, वहाँ रागभावके द्वारा बाँधा था जो [ निजकर्म ] अपने प्रदेशोमे ज्ञानावरणादिरूप कर्मण्यवर्गणा उसके [ विपाकात् ] उदयसे। भावार्थ इस प्रकार है कि राग द्वेष मोह परिणामके मिटने पर द्रव्यरूप बाह्य सामग्री का भोग बन्धका कारण नहीं है, निर्जंराका कारण है, इसलिए सम्यग्दृष्टि जीव अनेक प्रकारकी विषयसामग्री भोगता है परन्तु रजक परिणाम नहीं है, इसलिए बन्ध नहीं है, पूर्वमें बाँधा था जो कर्म उसकी निर्जंरा है ॥१४-१४६॥

( स्वागता )

वेद्यबेदकविभावचलत्वाद्  
वेद्यते न खलु कांक्षितमेव ।

तेन कांक्षति न किञ्चन विद्वान्  
सर्वतोऽप्यतिविरक्तिमुपैति ॥१५-१४७॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तेन विद्वान् किञ्चन न कांक्षति” [ तेन ] तिस कारण से [ विद्वान् ] सम्यग्दृष्टि जीव [ किञ्चन ] कर्मका उदय करता है नाना प्रकारकी सामग्री उसमेसे कोई सामग्री [ न कांक्षति ] कर्मकी सामग्रीमें कोई सामग्री जीवको मुखका कारण ऐसा नहीं मानता है, सर्व सामग्री दुःखका कारण ऐसा मानता है। और कंसा है सम्यग्दृष्टि जीव ? “सर्वत अतिविरक्ति उपैति” [ सर्वतः ] जितनी कर्मजनित सामग्री है उससे मन, वचन, काय त्रिशुद्धिके द्वारा [ अतिविरक्तिं ] सर्वथा त्यागरूप [ उपैति ] परिणामता है। किस कारणसे ऐसा है ? “यत. खलु कांक्षितं न वेद्यते एव” [ यत ]



जिस कारणसे [ खलु ] निश्चयसे [कांक्षितं] जो कुछ चिन्तन किया है वह [ न वेद्यते ] नहीं प्राप्त होता है । [ एव ] ऐसा ही है । किस कारणसे ? “वेद्यवेदकविभावचलत्वात्” [ वेद्य ] वाछी (इच्छी) जाती है जो वस्तुसामग्री, [ वेदक ] वांछारूप जीवका अशुद्ध-परिणाम, ऐसे है [ विभाव ] दोनों अशुद्ध विनश्वर कर्मजनित, इस कारणसे [ चलत्वात् ] क्षण प्रति क्षण प्रति औरसा होते है । कोई अन्य चिन्ता जाता है, कुछ अन्य होता है । भावार्थ इस प्रकार है कि अशुद्ध रागादि परिणाम तथा विषयसामग्री दोनो समय समय प्रति विनश्वर है, इसलिए जीवका स्वरूप नहीं । इस कारण सम्यग्दृष्टिके ऐसे भावोंका सर्वथा त्याग है । इसलिए सम्यग्दृष्टिको बन्ध नहीं है, निर्जरा है ॥ १५-१४७ ॥

( स्वागता )

**ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं**

**कर्म रागरसरिक्ततयैति ।**

**रंगयुक्तिरकषायितवस्त्रे**

**स्वीकृतैव हि बहिलुं ठतीह ॥१६-१४८॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“कर्म ज्ञानिन परिग्रहभाव न हि एति” [ कर्म ]

ज्ञितनी विषयसामग्री भोगरूप क्रिया है वह [ ज्ञानिनः ] सम्यग्दृष्टि जीवके [ परिग्रहभावं ] ममत्तारूप स्वीकारपनेको [ न हि एति ] निश्चयसे नहीं प्राप्त होती है । किस कारणसे ? “रागरसरिक्ततया” [ रग ] कर्मकी सामग्रीको आपा जानकर रंजक परिणाम ऐसा जो [ रस ] वेग, उससे [ रिक्ततया ] रीता है, ऐसा भाव होनेसे । दृष्टान्त कहते है—“हि इह अकषायितवस्त्रे रगयुक्तिः बहि लुठति एव” [ हि ] जैसे [ इह ] सब लोकमें प्रगट है कि [ अकषायित ] नहीं लगा है हरडा फिटकरी लोद जिसको ऐसे [ वस्त्रे ] कपडामें [ रंगयुक्तिः ] मजीठके रगका सयोग किया जाता है तथापि [ बहिः लुठति ] कपडासे नहीं लगता है, बाहर बाहर फिरता है उस प्रकार । भावार्थ ऐसा है कि सम्यग्दृष्टि जीवके पंचेन्द्रिय विषयसामग्री है, भोगता भी है । परन्तु अन्तरग राग द्वेष मोहभाव नहीं है, इस कारण कर्मका बन्ध नहीं है, निर्जरा है । कैसी है रगयुक्ति ? “स्वीकृता” कपडा-रग इकट्ठा किया है ॥१६-१४८॥

( स्वागता )

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात्  
 सर्वरागरसवर्जनशीलः ।  
 लिप्यते सकलकर्मभिरेषः  
 कर्ममध्यपतितो पि ततो न ॥१७-१४६॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“यत ज्ञानवान् स्वरसतः अपि सर्वरागरसवर्जनशीलः स्यात्” [ यतः ] जिस कारणसे [ ज्ञानवान् ] शुद्धस्वरूप अनुभवशीली है जो जीव वह [ स्वरसतः ] विभाव परिणामन मिटा है, इस कारण शुद्धनारूप द्रव्य परिणामा है, इसलिए [ सर्वराग ] जितना राग द्वेष मोहपरिणामरूप [ रस ] अनादिका संस्कार, उससे [ वर्जनशीलः स्यात् ] रहित है स्वभाव जिसका ऐसा है । “त एषः कर्ममध्यपतिन अपि सकलकर्मभि न लिप्यते” [ ततः ] तिस कारणसे [ एषः ] सम्यग्दृष्टि जीव [ कर्म ] कर्मके उदयजनित अनेक प्रकारकी भोगसामग्री उससे [ मध्यपतितः अपि ] पचेन्द्रिय भोगसामग्री भोगता है, सुख दुःखको प्राप्त होता है तथापि [ सकलकर्मभिः ] आठो प्रकारके है जो ज्ञानावरणादि कर्म, उनके द्वारा [ न लिप्यते ] नहीं बाँधा जाता है । भावार्थ इस प्रकार है कि अन्तरग चिकनापन नहीं है, इससे बन्ध नहीं होता है, निर्जरा होती है ॥ १७-१४६ ॥

( शार्ङ्गलविकीडित )

यादृक् तादृगिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः  
 कर्तुं नैष कथञ्चनापि हि परंरन्यादृशः शक्यते ।  
 अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेज्ज्ञानं भवत्सन्ततं  
 ज्ञानिन् भुङ्क्व परापराधजनितो नास्तीह बन्धस्तव । १८-१५० ।

खण्डान्वय सहित अर्थ—यहा कोई प्रश्न करता है कि सम्यग्दृष्टि जीव परिणामसे शुद्ध है तथापि पचेन्द्रिय विषय भोगता है सो विषयको भोगते हुए कर्मका बन्ध है कि नहीं है ? समाधान इस प्रकार है कि कर्मका बन्ध नहीं है । “ज्ञानिन् भुङ्क्व” [ ज्ञानिन् ] भो सम्यग्दृष्टि जीव ! [ भुङ्क्व ] कर्मके उदयसे प्राप्त हुई है जो भोगसामग्री उसको भोगते हो तो भोगो “तथापि तव बन्ध नास्ति” [ तथापि ] तो भी [ तव ] तेरे [ बन्धः ] ज्ञानावरणादि कर्मका आगमन [ नास्ति ] नहीं है । कैसा बन्ध नहीं

है ? “परापराधजनितः” [ पर ] भोगसामग्री, उसका [ अपराध ] भोगनेमें आना, उससे [ जनितः ] उत्पन्न हुआ। भावार्थ इस प्रकार है—सम्यग्दृष्टि जीवको विषयसामग्री भोगते हुए बन्ध नहीं है, निर्जरा है। कारण कि सम्यग्दृष्टि जीव सर्वथा अवश्यकर परिणामोंसे शुद्ध है। ऐसा ही वस्तुका स्वरूप है। परिणामोंकी शुद्धता रहते हुए बाह्य भोगसामग्रीके द्वारा बन्ध किया नहीं जाता। ऐसा वस्तुका स्वरूप है। यहाँ कोई आशंका करता है कि सम्यग्दृष्टि जीव भोग भोगता है सो भोग भोगते हुए रागरूप अशुद्ध परिणाम होता होगा सो उस रागपरिणामके द्वारा बन्ध होता होगा सो ऐसा तो नहीं। कारण कि वस्तुका स्वरूप ऐसा है जो शुद्ध ज्ञान होनेपर भोगसामग्रीको भोगते हुए सामग्रीके द्वारा अशुद्धरूप किया नहीं जाता। कितनी ही भोगसामग्री भोगो तथापि शुद्धज्ञान अपने स्वरूप—शुद्ध ज्ञानस्वरूप रहता है। वस्तुका ऐसा सहज है। ऐसा कहते हैं—‘ज्ञानं कदाचनापि अज्ञानं न भवेत्’ [ ज्ञानं ] शुद्ध स्वभावरूप परिणामा है आत्मद्रव्य, वह [ कदाचन अपि ] अनेक प्रकार भोगसामग्रीको भोगता हुआ अतीत, अनागत, वर्तमान कालमें [ अज्ञानं ] विभाव अशुद्धरागादिरूप [ न भवेत् ] नहीं होता। कैसा है ज्ञान ? “सन्ततं भवत्” शाश्वत शुद्धत्वरूप जीवद्रव्य परिणामा है, मायाजालके समान क्षण विनश्वर नहीं है। आगे दृष्टान्तके द्वारा वस्तुका स्वरूप साधते हैं—“हि यस्य वशतः यः यादृक् स्वभावः तस्य तादृक् इह अस्ति” [ हि ] जिस कारणसे [ यस्य ] जिस किसी वस्तुका [ यः यादृक् स्वभावः ] जो स्वभाव जैसा स्वभाव है वह [ वशतः ] अनादि-निधन है [ तस्य ] उस वस्तुका [ तादृक् इह अस्ति ] वैसा ही है। जिस प्रकार शंखका श्वेत स्वभाव है, श्वेत प्रगट है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टिका शुद्ध परिणाम होता हुआ शुद्ध है। “एषः परैः कथञ्चन अपि अन्यादृश कर्तुं न शक्यते” [ एषः ] वस्तुका स्वभाव [ परैः ] अन्य वस्तुके किये [ कथञ्चन अपि ] किसी प्रकार [ अन्यादृशः ] दूसरेरूप [ कर्तुं ] करनेको [ न शक्यते ] नहीं समर्थ है। भावार्थ इस प्रकार है कि स्वभावसे श्वेत शंख है सो शंख काली मिट्टी खाता है, पीली मिट्टी खाता है, नाना वर्ण मिट्टी खाता है। ऐसी मिट्टी खाता हुआ शंख उस मिट्टीके रंगका नहीं होता है, अपने श्वेतरूप रहता है। वस्तुका ऐसा ही सहज है। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव स्वभावसे राग द्वेष मोहसे रहित शुद्ध परिणामरूप है, वह जीव नाना प्रकार भोगसामग्री भोगता है तथापि अपने शुद्ध परिणामरूप परिणामता है। सामग्रीके रहते हुए अशुद्धरूप परिणामाया जाता नहीं ऐसा वस्तुका स्वभाव है, इसलिए सम्यग्दृष्टिके कर्मका बन्ध नहीं है, निर्जरा है ॥१८-१५०॥

( शार्दूललिपिऋत )

ज्ञानिन् कर्म न जातु कर्तुमुचितं किञ्चित्थाप्युच्यते  
भुङ्क्षे हन्त न जातु मे यदि परं दुर्भुक्त एवासि भोः ।

बन्धः स्यादुपभोगतो यदि न तत्किं कामचारोऽस्ति ते  
ज्ञानं सन्वस बन्धमेष्यपरथा स्वस्यापराधाद्भुवम् ॥१६-१५१॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ज्ञानिन् जातु कर्म कर्तुं न उचितं” [ ज्ञानिन् ] हे सम्यग्दृष्टि जीव ! [ जातु ] किसी प्रकार कभी भी [ कर्म ] ज्ञानावरणादि कर्मरूप पुद्गलपिण्ड [ कर्तुं ] बाधनेको [ न उचितं ] योग्य नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यग्दृष्टि जीवके कर्मका बन्ध नहीं है। “तथापि किञ्चित् उच्यते” [ तथापि ] तो भी [ किञ्चित् उच्यते ] कुछ विशेष है वह कहते हैं—“हन्त यदि मे पर न जातु भुङ्क्षे भोः दुर्भुक्तो एव असि” [ हन्त ] कडक वचनके द्वारा कहते हैं। [ यदि ] जो ऐसा जानकर भोगसामग्रीको भोगता है कि [ मे ] मेरे [ परं न जातु ] कर्मका बन्ध नहीं है। ऐसा जानकर [ भुङ्क्षे ] पचेन्द्रियविषय भोगता है तो [ भोः ] अहो जीव ! [ दुर्भुक्तः एव असि ] ऐसा जानकर भोगोका भोगना अच्छा नहीं। कारण कि वस्तुस्वरूप इस प्रकार है—“यदि उपभोगत बन्ध न स्यात् तत् ते किं कामचारः अस्ति” [ यदि ] जो ऐसा है कि [ उपभोगतः ] भोग सामग्रीको भोगते हुए [ बन्धः न स्यात् ] ज्ञानावरणादि कर्मका बन्ध नहीं है [ तत् ] तो [ ते ] अहो सम्यग्दृष्टि जीव ! तेरे [ कामचारः ] स्वेच्छा आचरण [ किं अस्ति ] क्या ऐसा है अपि तु ऐसा तो नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यग्दृष्टि जीवके कर्मका बन्ध नहीं है। कारण कि सम्यग्दृष्टि जीव राग द्वेष मोहसे रहित है। वही सम्यग्दृष्टि जीव, यदि सम्यक्त्व छूटे मिथ्यान्वरूप परिणामे तो, ज्ञानावरणादि कर्मबन्धको अवश्य करे, क्योंकि मिथ्यादृष्टि होता हुआ राग द्वेष मोहरूप परिणामता है—ऐसा कहते हैं “ज्ञानं सन् वस” सम्यग्दृष्टि होता हुआ जितने काल प्रवर्तता है उतने काल बन्ध नहीं है “अपरथा स्वस्य अपराधात् बन्ध भ्रुव एव” [ अपरथा ] मिथ्या-दृष्टि होता हुआ [ स्वस्य अपराधात् ] अपने ही दोषसे—रागादि अशुद्धरूप परिणामनके कारण [ बन्ध भ्रुवं एव ] ज्ञानावरणादि कर्मबन्धको तू ही अवश्य करता है ॥ १६-१५१ ॥

( शाङ्खलविक्रीडित )

**कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कर्मैव नो योजयेत्**

**कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः ।**

**ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा**

**कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यागैकशीलो मुनिः ।२०-१५२।**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तत् मुनिः कर्मणा नो बध्यते” [ तत् ] तिस कारणसे [ मुनिः ] शुद्धस्वरूप अनुभव विराजमान सम्यग्दृष्टि जीव [ कर्मणा ] ज्ञानावरणादि कर्मसे [ नो बध्यते ] नहीं बँधता है। कैसा है सम्यग्दृष्टि जीव ? “हि कर्म कुर्वाणः अपि” [ हि ] निश्चयसे [ कर्म ] कर्मजनित विषयसामग्री भोगरूप क्रियाको [ कुर्वाणः अपि ] करता है—यद्यपि भोगता है तो भी “तत्फलपरित्यागैकशीलः” [ तत्फल ] कर्मजनित सामग्रीमें आत्मबुद्धि जानकर रंजक परिणामका [ परित्याग ] सर्वथा प्रकार स्वीकार छूट गया ऐसा है [ एक ] मुखरूप [ शीलः ] स्वभाव जिसका, ऐसा है। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यग्दृष्टि जीवके विभावरूप मिथ्यात्व परिणाम मिट गया है, उसके मिटनेसे अनाकुलत्वलक्षण अतीन्द्रिय सुख अनुभवगोचर हुआ है। और कैसा है ? “ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनः” ज्ञानमय होते हुए दूर किया है रागभाव जिसमेंसे ऐसा है। इस कारण कर्मजनित है जो चार गतिकी पर्याय तथा पंचेन्द्रियोंके भोग वे समस्त आकुलतालक्षण दुःखरूप है। सम्यग्दृष्टि जीव ऐसा ही अनुभव करता है। इस कारण जितना कुछ साता-असातारूप कर्मका उदय, उससे जो कुछ इष्ट विषयरूप अथवा अनिष्ट विषयरूप सामग्री सो सम्यग्दृष्टिके सर्व अनिष्टरूप है। इसलिए जिस प्रकार किसी जीवके अशुभ कर्मके उदय रोग, शोक, दारिद्र आदि होता है, उसे जीव छोड़नेको बहुत ही करता है, परन्तु अशुभ कर्मके उदय नहीं छूटता है, इसलिए भोगना ही पड़े। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीवके, पूर्वमें अज्ञान परिणामके द्वारा बाधा है जो सातारूप असातारूप कर्म उसके उदय अनेक प्रकार विषयसामग्री होती है, उसे सम्यग्दृष्टि जीव दुःखरूप अनुभवता है, छोड़नेको बहुत ही करता है। परन्तु जब तक क्षपकश्रेणी चढ़े तब तक छूटना अशक्य है, इसलिए परवश हुआ भोगता है। हृदयमें अत्यन्त विरक्त है, इसलिए अरजक है, इसलिए भोग सामग्रीको भोगते हुए कर्मका बन्ध नहीं है, निर्जरा है। यहाँ दृष्टान्त कहते हैं—“यत् किल कर्म कर्तारं स्वफलेन बलात् योजयेत्” [ यत् ] जिस

कारणसे ऐसा है । [ किल ] ऐसा ही है, सन्देह नहीं कि [ कर्म ] राजाकी सेवा आदिसे लेकर जितनी कर्मभूमिसम्बन्धी क्रिया [ कर्तारं ] क्रियामें रजक होकर-तन्मय होकर करता है जो कोई पुरुष उसको, [ स्वफलेन ] जिस प्रकार राजाकी सेवा करते हुए द्रव्यकी प्राप्ति, भूमिकी प्राप्ति, जैसे खेती करते हुए अन्नकी प्राप्ति—[ बलात् योजयेत् ] अवश्यकर कर्ता पुरुषका क्रियाके फलके साथ संयोग होता है । भावार्थ इस प्रकार है कि जो क्रियाको नहीं करता उसको क्रियाके फलकी प्राप्ति नहीं होती । उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीवको बन्ध नहीं होता, निर्जरा होती है । कारण कि सम्यग्दृष्टि जीव भोगसामग्री क्रियाका कर्ता नहीं है, इसलिए क्रियाका फल नहीं है कर्मका बन्ध, वह तो सम्यग्दृष्टिके नहीं है । दृष्टातसे दृढ करते हैं—“यत् कुर्वाण फललिप्सु ना एव हि कर्मण फलं प्राप्नोति” [ यत् ] जिस कारणसे पूर्वोक्त नाना प्रकारकी क्रिया [ कुर्वाणः ] कोई करता हुआ [ फललिप्सुः ] फलकी अभिलाषा करके क्रियाको करता है ऐसा [ ना ] कोई पुरुष [ कर्मणः फलं ] क्रियाके फलको [ प्राप्नोति ] प्राप्त होता है । भावार्थ इस प्रकार है—जो कोई पुरुष क्रिया करता है, निरभिलाष होकर करता है उसको तो क्रियाका फल नहीं है । २०-१५२ ।

( शार्दूलविक्रीडित )

त्यक्तं येन फलं स कर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयं  
किंत्वस्यापि कुतोऽपि किञ्चिदपि तत्कर्मावशेनापतेत् ।

तस्मिन्नापतिते त्वकम्पपरमज्ञानस्वभावे स्थितो

ज्ञानी किं कुरुतेऽथ किं न कुरुते कर्मेति जानाति कः । २१-१५३ ।

स्रष्टान्वय महित अर्थ—“येन फलं त्यक्तं स कर्म कुरुते इति वयं न प्रतीमः”

[ येन ] जिस सम्यग्दृष्टि जीवने [ फलं त्यक्तं ] कर्मके उदयसे है जो भोगसामग्री उसका [ फलं ] अभिलाष [ त्यक्तं ] सर्वथा ममत्व छोड़ दिया है [ सः ] वह सम्यग्दृष्टि जीव [ कर्म कुरुते ] जानावरणादि कर्मको करता है [ इति वयं न प्रतीमः ] ऐसी तो हम प्रतीति नहीं करते । भावार्थ इस प्रकार है कि जो कर्मके उदयके प्रति उदासीन है उसे कर्मका बन्ध नहीं है, निर्जरा है । “किन्तु” कुछ विशेष—“अस्य अपि” इस सम्यग्दृष्टिके भी “अवशेन कुतः अपि किञ्चित् अपि कर्म आपतेत्” [ अवशेन ] विना ही अभिलाष किये बलात्कार ही [ कुतः अपि किञ्चित् अपि कर्म ] पहले ही बाँधा था जो जानावरणादि

कर्म, उसके उदयसे हुई है जो पचेन्द्रियविषयभोगक्रिया वह [ आपतेत् ] प्राप्त होती है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार किसीको रोग, शोक, दारिद्र्य बिना ही बाँछाके होता है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीवके जो कोई क्रिया होती है सो बिना ही बाँछाके होती है। “तस्मिन् आपतिते” अनिच्छक है सम्यग्दृष्टि पुरुष, उसको बलात्कार होती है भोगक्रिया, उसके होते हुए “ज्ञानी कि कुस्ते” [ ज्ञानी ] सम्यग्दृष्टि जीव [ किं कुस्ते ] अनिच्छक होकर कर्मके उदयमें क्रिया करता है तो क्रियाका कर्ता हुआ क्या ? “अथ न कुस्ते” सर्वथा क्रियाका कर्ता सम्यग्दृष्टि जीव नहीं है। किसका कर्ता नहीं है ? “कर्म इति” भोगक्रियाका। कैसा है सम्यग्दृष्टि जीव ? “जानाति क.” ज्ञायकस्वरूपमात्र है। तथा कैसा है सम्यग्दृष्टि जीव ? “अकम्पपरमज्ञानस्वभावे स्थितः” निश्चल परम ज्ञान-स्वभावमें स्थित है ॥२१-१५३॥

( शाङ्खलविक्रीडित )

सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमन्ते परं  
यद्वज्रेऽपि पतत्यमी भयचलत्त्रैलोक्यमुक्ताध्वनि ।  
सर्वामेव निसर्गनिर्भयतया शंकां विहाय स्वयं  
जानन्तः स्वमवध्यबोधवपुषं बोधाच्च्यवन्ते न हि ॥२२-१५४॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“सम्यग्दृष्टय एव इदं साहसं कर्तुं क्षमन्ते” [ सम्यग्-दृष्टयः ] स्वभावगुणरूप परिणामी है जो जीवराशि वह [ एव ] निश्चयसे [ इदं साहसं ] ऐसा धीरपना [ कर्तुं ] करनेके लिए [ क्षमन्ते ] समर्थ होती है। कैसा है साहस ? “पर” सबसे उत्कृष्ट है। कौन साहस ? “यत् वज्रे पतति अपि अमी बोधात् न हि च्यवन्ते” [ यत् ] जो साहस ऐसा है कि [ वज्रे पतति अपि ] महान् वज्रके गिरने पर भी [ अमी ] सम्यग्दृष्टि जीवराशि [ बोधात् ] शुद्धस्वरूपके अनुभवसे [ न हि च्यवन्ते ] सहज गुणसे स्खलित नहीं होती है। भावार्थ इस प्रकार है—कोई अज्ञानी ऐसा मानेगा कि सम्यग्दृष्टि जीवके साताकर्मके उदय अनेक प्रकार इष्ट भोगसामग्री होती है, असाता-कर्मके उदय अनेक प्रकार रोग, शोक, दारिद्र्य, परीषद, उपसर्ग इत्यादि अनिष्ट सामग्री होती है, उसको भोगते हुए शुद्धस्वरूप अनुभवसे चूकता होगा। उसका समाधान इस प्रकार है कि अनुभवसे नहीं चूकता है, जैसा अनुभव है वैसा ही रहता है, वस्तुका ऐसा ही स्वरूप है। कैसा है वज्र ? “भयचलत्त्रैलोक्यमुक्ताध्वनि” [ भय ] वज्रके गिरने

पर उसके त्राससे [ चलत् ] चलायमान ऐसी जो [ त्रैलोक्य ] सर्व ससारी जीवराशि, उसके द्वारा [ भुक्त ] छोड़ी गई है [ अध्वनि ] अपनी अपनी क्रिया जिसके गिरने पर, ऐसा है वज्र । भावार्थ इस प्रकार है—ऐसा है उपसर्ग परीषह जिनके होनेपर मिथ्यादृष्टि-को ज्ञानकी सुध नहीं रहती है । कैसे है सम्यग्दृष्टि जीव ? “स्वं जानन्त” [ स्वं ] शुद्ध चिद्रूपको [ जानन्तः ] प्रत्यक्षरूपसे अनुभवते है । कैसा है स्व ? “अवध्यबोधवपुषं” [ अवध्य ] शाश्वत जो [ बोध ] ज्ञानगुण, वह है [ वपुषं ] शरीर जिसका, ऐसा है । क्या करके (अनुभव करता है ?) “सर्वा एव शका विहाय” [ सर्वा एव ] सात प्रकारके [ शंकां ] भयको [ विहाय ] छोड़कर । जिस प्रकार भय छूटता है उस प्रकार कहते है—“निसर्गनिर्भयतया” [ निसर्ग ] स्वभावसे [ निर्भयतया ] भयसे रहितपना होनेसे । भावार्थ इस प्रकार है—सम्यग्दृष्टि जीवोका निर्भय स्वभाव है, इस कारण सहज ही अनेक प्रकारके परीषह—उपसर्गका भय नहीं है । इसलिये सम्यग्दृष्टि जीवको कर्मका बन्ध नहीं है, निर्जरा है । कैसे है निर्भयपना ? “स्वयं” ऐसा सहज है ॥२२-१५४॥

( शाङ्खलविक्रीडित )

**लोकः शाश्वत एक एष सकलव्यक्तो विविक्तात्मन-**

**श्चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयं यल्लोकयत्येककः ।**

**लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्भीः कुतो**

**निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ।२३-१५५॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“स सहज ज्ञान स्वयं सततं सदा विन्दति” [ सः ] सम्यग्दृष्टि जीव [ सहजं ] स्वभाव ही से [ ज्ञानं ] शुद्ध चैतन्यवस्तुको [ विन्दति ] अनुभवता है—आस्वादता है । कैसे अनुभवता है ? [ स्वयं ] अपनेमे आपको अनुभवता है । किस काल ? [ सततं ] निरन्तररूपसे [ सदा ] अतीत, अनागत, वर्तमानमे अनुभवता है । कैसा है सम्यग्दृष्टि जीव ? “नि.शंक.” सात भयोंसे रहित है । कैसा होनेसे ? “तस्य तद्भी कुत अस्ति” [ तस्य ] उस सम्यग्दृष्टिके [ तद्भीः ] इहलोकभय, परलोकभय [ कुतः अस्ति ] कहाँ से होवे ? अपि तु नहीं होता । जैसा विचार करते हुए भय नहीं होना वैसा कहते है—“तव अयं लोकः तदपर अपर. न” [ तव ] भो जीव ! तेरा [ अयं लोकः ] विद्यमान है जो चिद्रूपमात्र वह लोक है । [ तदपरः ] उससे अन्य जो कुछ है इहलोक, परलोक । विवरण—इहलोक अर्थात्



वर्तमान पर्याय, उसमें ऐसी चिन्ता कि पर्याय पर्यन्त सामग्री रहेगी कि नहीं रहेगी । परलोक अर्थात् यहाँ से मर कर अच्छी गतिमें जावेगे कि नहीं जावेगे ऐसी चिन्ता । ऐसा जो [अपरः] इहलोक, परलोक पर्यायरूप [न] जीवका स्वरूप नहीं है। “यत् एष अयं लोकः केवलं चित्तलोक स्वयं एव लोकयति” [यत्] जिस कारणसे [एषः अयं लोकः] अस्तित्व है जो चैतन्यलोक वह [केवलं] निर्विकल्प है । [चित्तलोकं स्वयं एव लोकयति] ज्ञानस्वरूप आत्माको स्वयं ही देखता है । भावार्थ इस प्रकार है कि जो जीवका स्वरूप ज्ञानमात्र सो तो ज्ञानमात्र ही है । कैसा है चैतन्यलोक ? “शाश्वत.” अविनाशी है । और कैसा है ? “एकक.” एक वस्तु है । और कैसा है ? “सकलव्यक्त.” [सकल] त्रिकालमे [व्यक्तः] प्रगट है । किसको प्रगट है ? “विविक्तात्मनः” [विविक्त] भिन्न है [आत्मनः] आत्मस्वरूप जिसको ऐसा है जो भेदज्ञानी पुरुष, उसे ॥२३-१५५॥

( शादूँलविक्रीडित )

**एषैकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते**

**निर्भेदोदितवेद्यवेदकबलादेकं सदानाकुलैः ।**

**नैवान्यागतवैदनेव हि भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो**

**निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२४-१५६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“सः स्वयं सतत सदा ज्ञान विन्दति” [सः] सम्यग्दृष्टि जीव [स्वयं] अपने आप [सततं] निरन्तररूपसे [सदा] त्रिकालमें [ज्ञानं] जीवके शुद्धस्वरूपको [विन्दति] अनुभवता है—आस्वादता है । कैसा है ज्ञान ? “सहज” स्वभावसे ही उत्पन्न है । कैसा है सम्यग्दृष्टि जीव ? “निशंक” सात भयोंसे मुक्त है । “ज्ञानिन. तद्भी कुत.” [ज्ञानिनः] सम्यग्दृष्टि जीवको [तद्भीः] वेदनाका भय [कुतः] कहाँ से होवे ? अपितु नहीं होता है । कारण कि “सदा अनाकुलैः” सर्वदा भेदज्ञानसे विराजमान है जो पुरुष वे पुरुष “स्वयं वेद्यते” स्वयं ऐसा अनुभव करते हैं कि “यत् अचल ज्ञानं एषा एका एव वेदना” [यत्] जिस कारणसे [अचलं ज्ञानं] शाश्वत है जो ज्ञान [एषा] यही [एका वेदना] जीवको एक वेदना है । [एव] निश्चयसे । “अन्यागतवेदना एव न भवेत्” [अन्या] इसे छोड़कर जो अन्य [आगतवेदना एव] कर्मके उदयसे हुई है मुखरूप अथवा दुःखरूप वेदना [न भवेत्] जीवको है ही नहीं । ज्ञान कैसा है ? “एक” शाश्वत

है—एकरूप है। किस कारणसे एकरूप है ? “निर्भेदोदितवेद्यवेदकबलात्” [ निर्भेदो-दित ] अभेदरूपसे [ वेद्यवेदक ] जो वेदता है वही वेदा जाता है ऐसा जो [ बलात् ] समर्थपना, उसके कारण। भावार्थ इस प्रकार है कि जीवका स्वरूप ज्ञान है, वह एकरूप है। जो साता-असाता कर्मके उदयसे सुख-दुःखरूप वेदना होती है वह जीवका स्वरूप नहीं है, इसलिए सम्यग्दृष्टि जीवको रोग उत्पन्न होनेका भय नहीं होता ॥ २४-१५६ ॥

( शादूँलबिक्कीडित )

यत्सन्नाशमुपैति तन्न नियतं व्यक्तेति वस्तुस्थिति-  
ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्यापरैः ।  
अस्यात्राणमतो न किञ्चन भवेत्तद्गीः कुतो ज्ञानिनो  
निश्चयः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति । २५-१५७ ॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“स. ज्ञान सदा विन्दति” [ सः ] सम्यग्दृष्टि जीव [ ज्ञान ] शुद्धस्वरूप [ सदा ] तीनो कालोमे [ विन्दति ] अनुभवता है—आस्वादता है। कैसा है ज्ञान ? “सतत” निरन्तर वर्तमान है। और कैसा है ज्ञान ? “स्वयं” अनादि-निधन है। और कैसा है ? “सहज” विना कारण द्रव्यरूप है। कैसा है सम्यग्दृष्टि जीव ? “निःशकः” कोई मेरा रक्षक है कि नहीं है ऐसे भयसे रहित है। किस कारणसे “ज्ञानिनः तद्गी कुत.” [ ज्ञानिनः ] सम्यग्दृष्टि जीवके [ तद्गीः ] ‘मेरा रक्षक कोई है कि नहीं है ऐसा भय’ [ कुतः ] कहाँ से होवे ? अपि तु नहीं होता है। “अतः अस्य किञ्चन अत्राण न भवेत्” [ अतः ] इस कारणसे [ अस्य ] जीव वस्तुके [ अत्राणं ] अरक्षकपना [ किञ्चन ] परमाणुमात्र भी [ न भवेत् ] नहीं है। किस कारणसे नहीं है ? “यत् सत् तत् नाश न उपैति” [ यत् सत् ] जो कुछ सत्तास्वरूप वस्तु है [ तत् नाशं न उपैति ] वह तो विनाशको नहीं प्राप्त होती है। “इति नियत वस्तुस्थिति. व्यक्ता” [ इति ] इस कारणसे [ नियतं ] अवश्य ही [ वस्तुस्थितिः ] वस्तुका अविनश्वरपना [ व्यक्ता ] प्रगट है। “किल तत् ज्ञान स्वयं एव सत् तत अस्य अपरैः कि त्रात” [ किल ] निश्चयसे [ तत् ज्ञानं ] ऐसा है जीवका शुद्धस्वरूप वह, [ स्वयं एव सत् ] सहज ही सत्तास्वरूप है। [ ततः ] तिस कारणसे [ अस्य ] जीवके स्वरूपकी [ अपरैः ] किसी द्रव्यांतरके द्वारा [ किं त्रातं ] क्या रक्षा की जायगी। भावार्थ इस प्रकार है कि सब जीवको ऐसा

भय उत्पन्न होता है कि 'मेरा रक्षक कोई है कि नहीं,' सो ऐसा भय सम्यग्दृष्टि जीवको नहीं होता। कारण कि वह ऐसा अनुभव करता है कि शुद्धजीवस्वरूप सहज ही शाश्वत है। इसकी कोई क्या रक्षा करेगा ॥२५-१५७॥

( शाद्वलविक्रीडित )

स्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपे न यत्  
शक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं च नुः ।  
अस्यागुप्तिरतो न काचन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो  
निःशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२६-१५८॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“सः ज्ञानं सदा विन्दति” [ सः ] सम्यग्दृष्टि जीव [ ज्ञानं ] शुद्ध चैतन्यवस्तुको [ सदा विन्दति ] निरन्तर अनुभवता है—आस्वादता है। कैसा है ज्ञान ? “स्वयं” अनादि सिद्ध है। और कैसा है ? “सहज” शुद्ध वस्तुस्वरूप है। और कैसा है ? “सतत” अखण्ड धाराप्रवाहरूप है। कैसा है सम्यग्दृष्टि जीव ? “निःशंकः” वस्तुको जतनसे रखा जाय, नहीं तो कोई चुरा लेगा ऐसा जो अगुप्तिभय उससे रहित है। “अतः अस्य काचन अगुप्तिः एव न भवेत् ज्ञानिनः तद्भीः कुतः” [ अतः ] इस कारणसे [ अस्य ] शुद्ध जीवके [ काचन अगुप्तिः ] किसी प्रकारका अगुप्तिपना [ न भवेत् ] नहीं है, [ ज्ञानिनः ] सम्यग्दृष्टि जीवके [ तद्भीः ] 'मेरा कुछ कोई छीन न लेवे' ऐसा अगुप्तिभय [ कुतः ] कहाँ से होवे ? अपितु नहीं होता। किस कारणसे ? “किल वस्तुनः स्वरूप परमा गुप्तिः अस्ति” [ किल ] निश्चयसे [ वस्तुनः ] जो कोई द्रव्य है उसका [ स्वरूपं ] जो कुछ निज लक्षण है वह [ परमा गुप्तिः अस्ति ] सर्वथा प्रकार गुप्त है। किस कारणसे ? “यत् स्वरूपे कः अपि परः प्रवेष्टुं न शक्तः” [ यत् ] जिस कारणसे [ स्वरूपे ] वस्तुके सत्त्वमे [ कः अपि परः ] कोई अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यमें [ प्रवेष्टुं ] संक्रमणको [ न शक्तः ] समर्थ नहीं है। “नुः ज्ञानं स्वरूपं च” [ नुः ] आत्मद्रव्यका [ ज्ञानं स्वरूपं ] चैतन्य स्वरूप है। [ च ] वही ज्ञानस्वरूप कैसा है ? “अकृतं” किसीने किया नहीं, कोई हर सकता नहीं। भावार्थ इस प्रकार है कि सब जीवोंको ऐसा भय होता है कि 'मेरा कुछ कोई चुरा लेगा, छीन लेगा'; सो ऐसा भय सम्यग्दृष्टिको नहीं होता, जिस कारणसे सम्यग्दृष्टि ऐसा अनुभव करता है कि 'मेरा तो शुद्ध चैतन्यस्वरूप

है, उसको तो कोई चुरा सकता नहीं, छीन सकता नहीं; वस्तुका स्वरूप अनादि-निघन है' ॥२६-१५८॥

( शार्दूलविक्रीडित )

**प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो  
ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छ्रियते जातुचित् ।  
तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत्तद्गीः कुतो ज्ञानिनो**

**निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञान सदा विन्दति ॥२७-१५९॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“स ज्ञान सदा विन्दति” [ सः ] सम्यग्दृष्टि जीव [ ज्ञानं ] शुद्धचैतन्य वस्तुको [ सदा ] निरन्तर [ विन्दति ] आस्वादता है। कैसा है ज्ञान ? “स्वयं” अनादिसिद्ध है। और कैसा है ? “सतत” अखण्ड धाराप्रवाहरूप है। और कैसा है ? “सहज” बिना कारण सहज ही निष्पन्न है। कैसा है सम्यग्दृष्टि जीव ? “निशङ्क” मरण-शकाके दोपसे रहित है। क्या विचारता हुआ निशंक है ? “अतः तस्य मरण किञ्चन न भवेत् ज्ञानिनः तद्गी कुत” [ अतः ] इस कारणसे [ तस्य ] आत्मद्रव्यके [ मरणं ] प्राणवियोग [ किञ्चन ] सूक्ष्ममात्र [ न भवेत् ] नहीं होता, तिस कारण [ ज्ञानिनः ] सम्यग्दृष्टिके [ तद्गीः ] मरणका भय [ कुतो ] कहां से होवे ? अपि तु नहीं होता। जिस कारणसे “प्राणोच्छेद मरण उदाहरन्ति” [ प्राणोच्छेदं ] इन्द्रिय, बल, उच्छ्वास, आयु-एसे हैं जो प्राण, उनका विनाश ऐसा जो [ मरणं ] मरण कहनेमें आता है [ उदाहरन्ति ] अरिहन्तदेव ऐसा कहते हैं। “किल आत्मनः ज्ञान प्राणा” [ किल ] निश्चयसे [ आत्मनः ] जीव द्रव्यका [ ज्ञानं प्राणाः ] शुद्धचैतन्यमात्र प्राण है। “तत् जातुचित् न उच्छ्रियते” [ तत् ] शुद्धज्ञान [ जातुचित् ] किसी कालमें [ न उच्छ्रियते ] नहीं विनशता है। किस कारणसे ? “स्वयं एव शाश्वततया” [ स्वयं एव ] बिना ही जतन [ शाश्वततया ] अविनश्वर है तिस कारणसे। भावार्थ इस प्रकार है कि सभी मिथ्यादृष्टि जीवोंको मरणका भय होता है। सम्यग्दृष्टि जीव ऐसा अनुभवता है कि ‘मेरा शुद्ध चैतन्यमात्र स्वरूप है सो तो विनशता नहीं, प्राण नष्ट होते हैं सो तो मेरा स्वरूप है ही नहीं, पुद्गलका स्वरूप है। इसलिए मेरा मरण होवे तो डरो, मैं किसलिये डरो, मेरा स्वरूप शाश्वत है’ ॥२७-१५९॥

( शार्दूलविक्रीडित )

**एकं ज्ञानमनाद्यनन्तमचलं सिद्धं किलंतस्वतो  
यावत्तावदिवं सदेव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः ।**

तन्नाकस्मिकमत्र किञ्चन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो

निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२८-१६०॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“सः ज्ञानं सदा विन्दति” [ सः ] सम्यग्दृष्टि जीव [ ज्ञानं ] शुद्धचैतन्य वस्तुको [ सदा ] त्रिकाल [ विन्दति ] आस्वादता है। कैसा है ज्ञान ? “स्वयं” सहज ही से उपजा है। और कैसा है ? “सतत” अखण्ड धाराप्रवाह-रूप है। और कैसा है ? “सहज” बिना उपाय ऐसी ही वस्तु है। कैसा है सम्यग्दृष्टि जीव ? “निःशङ्क” आकस्मिक भयसे रहित है। आकस्मिक अर्थात् अनचिन्ता तत्काल ही अनिष्टका उत्पन्न होना। क्या विचारता है सम्यग्दृष्टि जीव ? “अत्र तत् आकस्मिकं किञ्चन न भवेत् ज्ञानिनः तद्भीः कुतः” [ अत्र ] शुद्धचैतन्य वस्तुमें [ तत् ] कहा है लक्षण जिसका ऐसा [ आकस्मिकं ] क्षणमात्रमें अन्य वस्तुसे अन्य वस्तुपता [ किञ्चन न भवेत् ] ऐसा कुछ है ही नहीं, तिस कारण [ ज्ञानिनः ] सम्यग्दृष्टि जीवके [ तद्भीः ] आकस्मिकपनाका भय [ कुतः ] कहाँ से होवे ? अपि तु नहीं होता। किस कारणसे ? “एतत् ज्ञानं स्वतः यावत्” [ एतत् ज्ञानं ] शुद्ध जीव वस्तु [ स्वतः यावत् ] आप सहज जैसी है जितनी है “इदं तावत् सदा एव भवेत्” [ इदं ] शुद्ध वस्तुमात्र [ तावत् ] वैसी है उतनी है। [ सदा ] अतीत, अनागत, वर्तमान कालमें [ एव भवेत् ] निश्चयसे ऐसी ही है। “अत्र द्वितीयोदय न” [ अत्र ] शुद्ध वस्तुमें [ द्वितीयोदयः ] औरसा स्वरूप [ न ] नहीं होना है। कैसा है ज्ञान ? “एक” समस्त विकल्पोसे रहित है। और कैसा है ? “अनाद्यनन्त” नहीं है आदि, नहीं है अन्त जिसका ऐसा है। और कैसा है ? “अचल” अपने स्वरूपसे नहीं विचलित होता। और कैसा है ? “सिद्ध” निष्पन्न है ॥२८-१६०॥

( मन्दाक्रान्ता )

टंकोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाजः

सम्यग्दृष्टेर्यद्विह सकलं घ्नन्ति लक्ष्माणि कर्म ।

तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाक्कर्मणो नास्ति बन्धः

पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निश्चितं निर्जरं ॥२९-१६१॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“यत् इह सम्यग्दृष्टे लक्ष्माणि सकल कर्म घ्नन्ति” [ यत् ] जिस कारणसे [ इह ] विद्यमान [ सम्यग्दृष्टेः ] शुद्धस्वरूप परिणामा है जो

जीव, उसके [ लक्ष्माणि ] नि शक्ति, नि काक्षित, निर्वचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रभावना-अग्ररूप गुण [ सकलं कर्म ] ज्ञानावरणादि आठ प्रकार पुद्गल द्रव्यके परिणामनको [ धनन्ति ] हनन करते है, भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यग्दृष्टि जीवके जितने कोई गुण है वे शुद्ध परिणामनरूप है, इससे कर्मकी निर्जरा है; "तत् तस्य अस्मिन् कर्मण मनाक् बन्ध पुन अपि नास्ति" [ तत् ] तिस कारण [ तस्य ] सम्यग्दृष्टि जीवके [ अस्मिन् ] शुद्ध परिणामके होनेपर [ कर्मणः ] ज्ञानावरणादि कर्मका [ मनाक् बन्धः ] सूक्ष्ममात्र भी बन्ध [ पुनः अपि नास्ति ] कभी नहीं। "तत् पूर्वोपात्त अनुभवन निश्चित निर्जरा एव" [ तत् ] ज्ञानावरणादि कर्म- [ पूर्वोपात्त ] सम्यक्त्व उत्पन्न होनेके पहले अज्ञान राग परिणामसे बाधा था जो कर्म-उसके उदयको [ अनुभवतः ] जो भोगता है ऐसे सम्यग्दृष्टि जीवके [ निश्चित ] निश्चयसे [ निर्जरा एव ] ज्ञानावरणादि कर्मका गलना है। कैसा है सम्यग्दृष्टि जीव ? "टङ्कोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाज" [ टङ्कोत्कीर्ण ] शाश्वत जो [ स्वरम ] स्वपरग्राहकशक्ति उससे [ निश्चित ] परिपूर्ण ऐसा [ ज्ञान ] प्रकाशगुण, वही है [ सर्वस्व ] आदि मूल जिसका ऐसा जो जीवद्रव्य, उसका [ भाज ] अनुभव करनेमे समर्थ है। ऐसा है सम्यग्दृष्टि जीव, सो उसके नूतन कर्मका बन्ध नहीं है, पूर्ववद्ध कर्मकी निर्जरा है ॥ २६-१६१ ॥

( मन्दाक्रान्ता )

**रुधन् बन्धं नवमिति निर्जैः सगंतोऽष्टाभिरंगैः**

**प्राग्बद्धं तु क्षयमुपनयन्निर्जरोज्जृम्भणेन ।**

**सम्यग्दृष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यान्तमुक्तं**

**ज्ञानं भूत्वा नटति गगनाभोगरंगं विगाह्य ॥३०-१६२॥**

खण्डान्वय महित अर्थ— "सम्यग्दृष्टि ज्ञान भूत्वा नटति" [ सम्यग्दृष्टिः ] शुद्ध स्वभावरूप होकर परिणत हुआ जीव [ ज्ञानं भूत्वा ] शुद्ध ज्ञानस्वरूप होकर [ नटति ] अपने शुद्ध स्वरूपरूप परिणमता है। कैसा है शुद्ध ज्ञान ? आदिमध्यान्तमुक्त "अतीत, अनागत, वर्तमानकालगोचर शाश्वत है। क्या करके ? "गगनाभोगरङ्ग विगाह्य" [ गगन ] जीवका शुद्ध स्वरूप है [ आभोगरङ्ग ] अखाडकी नाचनेकी भूमि, उसको [ विगाह्य ] अनुभवगोचर करके, ऐसा है ज्ञानमात्र वस्तु। किस कारणसे ? "स्वयं अतिरसात्" अनाकुलत्वलक्षण अतीन्द्रिय जो सुख उसे प्राप्त होनेसे। कैसा है सम्यग्दृष्टि जीव ?

“नवं बन्धं रुन्धन्” [ नवं ] धाराप्रवाहरूप परिणामा है जो ज्ञानावरणारूप पुद्गल-पिण्ड ऐसा जो [ बन्धं ] जीवके प्रदेशोसे एक क्षेत्रावगाहरूप, उसको [ रुन्धन् ] मेटता हुआ, क्योंकि “निजैः अष्टाभिः अङ्गैः सङ्गतः” [ निजैः अष्टाभिः ] अपने ही निःशक्ति, निःकांक्षित इत्यादिरूप कहे जो आठ [ अङ्गैः ] सम्यक्त्वके सहारेके गुण, उनसे [ सङ्गतः ] भावरूप परिणामा है, ऐसा है। और कैसा है सम्यग्दृष्टि जीव ? “तु प्राग्बद्धं कर्म क्षयं उपनयन्” [ तु ] दूसरा कार्य ऐसा भी होता है कि [ प्राग्बद्धं ] पूर्वमे बांधा है जो ज्ञानावरणादि [ कर्म ] पुद्गलपिण्ड, उसका [ क्षयं ] मूलसे सत्तानाश [ उपनयन् ] करता हुआ। किसके द्वारा ? “निर्जरोज्जृम्भणेन” [ निर्जरा ] शुद्ध परिणामके [ उज्जृम्भणेन ] प्रगटपनाके द्वारा ॥३०-१६२॥



[ ८ ]

## बन्ध-अधिकार

( शार्दूललिपिक्रीडित )

रागोद्गारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत्  
 क्रीडन्तं रसभावनिर्भरमहानाट्येन बन्धं धुनत् ।  
 आनन्दामृतनित्यभोजि सहजावस्थां स्फुटन्नाटयद्-  
 धीरोदारमनाकुलं निरुपधि ज्ञानं समुन्मज्जति ॥१-१६३॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ज्ञानं समुन्मज्जति” [ ज्ञानं ] शुद्ध जीव [ समुन्मज्जति ] प्रगट होता है । भावार्थ—यहाँ से लेकर जीवका शुद्धस्वरूप कहते हैं । कैसा है शुद्ध-ज्ञान ? “आनन्दामृतनित्यभोजि” [ आनन्द ] अतीन्द्रिय सुख, ऐसा है [ अमृत ] अपूर्व लब्धि, उसका [ नित्यभोजि ] निरन्तर आस्वादनशील है । और कैसा है ? “स्फुट सहजावस्था नाटयत्” [ स्फुटं ] प्रगटरूपसे [ सहजावस्थां ] अपने शुद्ध स्वरूपको [ नाटयत् ] प्रगट करता है । और कैसा है ? “धीरोदार” [ धीर ] अविनश्वर सत्त्वरूप है । [ उदारं ] धाराप्रवाहरूप परिगमनस्वभाव है । और कैसा है ? “अनाकुल” सब दुःखसे रहित है । और कैसा है ? “निरुपधि” ममस्त कर्मकी उपाधिसे रहित है । क्या करता हुआ ज्ञान प्रगट होता है ? “बन्ध धुनत्” [ बन्धं ] ज्ञानावरणादि कर्मरूप पुद्गलपिण्डका परिगमन, उसको [ धुनत् ] भेटता हुआ । कैसा है बन्ध ? “क्रीडन्तं” प्रगटरूपसे गर्जता है । किसके द्वारा क्रीडा करता है ? “रसभावनिर्भरमहानाट्येन” [ रसभाव ] ममस्त जीवराशिको अपने वशकर उत्पन्न हुआ जो अहङ्कारलक्षण गर्व, उससे [ निर्भर ] भरा हुआ जो [ महानाट्येन ] अनन्त कालसे लेकर अखाड़िका सम्प्रदाय, उसके द्वारा । क्या करके ऐसा है बन्ध ? “सकलं जगत् प्रमत्तं कृत्वा” [ सकलं जगत् ] सर्व संसारी जीवराशिको [ प्रमत्तं कृत्वा ] जीवके शुद्धस्वरूपसे भ्रष्ट कर । किसके द्वारा ? “रागोद्गारमहारसेन” [ राग ] राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणतिका [ उद्गार ] अति



ही आधिक्यपना, ऐसी जो [ महारसेन ] मोहरूप मदिरा, उसके द्वारा । भावार्थ इस प्रकार है—जिस प्रकार किसी जीवको मदिरा पिलाकर विकल किया जाता है, सर्वस्व छीन लिया जाता है, पदसे भ्रष्ट कर दिया जाता है; उसी प्रकार अनादिकालसे लेकर सर्व जीवराशि राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणामसे मतवाली हुई है, इससे ज्ञानावरणादि कर्मका बन्ध होता है । ऐसे बन्धको शुद्ध ज्ञानका अनुभव मेटनशील है, इसलिए शुद्ध ज्ञान उपादेय है ॥१-१६३॥

( पृथ्वी )

न कर्मबहुलं जगन्न चलनात्मकं कर्म वा  
न नैककरणानि वा न चिदचिद्वधो बन्धकृत् ।

यदेक्यमुपयोगभूः समुपयाति रागादिभिः

स एव किल केवलं भवति बन्धहेतुर्नृणाम् ॥२-१६४॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—प्रथम ही बन्धका स्वरूप कहते हैं—“यत् उपयोगभूः रागादिभिः ऐक्य समुपयाति स एव केवल किल नृणा बन्धहेतुः भवति” [ यत् ] जो [ उपयोग ] चेतनागुणरूप [ भूः ] मूल वस्तु [ रागादिभिः ] राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणामके साथ [ ऐक्यं ] मिश्रितपनेरूपसे [ समुपयाति ] परिणामती है, [ सः एव ] एतावन्मात्र [ केवलं ] अन्य सहाय विना [ किल ] निश्चयसे [ नृणां ] जितनी संसारी जीवराशि है उसके [ बन्धहेतुः भवति ] ज्ञानावरणादि कर्मबन्धका कारण होता है । यहाँ कोई प्रश्न करता है कि बन्धका कारण इतना ही है कि और भी कुछ बन्धका कारण है ? समाधान इस प्रकार है कि बन्धका कारण इतना ही है, और तो कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं—“कर्मबहुल जगत् न बन्धकृत् वा चलनात्मक कर्म न बन्धकृत् वा अनेककरणानि न बन्धकृत् वा चिदचिद्वधः न बन्धकृत्” [ कर्म ] ज्ञानावरणादि कर्मरूप बाँधनेको योग्य है जो कामंणवर्गणा, उनसे [ बहुल ] घृतघटके समान भरा है ऐसा जो [ जगत् ] तीनसौ तेतालीस राजुप्रमाण लोकाकाशप्रदेश [ न बन्धकृत् ] वह भी बंधका कर्ता नहीं है । समाधान इस प्रकार है कि जो रागादि अशुद्ध परिणामोके बिना कामंण वर्गणामात्रसे बध होता तो जो मुक्त जीव हैं उनके भी बन्ध होता । भावार्थ इस प्रकार है कि जो रागादि अशुद्ध परिणाम हैं तो ज्ञानावरणादि कर्मका बन्ध है, तो फिर कामंण वर्गणाका सहारा कुछ नहीं है; जो रागादि अशुद्ध भाव नहीं है तो कर्मका

बन्ध नहीं है, तो फिर कार्मणवर्गणाका सहारा कुछ नहीं है। [ चलनात्मकं कर्म ] मन-वचन-काययोग [ न बन्धकृत् ] वह भी बन्धका कर्ता नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि जो मन-वचन-काययोग बन्धका कर्ता होता तो तेरहवें गुरुस्थानमें मन-वचन-काययोग है सो उनके द्वारा भी कर्मका बन्ध होता; इस कारण जो रागादि अशुद्ध भाव है तो कर्मका बन्ध है, तो फिर मन-वचन-काययोगका सहारा कुछ नहीं है; रागादि अशुद्ध भाव नहीं है तो कर्मका बन्ध नहीं है, तो फिर मन-वचन-काययोगका सहारा कुछ नहीं है। [ अनेक-करणानि ] पाँच इन्द्रियाँ—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, छटा मन [ न बन्धकृत् ] ये भी बन्धके कर्ता नहीं है। समाधान इस प्रकार है कि सम्यग्दृष्टि जीवके पाच इन्द्रियाँ हैं, मन भी है, उनके द्वारा पुद्गलद्रव्यके गुणका ज्ञायक भी है। जो पाच इन्द्रिय और मनमात्रसे कर्मका बन्ध होता तो सम्यग्दृष्टि जीवको भी बन्ध सिद्ध होता। भावार्थ इस प्रकार है कि जो रागादि अशुद्ध भाव है तो कर्मका बन्ध है, तो फिर पाच इन्द्रिय और छठे मनका सहारा कुछ नहीं है; जो रागादि अशुद्ध भाव नहीं है तो कर्मका बन्ध नहीं है, तो फिर पाच इन्द्रिय और छठे मनका सहारा कुछ नहीं है। [ चित् ] जीवके सम्बन्ध सहित एकेन्द्रियादि शरीर, [ अचित् ] जीवके सम्बन्ध रहित पापाण, लोह, माटी उनका [ बधः ] मूलसे विनाश अथवा बाधा-पीड़ा [ न बन्धकृत् ] वह भी बन्धका कर्ता नहीं है। समाधान इस प्रकार है कि जो कोई महामुनीश्वर भावलिङ्गी मार्ग चलता है, दैवसयोग सूक्ष्म जीवको बाधा होती है, सो जो जीवघातमात्रसे बन्ध होता तो मुनीश्वरके कर्मबन्ध होता। भावार्थ इस प्रकार है कि—जो रागादि अशुद्ध परिणाम है तो कर्मका बन्ध है, तो फिर जीवघातका सहारा कुछ नहीं है, जो रागादि अशुद्ध भाव नहीं है तो कर्मका बन्ध नहीं है, तो फिर जीवघातका सहारा कुछ नहीं है ॥ २-१६४ ॥

( गार्हो लविक्रीडित )

लोकः कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पन्वात्मकं कर्म तत्  
तान्यस्मिन्करणाणि सन्तु चिद्विद्व्यापादनं चास्तु तत् ।  
रागादीनुपयोगभूमिमनयन् ज्ञानं भवन्केवलं  
बन्धं नैव कृतोऽप्युपैत्यमहो सम्यग्दृगात्मा ध्रुवम् ॥३-१६५॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अहो अयं सम्यग्दृष्टात्मा कुतः अपि ध्रुवं एव बन्धं न उपैति” [ अहो ] भो भव्यजीव ! [ अयं सम्यग्दृष्टात्मा ] यह शुद्ध स्वरूपका अनुभवनशील सम्यग्दृष्टि जीव [ कुतः अपि ] भोग सामग्रीको भोगते हुए अथवा बिना भोगते हुए [ ध्रुवं ] अवश्यकर [ एव ] निश्चयसे [ बन्धं न उपैति ] ज्ञानावरणादि कर्मबन्धको नहीं करता है। कैसा है सम्यग्दृष्टि जीव ? “रागादीन् उपयोगभूमिं अनयन्” [ रागादीन् ] अशुद्धरूप विभावपरिणामोंको [ उपयोगभूमिं ] चेतनामात्र गुणके प्रति [ अनयन् ] न परिणामाता हुआ। “केवलं ज्ञानं भवेत्” मात्र ज्ञानस्वरूप रहता है। भावार्थ इस प्रकार है—सम्यग्दृष्टि जीवको बाह्य आम्यन्तर सामग्री जैसी धी वैंसी ही है, परन्तु रागादि अशुद्धरूप विभाव परिणति नहीं है, इसलिए ज्ञानावरणादि कर्मका बन्ध नहीं है। “ततः लोकः कर्म अस्तु च तत् परिस्पन्दात्मकं कर्म अस्तु अस्मिन् तानि करणानि सन्तु च तत् चिदचिद्व्यापादनं अस्तु” [ ततः ] तिस कारणसे [ लोकः कर्म अस्तु ] कामगण वर्गणसे भरा है जो समस्त लोकाकाश सो तो जैसा है वैंसा ही रहो, [ च ] और [ तत् परिस्पन्दात्मकं कर्म अस्तु ] ऐसा है जो आत्मप्रदेशकम्परूप मन-वचन-कायरूप तीन योग वे भी जैसा है वैंसा ही रहो तथापि कर्मका बन्ध नहीं। क्या होने पर ? [ तस्मिन् ] राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्धपरिणामके चले जानेपर [ तानि करणानि सन्तु ] वे भी पाँच इन्द्रियाँ तथा मन सो जैसे है वैंसे ही रहो [ च ] और [ तत् चिदचिद्व्यापादनं अस्तु ] पूर्वोक्त चेतन अचेतनका घात जैसा होता था वैंसा ही रहो तथापि शुद्धपरिणामके होनेपर कर्मका बन्ध नहीं है ॥३-१६५॥

( पृथ्वी )

तथापि न निरर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनां  
तदायतनमेव सा किल निरर्गला व्यापृतिः ।

अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां

द्वयं न हि विरुद्धयते किमु करोति जानाति च ॥४-१६६॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तथापि ज्ञानिना निरर्गलं चरितुं न इष्यते” [ तथापि ] यद्यपि कामगणवर्गणा, मन-वचन-काययोग, पाँच इन्द्रियाँ, मन, जीवका घात इत्यादि बाह्य सामग्री कर्मबन्धका कारण नहीं है। कर्मबन्धका कारण रागादि अशुद्धपना है। वस्तुका स्वरूप ऐसा ही है। तो भी [ ज्ञानिनां ] शुद्धस्वरूपके अनुभवशील हैं जो

सम्यग्दृष्टि जीव उनकी [ निरर्गलं चरितुं ] 'प्रमादी होकर विषय भोगका सेवन किया तो किया ही, जीवोंका घात हुआ तो हुआ ही, मन वचन काय जैसे प्रवर्ते वैसे प्रवर्तो ही'—ऐसी निरंकुश वृत्ति [ न इष्यते ] जानकर करते हुए कर्मका बन्ध नहीं है ऐसा तो गणधरदेव नहीं मानते है। किस कारणसे नहीं मानते हैं ? कारण कि "सा निरर्गला व्यापृत्तिः किल तदायतन एव" [ सा ] पूर्वोक्त [ निरर्गला व्यापृत्तिः ] बुद्धि-पूर्वक-ज्ञानकर अन्तरंगमे रुचिकर विषय-कषायोंमे निरंकुशरूपसे आचरण [ किल ] निश्चयसे [ तदायतनं एव ] अवश्य कर मिथ्यात्व-राग-द्वेषरूप अशुद्ध भावोंको लिए हुए है, इससे कर्मबन्धका कारण है। भावार्थ इस प्रकार है कि ऐसी युक्तिका भाव मिथ्यादृष्टि जीवके होता है सो मिथ्यादृष्टि कर्मबन्ध का कर्ता प्रगट ही है; कारण कि "ज्ञानिना तत् अकामकृत कर्म अकारण मतं" [ ज्ञानिनां ] सम्यग्दृष्टि जीवके [ तत् ] जो कुछ पूर्वबद्ध कर्मके उदयसे है वह समस्त [ अकामकृतकर्म ] अवाञ्छित क्रियारूप है, इसलिए [ अकारणं मतं ] कर्मबन्धका कारण नहीं है—ऐसा गणधरदेवने माना है और ऐसा ही है। कोई कहेगा कि—"करोति जानाति च" [ करोति ] कर्मके उदयसे होती है जो भोगसामग्री सो होती हुई अन्तरंग रुचिपूर्वक सुहाती है ऐसा भी है [ जानाति च ] तथा शुद्ध स्वरूपको अनुभवता है, समस्त कर्मजनित सामग्रीको हेयरूप जानता है ऐसा भी है। ऐसा कोई कहता है सो भूटा है; कारण कि "द्वयं किमु न हि विरुद्धयते" [ द्वयं ] जाता भी वाञ्छक भी ऐसी दो क्रिया [ किमु न हि विरुद्धयते ] विरुद्ध नहीं क्या ? अपि तु सर्वथा विरुद्ध है ॥४-१६६॥

( जगन्तिलका )

जानाति यः स न करोति करोति यस्तु

जानात्ययं न खलु तत्किल कर्मरागः ।

रागं त्वबोधमयमध्यवसायमाहु-

मिथ्यादृशः स नियतं स च बन्धहेतुः ॥५-१६७॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“य जानाति यः न करोति” [ यः ] जो कोई सम्यग्दृष्टि जीव [ जानाति ] शुद्ध स्वरूपको अनुभवता है [ सः ] वह सम्यग्दृष्टि जीव [ न करोति ] कर्मके उदय सामग्रीमे अभिलाषा नहीं करता; “तु यः करोति अयं न जानाति” [ तु ] और [ यः ] जो कोई मिथ्यादृष्टि जीव [ करोति ] कर्मकी विचित्र

सामग्रीको आप जानकर अभिलाषा करता है [ अर्थ ] वह मिथ्यादृष्टि जीव [ न जानाति ] शुद्ध स्वरूप जीवको नहीं जानता है । भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्यादृष्टि जीवको जीवके स्वरूपका जानपना नहीं घटित होता । “खलु” ऐसा वस्तुका निश्चय है । ऐसा कहा जो मिथ्यादृष्टि कर्ता है, वहाँ करना सो क्या ? “तत् कर्म किल रागः” [ तत् कर्म ] कर्मके उदय सामग्रीका करना वह [ किल ] वास्तवमें [ रागः ] कर्म सामग्रीमें अभिलाषारूप चिकना परिणाम है । कोई मानेगा कि कर्मसामग्रीमें अभिलाषा हुई तो क्या, न हुई तो क्या ? सो ऐसा तो नहीं है, अभिलाषामात्र पूरा मिथ्यात्व परिणाम है ऐसा कहते हैं—“तु रागं अबोधमयं ग्रन्थवसायं आहुः” [ तु ] वह वस्तु ऐसी है कि [ रागं अबोधमयं ग्रन्थवसायं ] परद्रव्यसामग्रीमें है जो अभिलाषा वह नि.केवल मिथ्यात्वरूप परिणाम है ऐसा [ आहुः ] गणधरदेवने कहा है । “सः नियतं मिथ्यादृशः भवेत्” [ सः ] कर्मकी सामग्रीमें राग [ नियतं ] अवश्यकर [ मिथ्यादृशः भवेत् ] मिथ्यादृष्टि जीवके होता है, सम्यग्दृष्टि जीवके निश्चयसे नहीं होता । “सः च बन्धहेतुः” वह राग-परिणाम कर्मबन्धका कारण है । इसलिए भावार्थ ऐसा है कि मिथ्यादृष्टि जीव कर्म-बन्ध करता है, सम्यग्दृष्टि जीव नहीं करता ॥५-१६७॥

( वसन्ततिलका )

सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय-

कर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

अज्ञानभेतविह यत्तु परः परस्य

कुर्यात्पुमान् मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥६-१६८॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“इह एतत् अज्ञान” [ इह ] मिथ्यात्व परिणामका एक अंग दिखलाते है—[ एतत् अज्ञानं ] ऐसा भाव मिथ्यात्वमय है । “तु यत् परः पुमान् परस्य मरणजीवितदुःखसौख्यं कुर्यात्” [ तु ] वह कैसा भाव ? [ यत् ] वह भाव ऐसा कि [ परः पुमान् ] कोई पुरुष [ परस्य ] अन्य पुरुषके [ मरणजीवितदुःखसौख्यं ] मरण-प्राणघात, जीवित-प्राणरक्षा, दुःख-अनिष्टसंयोग, सौख्य-इष्टप्राप्ति ऐसे कार्यको [ कुर्यात् ] करता है । भावार्थ इस प्रकार है—अज्ञानी मनुष्योमे ऐसी कहावत है कि ‘इस जीवने इस जीवको मारा, इस जीवने इस जीवको जिलाया, इस जीवने इस जीवको सुखी किया, इस जीवने इस जीवको दुखी किया’; ऐसी कहावत है सो ऐसी ही प्रतीति जिस जीवको

होवे वह जीव मिथ्यादृष्टि है ऐसा निःसन्देह जानियेगा, धोखा कुछ नहीं। क्यों जानना कि मिथ्यादृष्टि है ? कारण कि “मरणजीवितदुःखसौख्य सर्वं सदा एव नियतं स्वकीय-कर्मोदयात् भवति” [ मरण ] प्राणघात [ जीवित ] प्राणरक्षा [ दुःखसौख्यं ] इष्ट-अनिष्ट-संयोग यह जो [ सर्व ] सब जीवराशिको होता है वह सब [ सदा एव ] सर्वकाल [ नियतं ] निश्चयसे [ स्वकीयकर्मोदयात् भवति ] जिस जीवने अपने विशुद्ध अथवा सक्लेशरूप परिणामके द्वारा पहले ही बाँधा है जो आयुः कर्म अथवा साताकर्म अथवा असाताकर्म, उस कर्मके उदयसे उस जीवको मरण अथवा जीवन अथवा दुःख अथवा सुख होता है ऐसा निश्चय है, इस बातमें धोखा कुछ नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जीव किसी जीवको मारनेके लिए समर्थ नहीं है, जिलानेके लिए समर्थ नहीं है, सुखी दुःखी करनेके लिए समर्थ नहीं है ॥६-१६८॥

( वसन्ततिलका )

**अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य  
पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।  
कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते  
मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥७-१६९॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ये परात् परस्य मरणजीवितदुःखसौख्य पश्यन्ति” [ ये ] जो कोई अज्ञानी जीवराशि [ परात् ] अन्य जीवसे [ परस्य ] अन्य जीवका [ मरणजीवितदुःखसौख्यं ] मरना, जीना, दुःख, सुख [ पश्यन्ति ] मानती है, क्या करके ? “एतत् अज्ञान अधिगम्य” [ एतत् अज्ञानं ] मिथ्यात्वरूप अशुद्ध परिणामको—ऐसे अशुद्धपनेको [ अधिगम्य ] पाकर, “ते नियत मिथ्यादृशः भवन्ति” [ ते ] जो जीवराशि ऐसा मानती है वह [ नियतं ] निश्चयसे [ मिथ्यादृशः भवन्ति ] सर्वप्रकार मिथ्यादृष्टि राशि है। कैसे हैं वे मिथ्यादृष्टि ? “अहंकृतिरसेन कर्माणि चिकीर्षवः” [ अहंकृति ] ‘मै देव, मै मनुष्य, मै तिर्यश्च, मै नारक, मै दुःखी, मै सुखी’ ऐसी कर्मजनित-पर्यायमे है आत्मबुद्धिरूप जो [ रम ] मग्नपना उसके द्वारा [ कर्माणि ] कर्मके उदयसे जितनी क्रिया होती है उसे [ चिकीर्षवः ] ‘मै करता हूँ, मैंने किया है, ऐसा करूँगा’ ऐसे अज्ञानको लिए हुए मानते हैं। और कैसे है ? “आत्महनः” अपनेको घातन-शील है ॥७-१६९॥

( अनुष्टुप् )

**मिथ्यादृष्टेः स एवास्थ बन्धहेतुविपर्ययात् ।**

**य एवाध्यवसायोऽयमज्ञानात्माऽस्य दृश्यते ॥८-१७०॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अस्य मिथ्यादृष्टेः सः एव बन्धहेतुः भवति” [ अस्य मिथ्यादृष्टेः ] इस मिथ्यादृष्टि जीवके, [ सः एव ] मिथ्यात्वरूप है जो ऐसा परिणाम कि ‘इस जीवने इस जीवको मारा, इस जीवने इस जीवको जिलाया’—ऐसा भाव [ बन्धहेतुः भवति ] ज्ञानावरणादि कर्मबन्धका कारण होता है। किस कारणसे ? “विपर्ययात्” कारण कि ऐसा परिणाम मिथ्यात्वरूप है। “य एव अय अध्यवसायः” इसको मारूँ, इसको जिलाऊँ” ऐसा जो मिथ्यात्वरूप परिणाम जिसके होता है “अस्य अज्ञानात्मा दृश्यते” [ अस्य ] ऐसे जीवका [ अज्ञानात्मा ] मिथ्यात्वमय स्वरूप [ दृश्यते ] देखनेमें आता है ॥८-१७०॥

( अनुष्टुप् )

**अननाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः ।**

**तत्किञ्चनपि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत् ॥९-१७१॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“आत्मा आत्मानं यत् न करोति तत् किञ्चन अपि न एव अस्ति” [ आत्मा ] मिथ्यादृष्टि जीव [ आत्मानं ] अपनेको [ यत् न करोति ] जिस-रूप नहीं आस्वादता [ तत् किञ्चन ] ऐसी पर्याय, ऐसा विकल्प [ न एव अस्ति ] त्रेलोक्यमे है ही नहीं। भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्यादृष्टि जीव जैसी पर्याय धारण करता है, जैसे भावरूप परिणामता है, उस सबको आपस्वरूप जान अनुभवता है। इसलिए कर्मके स्वरूपको जीवके स्वरूपसे भिन्न कर नहीं जानता है, एकरूप अनुभव करता है। “अनेन अध्यवसायेन” ‘इसको मारूँ, इसको जिलाऊँ, इसे मैंने मारा, इसे मैंने जिलाया, इसे मैंने सुखी किया, इसे मैंने दुःखी किया’—ऐसे परिणामसे “विमोहितः” गहल (पागल) हुआ है। कैसा है परिणाम ? “निःफलेन” भूठा है। भावार्थ इस प्रकार है कि यद्यपि मारनेकी कहता है, जिलानेकी कहता है, तथापि जीवको मरना जीना अपने कर्मके उदयके हाथ है, इसके परिणामोंके अधीन नहीं है। यह अपने अज्ञानपनाको लिए हुए अनेक भूठे विकल्प करता है ॥९-१७१॥

( इन्द्रवज्रा )

विश्वाद्भिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावा-  
दात्मानमात्मा विदधाति विश्वम् ।  
मोहैककन्दोऽध्यवसाय एष  
नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥१०-१७२॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ते एव यतयः” वे ही यतीश्वर हैं “येषा इह एष अध्यवसाय नास्ति” [ येषां ] जिनको [ इह ] सूक्ष्मरूप वा स्थूलरूप [ एष अध्यवसायः ] ‘इसको मारूँ, इसको जिलाऊँ’ ऐसा मिथ्यात्वरूप परिणाम [ नास्ति ] नहीं है । कौसा है परिणाम ? “मोहैककन्दः” [ मोह ] मिथ्यात्वका [ एककन्दः ] मूल कारण है । “यत्प्रभावात्” जिस मिथ्यात्वपरिणामके कारण “आत्मा आत्मानं विश्व विदधाति” [ आत्मा ] जीवद्रव्य [ आत्मानं ] आपको [ विश्वं ] ‘मैं देव, मैं मनुष्य, मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं सुखी, मैं दुःखी’ इत्यादि नानारूप [ विदधाति ] अनुभवता है । कौसा है आत्मा ? “विश्वात् विभक्तं अपि” कर्मके उदयसे हुई समस्त पर्यायोसे भिन्न है, ऐसा है यद्यपि । भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्यादृष्टि जीव पर्यायमे रत है, इसलिए पर्यायको आपरूप अनुभवता है । ऐसे मिथ्यात्वभावके छूटने पर ज्ञानी भी सौँचा, आचरण भी सौँचा ॥१०-१७२॥

( शार्ङ्गलविक्रीडित )

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनै-  
स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।  
सम्यङ् निश्चयमेकमेव तदमी निष्कंपमाक्रम्य किं  
शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्नन्ति सन्तो धृतिम् ॥११-१७३॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अमी सन्त निजे महिम्नि धृति किं न बध्नन्ति” [ अमी सन्तः ] सम्यग्दृष्टि जीवराशि [ निजे महिम्नि ] अपने शुद्ध चिद्रूप स्वरूपमें [ धृति ] स्थिरतारूप सुखको [ किं न बध्नन्ति ] क्यों न करे ? अपि तु सर्वथा करे । कौसी है निजमहिमा ? ‘शुद्धज्ञानघने’ [ शुद्ध ] रागादिरहित ऐसे [ ज्ञान ] चेतनागुणाका [ घने ] समूह है । क्या करके ? “तत् सम्यक् निश्चय आक्रम्य” [ तत् ] तिस कारणसे [ सम्यक् निश्चयं ] निर्विकल्प वस्तुमात्रको [ आक्रम्य ] जैसी है वैसी अनुभवगोचर



कर। कैसा है निश्चय ? “एकं एव” [ एकं ] निर्विकल्प वस्तुमात्र है, [ एव ] निश्चयसे। और कैसा है ? “निःकम्पं” सर्व उपाधिसे रहित है। “यत् सर्वत्र अध्यवसानं अखिलं एव त्याज्यं” [ यत् ] जिस कारणसे [ सर्वत्र अध्यवसानं ] “मैं मारूँ, मैं जिलाऊँ, मैं दुःखी करूँ, मैं सुखी करूँ, मैं देव, मैं मनुष्य” इत्यादि हैं जो मिथ्यात्वरूप असंख्यात लोकमात्र परिणाम [ अखिलं एव त्याज्यं ] वे समस्त परिणाम हेय है। कैसा है परिणाम ? “जिनैः उक्तं” परमेश्वर केवलज्ञान विराजमान, उन्होंने ऐसा कहा है। “तत्” मिथ्यात्व-भावका हुआ है त्याग, उसको “मन्ये” मैं ऐसा मानता हूँ कि “निखिलः अपि व्यवहारः त्याजितः एव” [ निखिलः अपि ] जितना है सत्यरूप अथवा असत्यरूप [ व्यवहारः ] शुद्ध स्वरूपमात्रसे विपरीत जितने मन वचन कायके विकल्प वे सब [ त्याजितः ] सर्व प्रकार छूटे हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि पूर्वोक्त मिथ्या भाव जिसके छूट गया उसके समस्त व्यवहार छूट गया। कारण कि मिथ्यात्वके भाव तथा व्यवहारके भाव एकवस्तु है। कैसा है व्यवहार ? “अन्याश्रयः” [ अन्य ] विपरीतपना वही है [ आश्रयः ] अवलम्बन जिसका, ऐसा है ॥११-१७३॥

( उपजाति )

रागादयो बन्धनिदानमुक्ता-  
स्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः ।  
आत्मा परो वा किमु तन्निमित्त-  
मिति प्रणुनाः पुनरेवमाहुः ॥१२-१७४॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“पुनः एव आहुः” [ पुनः ] शुद्ध वस्तुस्वरूपका निरूपण किया तथापि पुनः [ एवं आहुः ] ऐसा कहते हैं ग्रन्थके कर्ता श्री कुन्दकुन्दाचार्य । कैसा है ? “इति प्रणुनाः” ऐसा प्रश्नरूप नम्र होकर पूछा है। कैसा प्रश्नरूप ? “ते रागादयः बन्धनिदानं उक्ताः” अहो स्वामिन् ! [ ते रागादयः ] अशुद्ध चेतनारूप है राग द्वेष मोह इत्यादि असंख्यात लोकमात्र विभावपरिणाम, वे [ बन्धनिदानं उक्ताः ] ज्ञानावरणादि कर्मबन्धके कारण हैं ऐसा कहा, सुना, जाना, माना। कैसे है वे भाव ? “शुद्धचिन्मात्र-महोऽतिरिक्ताः” [ शुद्धचिन्मात्र ] शुद्ध ज्ञानचेतनामात्र है जो [ महः ] ज्योतिस्वरूप जीववस्तु, उससे [ अतिरिक्ताः ] बाहर हैं। अब एक प्रश्न मैं करता हूँ कि “तन्निमित्तं आत्मा वा पर” [ तन्निमित्तं ] उन राग द्वेष मोहरूप अशुद्ध परिणामोंका कारण कौन

है ? [ आत्मा ] जीवद्रव्य कारण है [ वा ] कि [ परः ] मोह कर्मरूप परिणामा है जो पुद्गल द्रव्यका पिण्ड वह कारण है ? ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर कहते हैं ॥१२-१७४॥

( उपजाति )

न जातु रागादिनिमित्तभाव-  
मात्मात्मनो याति यथार्ककांतः ।  
तस्मिन्निमित्तं परसंग एव  
वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत् ॥१३-१७५॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तावत् अय वस्तुस्वभावः उदेति” [ तावत् ] प्रश्न किया था उसका उत्तर इस प्रकार—[ अयं वस्तुस्वभावः ] यह वस्तुका स्वरूप [ उदेति ] सर्व काल प्रगट है । कैसा है वस्तुका स्वभाव ? “जातु आत्मा आत्मनः रागादिनिमित्त-भाव न याति” [ जातु ] किसी कालमें [ आत्मा ] जीवद्रव्य [ आत्मनः रागादिनिमित्त-भावं ] आपसम्बन्धी है जो राग द्वेष मोहरूप अशुद्ध परिणाम उनके कारणरूप [ न याति ] नहीं परिणामता है । भावार्थ इस प्रकार है कि द्रव्यके परिणामका कारण दो प्रकारका है—एक उपादानकारण है, एक निमित्तकारण है । उपादानकारण द्रव्यके अन्तर्गर्भित है अपने परिणाम पर्यायरूप परिणमनशक्ति, वह तो जिस द्रव्यकी, उसी द्रव्यमें होती है ऐसा निश्चय है । निमित्त कारण—जिस द्रव्यका संयोग प्राप्त होनेसे अन्य द्रव्य अपनी पर्यायरूप परिणामता है, वह तो जिस द्रव्यकी उस द्रव्यमें होती है, अन्य द्रव्यगोचर नहीं होती ऐसा निश्चय है । जैसे मिट्टी घट पर्यायरूप परिणमती है, उसका उपादानकारण है मिट्टीमें घटरूप परिणमनशक्ति, निमित्तकारण है बाह्यरूप कुम्हार, चक्र, दण्ड इत्यादि, वैसे ही जीवद्रव्य अशुद्ध परिणाम—मोह राग द्वेषरूप परिणामता है, उसका उपादानकारण है जीवद्रव्यमें अन्तर्गर्भित विभावरूप अशुद्धपरिणामनशक्ति, “तस्मिन् निमित्तं” निमित्तकारण है “परसङ्ग एव” दर्शनमोह चारित्रमोहकर्मरूप बंधा जो जीवके प्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाहरूप पुद्गलद्रव्यका पिण्ड, उसका उदय । यद्यपि मोह कर्मरूप पुद्गलपिण्डका उदय अपने द्रव्यके साथ व्याप्य-व्यापकरूप है, जीवद्रव्यके साथ व्याप्य-व्यापकरूप नहीं है, तथापि मोहकर्मका उदय होनेपर जीवद्रव्य अपने विभावरूप परिणामरूप परिणामता है—ऐसा ही वस्तुका स्वभाव है, सहारा किसका । यहाँ दृष्टांत

है—“यथा अर्ककान्तः” जैसे स्फटिकमणि लाल, पीली, काली इत्यादि अनेक छविरूप परिणमती है, उसका उपादान कारण है स्फटिकमणिके अन्तर्गर्भित नाना वर्णरूप परिणामनशक्ति, निमित्त कारण है बाह्य नाना वर्णरूप पूरीका संयोग ॥१३-१७५॥

( धनुष्यु० )

**इति वस्तुस्वभावं स्वं**

**ज्ञानी जानाति तेन सः ।**

**रागादीन्नात्मनः कुर्यान्**

**नातो भवति कारकः ॥१४-१७६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ज्ञानी इति वस्तुस्वभावं स्वं जानाति” [ ज्ञानी ] सम्यग्दृष्टि जीव [ इति ] पूर्वोक्त प्रकार [ वस्तुस्वभावं ] द्रव्यका स्वरूप ऐसा जो [ स्वं ] अपना शुद्ध चैतन्य, उसको [ जानाति ] आस्वादरूप अनुभवता है, “तेन सः रागादीन् आत्मनः न कुर्यात्” [ तेन ] तिस कारणसे [ सः ] सम्यग्दृष्टि जीव [ रागादीन् ] राग द्वेष मोहरूप अशुद्ध परिणाम [ आत्मनः ] जीव द्रव्यके स्वरूप हैं ऐसा [ न कुर्यात् ] नहीं अनुभवता है, कर्मके उदयकी उपाधि है ऐसा अनुभवता है। “अतः कारकः न भवति” [ अतः ] इस कारणसे [ कारकः ] रागादि अशुद्ध परिणामोंका कर्ता [ न भवति ] नहीं होता। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यग्दृष्टि जीवके रागादि अशुद्ध परिणामोंका स्वामित्वपना नहीं है, इसलिए सम्यग्दृष्टि जीव कर्ता नहीं है ॥१४-१७६॥

( धनुष्यु० )

**इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः ।**

**रागादीनात्मनः कुर्यादितो भवति कारकः ॥१५-१७७॥\***

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अज्ञानी इति वस्तुस्वभावं स्वं न वेत्ति” [ अज्ञानी ] मिथ्यादृष्टि जीव [ इति ] पूर्वोक्त प्रकार [ वस्तुस्वभावं ] द्रव्यका स्वरूप ऐसा जो [ स्वं ] अपना शुद्ध चैतन्य, उसको [ न वेत्ति ] आस्वादरूप नहीं अनुभवता है, “तेन सः रागादीन्

\* पण्डित श्री राजमलजीकी टीकामे यह श्लोक एव उसका अर्थ छूट गया है। श्लोक न० १७६ के आधारसे इस श्लोकका 'खण्डान्वय सहित अर्थ' बनाकर यहाँ दिया है।

आत्मनः कुर्यात्" [ तेन ] तिस कारणसे [ सः ] मिथ्यादृष्टि जीव [ रागादीन् ] राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणाम [ आत्मनः ] जीव द्रव्यके स्वरूप है ऐसा [ कुर्यात् ] अनुभवता है, कर्मके उदयकी उपाधि है ऐसा नहीं अनुभवता है, "अतः कारकः भवति" [ अतः ] इस कारणसे [ कारकः ] रागादि अशुद्ध परिणामो का कर्ता [ भवति ] होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्यादृष्टि जीवके रागादि अशुद्धपरिणामोका स्वामित्वपना है, इसलिए मिथ्यादृष्टि जीव कर्ता है ॥१५-१७७॥

( शाहूँलविक्रीडित )

**इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं बलात्  
तन्मूलां बहुभावसन्ततिमिमामुद्धतुं कामः समम् ।  
आत्मानं समुपैति निर्भरवहत्पूर्णकसंविद्युतं  
येनोन्मूलितबन्ध एष भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥१६-१७८॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“एष आत्मा आत्मानं समुपैति येन आत्मनि स्फूर्जति” [ एषः आत्मा ] प्रत्यक्ष है जो जीव द्रव्य वह [ आत्मानं समुपैति ] अनादि कालमे स्वरूपसे भ्रष्ट हुआ था तथापि इस अनुक्रमसे अपने स्वरूपको प्राप्त हुआ, [ येन ] जिस स्वरूपकी प्राप्तिके कारण [ आत्मनि स्फूर्जति ] पर द्रव्यसे सम्बन्ध छूट गया, आपसे सम्बन्ध रहा। कैसा है? “उन्मूलितबन्ध” [ उन्मूलित ] मूल सत्तामे दूर किया है [ बन्धः ] ज्ञानावरणादि कर्मरूप पुद्गलद्रव्यका पिण्ड जिसने, ऐसा है। और कैसा है? “भगवान्” ज्ञानस्वरूप है। कैसा करके अनुभवता है? “निर्भरवहत्पूर्णकसंविद्युत” [ निर्भर ] अनन्त शक्तिके पुञ्जरूपसे [ वहत् ] निरन्तर परिणमता है ऐसा जो [ पूर्ण ] स्वरूपसे भरा हुआ [ एकसंविद् ] विशुद्ध ज्ञान, उसमे [ युतं ] मिला हुआ है, ऐसे शुद्ध-स्वरूपको अनुभवता है। और कैसा है आत्मा? “इमा बहुभावसन्तति समं उद्धतुं कामः” [ इमां ] कहा है स्वरूप जिनका ऐसा है [ बहुभाव ] राग द्वेष मोह आदि अनेक प्रकार के अशुद्ध परिणाम, उनकी [ सन्तति ] परम्परा, उसको [ समं ] एक ही कालमे [ उद्धतुं कामः ] उखाड़ कर दूर करनेका है अभिप्राय जिनका, ऐसा है। कैसी है भावसन्तति? “तन्मूला” पर द्रव्यका स्वामित्वपना है मूलकारण जिसका ऐसी है। क्या करके? “किल बलात् तत् समग्रं परद्रव्यं इति आलोच्य विवेच्य” [ किल ] निश्चयसे [ बलात् ] ज्ञानके बलकर [ तत् ] द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्मरूप [ समग्रं परद्रव्यं ]

ऐसी है जितनी पुद्गलद्रव्यकी विचित्र परिणति, उसको [ इति आलोच्य ] पूर्वोक्त प्रकारसे विचारकर [ विवेच्य ] शुद्ध ज्ञानस्वरूपसे भिन्न किया है। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्धस्वरूप उपादेय है, अन्य समस्त पर द्रव्य हेय है ॥१६-१७८॥

( मन्दाक्रान्ता )

**रागादीनामुदयमदयं दारयत्कारणानां  
कार्यं बन्धं विविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य ।  
ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत्  
तद्वद्यद्वत्प्रसरमपरः कोऽपि नास्यावृणोति ॥१७-१७६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“एतत् ज्ञानज्योतिः तद्वत् सन्नद्धं” [ एतत् ज्ञानज्योतिः ] स्वानुभवगोचर शुद्ध चैतन्यवस्तु [ तद्वत् सन्नद्धं ] अपने बलपराक्रमके साथ ऐसी प्रगट हुई कि “यद्वत् अस्य प्रसरं अपरः कः अपि न आवृणोति” [ यद्वत् ] जैसे [ अस्य प्रसरं ] शुद्ध ज्ञानका लोक अलोकसम्बन्धी सकल ज्ञेयको जाननेका ऐसा प्रसार जिसको [ अपरः कः अपि ] अन्य कोई दूसरा द्रव्य [ न आवृणोति ] नहीं रोक सकता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीवका स्वभाव केवलज्ञान केवलदर्शन है, वह ज्ञानावरणादि कर्मबन्धके द्वारा आच्छादित है। ऐसा आवरण शुद्ध परिणामसे मिटता है, वस्तु स्वरूप प्रगट होता है। ऐसा शुद्धस्वरूप जीवको उपादेय है। कैसी है ज्ञानज्योति ? “क्षपिततिमिरं” [ क्षपित ] विनाश किया है [ तिमिरं ] ज्ञानावरण दर्शनावरणकर्म जिसने, ऐसी है। और कैसी है ? “साधु” सर्व उपद्रवोंसे रहित है। और कैसी है ? “कारणानां रागादीना उदयं दारयत्” [ कारणानां ] कर्मबन्धके कारण ऐसे जो [ रागादीनां ] राग द्वेष मोहरूप अशुद्ध परिणाम, उनके [ उदयं ] प्रगटपनेको [ दारयत् ] मूलसे ही उखाड़ती हुई। कैसे उखाड़ती है ? “अदयं” निर्दयपनेके समान। और क्या करके ऐसी होती है ? “कार्यं बन्धं अधुना सद्यः एव प्रणुद्य” [ कार्यं ] रागादि अशुद्ध परिणामोंके होने पर होता है ऐसे [ बन्धं ] धाराप्रवाहरूप होनेवाले पुद्गलकर्मके बन्धको [ सद्यः एव ] जिस कालमें रागादि मिट गये उसी कालमें [ प्रणुद्य ] मेट करके। कैसा है बन्ध ? “विविधं” ज्ञानावरण दर्शनावरण इत्यादि असंख्यात लोकमात्र है। कोई वितर्क करेगा कि ऐसा तो द्रव्यरूप विद्यमान ही था ? समाधान इस प्रकार है कि [ अधुना ] द्रव्यरूप यद्यपि विद्यमान ही था तथापि प्रगटरूप, बन्धको दूर करने पर हुआ ॥१७-१७६॥

## मोक्ष-अधिकार

( शिखरिणी )

द्विधाकृत्य प्रज्ञाककचदलनाद्बन्धपुरुषौ  
 नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषमुपलम्भैकनियतम् ।  
 इदानीमुन्मज्जत्सहजपरमानन्दसरसं  
 परं पूर्णं ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते ॥१-१८०॥

खण्डान्वय महित अर्थ—“इदानी पूर्ण ज्ञान विजयते” [ इदानीं ] यहाँ से लेकर [ पूर्ण ज्ञानं ] समस्त आवरणका विनाश होने पर होता है जो शुद्ध वस्तुका प्रकाश वह [ विजयते ] आगामी अनन्त काल पर्यन्त उसीरूप रहता है, अन्यथा नहीं होता। कैसा है शुद्धज्ञान ? “कृतसकलकृत्य” [ कृत ] किया है [ सकलकृत्यं ] करनेयोग्य समस्त कर्मका विनाश जिसने, ऐसा है। और कैसा है ? “उन्मज्जत्सहजपरमानन्दसरस” [ उन्मज्जत् ] अनादि कालसे गया था सो प्रगट हुआ है ऐसा जो [ सहजपरमानन्द ] द्रव्यके स्वभावरूपसे परिगमनेवाला अनाकुलत्वलक्षण अतीन्द्रिय मुख, उससे [ मरमं ] सयुक्त है। भावार्थ इस प्रकार है कि मोक्षका फल अतीन्द्रिय मुख है। क्या करता हुआ ज्ञान प्रगट होता है ? “पुरुष साक्षात् मोक्षं नयत्” [ पुरुषं ] जीव द्रव्यको [ साक्षात् मोक्षं ] सकल कर्मका विनाश होने पर शुद्धत्व अवस्थाके प्रगटपनेरूप [ नयत् ] परिगमाता हुआ। भावार्थ इस प्रकार है कि यहाँ से आरम्भकर सकल कर्मक्षयलक्षण मोक्षके स्वरूपका निरूपण किया जाता है। और कैसा है ? “पर” उत्कृष्ट है। और कैसा है ? “उपलम्भैकनियत” एक निश्चय स्वभावको प्राप्त है। क्या करता हुआ आत्मा मुक्त होता है ? “बन्ध-पुरुषौ द्विधाकृत्य” [ बन्ध ] द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्मरूप उपाधि और [ पुरुषौ ] शुद्ध जीवद्रव्य इनको, [ द्विधाकृत्य ] ‘सर्वं बन्ध हेय, शुद्ध जीव उपादेय’ ऐसी भेदज्ञानरूप प्रतीति उत्पन्न कराकर। ऐसी प्रतीति जिस प्रकार उत्पन्न होती है

उस प्रकार कहते हैं—“प्रज्ञाकचदलनात्” [ प्रज्ञा ] शुद्धज्ञानमात्र जीवद्रव्य और अशुद्ध रागादि उपाधि बन्ध—ऐसी भेदज्ञानरूपी बुद्धि, ऐसी जो [ कच ] करीत, उसके द्वारा [ दलनात् ] निरन्तर अनुभवका अभ्यास करनेसे। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार करीतके बार बार चालू करनेसे पुद्गलवस्तु काष्ठ आदि दो खण्ड हो जाता है, उसी प्रकार भेदज्ञानके द्वारा जीव-पुद्गलको बार बार भिन्न भिन्न अनुभव करनेपर भिन्न भिन्न हो जाते हैं, इसलिए भेदज्ञान उपादेय है ॥१-१८०॥

( स्रग्धरा )

**प्रज्ञाछेत्री शितेयं कथमपि निपुणं: पातिता सावधानं:  
सूक्ष्मेऽन्तःसन्धिबन्धे निपतति रभसादात्मकर्मोभयस्य  
आत्मानं मग्नमंतःस्थिरविशदलसद्ब्रह्मि चैतन्यपूरे  
बन्धं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिन्नौ ॥२-१८१॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—भावार्थ इस प्रकार है कि जीवद्रव्य तथा कर्म पर्यायरूप परिणत पुद्गलद्रव्यका पिण्ड, इन दोनोंका एकबन्धपर्यायरूप सम्बन्ध अनादिसे चला आया है, सो ऐसा सम्बन्ध जब छूट जाय, जीवद्रव्य अपने शुद्ध स्वरूपरूप परिणवे, अनन्त चतुष्टयरूप परिणवे, तथा पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादि कर्म पर्यायको छोड़े—जीवके प्रदेशोसे सर्वथा अबन्धरूप होकर सम्बन्ध छूट जाय, जीव-पुद्गल दोनों भिन्नभिन्न हो जावें, उसका नाम मोक्ष कहनेमें आता है। उस भिन्नभिन्न होनेका कारण ऐसा जो मोह राग द्वेष इत्यादि विभावरूप अशुद्ध परिणतिके मिटने पर जीवका शुद्धस्वरूप परिणमन। उमका विवरण इस प्रकार है कि शुद्धत्वपरिणमन सर्वथा सकल कर्मोके क्षय करनेका कारण है। ऐसा शुद्धत्वपरिणमन सर्वथा द्रव्यका परिणमनरूप है, निर्विकल्परूप है, इसलिए वचनके द्वारा कहनेका समर्थपना नहीं है। इस कारण इस रूपमें कहते हैं कि जीवके शुद्ध स्वरूपके अनुभवरूप परिणमाता है ज्ञानगुण, सो मोक्षका कारण है। उसका समाधान ऐसा है कि शुद्ध स्वरूपके अनुभवरूप है जो ज्ञान वह, जीवके शुद्धत्व-परिणमनको सर्वथा लिए हुए है। जिसको शुद्धत्व परिणमन होता है उस जीवको शुद्ध-स्वरूपका अनुभव अवश्य होता है, धोखा नहीं, अन्यथा सर्वथा प्रकार अनुभव नहीं होता; इसलिए शुद्ध स्वरूपका अनुभव मोक्षका कारण है। यहाँ अनेक प्रकारके मिथ्यादृष्टि जीव नाना प्रकारके विकल्प करते हैं, सो उनका समाधान करते हैं। कोई कहते हैं कि जीवका

स्वरूप और बंधका स्वरूप जान लेना मोक्षमार्ग है। कोई कहते हैं कि बन्धका स्वरूप जानकर ऐसा चिन्तवन करना कि 'बन्ध कब छूटेगा, कैसे छूटेगा' ऐसी चिन्ता मोक्षका कारण है। ऐसा कहते हैं सो वे जीव भूठे हैं—मिथ्यादृष्टि है। मोक्षका कारण जैसा है वैसा कहते हैं—“इय प्रज्ञाच्छेत्री आत्मकर्मोभयस्य अन्तःसन्धिबन्धे निपतति” [ इयं ] वस्तुस्वरूपसे प्रगट है जो [ प्रज्ञा ] आत्माके शुद्धस्वरूप अनुभवसमर्थपनेसे परिणामा हुआ जीवका ज्ञानगुण, वही है [ क्षेत्री ] छैनी। भावार्थ इस प्रकार है कि सामान्यतया जिस किसी वस्तुको छेदकर दो करते हैं सो छैनीके द्वारा छेदते हैं। यहा भी जीव-कर्म को छेदकर दो करना है, उनको दो रूपसे छेदनेके लिए स्वरूपअनुभवसमर्थ ज्ञानरूप छैनी है, और तो दूसरा कारण न हुआ, न होगा। ऐसी प्रज्ञाछैनी जिस प्रकार छेदकर दो करती है उस प्रकार कहते हैं—[ आत्मकर्मोभयस्य ] आत्मा-चेतनामात्र द्रव्य, कर्म-पुद्गलका पिण्ड अथवा मोह राग द्वेषरूप अशुद्ध परिणति, ऐसी है उभय-दो वस्तुएँ, उनको [ अन्तःसन्धि ] यद्यपि एक क्षेत्रावगाहरूप है, बन्धपर्यायरूप है, अशुद्धत्व विकाररूप परिणामा है तथापि परस्पर सन्धि है। नि-सन्धि नहीं हुआ है, दो द्रव्योंका एक द्रव्यरूप नहीं हुआ है ऐसा है जो — [ बन्धे ] ज्ञानछैनीके पैठनेका स्थान, उसमें [ निपतति ] ज्ञानछैनी पैठती है, पैठी हुई छेदकर भिन्नभिन्न करती है। कैसी है प्रज्ञाछैनी ? “शिता” ज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम होनेपर, मिथ्यात्व कर्मका नाश होनेपर शुद्धचेतन्य-स्वरूपमें अत्यन्त पैठन समर्थ है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार यद्यपि लोह-सारकी छैनी अति पैनी होती है तो भी सन्धिका विचार कर देने पर छेद कर दो कर देती है; उसी प्रकार यद्यपि सम्यग्दृष्टि जीवका ज्ञान अत्यन्त तीक्ष्ण है तथापि जीव-कर्म की है जो भीतरमें सन्धि, उसमें प्रवेश करने पर प्रथम तो बुद्धिगोचर छेदकर दो करता है, पश्चात् सकल कर्मका क्षय होनेसे साक्षात् छेदकर भिन्नभिन्न करता है। कैसा है जीव-कर्मका अन्तः सन्धिबन्ध ? “सूक्ष्मे” अति ही दुर्लक्ष्य सन्धिरूप है। उसका विवरण इस प्रकार है—कि जो द्रव्यकर्म है ज्ञानावरणादि पुद्गलका पिण्ड, वह यद्यपि एक क्षेत्रा-वगाहरूप है तथापि उसकी तो जीवसे भिन्नपनेकी प्रतीति, विचारने पर उत्पन्न होती है, कारण कि द्रव्यकर्म पुद्गल पिण्डरूप है, यद्यपि एक क्षेत्रावगाहरूप है तथापि भिन्न-भिन्न प्रदेश है, अचेतन है, बंधता है, खुलता है—ऐसा विचार करने पर भिन्नपनेकी प्रतीति उत्पन्न होती है। नोकर्म है जो शरीर-मन-वचन उससे भी उस प्रकारसे विचारने पर भेद-प्रतीति उपजती है। भावकर्म जो मोह राग द्वेषरूप अशुद्धचेतनारूप परिणाम,



वे अशुद्ध परिणाम वर्तमानमें जीवके साथ एक परिणामनरूप है, तथा अशुद्ध परिणामके साथ वर्तमान में जीव व्याप्य-व्यापकरूप परिणामता है, इस कारण उन परिणामोंका जीवसे भिन्नपनेका अनुभव कठिन है, तथापि सूक्ष्म सन्धिका भेद पाडने पर भिन्न प्रतीति होती है। उसका विचार ऐसा है कि जिस प्रकार स्फटिकमणि स्वरूपसे स्वच्छतामात्र वस्तु है, लाल पीली काली पुरीका संयोग प्राप्त होने से लाल पीली काली इसरूप स्फटिकमणि झलकती है, वर्तमानमें स्वरूपका विचार करने पर स्वच्छतामात्र भूमिका स्फटिकमणि वस्तु है। उसमें लाल पीला कालापन परसंयोगकी उपाधि है, स्फटिकमणिका स्वभावगुण नहीं है। उसी प्रकार जीवद्रव्यका स्वच्छ चेतनामात्र स्वभाव है। अनादि सन्तानरूप मोहकर्मके उदयसे मोह राग द्वेषरूप रंजक अशुद्ध चेतनारूप परिणामता है, तथापि वर्तमानमें स्वरूपका विचार करने पर चेतना भूमिमात्र तो जीव-वस्तु है, उसमें मोह राग द्वेषरूप रंजकपना कर्मके उदयकी उपाधि है, वस्तुका स्वभाव-गुण नहीं है। इस प्रकार विचार करने पर भेद-भिन्न प्रतीति उत्पन्न होती है, जो अनुभवगोचर है। कोई प्रश्न करता है कि कितने कालके भीतर प्रज्ञाछैनी गिरती है—भिन्नभिन्न करती है? उत्तर इस प्रकार है—“रभसात्” अति सूक्ष्म काल—एक समयमें गिरती है, उसी काल भिन्नभिन्न करती है। कंसी है प्रज्ञाछैनी? “निपुणैः कथं अपि पातिता” [ निपुणैः ] आत्मानुभवमें प्रवीण है जो सम्यग्दृष्टि जीव उनके द्वारा [ कथं अपि ] ससारका निकटपना ऐसी काललब्धि प्राप्त होनेसे [ पातिता ] स्वरूपमें पंठानेसे पंठती है। भावार्थ इस प्रकार है कि भेदविज्ञान बुद्धिपूर्वक विकल्परूप है, ग्राह्य-ग्राहकरूप है, शुद्धस्वरूपके समान निर्विकल्प नहीं है; इसलिए उपायरूप है। कैसे हैं सम्यग्दृष्टि जीव? “सावधानैः” जीवका स्वरूप और कर्मका स्वरूप उनके भिन्नभिन्न विचारमे जागरूक हैं, प्रमादी नहीं है। कंसी है प्रज्ञाछैनी? “अभितः भिन्नभिन्नो कुर्वती” [ अभितः ] सर्वथा प्रकार [ भिन्नभिन्नो कुर्वती ] जीवको और कर्मको जुदा जुदा करती है। जिस प्रकार भिन्नभिन्न करती है उस प्रकार कहते हैं—“चैतन्यपूरे आत्मान मग्नं कुर्वती अज्ञानभावे बन्ध नियमितं कुर्वती” [ चैतन्य ] स्वपरस्वरूपग्राहक ऐसा जो प्रकाशगुण उसके [ पूरे ] त्रिकालगोचर प्रवाहमें [ आत्मानं ] जीवद्रव्यको [ मग्नं कुर्वती ] एक वस्तुरूप—ऐसा साधती है, भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध चेतनामात्र जीवका स्वरूप है ऐसा अनुभवगोचर आता है; [ अज्ञानभावे ] रागादिपनामे [ नियमितं बन्धं कुर्वती ] नियमसे बन्धका स्वरूप साधती है—ऐसा साधती है। भावार्थ इस प्रकार है कि रागादि अशुद्ध-

पना कर्मबन्धकी उपाधि है, जीवका स्वरूप नहीं है ऐसा अनुभवगोचर आता है। कैसा है चैतन्यपूर ? 'अन्तःस्थिरविशदलसद्भाम्नि' [ अन्तः ] सर्व असंख्यात प्रदेशोंमें एक-स्वरूप, [ स्थिर ] सर्व काल शाश्वत, [ विशद ] सर्व काल शुद्धस्वरूप और [ लसत् ] सर्व काल प्रत्यक्ष ऐसा [ धाम्नि ] केवलज्ञान केवलदर्शन तेजपुञ्ज है जिसका, ऐसा है ॥२-१८१॥

( शाङ्खलिकीडित )

भित्त्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलाद्भक्तुं हि यच्छक्यते  
चिन्मुद्राङ्कितनिर्विभागमहिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहम् ।  
भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि  
भिद्यन्तां न भिदास्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति ।३-१८२।

खण्डान्वय सहित अर्थ—भावार्थ इस प्रकार है कि जिसके शुद्धस्वरूपका अनुभव होता है वह जीव ऐसा परिणामसंस्कार (वाला) होता है। "अहं शुद्धं चित् अस्मि एव" [ अहं ] मैं [ शुद्धः चित् अस्मि ] शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ, [ एव ] निश्चयसे ऐसा ही हूँ। 'चिन्मुद्राङ्कितनिर्विभागमहिमा' [ चिन्मुद्रा ] चेतनागुण उसके द्वारा [ अङ्कित ] चिह्नित कर दी ऐसी है [ निर्विभाग ] भेदसे रहित [ महिमा ] बड़ाई जिसकी, ऐसा हूँ। ऐसा अनुभव जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं—“सर्वं अपि भित्त्वा” [ सर्वं ] जितनी कर्मके उदयकी उपाधि है उसको—[ भित्त्वा ] अनादिकालसे आपा जानकर अनुभवता था सो परद्रव्य जानकर—स्वामित्व छोड़ दिया। कैसा है परद्रव्य ? “यत् तु भक्तुं शक्यते” [ यत् ] जो कर्मरूप परद्रव्य-वस्तु [ भक्तुं ] शक्यते ] जीवसे भिन्न करनेको शक्य है अर्थात् दूर किया जा सकता है। किस कारणसे ? “स्वलक्षणबलात्” [ स्वलक्षण ] जीवका लक्षण चेतन, कर्मका लक्षण अचेतन—ऐसा भेद उसके [ बलात् ] सहायसे। कैसा हूँ मैं ? “यदि कारकाणि वा धर्मा वा गुणा भिद्यन्ते भिद्यन्तां चिति भावे काचन भिदा न” [ यदि ] जो [ कारकाणि ] आत्मा आत्माको आत्माके द्वारा आत्मामें ऐसा भेद [ वा ] अथवा [ धर्माः ] उत्पाद-व्यय-ध्रुव्यरूप द्रव्य-गुण-पर्यायरूप भेदबुद्धि अथवा [ गुणाः ] ज्ञानगुण, दर्शनगुण, सुखगुण इत्यादि अनन्त गुणरूप भेदबुद्धि [ भिद्यन्ते ] जो ऐसा भेद वचनके द्वारा उपजाया हुआ उपजता है, [ तदा भिद्यन्तां ] तो वचनमात्र भेद होंगो; परन्तु [ चिति भावे ] चैतन्यसत्तामें तो [ काचन भिदा न ]

कोई भेद नहीं है, निर्विकल्पमात्र चैतन्य वस्तुका सत्त्व है। कैसा है चैतन्यभाव ? “विभौ” अपने स्वरूपको व्यापनशील है। और कैसा है ? “विशुद्धे” सर्व कर्मकी उपाधिसे रहित है ॥३-१८२॥

( शाङ्गं भविक्रीडित )

**अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद् दृग्ज्ञप्तिरूपं त्यजेत्**

**तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्साऽस्तित्वमेव त्यजेत् ।**

**तत्यागे जडता चित्तोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापका-**

**वात्मा चान्तमुपैति तेन नियतं दृग्ज्ञप्तिरूपास्तु चित् ॥४-१८३॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तेन चित् नियतं दृग्ज्ञप्तिरूपा अस्तु” [ तेन ] तिस कारणसे [ चित् ] चेतनामात्र सत्ता [ नियतं ] अवश्य कर [ दृग्ज्ञप्तिरूपा अस्तु ] दर्शन ऐसा नाम, ज्ञान ऐसा नाम दो नाम—संज्ञाके द्वारा उपदिष्ट होओ। भावार्थ इस प्रकार है कि एक सत्त्वरूप चेतना, उसके नाम दो—एक तो दर्शन ऐसा नाम, दूसरा ज्ञान ऐसा नाम। ऐसा भेद होता है तो होओ, विरुद्ध तो कुछ नहीं है ऐसे अर्थको दृढ़ करते हैं—“चेत् जगति चेतना अद्वैता अपि तत् दृग्ज्ञप्तिरूपं त्यजेत्। सा अस्तित्वं एव त्यजेत्” [ चेत् ] जो ऐसा है कि [ जगति ] त्रैलोक्यवर्ती जीवोंमें प्रगट है [ चेतना ] स्वपरग्राहक शक्ति; कैसी है ? [ अद्वैता अपि ] एक प्रकाशरूप है, तथापि [ दृग्ज्ञप्तिरूपं त्यजेत् ] दर्शनरूप चेतना, ज्ञानरूप चेतना ऐसे दो नामोंको छोड़े, तो उसमें तीन दोष उत्पन्न होते हैं। प्रथम दोष—“सा अस्तित्वं एव त्यजेत्” [ सा ] वह चेतना [ अस्तित्वं एव त्यजेत् ] अपने सत्त्वको अवश्य छोड़े। भावार्थ इस प्रकार है कि चेतना सत्त्व नहीं है ऐसा भाव प्राप्त होगा। किस कारणसे ? “सामान्यविशेषरूपविरहात्” [ सामान्य ] सत्तामात्र [ विशेष ] पर्यायरूप, उनके [ विरहात् ] रहितपनाके कारण। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार समस्त जीवादि वस्तु सत्त्वरूप है, वही सत्त्व पर्यायरूप है, उसी प्रकार चेतना अनादिनिघन सत्तास्वरूप वस्तुमात्र निर्विकल्प है, इस कारण चेतनाका दर्शन ऐसा नाम कहा जाता है; कारण कि समस्त शेष वस्तुको ग्रहण करती है, जिस तिस शेषाकाररूप परिणामती है, शेषाकाररूप परिणामन चेतनाकी पर्याय है, तिसरूप परिणामती है, इसलिए चेतनाका ज्ञान ऐसा नाम है। ऐसी दो अवस्थाओंको छोड़ दे तो चेतना वस्तु नहीं है ऐसी प्रतीति उत्पन्न हो जाय। यहाँ कोई भ्रांशंका करेगा कि चेतना नहीं तो नहीं रहो, जीव द्रव्य तो विद्यमान है ? उत्तर इस प्रकार है कि चेतना मात्रके द्वारा

जीव द्रव्य साधा है। इस कारण उस चेतनाके सिद्ध हुए बिना जीव द्रव्य भी सिद्ध नहीं होगा; अथवा जो सिद्ध होगा तो वह पुद्गल द्रव्यके समान अचेतन सिद्ध होगा, चेतन नहीं सिद्ध होगा। इसी अर्थको कहते हैं, दूसरा दोष ऐसा—“तत्त्यागे चित्तः अपि जडता भवति” [ तत्त्यागे ] चेतनाका अभाव होनेपर [ चित्तः अपि ] जीव द्रव्यको भी [ जडता भवति ] पुद्गलद्रव्यके समान जीव द्रव्य भी अचेतन है ऐसी प्रतीति उत्पन्न होती है। ‘च’ तीसरा दोष ऐसा कि “व्यापकात् विना व्याप्यः आत्मा अन्त उपैति” [ व्यापकात् विना ] चेतन गुणका अभाव होनेपर [ व्याप्यः आत्मा ] चेतनागुणमात्र है जो जीव द्रव्य वह [ अन्त उपैति ] मूलसे जीव द्रव्य नहीं है ऐसी प्रतीति भी उत्पन्न होती है। ऐसे तीन दोष मोटे दोष हैं। ऐसे दोषोंसे जो कोई भय करता है उसे ऐसा मानना चाहिए कि चेतना दर्शन-ज्ञान ऐसे दो नाम—संज्ञा विराजमान है। ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है ॥४-१८३॥

( इन्द्रवज्रा )

**एकश्चित्तश्चिन्मय एव भावो**

**भावाः परे ये किल ते परेषाम् ।**

**ग्राह्यस्ततश्चिन्मय एव भावो**

**भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥५-१८४॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“चित्त. चिन्मय. भाव. एव” [ चित्तः ] जीव द्रव्यका [ चिन्मयः ] चेतनामात्र ऐसा [ भावः ] स्वभाव है, [ एव ] निश्चयसे ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। कैसा है चेतनामात्र भाव ? “एकः” निर्विकल्प है, निर्भेद है, सर्वथा शुद्ध है। “किल ये परे भावाः ते परेषाम्” [ किल ] निश्चयसे [ ये परे भावाः ] शुद्ध चैतन्यस्वरूपसे अनमिलते हैं जो द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्मसम्बन्धी परिणाम वे [ परेषाम् ] समस्त पुद्गलकर्मके हैं, जीवके नहीं हैं। “ततश्चिन्मय भाव ग्राह्य. एव परे भावाः सर्वतः हेया. एव” [ ततः ] तिस कारणसे [ चिन्मयः भावः ] शुद्ध चेतनामात्र है जो स्वभाव वह [ ग्राह्यः एव ] जीवका स्वरूप है ऐसा अनुभव करना योग्य है, [ परे भावाः ] इससे अनमिलते हैं जो द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्म स्वभाव वे [ सर्वतः हेयाः एव ] सर्वथा प्रकार जीवका स्वरूप नहीं है ऐसा अनुभव करना योग्य है। ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है; सम्यक्त्वगुण मोक्षका कारण है ॥५-१८४॥

( शाङ्खल्यश्रीकृत )

सिद्धान्तोऽयमुवात्तचित्तचरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यतां  
शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सर्वैवास्म्यहम् ।  
एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावाः पृथग्लक्षणा-  
स्तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ।६-१८५।

खण्डान्वय सहित अर्थ—“मोक्षार्थिभिः अयं सिद्धान्तः सेव्यतां” [ मोक्षार्थिभिः ] सकल कर्मका क्षय होने पर होता है अतीन्द्रिय सुख, उसे उपादेयरूप अनुभवते है ऐसे है जो कोई जीव उनके द्वारा [ अयं सिद्धान्तः ] जैसा कहेगें वस्तुका स्वरूप उसका [ सेव्यतां ] निरन्तर अनुभव करो । कैसे हैं मोक्षार्थी जीव ? “उदात्तचित्तचरितैः” [ उदात्त ] संसार शरीर भोगसे रहित है [ चित्तचरितैः ] मनका अभिप्राय जिनका, ऐसे हैं । कैसा है वह परमार्थ ? “अहं शुद्धं चिन्मयं ज्योतिः सदा एव अस्मि” [ अहं ] स्वसवेदन प्रत्यक्ष हूँ जो मैं जीवद्रव्य [ शुद्धं चिन्मयं ज्योतिः ] शुद्ध ज्ञानस्वरूप प्रकाश [ सदा ] सर्वकाल [ एव ] निश्चयसे [ अस्मि ] हूँ । “तु ये एते विविधाः भावाः ते अहं नास्मि” [ तु ] एक विशेष है—[ ये एते विविधाः भावाः ] शुद्ध चैतन्यस्वरूपसे अनमिलते है जो रागादि अशुद्धभाव, शरीर आदि सुख दुःख आदि नाना प्रकार अशुद्ध पर्याय, [ ते अहं नास्मि ] ये सब जीव-द्रव्यस्वरूप नहीं है । कैसे है अशुद्ध भाव ? “पृथग्लक्षणाः” मेरे शुद्धचैतन्य स्वरूपसे नहीं मिलते है । किस कारणसे ? “यत अत्र ते समग्राः अपि मम परद्रव्यं” [ यतः ] जिस कारणसे [ अत्र ] निजस्वरूपका अनुभव करनेपर, [ ते समग्राः अपि ] जितने हैं रागादि-अशुद्धविभावपर्याय वे [ मम परद्रव्यं ] मुझे परद्रव्यरूप हैं, कारण कि शुद्ध चैतन्यलक्षणा-से मिलते हुए नहीं हैं; इसलिए समस्त विभावपरिणाम हेय हैं ॥६-१८५॥

( अनुष्टुप् )

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् बध्येतैवापराधवान् ।  
बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संबृतो मुनिः ॥७-१८६॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अपराधवान् बध्येत एव” [ अपराधवान् ] शुद्ध चिद्रूप अनुभवस्वरूपसे अष्ट है जो जीव वह [ बध्येत ] ज्ञानावरणादि कर्मोंके द्वारा बाँधा जाता है । कैसा है ? “परद्रव्यग्रहं कुर्वन्” [ परद्रव्य ] शरीरमन वचन रागादि अशुद्धपरिणाम उनका [ ग्रहं ] आत्मबुद्धिरूप स्वामित्वको [ कुर्वन् ] करता हुआ । “अनपराधः मुनिः

न बध्येत" [ अनपराधः ] कर्मके उदयके भावको आत्माका जानकर नहीं अनुभवता है ऐसा है जो [ मुनिः ] परद्रव्यसे विरक्त सम्यग्दृष्टि जीव [ न बध्येत ] ज्ञानावरणादि कर्म-पिण्डके द्वारा नहीं बाँधा जाता है । भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार कोई चोर परद्रव्यको चुराता है, गुनहगार होता है, गुनहगार होनेसे बाँधा जाता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव परद्रव्यरूप है जो द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्म उनको आपा जान अनुभवता है, शुद्धस्वरूप अनुभवसे भ्रष्ट है, परमार्थबुद्धिसे विचार करनेपर गुनहगार है, ज्ञाना-वरणादि कर्मका बन्ध करता है । सम्यग्दृष्टि जीव ऐसे भावसे रहित है । कैसा है सम्यग्-दृष्टि जीव ? "स्वद्रव्ये सवृत. अपने आत्मद्रव्यमे सवरूप है अर्थात् आत्मामें मग्न है ॥७-१८६।

( मालिनी )

**अनवरतमनन्तैर्बध्यते सापराधः**

**स्पृशति निरपराधो बन्धनं नैव जातु ।**

**नियतमयमशुद्धं स्वं भजन्सापराधो**

**भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी ॥८-१८७॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“सापराध अनवरत अनन्तैर् बध्यते” [ सापराधः ] परद्रव्यरूप है पुद्गलकर्म, उसको आपरूप जानता है ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव [ अनवरतं ] अखण्ड धाराप्रवाहरूप [ अनन्तैर् ] गगनासे अतीत ज्ञानावरणादिरूप बँधी है पुद्गल-वर्गगा उनके द्वारा [ बध्यते ] बाँधा जाता है । “निरपराधः जातु बन्धन न एव स्पृशति” [ निरपराधः ] शुद्धस्वरूपको अनुभवता है ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव [ जातु ] किसी भी कालमें [ बन्धनं ] पूर्वोक्त कर्मबन्धको [ न स्पृशति ] नहीं छूता है, [ एव ] निश्चयसे । आगे सापराध-निरपराधका लक्षण कहते हैं—“अयं अशुद्धं स्वं नियतं भजन् सापराधः भवति” [ अयं ] मिथ्यादृष्टि जीव, [ अशुद्धं ] रागादि अशुद्ध परिणामरूप परिणामा है ऐसे [ स्वं ] आपसम्बन्धी जीवद्रव्यको [ नियतं भजन् ] ऐसा ही निरन्तर अनुभवता हुआ [ सापराधः भवति ] अपराध सहित होता है । “साधु शुद्धात्मसेवी निरपराधः भवति” [ साधु ] जैसा है वैसा [ शुद्धात्म ] सकल रागादि अशुद्धपनासे भिन्न शुद्धचिद्रूप-मात्र ऐसे जीवद्रव्यके [ सेवी ] अनुभवसे विराजमान है जो सम्यग्दृष्टि जीव वह [ निर-पराधः ] सर्व अपराधसे रहित है, इसलिए कर्मका बन्धक नहीं होता ॥८-१८७॥

**अतो हताः प्रमादिनो गताः सुखासीनतां  
प्रलीनं चापलमुन्मूलितमालम्बनम् ।  
आत्मन्येवालानितं च चित्त-  
मासंपूर्णविज्ञानघनोपलब्धेः ॥६-१८८॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अतः प्रमादिनः हताः” [ अतः प्रमादिनः ] शुद्ध स्वरूपकी प्राप्तिसे भ्रष्ट है जो जीव, वे [ हताः ] मोक्षमार्गके अधिकारी नहीं हैं; ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवोंका धक्कार किया है। कैसे है? “सुखासीनतां गताः” कर्मके उदयसे प्राप्त जो भोगसामग्री उसमें सुखकी वांछा करते हैं। “चापलं प्रलीनं” [ चापलं ] रागादि अशुद्ध परिणामोसे होती है सर्वप्रदेशोंमें आकुलता [ प्रलीनं ] वह भी हेय की। “आलम्बनं उन्मूलितं” [ आलम्बनं ] बुद्धिपूर्वक ज्ञान करते हुए जितना पठना विचारना चिन्तवन करना स्मरण करना इत्यादि है वह [ उन्मूलितं ] मोक्षका कारण नहीं है ऐसा जानकर हेय ठहराया है। “आत्मनि एव चित्तं आलानितं” [ आत्मनि एव ] शुद्धस्वरूपमें एकाग्र होकर [ चित्तं आलानितं ] मनको बाँधा है। ऐसा कार्य जिस प्रकार हुआ उस प्रकार कहते हैं—“आसम्पूर्णविज्ञानघनोपलब्धे” [ आसम्पूर्णविज्ञान ] निरावरण केवलज्ञान उसका [ घन ] समूह जो आत्मद्रव्य, उसकी [ उपलब्धेः ] प्रत्यक्ष प्राप्ति होनेसे ॥६-१८८॥

( वसन्ततिलका )

**यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं  
तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् ।  
तर्त्तिक प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोऽधः**

**किं नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमादः । १०-१८९।**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तत् जनः किं प्रमाद्यति” [ तत् ] तिस कारणसे [ जनः ] समस्त ससारी जीवराशि [ किं प्रमाद्यति ] क्यों प्रमाद करती है। भावार्थ इस प्रकार है कि—कृपासागर है सूत्रके कर्ता आचार्य, वे ऐसा कहते हैं कि नाना प्रकारके विकल्प करनेसे साध्यसिद्धि तो नहीं है। कैसा है नाना प्रकारके विकल्प करनेवाला जन? “अध अध प्रपतन्” जैसे जैसे अधिक क्रिया करता है, अधिक अधिक विकल्प करता है, वैसे वैसे अनुभवसे भ्रष्टसे भ्रष्ट होता है। तिस कारणसे “जनः ऊर्ध्व ऊर्ध्व किं न अधिरोहति” [ जनः ] समस्त संसारी जीवराशि [ ऊर्ध्व ऊर्ध्व ] निर्विकल्पसे निर्विकल्प अनुभवरूप [ किं न अधिरोहति ] क्यों नहीं परिणमता है? कैसा

है जन ? “निःप्रमादः” निर्विकल्प है। कैसा है निर्विकल्प अनुभव ? “यत्र प्रतिक्रमणं विषं एव प्रणीतं” [ यत्र ] जिसमें [ प्रतिक्रमणं ] पठन, पाठन, स्मरण, चिन्तवन, स्तुति, वन्दना इत्यादि अनेक क्रियारूप विकल्प [ विषं एव प्रणीतं ] विषके समान कहा है। “तत्र अप्रतिक्रमणं सुधा कुट. एव स्यात्” [ तत्र ] उस निर्विकल्प अनुभवमें [ अप्रतिक्रमणं ] न पढ़ना, न पढाना न वदना, न निन्दना ऐसा भाव [ सुधा कुटः एव स्यात् ] अमृतके निधानके समान है। भावार्थ ऐसा है कि निर्विकल्प अनुभव सुखरूप है, इसलिये उपादेय है, नाना प्रकारके विकल्प आकुलतारूप है, इसलिये हेय है ॥१०-१८६॥

( पृथ्वी )

**प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽलसः**

**कषायभरगौरवावलसता प्रमादो यतः ।**

**अतः स्वरसनिर्भरे नियमितः स्वभावे भवन्**

**मुनिः परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते चाऽचिरात् ॥११-१६०॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अलसः प्रमादकलितः शुद्धभावः कथं भवति” [ अलसः ] अनुभवमें शिथिल है ऐसा जीव, और कैसा है ? [ प्रमादकलितः ] नाना प्रकारके विकल्पोंसे संयुक्त है ऐसा जीव, [ शुद्धभावः कथं भवति ] शुद्धोपयोगी कैसे होता है ? अपि तु नहीं होता। “यत अलसता प्रमादः कषायभरगौरवात्” [ यतः ] जिस कारणसे [ अलसता ] अनुभवमें शिथिलता [ प्रमादः ] नाना प्रकारका विकल्प है। किस कारणसे होता है ? [ कषाय ] रागादि अशुद्ध परिणतिके [ भर ] उदयके [ गौरवात् ] तीव्रपनासे होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जो जीव शिथिल है, विकल्प करता है वह जीव शुद्ध नहीं है, कारण कि शिथिलपना, विकल्पपना अशुद्धपनाका मूल है। “अतः मुनिः परमशुद्धतां व्रजति च अचिरात् मुच्यते” [ अतः ] इस कारणसे [ मुनिः ] सम्यग्दृष्टि जीव [ परमशुद्धतां व्रजति ] शुद्धोपयोग परिणतिरूप परिणामता है [ च ] ऐसा होता हुआ [ अचिरात् मुच्यते ] उसी काल कर्मबन्धसे मुक्त होता है। कैसा है मुनि ? “स्वभावे नियमितः भवन्” [ स्वभावे ] शुद्ध स्वरूपमें [ नियमितः भवन् ] एकारूपमें मग्न होता हुआ। कैसा है स्वभाव ? “स्वरसनिर्भरे” [ स्वरस ] चेतनागुणसे [ निर्भरे ] परिपूर्ण है ॥११-१६०॥

( शार्ङ्गलविक्रीडित )

**त्यक्त्वाऽशुद्धविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं**

**स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः ।**



**बन्धध्वंसमुपेत्य नित्यमुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल-  
चैतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥१२-१६१॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“सः मुच्यते” [ सः ] सम्यग्दृष्टि जीव [ मुच्यते ] सकल कर्मोंका क्षयकर अतीन्द्रिय सुखलक्षण मोक्षको प्राप्त होता है। कैसा है ? “शुद्धो भवन्” राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणतिसे भिन्न होता हुआ। और कैसा है ? “स्वज्योतिरच्छोच्छलचैतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा” [ स्वज्योतिः ] द्रव्यके स्वभावगुरारूप [ अच्छ ] निर्मल, [ उच्छलत् ] धाराप्रवाहरूप परिणामनशील ऐसा जो [ चैतन्य ] चेतनागुण, उसरूप जो [ अमृत ] अतीन्द्रिय सुख, उसके [ पूर ] प्रवाहसे [ पूर्ण ] तन्मय है [ महिमा ] माहात्म्य जिसका, ऐसा है। और कैसा है ? “नित्यमुदितः” सर्व काल अतीन्द्रिय सुख-स्वरूप है। और कैसा है ? “नियतं सर्वापराधच्युतः” [ नियतं ] अवश्य कर [ सर्वापराध ] जितने सूक्ष्मस्थूलरूप राग द्वेष मोह परिणाम, उनसे [ च्युतः ] सर्व प्रकार रहित है। क्या करता हुआ ऐसा होता है ? “बन्धध्वंस उपेत्य” [ बन्ध ] ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मकी बन्धरूप पर्यायके [ ध्वंसं ] सत्ताके नाशरूप [ उपेत्य ] अवस्थाको प्राप्त कर। और क्या करता हुआ ऐसा होता है ? “तत् समग्रं परद्रव्यं स्वयं त्यक्त्वा” द्रव्यकर्म भावकर्म नोर्कर्मसामग्रीके मूलसे समत्वको स्वय छोडकर। कैसा है। पर द्रव्य ? “अशुद्धि-विधायि” अशुद्ध परिणतिको बाह्यरूप निमित्त मात्र है। “किल” निश्चयसे। “यः स्वद्रव्ये रति एति” [ यः ] जो सम्यग्दृष्टि जीव [ स्वद्रव्ये ] शुद्ध चैतन्यमें [ रति एति ] निर्विकल्प अनुभवसे उत्पन्न हुए सुखमें मग्नपनाको प्राप्त हुआ है। भावार्थ इस प्रकार है—सर्व अशुद्धपनाके मिटनेसे शुद्धपना होता है। उसके सहाराका है शुद्ध चिद्रूपका अनुभव, ऐसा मोक्षमार्ग है ॥१२-१६१॥

( मन्दाक्रान्ता )

**बन्धच्छेदात्कलयदतुलं मोक्षमक्षय्यमेत-  
न्नित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमोक्तान्तशुद्धम् ।  
एकाकारस्वरसम्भरतोऽत्यन्तगम्भीरधीरं  
पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्थ लीनं महिम्नि १३-१६२।**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“एतत् पूर्णं ज्ञानं ज्वलितं” [ एतत् ] जिस प्रकार कहा है कि [ पूर्णं ज्ञानं ] समस्त कर्ममलकलंकका विनाश होनेसे, जीव द्रव्य जैसा था

अनन्त गुण विराजमान, वैसा [ ज्वलितं ] प्रगट हुआ । कैसा प्रगट हुआ ? “मोक्षं कलयत्” [ मोक्षं ] जीवकी जो निःकर्मरूप अवस्था, उस [ कलयत् ] अवस्थारूप परिणामता हुआ । कैसा है मोक्ष ? “अक्षय्यं” आगामी अनन्त काल पर्यन्त अविनश्वर है, [ अतुलं ] उपमा रहित है । किस कारणसे ? “बन्धच्छेदात्” [ बन्ध ] ज्ञानावरणादि आठ कर्मके [ छेदात् ] मूल सत्तासे नाशद्वारा । कैसा है शुद्ध ज्ञान ? “नित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थं” [ नित्योद्योत ] शाश्वत प्रकाशसे [ स्फुटित ] प्रगट हुआ है [ सहजावस्थं ] अनन्त गुण विराजमान शुद्ध जीव द्रव्य जिसको, ऐसा है । और कैसा है ? “एकान्तशुद्धं” सर्वथा प्रकार शुद्ध है । और कैसा है ? “अत्यन्तगम्भीरधीरं” [ अत्यन्तगम्भीर ] अनन्त गुण विराजमान ऐसा है, [ धीरं ] सर्व काल शाश्वत है । किस कारणसे ? “एकाकारस्वरसभरतः” [ एकाकार ] एकरूप हुए [ स्वरस ] अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त वीर्यके [ भरतः ] अतिशयके कारण । और कैसा है ? “स्वस्य अचले महिम्नि लीनं” [ स्वस्य अचले महिम्नि ] अपने निष्कम्प प्रतापमें [ लीनं ] मग्नरूप है । भावार्थ इस प्रकार है कि सकलकर्मक्षयलक्षण मोक्षमें आत्मद्रव्य स्वाधीन है, अन्यत्र चतुर्गतिमे जीव पराधीन है । मोक्षका स्वरूप कहा ॥१३-१६२॥



## सर्वविशुद्धज्ञान-अधिकार

( मन्दाक्रान्ता )

नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान् कर्तुं भोक्त्रादिभावान्  
दूरीभूतः प्रतिपदमयं बन्धमोक्षप्रकल्पोः ।

शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलार्चि-  
ष्टंकोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुञ्जः ॥१-१६३॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अयं ज्ञानपुञ्जः स्फूर्जति” [ अयं ] यह विद्यमान [ ज्ञानपुञ्जः ] शुद्ध जीवद्रव्य [ स्फूर्जति ] प्रगट होता है । भावार्थ इस प्रकार है कि यहाँ से लेकर जीवका जैसा शुद्ध स्वरूप है उसे कहते हैं । कैसा है ज्ञानपुञ्ज ? “टङ्कोत्कीर्ण-प्रकटमहिमा” [ टंकोत्कीर्ण ] सर्व काल एकरूप ऐसा है [ प्रकट ] स्वानुभवगोचर [ महिमा ] स्वभाव जिसका, ऐसा है । और कैसा है ? “स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलार्चिः” [ स्वरस ] शुद्ध ज्ञानचेतनाके [ विसर ] अनन्त अंशभेदसे [ आपूर्ण ] सम्पूर्ण ऐसा है [ पुण्य ] निरावरण ज्योतिरूप [ अचल ] निश्चल [ अर्चिः ] प्रकाशस्वरूप जिसका, ऐसा है । और कैसा है ? “शुद्धः शुद्धः” शुद्ध शुद्ध है, अर्थात् दो बार शुद्ध कहनेसे अति ही विशुद्ध है । और कैसा है ? “बन्धमोक्षप्रकल्पोः प्रतिपदं दूरीभूतः” [ बन्ध ] ज्ञाना-वरणादि कर्मपिण्डसे सम्बन्धरूप एक क्षेत्रावगाह, [ मोक्ष ] सकलकर्मका नाश होनेपर जीवके स्वरूपका प्रगटपना, ऐसे—[ प्रकल्पोः ] जो दो विकल्प, उनसे [ प्रतिपदं ] एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यायरूप जहाँ है वहाँ [ दूरीभूतः ] अति ही भिन्न है । भावार्थ इस प्रकार है कि एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तक जीवद्रव्य जहाँ तहाँ, द्रव्यस्वरूपके विचारकी अपेक्षा बन्ध ऐसे मुक्त ऐसे विकल्पसे रहित है, द्रव्यका स्वरूप जैसा है वैसा ही है । क्या करता हुआ जीवद्रव्य ऐसा है ? “अखिलान् कर्तुं भोक्त्रादिभावान् सम्यक् प्रलयं नीत्वा” [ अखिलान् ] गणना करने पर अनन्त हैं ऐसे जो [ कर्तुं ] जीव कर्ता

है' ऐसा विकल्प [ भोक्तृ ] 'जीव भोक्ता है' ऐसा विकल्प, [ आदि भावान् ] इनसे लेकर अनन्त भेद उनका [ सम्पक् ] मूलसे [ प्रलयं नीत्वा ] विनाशकर। ऐसा कहते हैं ॥१-१६३॥

( प्रनुष्ठुप् )

**कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चितो वेदयितृत्ववत् ।**

**अज्ञानादेव कर्तायं तदभावादकारकः ॥२-१६४॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अस्य चितः कर्तृत्वं न स्वभावः” [ अस्य चितः ] चैतन्यमात्र स्वरूप जीवका [ कर्तृत्वं ] ज्ञानावरणादि कर्मको करे अथवा रागादि परिणामको करे ऐसा [ न स्वभावः ] सहजका गुण नहीं है; दृष्टान्त कहते हैं—“वेदयितृत्ववत्” जिस प्रकार जीव कर्मका भोक्ता भी नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीवद्रव्य कर्मका भोक्ता हो तो कर्ता होवे, सो तो भोक्ता भी नहीं है, इससे कर्ता भी नहीं है। “अयं कर्ता अज्ञानात् एव” [ अयं ] यह जीव [ कर्ता ] रागादि-अशुद्ध परिणामको करता है ऐसा भी है सो किस कारणसे ? [ अज्ञानात् एव ] कर्मजनित भावमें आत्मबुद्धि ऐसा है जो मिथ्यास्वरूप विभावपरिणाम, उसके कारण जीव कर्ता है। भावार्थ इस प्रकार है कि—जीववस्तु रागादिविभावपरिणामका कर्ता है ऐसा जीवका स्वभावगुण नहीं है, परन्तु अशुद्धरूप विभावपरिणति है। “तदभावात् अकारकः” [ तदभावात् ] मिथ्यात्व, राग-द्वेषरूप विभावपरिणति मिटती है सो उसके मिटनेसे [ अकारकः ] जीव सर्वथा अकर्ता होता है ॥२-१६४॥

( शिखरिणी )

**अकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः**

**स्फुरच्चिच्च्योतिर्भिरश्रुरितभुवनाभोगभवनः ।**

**तथाप्यस्यासौ स्याद्यद्विह किल बन्धः प्रकृतिभिः**

**स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः ॥३-१६५॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अयं जीवः अकर्ता इति स्वरसतः स्थितः” [ अयं जीवः ] विद्यमान है जो चैतन्यद्रव्य वह [ अकर्ता ] ज्ञानावरणादिका अथवा रागादि-अशुद्ध-परिणामका कर्ता नहीं है [ इति ] ऐसा सहज [ स्वरसतः स्थितः ] स्वभावसे अनादि-निघन ऐसा ही है। कैसा है ? “विशुद्धः” द्रव्यकी अपेक्षा द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्मसे

भिन्न है। “स्फुरच्चिज्ज्योतिभिच्छ्रितभुवनाभोगभवनः” [ स्फुरत् ] प्रकाशरूप ऐसे [ चिज्ज्योतिभिः ] चेतनागुणके द्वारा [ छुरित ] प्रतिबिम्बित हैं [ भुवनाभोगभवनः ] अनन्त द्रव्य अपनी अतीत अनागत वर्तमान समस्त पर्यायसहित जिसमें, ऐसा है। “तथापि किल इह अस्य प्रकृतिभिः यत् असौ बन्धः स्यात्” [ तथापि ] शुद्ध है जीव द्रव्य तो भी [ किल ] निश्चयसे [ इह ] संसार अवस्थामें [ अस्य ] जीवको [ प्रकृतिभिः ] ज्ञानावरणादि कर्मरूप [ यत् असौ बन्धः स्यात् ] जो कुछ बन्ध होता है “सः खलु अज्ञानस्य कः अपि महिमा स्फुरति” [ सः ] जो बन्ध होता है वह [ खलु ] निश्चयसे [ अज्ञानस्य कः अपि महिमा स्फुरति ] मिथ्यात्वरूप विभावपरिणामनशक्तिका कोई ऐसा ही स्वभाव है। कैसा है ? “गहनः” असाध्य है। भावार्थ इस प्रकार है—जीव द्रव्य संसार अवस्थामें विभावरूप मिथ्यात्व, राग-द्वेष-मोह परिणामरूप परिणामा है, इस कारण जैसा परिणामा है वैसे भावोंका कर्ता होता है; अशुद्ध भावोंका कर्ता होता है। अशुद्ध भावोंके मिटनेपर जीवका स्वभाव अकर्ता है ॥३-१९५॥

( अनुष्टुप् )

**भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्ववच्चितः ।**

**अज्ञानादेव भोक्तायं तदभावादवेदकः ॥४-१९६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अस्य चितः भोक्तृत्वं स्वभावः न स्मृतः” [ अस्यः चितः ] चेतनद्रव्यका, [ भोक्तृत्वं ] ज्ञानावरणादि कर्मके फलका अथवा सुख-दुःखरूप कर्मफलचेतनाका अथवा रागादि अशुद्धपरिणामरूप कर्मचेतनाका भोक्ता जीव है ऐसा [ स्वभावः ] जीव द्रव्यका सहज गुण, ऐसा तो [ न स्मृतः ] गणधरदेवने नहीं कहा है, जीवका भोक्ता स्वभाव नहीं है ऐसा कहा है; दृष्टान्त कहते हैं—“कर्तृत्ववत्” जिस प्रकार जीवद्रव्य कर्मका कर्ता भी नहीं है। “अयं जीवः भोक्ता” यही जीव द्रव्य अपने सुख-दुःखरूप परिणामको भोगता है ऐसा भी है सो किस कारणसे ? “अज्ञानात् एव” अनादिसे कर्मका संयोग है, इसलिए मिथ्यात्व राग द्वेष अशुद्ध विभावरूप परिणामा है, इस कारण भोक्ता है। “तदभावात् अवेदकः” मिथ्यात्वरूप विभावपरिणामका नाश होनेसे जीव द्रव्य साक्षात् अभोक्ता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार जीव द्रव्यका अनन्तचतुष्टय स्वरूप है उस प्रकार कर्मका कर्तापन-भोक्तापन स्वरूप नहीं है। कर्मकी उपाधिसे विभावरूप अशुद्धपरिणामरूप विकार है, इसलिए विनाशीक है। उस

विभावपरिणतिके विनाश होनेपर जीव अकर्ता है, अभोक्ता है। आगे मिथ्यादृष्टि जीव द्रव्यकर्मका अथवा भावकर्मका कर्ता है, सम्यग्दृष्टि कर्ता नहीं है ऐसा कहते हैं ॥४-१९६॥

( शार्दूलविक्रीडित )

**अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्देवको  
ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्देवकः ।  
इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यतां  
शुद्धं कात्ममये महस्यचलितैरासेव्यतां ज्ञानिता ॥५-१९७॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“निपुणैः अज्ञानिता त्यज्यतां” [ निपुणैः ] सम्यग्दृष्टि जीवोको [ अज्ञानिता ] परद्रव्यमें आत्मबुद्धि ऐसी मिथ्यात्वपरिणति [ त्यज्यतां ] जिस प्रकार मिटे उस प्रकार सर्वथा मेटने योग्य है। कैसे है सम्यग्दृष्टि जीव ? “महसि अचलितै” शुद्ध चिद्रूपके अनुभवमें अखण्ड धारारूप मग्न है। कैसा है शुद्ध चिद्रूपका अनुभव ? “शुद्धं कात्ममये” [ शुद्ध ] समस्त उपाधिसे रहित ऐसा जो [ एकात्म ] अकेला जीवद्रव्य [ मये ] उसके स्वरूप है। और क्या करना है ? “ज्ञानिता आसेव्यतां” शुद्ध वस्तुके अनुभवरूप सम्यक्त्वपरिणतिरूप सर्वकाल रहना उपादेय है। क्या जानकर ऐसा होवे ? “इति एव नियम निरूप्य” [ इति ] जिस प्रकार कहते हैं— [ एवं नियमं ] ऐसे वस्तुस्वरूप परिणामनके निश्चयको [ निरूप्य ] अवधार करके। वह वस्तुका स्वरूप कैसा ? “अज्ञानी नित्यं वेदक भवेत्” [ अज्ञानी ] मिथ्यादृष्टि जीव [ नित्यं ] सर्वकाल [ वेदकः भवेत् ] द्रव्यकर्मका, भावकर्मका भोक्ता होता है ऐसा निश्चय है, मिथ्यात्वका परिणामन ऐसा ही है। कैसा है अज्ञानी ? “प्रकृतिस्वभावनिरतः” [ प्रकृति ] ज्ञाना-वरणादि आठ कर्मके [ स्वभाव ] उदय होनेपर नाना प्रकार चतुर्गतिशरीर रागादिभाव, सुख-दुःखपरिणति इत्यादिमें [ निरतः ] आपा जान एकत्वबुद्धिरूप परिणामा है। “तु ज्ञानी जातु वेदकः नो भवेत्” [ तु ] मिथ्यात्वके मिटने पर ऐसा भी है कि [ ज्ञानी ] सम्यग्दृष्टि जीव [ जातु ] कदाचित् [ वेदकः नो भवेत् ] द्रव्यकर्मका, भावकर्मका भोक्ता नहीं होता, ऐसा वस्तुका स्वरूप है। कैसा है ज्ञानी ? “प्रकृतिस्वभावविरतः” [ प्रकृति ] कर्मके [ स्वभाव ] उदयके कार्यमें [ विरतः ] हेय जानकर छूट गया है स्वामित्वपना जिसका, ऐसा है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीवके सम्यक्त्व होनेपर अशुद्धपना मिटा है, इसलिए भोक्ता नहीं है ॥५-१९७॥

( वसन्ततिलका )

**ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म  
जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम् ।  
जानन्परं करणवेदनयोरभावा-  
च्छुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥६-१६८॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ज्ञानी कर्म न करोति च न वेदयते” [ ज्ञानी ] सम्यग्-  
दृष्टि जीव [ कर्म न करोति ] रागादि अशुद्ध परिणामोंका कर्ता नहीं है । [ च ] और  
[ न वेदयते ] सुख दुःखसे लेकर अशुद्ध परिणामोंका भोक्ता नहीं है । कैसा है सम्यग्दृष्टि  
जीव ? “किल अयं तत्स्वभावं इति केवलं जानाति” [ किल ] निश्चयसे [ अयं ] जो  
शरीर, भोग, रागादि, सुख दुःख इत्यादि समस्त [ तत्स्वभावं ] कर्मका उदय है, जीवका  
स्वरूप नहीं है—[ इति केवलं जानाति ] सम्यग्दृष्टि जीव ऐसा जानता है, परन्तु स्वामित्व-  
रूप नहीं परिणामता है । “हि स मुक्तः एव” [ हि ] तिस कारणसे [ सः ] सम्यग्दृष्टि  
जीव [ मुक्तः एव ] जैसे निर्विकार सिद्ध हैं वैसा है । कैसा है सम्यग्दृष्टि जीव ? “परं  
जानन्” जितनी है पर द्रव्यकी सामग्री उसका ज्ञायकमात्र है, मिथ्यादृष्टिके समान स्वामी-  
रूप नहीं है । और कैसा है ? “शुद्धस्वभावनियतः” [ शुद्धस्वभाव ] शुद्ध चैतन्यवस्तुमें  
[ नियतः ] आस्वादरूप मग्न है । किस कारणसे ? “करणवेदनयोः अभावात्” [ करण ]  
कर्मका करना, [ वेदन ] कर्मका भोग—ऐसे भाव [ अभावात् ] सम्यग्दृष्टि जीवके मिटे  
है इस कारण । भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्यात्व संसार है, मिथ्यात्वके मिटनेपर  
जीव सिद्धसदृश है ॥६-१६८॥

( अनुवृष्ट् )

**ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तताः ।**

**सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षताम् ॥७-१६९॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तेषां मोक्ष. न” [ तेषां ] ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवोंको  
[ न मोक्षः ] कर्मका विनाश, शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति नहीं है । कैसे है वे जीव ?  
“मुमुक्षता अपि” जैनमताश्रित है, बहुत पढ़े हैं, द्रव्यक्रियारूप चारित्र पालते हैं, मोक्षके  
अभिलाषी है तो भी उन्हें मोक्ष नहीं है । किनके समान ? “सामान्यजनवत्” जिस प्रकार  
तापस, योगी, भरडा इत्यादि जीवोंको मोक्ष नहीं है । भावार्थ इस प्रकार है कि कोई

जानेगा कि जैनमतआश्रित हैं, कुछ विमेष होगा, सो विशेष तो कुछ नहीं है। कैसे हैं वे जीव ? “तु ये आत्मानं कर्तारं पश्यन्ति” [ तु ] जिस कारण ऐसा है कि [ ये ] जो कोई मिथ्यादृष्टि जीव [ आत्मानं ] जीवद्रव्यको [ कर्तारं पश्यन्ति ] वह ज्ञानावरणादि कर्मको रागादि अशुद्ध परिणामको करता है ऐसा जीवद्रव्यका स्वभाव है—ऐसा मानते हैं, प्रतीति करते हैं, आस्वादेते हैं। और कैसे है ? “तमसा तताः” मिथ्यात्वभाव ऐसे अन्धकारसे व्याप्त हैं, अन्ध हुए हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि वे महामिथ्यादृष्टि हैं जो जीवका स्वभाव कर्तारूप मानते हैं, कारण कि कर्तापन जीवका स्वभाव नहीं है, विभाव-रूप अशुद्ध परिणति है, सो भी परके सयोगसे है, विनाशीक है ॥७-१६६॥

( अणुष्टुप् )

**नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः ।**

**कर्तृकर्मत्वसम्बन्धाभावे तत्कर्तृता कुतः ॥८-२००॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तत् परद्रव्यात्मतत्त्वयोः कर्तृता कुतः” [ तत् ] तिस कारणसे [ परद्रव्य ] ज्ञानावरणादि कर्मरूप पुद्गलका पिण्ड और [ आत्मतत्त्वयोः ] शुद्ध जीवद्रव्य, इनमें [ कर्तृता ] जीवद्रव्य पुद्गलकर्मका कर्ता, पुद्गलद्रव्य जीवभावका कर्ता—ऐसा सम्बन्ध [ कुतः ] कैसे होवे ? अपि तु कुछ नहीं होता। किस कारणसे ? “कर्तृ-कर्मसम्बन्धाभावे” [ कर्तृ ] जीव कर्ता, [ कर्म ] ज्ञानावरणादि कर्म—ऐसा है जो [ सम्बन्ध ] दो द्रव्योका एक सम्बन्ध, ऐसा [ अभावे ] द्रव्यका स्वभाव नहीं है तिस कारण। वह भी किस कारणसे ? “सर्वः अपि सम्बन्धः नास्ति” [ सर्वः ] जो कोई वस्तु है वह [ अपि ] यद्यपि एक क्षेत्रावगाररूप है तथापि [ सम्बन्धः नास्ति ] अपने अपने स्वरूप है, कोई द्रव्य किसी द्रव्यके साथ तन्मयरूप नहीं मिलता है, ऐसा वस्तुका स्वरूप है। इस कारण जीव पुद्गलकर्मका कर्ता नहीं है ॥८-२००॥

( वसन्ततिलका )

**एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्धं**

**सम्बन्ध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः ।**

**यत्कर्तृकर्मघटनास्ति न वस्तुभेदे**

**पश्यन्त्वकर्तृमुनयश्च जनाश्च तत्त्वम् ॥९-२०१॥**



खण्डान्वय सहित अर्थ—“तत् वस्तुभेदे कर्तृकर्मघटना न अस्ति” [ तत् ] तिस कारणसे [ वस्तुभेदे ] जीवद्रव्य चेतनस्वरूप, पुद्गलद्रव्य अचेतनस्वरूप—ऐसे भेदको अनुभवते हुए [ कर्तृकर्मघटना ] जीवद्रव्य कर्ता, पुद्गलपिण्ड कर्म—ऐसा व्यवहार [ न अस्ति ] सर्वथा नहीं है। तो कैसा है ? “मुनयः जनाः तत्त्वं अकर्तृ पश्यन्तु” [ मुनयः जनाः ] सम्यग्दृष्टि है जो जीव वे [ तत्त्वं ] जीवस्वरूपको [ अकर्तृ पश्यन्तु ] ‘कर्ता नहीं है’ ऐसा अनुभवो—आस्वादो। किस कारणसे ? “यतः एकस्य वस्तुनः अन्यतरेण साद्धं सकलोऽपि सम्बन्धः निषिद्धः एव” [ यतः ] जिस कारणसे [ एकस्य वस्तुनः ] शुद्ध जीवद्रव्यका [ अन्यतरेण साद्धं ] पुद्गल द्रव्यके साथ [ सकलः अपि ] द्रव्यरूप, गुरारूप अथवा पर्यायरूप [ सम्बन्धः ] एकत्वपना [ निषिद्धः एव ] अतीत-अनागत-वर्तमान कालमें वर्जा है। भावार्थ इस प्रकार है कि अनादिनिधन जो द्रव्य जैसा है वह वैसा ही है, अन्य द्रव्यके साथ नहीं मिलता है, इसलिए जीवद्रव्य पुद्गलकर्मका अकर्ता है ॥६-२०१॥

( वसन्ततिलका )

ये तु स्वभावनियमं कलयन्ति नेम-

मज्ञानमग्नमहसो वत ते वराकाः ।

कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्म-

कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः ॥१०-२०२॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“वत ते वराकाः कर्म कुर्वन्ति [ वत ] दुःखके साथ कहते हैं कि, [ ते वराकाः ] ऐसी जो मिथ्यादृष्टि जीवराशि [ कर्म कुर्वन्ति ] मोह राग द्वेषरूप अशुद्ध परिणामि करती है। कैसी है “अज्ञानमग्नमहसः” [ अज्ञान ] मिथ्यात्वरूप भावके कारण [ मग्न ] आच्छादा गया है [ महसः ] शुद्ध चैतन्यप्रकाश जिसका, ऐसी है; “तु ये इमं स्वभावनियमं न कलयन्ति” [ तु ] क्योंकि [ ये ] जो, [ इमं स्वभावनियमं ] जीवद्रव्य ज्ञानावरणादि पुद्गलपिण्डका कर्ता नहीं है—ऐसे वस्तुस्वभावको [ न कलयन्ति ] स्वानुभव प्रत्यक्षरूपसे नहीं अनुभवती है। भावार्थ इस प्रकार है कि—मिथ्यादृष्टि जीवराशि शुद्ध स्वरूपके अनुभवसे भ्रष्ट है, इसलिए पर्यायरत है, इसलिए मिथ्यात्वरोगद्वेष अशुद्ध-परिणामरूप परिणमती है। “ततः भावकर्मकर्ता चेतन एव स्वयं भवति न अन्यः” [ ततः ] तिस कारण [ भावकर्म ] मिथ्यात्वरोगद्वेष-अशुद्ध चेतनारूप परिणामका, [ कर्ता चेतन एव स्वयं भवति ] व्याप्य-व्यापकरूप परिणामता है

ऐसा जीवद्रव्य, आप कर्ता होता है, [ न अन्यः ] पुद्गलकर्म कर्ता नहीं होता है । भावार्थ प्रकार है कि जीव मिथ्यादृष्टि होता हुआ जैसे अशुद्ध भावरूप परिणामता है वैसे भावोंका कर्ता होता है ऐसा सिद्धान्त है ॥१०-२०२॥

( शाङ्खविक्रीडित )

**कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो-  
रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभृग्भावानुषंगत्कृतिः ।  
नैकस्याः प्रकृतेरचित्स्वलसनाज्जीवोऽस्य कर्ता ततो  
जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्गलः ॥११-२०३॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तत. अस्य जीवः कर्ता च तत् चिदनुगं जीवस्य एव कर्म” [ ततः ] तिस कारणसे [ अस्य ] रागादि अशुद्ध चेतना परिणामके [ जीवः कर्ता ] जीव द्रव्य उस कालमे व्याप्य-व्यापकरूप परिणामता है, इसलिए कर्ता है [ च ] और [ तत् ] रागादि अशुद्ध परिणामन [ चिदनुगं ] अशुद्धरूप है, चेतनारूप है, इसलिए [ जीवस्य एव कर्म ] उस कालमें व्याप्य-व्यापकरूप जीव द्रव्य आप परिणामता है, इसलिए जीवका किया है । किस कारणसे ? “यत् पुद्गलः ज्ञाता न” [ यत् ] जिस कारणसे [ पुद्गलः ज्ञाता न ] पुद्गल द्रव्य चेतनारूप नहीं है; रागादि परिणाम चेतनारूप है, इसलिए जीवका किया है । कहा है भाव उसे गाढा-पक्का करते हैं—“कर्म अकृत न” [ कर्म ] रागादि अशुद्ध चेतनारूप परिणाम [ अकृतं न ] अनादिनिधन आकाश द्रव्यके समान स्वयंसिद्ध है ऐसा भी नहीं है, किसीके द्वारा किया हुआ होता है । ऐसा है किस कारणसे ? “कार्यत्वात्” कारण कि घटके समान उपजता है, विनशता है । इसलिए प्रतीति ऐसी जो करतृतिरूप है । [ च ] तथा “तत् जीव-प्रकृत्यो द्वयोः कृति. न” [ तत् ] रागादि अशुद्ध चेतन परिणामन [ जीव ] चेतनद्रव्य और [ प्रकृत्योः ] पुद्गलद्रव्य ऐसे [ द्वयोः ] दो द्रव्योंकी [ कृतिः न ] करतृति नहीं है । भावार्थ इस प्रकार है कि कोई ऐसा मानेगा कि जीव तथा कर्मके मिलने पर रागादि अशुद्ध चेतन परिणाम होता है, इसलिए दोनों द्रव्य कर्ता है । समाधान इस प्रकार है कि दोनो द्रव्य कर्ता नहीं है, कारण कि रागादि अशुद्ध परिणामोका बाह्य कारण-निमित्तमात्र पुद्गल कर्मका उदय है; अन्तरंग कारण व्याप्य-व्यापकरूप जीवद्रव्य विभावरूप परिणामता है, इसलिए जीवका कर्तापना घटित होता

है, पुद्गल कर्मका कर्तापना घटित नहीं होता है; कारण कि “अज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्य-फलभुग्भावानुषङ्गात्” [ अज्ञायाः ] अचेतनद्रव्यरूप है जो [ प्रकृतेः ] ज्ञानावरणादि द्रव्य-कर्म, उसके [ स्वकार्य ] अपनी करतूतिके [ फल ] सुख-दुःखके [ भुग्भाव ] भोक्तापनेका [ अनुषङ्गात् ] प्रसंग प्राप्त होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जो द्रव्य जिस भावका कर्ता होता है वह उस द्रव्यका भोक्ता भी होता है। ऐसा होने पर रागादि अशुद्ध चेतन परिणाम जो जीव-कर्म दोनोंने मिलकर किया होवे तो दोनों भोक्ता होंगे सो दोनों भोक्ता तो नहीं हैं। कारण कि जीव द्रव्य चेतन है तिस कारण सुख दुःखका भोक्ता होवे ऐसा घटित होता है, पुद्गल द्रव्य अचेतन होनेसे सुख दुःखका भोक्ता घटित नहीं होता। इसलिए रागादि अशुद्ध चेतन परिणामनका अकेला संसारी जीव कर्ता है, भोक्ता भी है। इसी अर्थको और गाढा-पक्का करते हैं—“एकस्याः प्रकृतेः कृतिः न” [ एकस्याः प्रकृतेः ] अकेले पुद्गलकर्मकी [ कृतिः न ] करतूति नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई ऐसा मानेगा कि रागादि अशुद्ध चेतन परिणाम अकेले पुद्गलकर्मका किया है। उत्तर ऐसा है कि ऐसा भी नहीं है; कारण कि “अचित्त्वलसनात्” अनुभव ऐसा आता है कि पुद्गल-कर्म अचेतन द्रव्य है, रागादि परिणाम अशुद्ध चेतनारूप है; इसलिए अचेतन द्रव्यका परिणाम अचेतनरूप होता है, चेतनरूप नहीं होता। इस कारण रागादि अशुद्ध परिणाम-का कर्ता संसारी जीव है, भोक्ता भी है ॥११-२०३॥

( शार्दूलविक्रीडित )

कर्मैव प्रवितर्क्य कर्तृ हतर्कः क्षिप्त्वात्मनः कर्तृतां

कर्तात्मैष कथञ्चिदित्यचलिता चैश्चिच्छ्रुतिः कोपिता ।

तेषामुद्धतमोहमुद्रितधियां बोधस्य संशुद्धये

स्याद्वादप्रतिबंधलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ॥१२-२०४॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“वस्तुस्थितिः स्तूयते” [ वस्तु ] जीवद्रव्यके [ स्थितिः ] स्वभावकी मर्यादा [ स्तूयते ] जैसी है वंसी कहते हैं। कंसी है ? “स्याद्वादप्रतिबन्ध-लब्धविजया” [ स्याद्वाद ] जीवकर्ता है, अकर्ता भी है—ऐसा अनेकान्तपना, उसकी [ प्रतिबन्ध ] सावधानरूपसे की गई स्थापना, उससे [ लब्ध ] पाया है [ विजया ] जीतपना जिसने, ऐसी है। किस निमित्त कहते है ? “तेषां बोधस्य संशुद्धये” [ तेषां ] जो जीवको सर्वथा अकर्ता कहते हैं ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवोंकी [ बोधस्य संशुद्धये ] विपरीत बुद्धिके छुड़ानेके निमित्त जीवका स्वरूप साधते हैं। कंसी है वह मिथ्यादृष्टि जीवराशि ?

“उद्धतमोहमुद्रितधियां” [ उद्धत ] तीव्र उदयरूप [ मोह ] मिथ्यात्वभावसे [ मुद्रित ] आच्छादित है [ धियां ] शुद्धस्वरूप-अनुभवरूप सम्यक्त्वशक्ति जिनकी, ऐसी है । और कैसी है ? “एष आत्मा कथञ्चित् कर्ता इति कैश्चित् श्रुतिः कोपिता” [ एषः आत्मा ] चेतनास्वरूपमात्र जीवद्रव्य [ कथञ्चित् कर्ता ] किसी युक्तिसे अशुद्धभावका कर्ता भी है [ इति ] इस प्रकार [ कैश्चित् श्रुतिः ] कितने ही मिथ्यादृष्टि जीवोंको ऐसा सुननेमात्रसे [ कोपिता ] अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होता है । कैसा क्रोध होता है ? “अचलिता” जो श्रुति गाढ़ा है, अमिट है । जिससे ऐसा मानते हैं—“आत्मनः कर्तृतां क्षिप्त्वा” [ आत्मनः ] जीवका [ कर्तृतां ] अपने रागादि अशुद्ध भावोंका कर्तापना [ क्षिप्त्वा ] सर्वथा मेटकर (न मानकर) क्रोध करते हैं । और कैसा मानते हैं—“कर्म एव कर्तृ इति प्रवितर्क्य” [ कर्म एव ] अकेला ज्ञानावरणादि कर्मपिण्ड [ कर्तृ ] रागादि अशुद्ध परिणामोका अपने-मे व्याप्य-व्यापक होकर कर्ता है [ इति प्रवितर्क्य ] ऐसा गाढ़ापन करते हैं—प्रतीति करते हैं । सो ऐसी प्रतीति करते हुए कैसे है ? “हतकैः” अपने घातक हैं, क्योंकि मिथ्या-दृष्टि है ॥१२-२०४॥

( शाङ्खलविक्रीडित )

**माऽकर्तारममी स्पृशन्तु पुरुषं सांख्या इवाप्यार्हताः**

**कर्तारं कलयन्तु तं किल सदा भेदावबोधादधः ।**

**ऊर्ध्वं तूद्धतबोधधामनियतां प्रत्यक्षमेनं स्वयं**

**पश्यन्तु च्युतकर्तृ भावमचलं ज्ञातारमेकं परम् ॥१३-२०५॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—ऐसा कहा था कि स्याद्वाद स्वरूपके द्वारा जीवका स्वरूप कहेंगे । उसका उत्तर है—“अमी आर्हताः अपि पुरुषं अकर्तार मा स्पृशन्तु” [ अमी ] विद्यमान जो [ आर्हताः अपि ] जैनोंक्त स्याद्वादस्वरूपको अंगीकार करते हैं ऐसे जो सम्यग्दृष्टि जीव वे भी [ पुरुषं ] जीवद्रव्यको [ अकर्तारं ] रागादि-अशुद्ध परिणामोका सर्वथा कर्ता नहीं है ऐसा [ मा स्पृशन्तु ] मत अंगीकार करो । किनके समान ? “सांख्या इव” जिस प्रकार सांख्य मतवाले जीवको सर्वथा अकर्ता मानते हैं उसी प्रकार जैन भी सर्वथा अकर्ता मत माने । जैसा मानने योग्य है वैसा कहते हैं—“सदा तं भेदावबोधात् अध कर्तारं किल कलयन्तु तु ऊर्ध्वं एन च्युतकर्तृ भाव पश्यन्तु” [ सदा ] सर्व काल द्रव्यका स्वरूप ऐसा है कि [ तं ] जीवद्रव्यको, [ भेदावबोधात् अधः ] शुद्ध-स्वरूप परिणामरूप सम्यक्त्वसे भ्रष्ट मिथ्यादृष्टि होता हुआ मोह राग द्वेषरूप परिणामता

है उतने काल, [ कर्तारं किल कलयन्तु ] मोह, राग, द्वेषरूप अशुद्धचेतन परिणामका कर्ता जीव है ऐसा अवश्य मानो—प्रतीति करो । [ तु ] वही जीव [ ऊर्ध्वं ] जब मिथ्यात्व परिणाम छूटकर अपने शुद्ध स्वरूप सम्यक्त्व भावरूप परिणामता है तब [ एनं च्युतकर्तृ-भावं ] छोड़ा है रागादि अशुद्ध भावोंका कर्तापन जिसने ऐसी [ पश्यन्तु ] श्रद्धा करो—प्रतीति करो—ऐसा अनुभव करो । भावार्थ इस प्रकार है कि—जिस प्रकार जीवका ज्ञानगुण स्वभाव है, वह ज्ञानगुण संसार अवस्था अथवा मोक्ष अवस्थामें नहीं छूटता; उस प्रकार रागादिपना जीवका स्वभाव नहीं है तथापि संसार अवस्थामें जब तक कर्म का संयोग है तब तक मोह, राग, द्वेषरूप अशुद्धपनेसे विभावरूप जीव परिणामता है और तब तक कर्ता है । जीवके सम्यक्त्वगुणके परिणामनके बाद ऐसा जानना—“उद्धतबोध-धामनियत” [ उद्धत ] सकल ज्ञेय पदार्थको जाननेके लिए उतावले ऐसे [ बोधधाम ] ज्ञानका प्रताप है [ नियतं ] सर्वस्व जिसका ऐसा है । और कैसा है ? “स्वयं प्रत्यक्ष” आपको अपने आप प्रगट हुआ है । और कैसा है ? “अचल” चार गतिके भ्रमणसे रहित हुआ है । और कैसा है ? “ज्ञातार” ज्ञानमात्र स्वरूप है । और कैसा है ? “परं एक” रागादि अशुद्ध परिणतिसे रहित शुद्ध वस्तुमात्र है ॥१३-२०५॥

( मालिनी )

**क्षणिकनिबन्धमिहैकः कल्पयित्वात्मतत्त्वं**

**निजमनसि विद्यत्ते कर्तृभोक्त्रोविभेदम् ।**

**अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतौघैः**

**स्वयमयमभिषिचंश्चिच्चमत्कार एव ॥१४-२०६॥**

**खण्डान्वय सहित अर्थ**—“इह एकः निजमनसि कर्तृभोक्त्रोः विभेदं विद्यत्ते”

[ इह ] साम्प्रत विद्यमान है ऐसा [ एकः ] बौद्धमतको माननेवाला कोई जीव [ निज-मनसि ] अपने ज्ञानमें [ कर्तृ-भोक्त्रोः ] कर्तापना—भोक्तापनामें [ विभेदं ] भेद [ विद्यत्ते ] करता है । भावार्थ इस प्रकार है कि—वह ऐसा कहता है कि क्रियाका कर्ता कोई अन्य है, भोक्ता कोई अन्य है । ऐसा क्यों मानता है ? “इदं आत्मतत्त्वं क्षणिकं कल्पयित्वा” [ इदं आत्मतत्त्वं ] अनादिनिधन है जो चैतन्यस्वरूप जीवद्रव्य, उसको [ क्षणिकं कल्प-यित्वा ] क्षणिक मानता है अर्थात् जिस प्रकार अपने नेत्ररोगके कारण कोई श्वेत शंखको पीला देखता है उसी प्रकार अनादिनिधन जीवद्रव्यको मिथ्या भ्रान्तिके कारण ऐसा मानता है कि एक समयमात्रमें पूर्वका जीव मूलसे विनश जाता है, अन्य नया जीव

मूलसे उपज आता है; ऐसा मानता हुआ मानता है कि क्रियाका कर्ता अन्य कोई जीव है, भोक्ता अन्य कोई जीव है ! ऐसा अभिप्राय मिथ्यात्वका मूल है । इसलिए ऐसे जीवको समझाते हैं—“अयं चिच्चमत्कार तस्य विमोहं अपहरति” [ अयं चिच्चमत्कारः ] किसी जीवने बाल्यावस्थामें किसी नगरको देखा था, कुछ काल जाने पर और तरुण अवस्था आनेपर उसी नगरको देखता है, देखते हुए ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि वही यह नगर है जिस नगरको मैंने बालकपनमें देखा था; ऐसा है जो अतीत अनागत वर्तमान शाश्वत ज्ञानमात्र वस्तु वह “तस्य विमोहं अपहरति” क्षणिकवादीके मिथ्यात्वको दूर करता है । भावार्थ इस प्रकार है कि—जो जीवतत्त्व क्षण विनश्वर होता तो पूर्व ज्ञानको लेकर जो वर्तमान ज्ञान होता है वह किसको होवे ? इसलिए जीवद्रव्य सदा शाश्वत है ऐसा कहनेसे क्षणिकवादी प्रतिबुद्ध होता है । कैसी है जीववस्तु ? “नित्यामृतौषः स्वयं अभिषिञ्चत्” [ नित्य ] सदाकाल अविनश्वरपनारूप जो [ अमृत ] जीवद्रव्यका जीवनमूल, उसके [ औषः ] समूहद्वारा [ स्वयं अभिषिञ्चत् ] अपनी शक्तिसे आप पुष्ट होता हुआ । “एव” निश्चयसे ऐसा ही जानिएगा, अन्यथा नहीं ॥१४-२०६॥

( अनुष्टुप् )

**वृत्त्यंशभेदतोऽत्यन्तं वृत्तिमन्नाशकल्पनात् ।**

**अन्यः करोति भुङ्क्तेऽन्य इत्येकान्तश्चकास्तु मा ॥१५-२०७॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—क्षणिकवादी प्रतिबोधित किया जाता है—“इति एकात्-मा चकास्तु” [ इति ] इस प्रकार [ एकान्तः ] द्रव्याधिक-पर्यायाधिकके भेद बिना किये संबंधा ऐसा ही है ऐसा कहना [ मा चकास्तु ] किसी जीवको स्वप्नमात्रमे भी ऐसा श्रद्धान मत होओ । ऐसा कैसा ? “अन्यः करोति अन्यः भुङ्क्ते” [ अन्यः करोति ] अन्य प्रथम समयका उत्पन्न हुआ कोई जीव कर्मका उपार्जन करता है, [ अन्यः भुङ्क्ते ] अन्य दूसरे समयका उत्पन्न हुआ जीव कर्मको भोगता है,—ऐसा एकान्तपना मिथ्यात्व है । भावार्थ इस प्रकार है—जीव वस्तु द्रव्यरूप है, पर्यायरूप है । इसलिए द्रव्यरूपसे विचार करनेपर जो जीव कर्मका उपार्जन करता है वही जीव उदय आनेपर भोगता है, पर्यायरूपसे विचार करनेपर जिस परिणाम अवस्थामें ज्ञानावरणादि कर्मका उपार्जन करता है, उदय आनेपर उन परिणामोका अवस्थान्तर होता है, इसलिए अन्य पर्याय करती है अन्य पर्याय भोगती है ।—ऐसा भाव स्याद्वाद साध सकता है । जैसा बौद्धमतका जीव कहता है वह तो महाविपरीत है । सो कौन विपरीतपना ? “अत्यन्तं वृत्त्यंशभेदतः वृत्ति-

मन्नाशकल्पनात्” [ अत्यंतं ] द्रव्यका ऐसा ही स्वरूप है, सहारा किसका ? [ वृत्ति ] अवस्था, उसका [ अंश ] एक द्रव्यकी अनन्त अवस्था, ऐसा [ भेदतः ] कोई अवस्था विनश जाती है, अन्य कोई अवस्था उत्पन्न होती है ऐसा अवस्थाभेद विद्यमान है; ऐसे अवस्थाभेदका छल पकड़कर कोई बौद्धमतका मिथ्यादृष्टि जीव [ वृत्तिमन्नाशकल्पनात् ] वृत्तिमान्—जिसका अवस्थाभेद होता है ऐसी सत्तारूप शाश्वत वस्तुका नाशकल्पना= मूलसे सत्ताका नाश मानता है, इसलिए ऐसा कहना विपरीतपना है। भावार्थ इस प्रकार है कि बौद्धमतका जीव पर्यायमात्रको वस्तु मानता है, पर्याय जिसकी है ऐसी सत्तामात्र वस्तुको नहीं मानता है। इस कारण ऐसा मानता है सो महामिथ्यात्व है ॥१५-२०७॥

( शाङ्खबिक्रीडित )

**आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्याप्तं प्रपद्यान्धकैः**

**कालोपाधिबलाद्शुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परैः ।**

**चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य पृथुकैः शुद्धजुसूत्रे रतैः**

**आत्मा व्युज्झत एष हारवदहो निःसूत्रमुक्तेक्षिभिः ॥१६-२०८॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—एकान्तपनेसे जो माना जाय सो मिथ्यात्व है “अहो पृथुकै. एषः आत्मा व्युज्झतः” [ अहो ] भो जीव ! [ पृथुकैः ] नाना प्रकार अभिप्राय है जिनका ऐसे जो मिथ्यादृष्टि जीव है उनको [ एषः आत्मा ] विद्यमान शुद्ध चैतन्य-वस्तु [ व्युज्झतः ] सधी नहीं। कैसे है एकान्तवादी ? “शुद्धजुसूत्रे रतैः” [ शुद्ध ] द्रव्याधिक नयसे रहित\* [ अजुसूत्रे ] वर्तमान पर्यायमात्रमें वस्तुरूप अंगीकार करनेरूप एकान्तपनेमें [ रतैः ] मग्न है। “चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य” एक समयमात्रमें एक जीव मूलसे विनश जाता है, अन्य जीव मूलसे उत्पन्न होता है ऐसा मान कर बौद्ध मतके जीवोंको जीवस्वरूपकी प्राप्ति नहीं है। तथा मतान्तर कहते हैं—“अपरैः तत्रापि कालोपाधिबलात् अधिका अशुद्धि मत्वा” [ अपरैः ] कोई मिथ्यादृष्टि एकान्तवादी ऐसे हैं जो जीवका शुद्धपना नहीं मानते हैं, सर्वथा अशुद्धपना मानते हैं। उन्हें भी वस्तुकी प्राप्ति नहीं है ऐसा कहते हैं—[ कालोपाधिबलात् ] अनन्त काल हुआ जीव द्रव्य कर्मके साथ मिला हुआ ही चला आया है, भिन्न तो हुआ नहीं—ऐसा मानकर [ तत्रापि ] उस

\* यहाँ पर 'द्रव्याधिक नयसे रहित' पाठके स्थानमें हस्तलिखित एवं पहली मुद्रित प्रतिमें 'पर्यायाधिक नयसे रहित' ऐसा पाठ है जो मूलसे आ पडा मालूम पड़ता है।

जीवमें [ अधिकां अशुद्धिं मत्वा ] जीव द्रव्य अशुद्ध है, शुद्ध है ही नहीं—ऐसी प्रतीति करते हैं जो जीव, उन्हें भी वस्तुकी प्राप्ति नहीं है। मतान्तर कहते हैं—“अन्धकैः अतिव्याप्तिं प्रपद्य” एकान्त मिथ्यादृष्टि जीव कोई ऐसे है जो [ अतिव्याप्तिं प्रपद्य ] कर्मकी उपाधिको नहीं मानते हैं, “आत्मानं परिशुद्धि ईप्सुभिः” जीव द्रव्यको सर्व काल सर्वथा शुद्ध मानते हैं; उन्हें भी स्वरूपकी प्राप्ति नहीं है। कैसे है एकान्तवादी ? “निःसूत्रमुक्तेक्षिभिः” [ निःसूत्र ] स्याद्वाद सूत्र विना [ मुक्तेक्षिभिः ] सकल कर्मके धयलक्षण मोक्षको चाहते हैं; उनके प्राप्ति नहीं है। उसका दृष्टान्त—“हारवत्” हारके समान। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार सूतके बिना मोती नहीं सधता है—हार नहीं होता है, उसी प्रकार स्याद्वादसूत्रके ज्ञान विना एकान्तवादोके द्वारा आत्माका स्वरूप नहीं सधता है—आत्म-स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है; इसलिए जो कोई आपको सुख चाहते हैं, वे स्याद्वाद सूत्र के द्वारा जैसा आत्माका स्वरूप साधा गया है वैसा मानिएगा ॥१६-२०८॥

( शाङ्खनिबन्धित )

कर्तुर्वेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा  
कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव सञ्चित्यताम् ।  
प्रोता सूत्र इवात्मनोह निपुणैर्भक्तुं न शक्या क्वचि-  
च्चिच्चिन्तामणिमालिकेयमभितोऽप्येका चकास्त्वेव नः ॥१७-२०६॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“निपुणैः वस्तु एव सञ्चित्यता” [ निपुणैः ] शुद्ध-स्वरूप अनुभवमें प्रवीण है ऐसे जो सम्यग्दृष्टि जीव, उनको [ वस्तु एव ] समस्त विकल्प-से रहित निविकल्प सत्तामात्र चैतन्यस्वरूप [ सञ्चित्यतां ] स्वसवेदनप्रत्यक्षसे अनुभव करने योग्य है। “कर्तुः च वेदयितु युक्तिवशतः भेदः अस्तु अथवा अभेदः अस्तु” [ कर्तुः ] कर्तामें [ च ] और [ वेदयितुः ] भोक्तामें [ युक्तिवशतः ] द्रव्याधिकनय पर्यायाधिक-नयका भेद करनेपर—[ भेदः अस्तु ] अन्य पर्याय करती है, अन्य पर्याय भोगती है, पर्याया-धिकनयसे ऐसा भेद है तो होओ, ऐसा साधनेपर साध्यसिद्धि तो कुछ नहीं है; [ अथवा ] द्रव्याधिकनयसे [ अभेदः ] जो जीवद्रव्य ज्ञानावरणादि कर्मका कर्ता है वही जीवद्रव्य भोक्ता है ऐसा [ अस्तु ] भी है तो ऐसा भी होओ, इसमें भी साध्यसिद्धि तो कुछ नहीं है। “वा कर्ता च वेदयिता वा मा भवतु” [ वा ] कर्तृत्वनयसे [ कर्ता ] जीव अपने भावोका कर्ता है [ च ] तथा भोक्तृत्वनयसे [ वेदयिता ] जिसरूप परिणामता है उस परिणामका भोक्ता है ऐसा है तो ऐसा ही होओ, ऐसा विचार करनेपर शुद्धस्वरूपका



अनुभव तो नहीं है, कारण कि ऐसा विचारना अशुद्धरूप विकल्प है। [ वा ] अथवा अकर्तृत्वनयसे जीव अकर्ता है [ च ] तथा अभोक्तृत्वनयसे जीव [ मा ] भोक्ता नहीं है [ भवतु ] कर्ता-भोक्ता नहीं है तो मत ही होओ, ऐसा विचार करनेपर भी शुद्धस्वरूपका अनुभव नहीं है, कारण कि “प्रोता इह आत्मनि क्वचित् भर्तुं न शक्यः” [ प्रोता ] कोई नय विकल्प, उसका विवरण—अन्य करता है अन्य भोगता है ऐसा विकल्प, अथवा जीव कर्ता है—भोक्ता है ऐसा विकल्प, अथवा जीव कर्ता नहीं है—भोक्ता नहीं है ऐसा विकल्प, इत्यादि अनन्त विकल्प है तो भी उनमेंसे कोई विकल्प, [ इह आत्मनि ] शुद्ध वस्तुमात्र है जीवद्रव्य उसमें [ क्वचित् ] किसी भी कालमें [ भर्तुं न शक्यः ] शुद्ध-स्वरूपके अनुभवरूप स्थापनेको समर्थ नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई अज्ञानी ऐसा जानेगा कि इस स्थलमें ग्रन्थकर्ता आचार्यने कर्तापन, अकर्तापन, भोक्तापन, अभोक्तापन बहुत प्रकारसे कहा है सो इसमें क्या अनुभवकी प्राप्ति बहुत है ? समाधान इस प्रकार है कि समस्त नय विकल्पोंके द्वारा शुद्धस्वरूपका अनुभव सर्वथा नहीं है। उसको (स्वरूपको) मात्र जानानेके लिए ही शास्त्रमें बहुत नय-युक्तिसे दिखलाया है। तिस कारण “नः इयं एका अपि चिन्विन्तामरिणामालिका अभितः चकास्तु एव” [ नः ] हमें [ इयं ] स्वसवेदनप्रत्यक्ष, [ एका अपि ] समस्त विकल्पोंसे रहित, [ चित् ] शुद्ध चेतनारूप [ चिन्तामणि ] अनन्त शक्तिर्गर्भित [ मालिका ] चेतनामात्र वस्तुकी [ अभितः चकास्तु एव ] सर्वथा प्रकार प्राप्ति होओ। भावार्थ इस प्रकार है कि निर्विकल्पमात्रका अनुभव उपादेय है, अन्य विकल्प समस्त हेय है। दृष्टान्त ऐसा—“सूत्रे प्रोता इव” जिस प्रकार कोई पुरुष मोतीकी मालाको पोना जानता है, माला गूथता हुआ अनेक विकल्प करता है सो वे समस्त विकल्प भूटे हैं, विकल्पोंमें शोभा करनेकी शक्ति नहीं है। शोभा तो मोतीमात्र वस्तु है, उसमें है। इसलिए पहिनेवाला पुरुष मोतीकी माला जानकर पहिनेता है, गूँथनेके बहुत विकल्प जानकर नहीं पहिनेता है, देखनेवाला भी मोतीकी माला जानकर शोभा देखता है, गूँथनेके विकल्पोंको नहीं देखता है; उसी प्रकार शुद्ध चेतनामात्र सत्ता अनुभव करनेयोग्य है, उसमे घटते हैं जो अनेक विकल्प उन सबकी सत्ता अनुभव करनेयोग्य नहीं है। ॥१७-२०६॥

( रथोद्धता )

व्यावहारिकदृशैव केवलं  
कर्तृ कर्म च विभिन्नमिष्यते ।

## निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते कर्तृ कर्म च सदैकमिष्यते ॥१८-२१०॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—यहाँ कोई प्रश्न करता है कि ज्ञानावरणादि कर्मरूप पुद्गलपिण्डका कर्ता जीव है कि नहीं ? उत्तर इस प्रकार है कि—कहनेको तो है, वस्तु-स्वरूप विचारने पर कर्ता नहीं है। ऐसा कहते हैं—“व्यावहारिकदृशा एव केवल” झूठा व्यवहारदृष्टिसे ही “कर्तृ” कर्ता “च” तथा “कर्म” किया गया कार्य “विभिन्नं इष्यते” भिन्न-भिन्न हैं। जीव ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मका कर्ता ऐसा कहनेके लिए सत्य है; कारण कि युक्ति ऐसी कि रागादि अशुद्ध परिणामोंको जीव करता है, रागादि अशुद्ध परिणामोंके होते समय ज्ञानावरणादिरूप पुद्गल द्रव्य परिणामता है, इस कारण कहनेके लिए ऐसा है कि ज्ञानावरणादि कर्म जीवने किये। स्वरूपका विचार करने पर ऐसा कहना झूठा है; कारण कि “यदि निश्चयेन चिन्त्यते” [ यदि ] जो [ निश्चयेन ] सच्ची व्यवहार दृष्टिसे [ चिन्त्यते ] देखा जाय, क्या देखा जाय ? “वस्तु” स्वद्रव्य परिणाम परद्रव्य परिणामरूप वस्तुका स्वरूप, तो “सदा एव कर्तृ कर्म एकं इष्यते” [ सदा एव ] सर्व ही काल [ कर्तृ ] परिणामता है जो द्रव्य और [ कर्म ] द्रव्यका परिणाम [ एकं इष्यते ] एक है अर्थात् कोई जीव अथवा पुद्गल द्रव्य अपने परिणामोंके साथ व्याप्य-व्यापकरूप परिणामता है, इसलिए कर्ता है; वही कर्म है, क्योंकि परिणाम उस द्रव्यके साथ व्याप्य-व्यापकरूप है; ऐसा [ इष्यते ] विचार करने पर घटित होता है—अनुभवमें आता है। अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्य कर्ता, अन्य द्रव्यका परिणाम अन्य द्रव्यका कर्म—ऐसा तो अनुभवमें घटता नहीं, कारण कि दो द्रव्योंका व्याप्य-व्यापकपता नहीं है ॥१८-२१०॥

( नदंटक )

ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः  
स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।  
न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया  
स्थितिर्निवृत्तौ भवतु कर्तृ तदेव ततः ॥१८-२११॥\*

\* पण्डित श्री राममलजीकी टीकामें प्राप्तमन्थयतिता यह श्लोक अनुवाद करनेमें रह गया है, अतः हिन्दी समयसारके प्राधारसे उक्त श्लोक अर्थ सहित यहाँ दिया गया है।

**श्लोकार्थ** — “ननु किल” वास्तवमें “परिणामः एव” परिणाम ही “विनिश्चयतः” निश्चयसे “कर्म” कर्म है, और “सः परिणामिनः एव भवेत्, अपरस्य न भवति” परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामीका ही होता है, अन्यका नहीं (क्योंकि परिणाम अपने अपने द्रव्यके आश्रित हैं, अन्यके परिणामका अन्य आश्रय नहीं होता); और “कर्म कर्तृशून्यं इह न भवति” कर्म कतकि बिना नहीं होता, “च” तथा “वस्तुनः एकतया स्थितिः इह न” वस्तुकी एकरूप ( कूटस्थ ) स्थिति नहीं होती ( क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप होनेसे सर्वथा नित्यत्व बाधा सहित है ); “ततः” इसलिए “तत् एव कर्तुं भवतु” वस्तु स्वयं ही अपने परिणामरूप कर्मका कर्ता है ( यह निश्चित सिद्धान्त है ) ॥१६-२११॥

( पृथ्वी )

**बहिलुं ठति यद्यपि स्फुटदनन्तशक्तिः स्वयं  
तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरम् ।**

**स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्त्विष्यते**

**स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः क्लिश्यते ॥२०-२१२॥**

**खण्डान्वय सहित अर्थ**—जीवका स्वभाव ऐसा है कि सकल ज्ञेयको जानता है । कोई मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा जानेगा कि ज्ञेय वस्तुको जानते हुए जीवके अशुद्धपना घटित होता है । उसका समाधान ऐसा है कि अशुद्धपना नहीं घटित होता है, जीव वस्तुका ऐसा ही स्वभाव है जो समस्त ज्ञेय वस्तुको जानता है । यहाँ से लेकर ऐसा भाव कहते हैं—“इह स्वभावचलनाकुलः मोहितः किं क्लिश्यते” [ इह ] जीव समस्त ज्ञेयको जानता है ऐसा देखकर [ स्वभाव ] जीवका शुद्ध स्वरूप, उससे [ चलन ] स्वलितपना जानकर [ आकुलः ] खेद-खिन्न हुआ मिथ्यादृष्टि जीव [ मोहितः ] मिथ्यात्वरूप अज्ञानपनाके अधीन हो [ किं क्लिश्यते ] क्यों खेद-खिन्न होता है ? कारण कि “यतः स्वभावनियतं सकलं एव वस्तु इष्यते” [ यतः ] जिस कारण [ सकलं एव वस्तु ] जो कोई जीवद्रव्य अथवा पुद्गलद्रव्य इत्यादि है वह सब [ स्वभावनियतं ] नियमसे अपने स्वरूप है ऐसा [ इष्यते ] अनुभवगोचर होता है । यही अर्थ प्रगट करके कहते है—“यद्यपि स्फुटदनन्त-शक्तिः स्वयं बहिलुं ठति” [ यद्यपि ] यद्यपि प्रत्यक्षरूपसे ऐसा है कि [ स्फुटत् ] सदा काल प्रगट है [ अनन्तशक्तिः ] अविनश्वर चेतनाशक्ति जिसकी ऐसा जीवद्रव्य [ स्वयं बहिः लुठति ] स्वयं समस्त ज्ञेयको जानकर ज्ञेयाकाररूप परिणामता है—ऐसा जीवका

स्वभाव है, “तथापि अन्यवस्त्वन्तरं” [ तथापि ] तो भी [ अन्यवस्त्वन्तरं ] एक कोई जीवद्रव्य अथवा पुद्गलद्रव्य “अपरवस्तुनः न विशति” किसी अन्य द्रव्यमें प्रवेश नहीं करता है; वस्तुस्वभाव ऐसा है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीवद्रव्य समस्त ज्ञेय वस्तुको जानता है ऐसा तो स्वभाव है, परन्तु ज्ञान ज्ञेयरूप नहीं होता है, ज्ञेय भी ज्ञान द्रव्यरूप नहीं परिणामता है—ऐसी वस्तुकी मर्यादा है ॥२०-२१२॥

( रथोद्धता )

**वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो**

**येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् ।**

**निश्चयोऽयमपरो परस्य कः**

**किं करोति हि बहिलुंठन्नपि ॥२१-२१३॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—अर्थ कहा था उसे गाढा करते हैं—“येन इह एकं वस्तु अन्यवस्तुनः न” [ येन ] जिस कारणसे [ इह ] छह द्रव्योंमें कोई [ एकं वस्तु ] जीवद्रव्य अथवा पुद्गल द्रव्य सत्तारूप विद्यमान है वह [ अन्यवस्तुनः न ] अन्य द्रव्यसे सर्वथा नहीं मिलता ऐसी द्रव्योंके स्वभावकी मर्यादा है। “तेन खलु वस्तु तत् वस्तु” [ तेन ] तिस कारणसे [ खलु ] निश्चयसे [ वस्तु ] जो कोई द्रव्य [ तत् वस्तु ] वह अपने स्वरूप है—जिस प्रकार है उसी प्रकार है, “अयं निश्चयः” ऐसा तो निश्चय है, परमेश्वरने कहा है, अनुभवगोचर भी होता है। “कः अपरः बहिः लुठन् अपि अपरस्य किं करोति” [ कः अपरः ] ऐसा कौन द्रव्य है जो [ बहिः लुठन् अपि ] यद्यपि ज्ञेय वस्तुको जानता है तो भी [ अपरस्य किं करोति ] ज्ञेय वस्तुके साथ सम्बन्ध कर सके ? अर्थात् कोई द्रव्य नहीं कर सके। भावार्थ इस प्रकार है कि वस्तुस्वरूपकी मर्यादा तो ऐसी है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्यके साथ एकरूप नहीं होता है। इसके उपरान्त भी जीवका स्वभाव ज्ञेय वस्तुको जाने ऐसा है तो रहो तो भी धोखा तो कुछ नहीं है। जीव द्रव्य ज्ञेयको जानता हुआ अपने स्वरूप है ॥२१-२१३॥

( रथोद्धता )

**यत्तु वस्तु कुरुतेऽन्यवस्तुनः**

**किञ्चनापि परिणामिनः स्वयम् ।**

## व्यावहारिकदृशंब तन्मत्तं

नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ॥२२-२१४॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—कोई आशंका करता है कि जैन सिद्धान्तमें भी ऐसा कहा है कि जीव ज्ञानावरणादि पुद्गलकर्मको करता है, भोगता है। उसका समाधान इस प्रकार है कि भूटे व्यवहारसे कहनेको है। द्रव्यके स्वरूपका विचार करने पर परद्रव्यका कर्ता जीव नहीं है। “तु यत् वस्तु स्वयं परिणामिनः अन्यवस्तुनः किञ्चन अपि कुरुते” [ तु ] ऐसी भी कहावत है कि [ यद् वस्तु ] जो कोई चेतनालक्षणा जीवद्रव्य [ स्वयं परिणामिनः अन्यवस्तुनः ] अपनी परिणाम शक्तिसे ज्ञानावरणादिरूप परिणमता है ऐसे पुद्गल द्रव्यका [ किञ्चन अपि कुरुते ] कुछ करता है ऐसा कहना, “तत् व्यावहारिकदृशा” [ तत् ] जो कुछ ऐसा अभिप्राय है वह सब [ व्यावहारिकदृशा ] भूटी व्यवहारदृष्टिसे है। “निश्चयात् कि अपि नास्ति इह मतं” [ निश्चयात् ] वस्तुके स्वरूपका विचार करनेपर [ किमपि नास्ति ] ऐसा विचार—ऐसा अभिप्राय कुछ नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि कुछ ही बात नहीं, मूलसे भूठ है [ इह मतं ] ऐसा सिद्धान्त सिद्ध हुआ ॥२२-२१४॥

( शाङ्खलविक्रीडित )

शुद्धद्रव्यनिरूपणापितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो

नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातुचित् ।

ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत् तव्यं शुद्धस्वभावोदयः

किं द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधियस्तत्त्वाच्च्यवन्ते जनाः ॥२३-२१५॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“जनाः तत्त्वात् किं च्यवन्ते” [ जनाः ] समस्त संसारी जीव [ तत्त्वात् ] जीव वस्तु सर्व काल शुद्धस्वरूप है, समस्त ज्ञेयको जानती है ऐसे अनुभवसे [ किं च्यवन्ते ] क्यों भ्रष्ट होते हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि वस्तुका स्वरूप तो प्रगट है, भ्रम क्यों करते हैं। कैसे है जन ? “द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधियः” [ द्रव्यान्तर ] समस्त ज्ञेय वस्तुको जानता है जीव, इससे [ चुम्बन ] अशुद्ध हुआ है जीवद्रव्य ऐसा जानकर [ आकुलधियः ] ज्ञेय वस्तुका जानपना कैसे छूटे, जिसके छूटनेसे जीवद्रव्य शुद्ध होवे ऐसी हुई है बुद्धि जिनकी, ऐसे हैं। “तु” उसका समाधान ऐसा है कि “यत् ज्ञानं ज्ञेयं अवैति तत् अयं शुद्धस्वभावोदयः” [ यत् ] जो ऐसा है कि [ ज्ञानं ज्ञेयं अवैति ] ज्ञान ज्ञेयको जानता है ऐसा प्रगट है [ तत् अयं ] सो यह [ शुद्धस्वभावोदयः ] शुद्ध जीव वस्तुका स्वरूप है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस-

प्रकार अग्निका दाहक स्वभाव है, समस्त दाह्य वस्तुको जलाती है। जलाती हुई अग्नि अपने शुद्धस्वरूप है। अग्निका ऐसा ही स्वभाव है उसीप्रकार जीव ज्ञानस्वरूप है, समस्त ज्ञेयको जानता है। जानता हुआ अपने स्वरूप है ऐसा वस्तुका स्वभाव है। ज्ञेयके जानपनासे जीवका अशुद्धपना मानता है सो मत मानो, जीव शुद्ध है। और समाधान करते हैं। कारण कि “किमपि द्रव्यान्तरं एकद्रव्यगतं न चकास्ति” [ किमपि द्रव्यान्तरं ] कोई ज्ञेयरूप पुद्गल द्रव्य अथवा धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य [ एकद्रव्य ] शुद्ध जीव वस्तुमें [ गत ] एक द्रव्यरूपसे परिणामता है ऐसा [ न चकास्ति ] नहीं शोभता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव समस्त ज्ञेयको जानता है, ज्ञान ज्ञानरूप है, ज्ञेय वस्तु ज्ञेयरूप है। कोई द्रव्य अपने द्रव्यत्वको छोड़कर अन्य द्रव्यरूप तो नहीं हुआ ऐसा अनुभव जिसको है सो कहते हैं—“शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पितमते” [ शुद्धद्रव्य ] समस्त विकल्पसे रहित शुद्ध चेतनामात्र जीववस्तुके [ निरूपण ] प्रत्यक्ष अनुभवमें [ अपितमतेः ] स्थापित किया है बुद्धिका सर्वस्व जिसने ऐसे जीवके। और कैसे जीवके? “तत्त्वं समुत्पश्यतः” सत्तामात्र शुद्ध जीववस्तुको प्रत्यक्ष आस्वादता है ऐसे जीवके। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव समस्त ज्ञेयको जानता है, समस्त ज्ञेयसे भिन्न है ऐसा स्वभाव सम्यग्-दृष्टि जीव जानता है ॥२३-२१५॥

( मन्दाक्रान्ता )

**शुद्धद्रव्यस्वरसम्भवनात्किं स्वभावस्य शेष-  
मन्यद्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात्स्वभावः ।  
ज्योत्स्नारूपं स्नपयति भुवं नैव तस्यास्ति भूमि-  
र्ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥२४-२१६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“सदा ज्ञान ज्ञेय कलयति अस्य ज्ञेयं न अस्ति एव” [ सदा ] सर्व काल [ ज्ञानं ] अर्थग्रहणशक्ति [ ज्ञेयं ] स्वपरसम्बन्धी समस्त ज्ञेय वस्तुको [ कलयति ] एक समयमे द्रव्य-गुण-पर्यायभेदयुक्त जैसी है उस प्रकार जानता है। एक विशेष—[ अस्य ] ज्ञानके सम्बन्धसे [ ज्ञेयं न अस्ति ] ज्ञेय वस्तु ज्ञानसे सम्बन्धरूप नहीं है। [ एव ] निश्चयसे ऐसा ही है। दृष्टान्त कहते हैं—“ज्योत्स्नारूप भुवं स्नपयति तस्य भूमिः न अस्ति एव” [ ज्योत्स्नारूपं ] चन्द्रिकाका प्रसार [ भुवं स्नपयति ] भूमिको श्वेत करता है। एक विशेष—[ तस्य ] ज्योत्स्नाके प्रसारके सम्बन्धसे [ भूमिः न अस्ति ] भूमि

ज्योत्स्नारूप नहीं होती। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार ज्योत्स्ना फैलती है, समस्त भूमि श्वेत होती है तथापि ज्योत्स्नाका भूमिका सम्बन्ध नहीं है उसी प्रकार ज्ञान समस्त ज्ञेयको जानता है तथापि ज्ञानका ज्ञेयका सम्बन्ध नहीं है। ऐसा वस्तुका स्वभाव है। ऐसा कोई नहीं माने उसके प्रति युक्तिके द्वारा घटित करते हैं—“शुद्धद्रव्यस्वरस-भवनात्” शुद्ध द्रव्य अपने अपने स्वभावमें रहता है तो “स्वभावस्य शेषं किं” [ स्वभावस्य ] सत्तामात्र वस्तुका [ शेषं किं ] क्या बचा ? भावार्थ इस प्रकार है कि सत्तामात्र वस्तु निर्विभाग एकरूप है, जिसके दो भाग होते नहीं। “यदि वा” जो कभी “अन्यद्रव्यं भवति” अनादिनिधन सत्तारूप वस्तु अन्य सत्तारूप होवे तो “तस्य स्वभावः किं स्यात्” [ तस्य ] पहले साधी हुई सत्तारूप वस्तुका [ स्वभावः किं स्यात् ] जो पूर्वका सत्त्व अन्य सत्त्वरूप होवे तो पूर्व सत्तामाहेका क्या बचा ? अपि तु पूर्व सत्ताका विनाश सिद्ध होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार जीवद्रव्य चेतना सत्तारूप है, निर्विभाग है सो चेतना सत्ता जो कभी पुद्गल द्रव्य—अचेतनारूप हो जाय तो चेतनासत्ताका विनाश होना कौन मेट सकता है ? सो वस्तुका स्वरूप ऐसा तो नहीं है, इसलिए जो द्रव्य जैसा है जिस प्रकार है वंसा ही है अन्यथा होता नहीं। इसलिए जीवका ज्ञान समस्त ज्ञेयको जानता है तो जानो तथापि जीव अपने स्वरूप है ॥२४-२१६॥

( मन्दाक्रान्ता )

रागद्वेषद्वयमुदयते तावदेतन्न यावत्

ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यम् ।

ज्ञानं ज्ञानं भवतु तद्विदं न्यक्कृताज्ञानभावं

भावाभावौ भवति तिरयन् येन पूर्णस्वभावः ॥२५-२१७॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“एतत् रागद्वेषद्वय तावत् उदयते” [ एतत् ] विद्यमान [ राग ] इष्टमें अभिलाष [ द्वेष ] अनिष्टमें उद्वेग ऐसे [ द्वयं ] दो जातिके अशुद्ध परिणाम [ तावत् उदयते ] तब तक होते हैं “यावत् ज्ञानं ज्ञानं न भवति” [ यावत् ] जब तक [ ज्ञानं ] जीवद्रव्य [ ज्ञानं न भवति ] अपने शुद्धस्वरूपके अनुभवरूप नहीं परिणामता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जितने काल तक जीव मिथ्यादृष्टि है उतने काल तक राग द्वेषरूप अशुद्ध परिणामन नहीं मिटता। “तथा बोध्यं बोध्यता यावत् न याति” [ तथा ] तथा [ बोध्यं ] जानावरणादि कर्म अथवा रागादि अशुद्ध परिणाम [ बोध्यतां यावत् न याति ] ज्ञेयमात्र बुद्धिको नहीं प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञाना-

वरणादि कर्म सम्यग्दृष्टि जीवको जाननेके लिए है। कोई अपने कर्मका उदय कार्य जिस तिस प्रकार करनेके लिए समर्थ नहीं है। “तत् ज्ञानं ज्ञानं भवतु” [ तत् ] तिस कारणसे [ ज्ञानं ] जीव वस्तु [ ज्ञानं भवतु ] शुद्ध परिणतिरूप होकर शुद्धस्वरूपके अनुभव समर्थ होओ। कैसा है शुद्ध ज्ञान ? “न्यकृताज्ञानभाव” [ न्यकृत ] दूर किया है [ अज्ञानभाव ] मिथ्यात्वभावरूप परिणति जिसने ऐसा है। ऐसा होनेपर कार्यकी प्राप्ति कहते हैं—“येन पूर्णस्वभावः भवति” [ येन ] जिस शुद्ध ज्ञानके द्वारा [ पूर्णस्वभावः भवति ] जैसा द्रव्यका अनन्त चतुष्टयस्वरूप है वैसा प्रगट होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि मुक्तिपदकी प्राप्ति होती है। कैसा है पूर्ण स्वभाव ? “भावाभावौ तिरयन्” चतुर्गति-सम्बन्धी उत्पाद-व्ययको सर्वथा दूर करता हुआ जीवका स्वरूप प्रगट होता है ॥२५-२१७॥

( मन्दाक्रान्ता )

**रागद्वेषाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात्**

**तौ वस्तुत्वप्रणिहितदृशा दृश्यमानौ न किञ्चित् ।**

**सम्यग्दृष्टिः क्षपयतु ततस्तत्त्वदृष्ट्या स्फुटन्तौ**

**ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहजं येन पूर्णाचलाचिः ॥२६-२१८॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तत. सम्यग्दृष्टिः स्फुट तत्त्वदृष्ट्या तौ क्षपयतु” [ ततः ] तिस कारणसे [ सम्यग्दृष्टिः ] शुद्ध चैतन्य अनुभवशीली जीव [ स्फुटं तत्त्वदृष्ट्या ] प्रत्यक्षरूप है जो शुद्ध जीवस्वरूपका अनुभव उसके द्वारा [ तौ ] रागद्वेष दोनोंको [ क्षपयतु ] मूलसे मेट कर दूर करो। “येन ज्ञानज्योतिः सहजं ज्वलति” [ येन ] जिन राग-द्वेषके मेटनेसे [ ज्ञानज्योतिः सहजं ज्वलति ] शुद्ध जीवका स्वरूप जैसा है वैसा सहज प्रगट होता है। कैसी है ज्ञानज्योति ? “पूर्णाचलाचिः” [ पूर्ण ] जैसा स्वभाव है ऐसा और [ अचल ] सर्वकाल अपने स्वरूप है ऐसा [ अचिः ] प्रकाश है जिसका, ऐसी है। राग-द्वेषका स्वरूप कहते है—“हि ज्ञानं अज्ञानभावात् इह रागद्वेषौ भवति” [ हि ] जिस कारण [ ज्ञानं ] जीव द्रव्य [ अज्ञानभावात् ] अनादि कर्म संयोगसे परिणामा है विभाव परिणति मिथ्यात्वरूप, उसके कारण [ इह ] वर्तमान संसार अवस्थामे [ रागद्वेषौ भवति ] राग-द्वेषरूप अशुद्ध परिणतिसे व्याप्य-व्यापकरूप आप परिणामता है। इस कारण “तौ वस्तुत्वप्रणिहितदृशा दृश्यमानौ न किञ्चित्” [ तौ ] राग-द्वेष दोनों जातिके अशुद्ध परिणाम [ वस्तुत्वप्रणिहितदृशा दृश्यमानौ ] सत्तास्वरूप दृष्टिसे विचार करनेपर [ न किञ्चित् ] कुछ वस्तु नहीं। भावार्थ इस प्रकार है कि जैसे सत्तास्वरूप एक जीव



द्रव्य विद्यमान है वैसे राग-द्वेष कोई द्रव्य नहीं, जीवकी विभाव परिणति है। वही जीव जो अपने स्वभावरूप परिणामे तो राग द्वेष सर्वथा मिटे। ऐसा होना सुगम है कुछ मुश्किल नहीं है—अशुद्ध परिणति मिटती है शुद्ध परिणति होती है ॥२६-२१८॥

( शालिनी )

**रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या  
नान्यद्द्रव्यं वीक्ष्यते किञ्चनापि ।**

**सर्वद्रव्योत्पत्तिरन्तश्चकास्ति**

**व्यक्तात्यन्तं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥२७-२१६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—भावार्थ इस प्रकार है कि कोई ऐसा मानता है कि जीवका स्वभाव राग-द्वेषरूप परिणामनेका नहीं है, पर द्रव्य ज्ञानावरणादि कर्म तथा शरीर भोगसामग्री बलात्कार जीवको राग-द्वेषरूप परिणामते हैं सो ऐसा तो नहीं, जीवकी विभाव परिणाम शक्ति जीवमें है, इसलिए मिथ्यात्वके भ्रमरूप परिणामता हुआ राग-द्वेषरूप जीव द्रव्य आप परिणामता है, पर द्रव्यका कुछ सहारा नहीं है। ऐसा कहते हैं—“किञ्चन अपि अन्यद्रव्यं तत्त्वदृष्ट्या रागद्वेषोत्पादकं न वीक्ष्यते” [ किञ्चन अपि अन्यद्रव्यं ] आठ कर्मरूप अथवा शरीर मन वचन नोकर्मरूप अथवा बाह्य भोग-सामग्री इत्यादिरूप है जितना पर द्रव्य वह [ तत्त्वदृष्ट्या ] द्रव्यके स्वरूपको देखते हुए साची दृष्टिसे [ रागद्वेषोत्पादकं ] अशुद्ध चेतनारूप है जो राग-द्वेषपरिणाम उनको उत्पन्न करनेमें समर्थ [ न वीक्ष्यते ] नहीं दिखलाई देता। कहे हुए अर्थको गाढा-दृढ करते है—“यस्मात् सर्वद्रव्योत्पत्तिःस्वस्वभावेन अन्तः चकास्ति” [ यस्मात् ] जिस कारणसे [ सर्वद्रव्य ] जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल आकाशका [ उत्पत्तिः ] अखण्ड धारारूप परिणाम [ स्वस्वभावेन ] अपने-अपने स्वरूपसे है [ अन्तः चकास्ति ] ऐसा ही अनुभवमें निश्चित होता है और ऐसे ही वस्तु सघती है, अन्यथा विपरीत है। कैसी है परिणति ? “अत्यन्तं व्यक्ता” अति ही प्रगट है ॥२७-२१६॥

( मालिनी )

**यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रसूतिः**

**कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र ।**

## स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यबोधो

भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोधः ॥२८-२२०॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य संसार अवस्थामें राग द्वेष मोह अशुद्ध चेतनारूप परिणामता है सो वस्तुके स्वरूपका विचार करनेपर जीवका दोष है, पुद्गल द्रव्यका दोष कुछ नहीं है, कारण कि जीव द्रव्य अपने विभाव मिथ्यात्वरूप परिणामता हुआ अपने अज्ञानपनाको लिए हुए राग द्वेष मोहरूप आप परिणामता है, जो कभी शुद्ध परिणतिरूप होकर शुद्ध स्वरूपके अनुभवरूप परिणवे, राग द्वेष मोहरूप न परिणवे तो पुद्गल द्रव्यका क्या चारा (इलाज) है। वही कहते हैं—“इह यत् रागद्वेषदोषप्रसूतिः भवति तत्र कतरत् अपि परेषां दूषणं नास्ति” [ इह ] अशुद्ध अवस्थामें [ यत् ] जो कुछ [ रागद्वेषदोषप्रसूतिः भवति ] रागादि अशुद्ध परिणति होती है [ तत्र ] उस अशुद्ध परिणतिके होनेमें [ कतरत् अपि ] अति ही थोड़ा भी [ परेषां दूषणं नास्ति ] जितनी ज्ञानावरणादि कर्मका उदय अथवा शरीर मन वचन अथवा पञ्चेन्द्रिय भोगसामग्री इत्यादि बहुत सामग्री है उसमें किसीका दूषण तो नहीं है। तो क्या है ? “अयं स्वयं अपराधी तत्र अबोधः सर्पति” [ अयं ] संसारी जीव [ स्वयं अपराधी ] आप मिथ्यात्वरूप परिणामता हुआ शुद्ध स्वरूपके अनुभवसे भ्रष्ट है। कर्मके उदयसे हुआ है अशुद्ध भाव, उसको आपरूप जानना है [ तत्र ] इस प्रकार अज्ञानका अधिकार होनेपर [ अबोधः सर्पति ] राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणति होती है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव आप मिथ्यादृष्टि होता हुआ परद्रव्यको आप जानकर अनुभवे वहाँ राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणतिका होना कौन रोके ? इसलिए पुद्गल कर्मका कौन दोष ? [ विदितं भवतु ] ऐसा ही विदित होओ कि रागादि अशुद्ध परिणतिरूप जीव परिणामता है सो जीवका दोष है, पुद्गल द्रव्यका दोष नहीं। अब अगला विचार कुछ है कि नहीं है ? उत्तर इसप्रकार है—अगला यह विचार है कि “अबोधः अस्तं यातु” मोह-राग-द्वेषरूप है जो अशुद्ध परिणति उसका विनाश होओ। उसका विनाश होनेसे ‘बोधः अस्मि’ मैं शुद्ध चिद्रूप अविनश्वर अनादिनिधन जैसा हूँ वैसा विद्यमान ही हूँ। भावार्थ इस प्रकार है कि जीवद्रव्य शुद्धस्वरूप है। उसमें मोह-राग-द्वेषरूप अशुद्ध परिणति होती है। उस अशुद्ध परिणतिके भेटनेका उपाय यह कि सहज ही द्रव्य शुद्धत्वरूप परिणवे तो अशुद्ध परिणति मिटे। और तो कोई करतूति—उपाय नहीं है। उस अशुद्ध परिणतिके मिटने पर जीवद्रव्य जैसा है वंसा है, कुछ घट-बढ़ तो नहीं ॥२८-२२०॥

( रथोद्धता )

रागजन्मनि निमित्ततां पर-

द्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं

शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥२६-२२१॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—कहे हुए अर्थको गाढ़ा—ढूँढ करते हैं—“ते मोहवाहिनीं न हि उत्तरन्ति” [ ते ] ऐसी मिथ्यादृष्टि जीवराशि [ मोहवाहिनीं ] मोह-राग-द्वेषरूप अशुद्ध परिणति ऐसी जो शत्रुकी सेना उसको [ न हि उत्तरन्ति ] नहीं भेट सकती है । कैसे हैं वे मिथ्यादृष्टि जीव ? “शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः” [ शुद्ध ] सकल उपाधिसे रहित जीव वस्तुके [ बोध ] प्रत्यक्षका अनुभवसे [ विधुर ] रहित होनेसे [ अन्ध ] सम्यक्त्वसे शून्य है [ बुद्धयः ] ज्ञान सर्वस्व जिनका, ऐसे हैं । उनका अपराध कौनसा ? उत्तर—ऐसा अपराध है; वही कहते हैं—“ये रागजन्मनि परद्रव्यं निमित्ततां एव कलयन्ति” [ ये ] जो कोई मिथ्यादृष्टि जीव ऐसे हैं—[ रागजन्मनि ] राग द्वेष मोह अशुद्ध परिणति-रूप परिणामनेवाले जीवद्रव्यके विषयमें [ परद्रव्यं ] आठ कर्म शरीर आदि नोकर्म तथा बाह्य भोगसामग्रीरूप [ निमित्ततां कलयन्ति ] पुद्गल द्रव्यका निमित्त पाकर जीव रागादि अशुद्धरूप परिणामता है ऐसी श्रद्धा करती है जो कोई जीवराशि वे मिथ्यादृष्टि है—अनन्त ससारी है, जिससे ऐसा विचार है कि संसारी जीवके रागादि अशुद्धरूप परिणामनशक्ति नहीं है, पुद्गलकर्म बलात्कार ही परिणामता है । जो ऐसा है तो पुद्गल-कर्म तो सर्वकाल विद्यमान ही है । जीवको शुद्ध परिणामका अवसर कौन ? अपि तु कोई अवसर नहीं ॥२६-२२१॥

( शाङ्खलिकीदित )

पूर्णेकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोधा न बोध्यादयं

यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव ।

तद्वस्तुस्थितिबोधवन्ध्यधिषणा एते किमज्ञानिनो

रागद्वेषमयीभवन्ति सहजां मुञ्चन्त्युदासीनताम् ॥३०-२२२॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्यादृष्टि जीव ऐसी आशंका करेगा कि जीवद्रव्य ज्ञायक है, समस्त ज्ञेयको जानता है, इसलिए परद्रव्यको

जानते हुए कुछ थोड़ा-बहुत रागादि अशुद्ध परिणतिका विकार होता होगा ? उत्तर इस प्रकार है कि परद्रव्यको जानते हुए तो एक निरंशमात्र भी नहीं है, अपनी विभाव परिणति करनेसे विकार है। अपनी शुद्ध परिणति होने पर निर्विकार है। ऐसा कहते हैं—“एते अज्ञानिनः किं रागद्वेषमयीभवन्ति सहजा उदासीनतां किं मुञ्चन्ति” [ एते अज्ञानिनः ] विद्यमान है जो मिथ्यादृष्टि जीव वे [ किं रागद्वेषमयीभवन्ति ] राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणतिमे मग्न ऐसे क्यों होते हैं ? तथा [ सहजां उदासीनतां किं मुञ्चन्ति ] सहज ही है सकल परद्रव्यसे भिन्नपना ऐसी प्रतीतिको क्यों छोड़ते हैं ? भावार्थ इस प्रकार है कि वस्तुका स्वरूप तो प्रगट है, (लोग) विचलित होते हैं सो पूरा अचम्भा है। कैसे हैं अज्ञानी जीव ? “तद्रस्तुस्थितिबोधवन्ध्यधिपणाः” [ तद्रस्तु ] शुद्ध जीव द्रव्यकी [ स्थिति ] स्वभावकी मर्यादाके [ बोध ] अनुभवसे [ वन्ध्य ] शून्य है [ धिषणाः ] बुद्धि जिनकी, ऐसे हैं। जिस कारणसे “अयं बोधा” विद्यमान है जो चेतनामात्र जीवद्रव्य वह “बोध्यात्” समस्त ज्ञेयको जानता है, इस कारण “कामपि विक्रियां न यायात्” राग-द्वेष-मोहरूप किसी विक्रियारूप नहीं परिणमता है। कैसा है जीवद्रव्य ? “पूर्णकाच्युतशुद्धबोधमहिमा” [ पूर्ण ] नहीं है खण्ड जिसका, [ एक ] समस्त विकल्पसे रहित [ अच्युत ] अनन्त काल पर्यन्त स्वरूपसे नहीं चलायमान [ शुद्ध ] द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्मसे रहित ऐसा जो [ बोध ] ज्ञानगुण वही है [ महिमा ] सर्वस्व जिसका, ऐसा है। दृष्टान्त कहते हैं—“तत इतः प्रकाश्यात् दीपः इव” [ ततः इतः ] बाएँ-दाहिने ऊपर-तले आगे-पीछे [ प्रकाश्यात् ] दीपकके प्रकाशसे देखते हैं घटा कपडा इत्यादि उस कारण [ दीपः इव ] जिस प्रकार दीपकमे कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार दीपक प्रकाशस्वरूप है, घट-पट आदि अनेक वस्तुओंको प्रकाशता है। प्रकाशते हुए जो अपना प्रकाशमात्र स्वरूप था वैसा ही है, विकार तो कुछ देखा नहीं जाता। उसी प्रकार जीवद्रव्य ज्ञानस्वरूप है, समस्त ज्ञेयको जानता है। जानते हुए जो अपना ज्ञानमात्र स्वरूप था वैसा ही है। ज्ञेयको जानते हुए विकार कुछ नहीं है ऐसा वस्तुका स्वरूप जिनको नहीं भासित होता वे मिथ्यादृष्टि हैं ॥३०-२२॥

( शाद्वं लविक्रीडित )

**रागद्वेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः  
पूर्वागमिसमस्तकर्मविकला भिन्नास्तदात्वोदयात् ।**

**दूरारूढचरित्रवैभवबलाच्चञ्चच्चिर्चर्मयीं**

**विन्दन्ति स्वरसाभिषिक्तभुवनां ज्ञानस्य सञ्चेतनाम् ॥३१-२२३॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“नित्यं स्वभावस्पृशः ज्ञानस्य सञ्चेतना विन्दन्ति”  
 [ नित्यं स्वभावस्पृशः ] निरन्तर शुद्ध स्वरूपका अनुभव है जिन्हे ऐसे हैं जो सम्यग्दृष्टि जीव, वे [ ज्ञानसञ्चेतनां ] राग-द्वेष-मोहसे रहित शुद्ध ज्ञानमात्र वस्तुको [ विन्दन्ति ] प्राप्त करते हैं—आस्वादेते हैं। कैसी है ज्ञानचेतना ? “स्वरसाभिषिक्तभुवना” अपने आत्मीक रससे जगतको मानो सिञ्चन करती है। और कैसी है ? “चञ्चच्चिर्चर्मयीं” [ चञ्चत् ] सकल ज्ञेयको जाननेमें समर्थ ऐसा जो [ चिर्चिः ] चैतन्यप्रकाश, ऐसा है [ मयीं ] सर्वस्व जिसका, ऐसी है। ऐसी चेतनाका जो कारण है उसे कहते हैं—“दूरारूढचरित्रवैभवबलात्” [ दूर ] अति गाढ-दृढ [ आरूढ ] प्रगट हुआ जो [ चरित्र ] राग द्वेष अशुद्ध परिणतसे रहित जीवका जो चारित्रगुण, उसके [ वैभव ] प्रतापकी [ बलात् ] सामर्थ्यसे। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध चारित्र तथा शुद्ध ज्ञानचेतनाको एक वस्तुपना है। कैसे है सम्यग्दृष्टि जीव ? “रागद्वेषविभावमुक्तमहसः” [ रागद्वेष ] जितनी अशुद्ध परिणत है उसरूप जो [ विभाव ] जीवका विकारभाव, उससे [ मुक्त ] रहित हुआ है [ महसः ] शुद्ध ज्ञान जिनका, ऐसे है। और कैसे हैं ? “पूर्वागामिसमस्त-कर्मविकलाः” [ पूर्व ] जितना अतीत काल [ आगामि ] जितना अनागत काल तत्सम्बन्धी [ समस्त ] नानाप्रकार असख्यात लोकमात्र [ कर्म ] रागादिरूप अथवा सुख-दुःखरूप अशुद्धचेतना विकल्प, उनसे [ विकलाः ] सर्वथा रहित हैं। और कैसे है ? “तदात्वोदयात् भिन्नाः” [ तदात्वोदयात् ] वर्तमान कालमे आये हुए उदयसे हुई है जो शरीर-सुख-दुःखरूप विषय भोगसामग्री इत्यादि, उससे [ भिन्नाः ] परम उदासीन है। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई सम्यग्दृष्टि जीव त्रिकालसम्बन्धी कर्मकी उदय सामग्रीसे विरक्त होकर शुद्ध चेतनाको प्राप्त करते हैं—आस्वादेते हैं ॥३१-२२३॥

( उपजाति )

**ज्ञानस्य सञ्चेतनयैव नित्यं**

**प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम् ।**

**अज्ञानसञ्चेतनया तु धावन्**

**बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बन्धः ॥३२-२२४॥**

**खण्डान्वय सहित अर्थ**—ज्ञानचेतनाका फल अज्ञानचेतनाका फल कहते हैं—  
 “नित्य” निरन्तर “ज्ञानस्य सञ्चेतनया” राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणतिके बिना शुद्ध  
 जीवस्वरूपके अनुभवरूप जो ज्ञानपरिगति उसके द्वारा “अतीव शुद्ध ज्ञान प्रकाशते एव”  
 [ अतीव शुद्ध ज्ञान ] सर्वथा निगवरग केवलज्ञान [ प्रकाशते ] प्रगट होता है। भावार्थ  
 इस प्रकार है कि कारण सदृश कार्य होता है, इसलिए शुद्ध ज्ञानका अनुभव करनेपर  
 शुद्ध ज्ञानकी प्राप्ति होती है ऐसा घटित होता है, [ एव ] ऐसा ही है निश्चयसे। “तु”  
 तथा “अज्ञानसञ्चेतनया बन्ध धावन् बोधस्य शुद्धि निरुणद्धि” [ अज्ञानसञ्चेतनया ]  
 राग-द्वेष-मोहरूप तथा सुख-दुःखादिरूप जीवकी अशुद्ध परिणतिके द्वारा [ बन्धः धावन् ]  
 ज्ञानावरणादि कर्मबन्ध अवश्य होता हुआ [ बोधस्य शुद्धि निरुणद्धि ] केवलज्ञानकी  
 शुद्धताको रोकता है। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानचेतना मोक्षका मार्ग, अज्ञानचेतना  
 समारका मार्ग ॥३२-२२६॥

( आर्या )

**कृतकारितानुमननैस्त्रिकालविषयं मनोवचनकार्यैः ।**

**परिहृत्य कर्म सर्व परमं नैष्कर्म्यमवलम्बे ॥३३-२२५॥**

**खण्डान्वय सहित अर्थ**—कर्मचेतनारूप कर्मफलचेतनारूप है जो अशुद्ध परिणति  
 उसे मिटानेका अभ्यास करना है—“परम नैष्कर्म्य अवलम्बे” मैं शुद्ध चैतन्यस्वरूप जीव  
 हूँ। सकल कर्मकी उपाधिसे रहित ऐसा मेरा स्वरूप मुझे स्वानुभव प्रत्यक्षसे आस्वादमे  
 आता है। क्या विचार कर ? “सर्व कर्म परिहृत्य” जितना द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्म  
 है उन समस्तका स्वामित्व छोड़कर। अशुद्ध परिणतिका विवरण—“त्रिकालविषय”  
 एक अशुद्ध परिणति अतीत कालके विकल्परूप है जो मैं ऐसा किया ऐसा भोगा इत्यादि  
 रूप है। एक अशुद्ध परिणति आगामी कालके विषयरूप है जो ऐसा करूँगा ऐसा  
 करनेमें ऐसा होगा इत्यादिरूप है। एक अशुद्ध परिणति वर्तमान विषयरूप है जो मैं देव,  
 मैं राजा, मेरे ऐसी रामग्री, मुझे ऐसा सुख अथवा दुःख इत्यादिरूप है। एक ऐसा भी  
 विकल्प है कि “कृतकारितानुमननै” [ कृत ] जो कुछ आपकी है हिंसादि क्रिया  
 [ कारित ] जो अन्य जीवको उपदेश देकर करवाई हों [ अनुमननैः ] जो किसीने  
 सहज ही की हुई क्रियासे सुख मानना। तथा एक ऐसा भी विकल्प है जो “मनोवचन-  
 कार्य” मनमें चिन्तन करना, वचनसे बोलना, शरीरमें प्रत्यक्ष करना। ऐसे विकल्पों-

को परस्पर फैलाने पर उनचास ४६ भेद होते हैं, वे समस्त जीवका स्वरूप नहीं है, पुद्गलकर्मके उदयसे होते हैं ॥३३-२२५॥

भूतकालका विचार इसप्रकार करता है—

**यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं  
मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ।\***

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तत् दुष्कृत मे मिथ्या भवतु” [ तत् दुष्कृतं ] राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणति अथवा ज्ञानावरणादि कर्मपिण्ड [ मे मिथ्या भवतु ] स्वरूपसे भ्रष्ट होते हुए मैंने आपस्वरूप अनुभवा सो अज्ञानपना हुआ । साम्प्रत (अब) ऐसा अज्ञानपना जाओ । ‘मै शुद्धस्वरूप’ ऐसा अनुभव होओ । पापके बहुत भेद हैं, उन्हें कहते हैं—“यत् अहं अकार्षं” [ यत् ] जो पाप [ अहं अकार्षं ] मैंने किया है । “यत् अहं अचीकरं” जो पाप अन्यको उपदेश देकर कराया है । तथा “अन्यं कुर्वन्तं समन्वज्ञासिषं” सहज ही किया है अन्य किसीने, उसमें मैंने सुख माना होवे “मनसा” मनसे “वाचा” वचनसे “कायेन” शरीरसे । यह सब जीवका स्वरूप नहीं है । इसलिए मैं तो स्वामी नहीं हूँ । इसका स्वामी तो पुद्गलकर्म है । ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव अनुभवता है ।

( आर्या )

**मोहाद्यदहमकार्षं समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य ।**

**आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥३४-२२६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अहं आत्मना आत्मनि वर्ते” [ अहं ] चेतनामात्र स्वरूप हूँ जो मैं वस्तु वह मैं [ आत्मना ] अपनेपनेसे (अपने द्वारा) [ आत्मनि वर्ते ] रागादि अशुद्ध परिणति त्यागकर अपने शुद्ध स्वरूपमें अनुभवरूप प्रवर्तता हूँ । कैसा है आत्मा अर्थात् आप ? “नित्य चैतन्यात्मनि” [ नित्यं ] सर्व काल [ चैतन्यात्मनि ] ज्ञान-मात्र स्वरूप है । और कैसा है ? “निःकर्मणि” समस्त कर्मकी उपाधिसे रहित है । क्या करता हुआ ऐसे प्रवर्तता हूँ ? “तत्समस्त कर्म प्रतिक्रम्य” पहले किया है जो कुछ अशुद्ध-पनारूप कर्म उसका त्यागकर । कौन कर्म ? “यत् अहं अकार्षं” जो आप किया है ।

\* श्री ममयमारकी आत्मख्याति-टीकाका यह भाग गद्यरूप है, पद्यरूप अर्थात् कनशा रूप नहीं है, इसलिये उनको नम्बर नहीं दिया गया है ।

किस कारणसे ? “मोहात्” शुद्धस्वरूपसे अष्ट होकर कर्मके उदयमें आत्मबुद्धि होनेसे ॥३४-२२६॥

वर्तमान कालकी आलोचना इस प्रकार है—

**न करोमि न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि  
मनसा च वाचा च कायेन चेति ।\***

खण्डान्वय सहित अर्थ—“न करोमि” वर्तमान कालमें होता है जो राग-द्वेषरूप अशुद्ध परिणति अथवा ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मबन्ध, उसको मैं नहीं करता हूँ। भावार्थ इस प्रकार है—मेरा स्वामित्वपना नहीं है ऐसा अनुभवता है सम्यग्दृष्टि जीव। “न कारयामि” अन्यको उपदेश देकर नहीं करवाता हूँ। “अन्यं कुर्वन्त अपि न समनुजानामि” अपनेसे सहज अशुद्धपनारूप परिणामता है जो कोई जीव उसमें मैं सुख नहीं मानता हूँ “मनसा” मनसे “वाचा” वचनसे “कायेन” शरीरसे। सर्वथा वर्तमान कर्मका मेरे त्याग है।

( आर्या )

**मोहविलासविजृम्भितमिदमुदयत्कर्म सकलमालोच्य ।**

**आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥३५-२२७॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अह आत्मना आत्मनि नित्य वर्ते” [ अहं ] में [ आत्मना ] परद्रव्यकी सहाय बिना अपनी सहायसे [ आत्मनि ] अपनेमें [ वर्ते ] सर्वथा उपादेय बुद्धिमें प्रवर्तता हूँ। क्या करके ? “इद सकलं कर्म उदयत् आलोच्य” [ इदं ] वर्तमानमें उपस्थित [ सकलं कर्म ] जितना अशुद्धपना अथवा ज्ञानावरणादि कर्मपिण्डरूप पुद्गल जो कि [ उदयत् ] वर्तमान कालमें उदयरूप है उसका [ आलोच्य ] शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं है ऐसा विचार करते हुए स्वामित्वपना छोड़कर। कैसा है कर्म ? “मोहविलासविजृम्भित” [ मोह ] मिथ्यात्वके [ विलास ] प्रभुत्वपनेके कारण [ विजृम्भितं ] फँला हुआ है। कैसा हूँ मैं आत्मा ? “चैतन्यात्मनि” शुद्ध चेतनामात्र स्वरूप हूँ और कैसा हूँ ? “निष्कर्मणि” समस्त कर्मकी उपाधिसे रहित हूँ ॥३५-२२७॥

भविष्य कर्मका प्रत्याख्यान करता है—



**न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञा-  
स्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ।\***

खण्डान्वय सहित अर्थ—“न करिष्यामि” आगामी कालमें रागादि अशुद्ध परिणामोंको नहीं करूँगा “न कारयिष्यामि” न कराऊँगा “अन्य कुर्वन्तं न समनुज्ञास्यामि” [ अन्यं कुर्वन्तं ] सहज ही अशुद्ध परिणतिको करता है जो कोई जीव उसको [ न समनुज्ञास्यामि ] अनुमोदन नहीं करूँगा “मनसा” मनसे “वाचा” वचनसे “कायेन” शरीरसे ।

( आर्या )

**प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्तं निरस्तसम्मोहः ।**

**आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥३६-२२८॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“निरस्तसम्मोहः आत्मना आत्मनि नित्यं वर्ते” [ निरस्त ] गई है [ सम्मोहः ] मिथ्यात्वरूप अशुद्ध परिणति जिसकी ऐसा हूँ जो मैं सो [ आत्मना ] अपने ज्ञानके बलसे [ आत्मनि ] अपने स्वरूपमें [ नित्यं वर्ते ] निरन्तर अनुभवरूप प्रवर्तता हूँ । कैसा है आत्मा अर्थात् आप ? “चैतन्यात्मनि” शुद्ध चेतनामात्र है । और कैसा है ? “निष्कर्मणि” समस्त कर्मकी उपाधिसे रहित है । क्या करके आत्मामें प्रवर्तता हूँ ? “भविष्यत् समस्तं कर्म प्रत्याख्याय” [ भविष्यत् ] आगामी काल-सम्बन्धी [ समस्त कर्म ] जितने रागादि अशुद्ध विकल्प है वे [ प्रत्याख्याय ] शुद्ध स्वरूपसे अन्य है ऐसा जानकर अंगीकाररूप स्वामित्वको छोड़कर ॥३६-२२८॥

( उपजाति )

**समस्तमित्येवमपास्य कर्म**

**त्रैकालिकं शुद्धनयावलंबी ।**

**विलीनमोहो रहितं विकारै-**

**श्चिन्मात्रमात्मानमथावलंबे ॥३७-२२९॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अथ विलीनमोहः चिन्मात्रं आत्मानं अवलम्बे” [ अथ ] अशुद्ध परिणतिके मिटनेके उपरान्त [ विलीनमोहः ] मूलसे ही मिटा है मिथ्यात्व परिणाम

जिसका ऐसा मैं [ चिन्मात्रं आत्मानं अवलम्बे ] ज्ञानस्वरूप जीव वस्तुको निरन्तर आस्वादाता हूँ। कैसा आस्वादाता हूँ? “विकारैः रहित” जो राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणतिसे रहित है। ऐसा कैसा हूँ मैं? “शुद्धनयावलम्बी” [ शुद्धनय ] शुद्ध जीव वस्तुका [ अवलम्बी ] आलम्बन ले रहा हूँ, ऐसा हूँ। क्या करता हुआ ऐसा हूँ? “इत्येवं समस्तं कर्म अपास्य” [ इत्येवं ] पूर्वोक्त प्रकारसे [ समस्तं कर्म ] जितने है ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म रागादि भावकर्म उन्हे [ अपास्य ] जीवसे भिन्न जानकर-स्वीकारको त्यागकर। कैसा है रागादि कर्म? “त्रैकालिक” अतीत अनागत वर्तमान काल-सम्बन्धी है ॥३७-२२६॥

( आर्या )

**विगलन्तु कर्मविषतरुफलानि मम भुक्तिमन्तरेणैव ।**

**संचेतयेऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानम् ॥३८-२३०॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अह आत्मान सञ्चेतये” मैं शुद्ध चिद्रूपको—अपनेको आस्वादाता हूँ। कैसा है आत्मा अर्थात् आप? “चैतन्यात्मानं” ज्ञानस्वरूपमात्र है। और कैसा है? “अचल” अपने स्वरूपसे स्थलित नहीं है। अनुभवका फल कहते हैं—“कर्म विषतरुफलानि मम भुक्ति अन्तरेण एव विगलन्तु” [ कर्म ] ज्ञानावरणादि पुद्गल-पिण्डरूप [ विषतरु ] विषका वृक्ष—क्योंकि चैतन्य प्राणका घातक है—उसके [ फलानि ] फल अर्थात् उदयकी सामग्री [ मम भुक्ति अन्तरेण एव ] मेरे भोगे बिना ही [ विगलन्तु ] मूलसे सत्तासहित नाश होओ। भावार्थ इस प्रकार है कि कर्मका उदय है सुख अथवा दुःख, उसका नाम है कर्मफलचेतना, उससे भिन्न स्वरूप आत्मा ऐसा जानकर सम्यग्दृष्टि जीव अनुभव करता है ॥३८-२३०॥

( वसन्ततिलका )

**निःशेषकर्मफलसंन्यसनात्ममेव**

**सर्वक्रियान्तरविहारनिवृत्तवृत्तेः ।**

**चैतन्यलक्ष्म भजतो भृशमात्मतत्त्वं**

**कालावलीयमचलस्य वहृत्वनन्ता ॥३९-२३१॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“मम एवं अनन्ता कालावली वहृत्” [ मम ] मुझे [ एवं ] कर्मचेतना कर्मफलचेतनासे रहित होकर शुद्ध ज्ञानचेतना सहित विराजमानपनेसे

[ अनन्ता कालावली बहत्तु ] अनन्तकाल यों ही पूरा होओ। भावार्थ इस प्रकार है कि कर्मचेतना कर्मफलचेतना हेय, ज्ञानचेतना उपादेय। कैसा हूँ मैं ? “सर्वक्रियान्तरविहार-निवृत्तवृत्तेः” [ सर्व ] अनन्त ऐसी [ क्रियान्तर ] शुद्ध ज्ञानचेतनासे ग्रन्थ-कर्मके उदय अशुद्ध परिणति, उसमें [ विहार ] विभावरूप परिणमता है जीव, उससे [ निवृत्त ] रहित ऐसी है [ वृत्तेः ] ज्ञानचेतनामात्र प्रवृत्ति जिसकी, ऐसा हूँ। किस कारणसे ऐसा हूँ ? निःशेषकर्मफलसंन्यसनात्” [ निःशेष ] समस्त [ कर्म ] ज्ञानावरणादिके [ फल ] संसारसम्बन्धी सुख-दुःखके [ संन्यसनात् ] स्वामित्वपनेके त्यागके कारण। और कैसा हूँ ? “शुशं आत्मतत्त्वं भजतः” [ शुशं ] निरन्तर [ आत्मतत्त्वं ] शुद्ध चैतन्य वस्तुका [ भजतः ] अनुभव है जिसको, ऐसा हूँ। कैसा है आत्मतत्त्व ? “चैतन्यलक्ष्म” शुद्ध ज्ञानस्वरूप है। और कैसा है ? “अचलस्य” आगामी अनन्तकाल तक स्वरूपसे अमिट है ॥३६-२३१॥

( वसन्ततिलका )

यः पूर्वभावकृतकर्मविषद्रुमाणां

भुंक्ते फलानि न खलु स्वत एव तृः ।

आपातकालरमणीयमुदकर्म्म्यं

निष्कर्मशर्ममयमेति दशान्तरं सः ॥४०-२३२॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“यः खलु पूर्वभावकृतकर्मविषद्रुमाणां फलानि न भुंक्ते” [ यः ] जो कोई सम्यग्दृष्टि जीव [ खलु ] सम्यक्त्व उत्पन्न हुए बिना [ पूर्वभाव ] मिथ्यात्वभावके द्वारा [ कृत ] उपार्जित [ कर्म ] ज्ञानावरणादि पुद्गलपिण्डरूपी [ विषद्रुम ] चैतन्य प्राणघातक विषवृक्षके [ फलानि ] संसारसम्बन्धी सुख-दुःखको [ न भुंक्ते ] नहीं भोगता है। भावार्थ इस प्रकार है कि सुख-दुःखका ज्ञायकमात्र है, परन्तु पर द्रव्यरूप जानकर रंजक नहीं है। कैसा है सम्यग्दृष्टि जीव ? “स्वतः एव तृप्तः” शुद्ध स्वरूपके अनुभवनेपर होता है अतीन्द्रिय सुख, उससे तृप्त अर्थात् समाधानरूप है। “सः दशान्तरं एति” [ सः ] वह सम्यग्दृष्टि जीव [ दशान्तरं ] निःकर्म अवस्थारूप निर्वाणपदको [ एति ] प्राप्त करता है। कैसी है दशान्तर ? “आपातकालरमणीयं” वर्तमानकालमें अनन्तसुख विराजमान है। “उदकर्म्म्यं” आगामी अनन्तकाल तक सुख-रूप है। और कैसी है अवस्थान्तर ? “निःकर्मशर्ममयं” सकलकर्मका विनाश होनेपर

प्रगट होता है जो द्रव्यका सहजभूत अतीन्द्रिय अनन्त सुख, उसमय है—उससे एक सत्तारूप है ॥४०-२३२॥

( स्रग्धरा )

**अत्यन्तं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च  
प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसंचेतनायाः ।  
पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसंचेतनां स्वां  
सानन्दं नाटयन्तः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिवन्तु । ४१-२३३।**

खण्डान्वय महित अर्थ—“इतः प्रशमरस सर्वकालं पिवन्तु” [ इतः ] यहाँ से लेकर [ सर्वकालं ] आगामी अनन्तकाल पर्यन्त [ प्रशमरसं पिवन्तु ] अतीन्द्रिय सुखको आस्वादी । वे कौन ? “स्वा ज्ञानसञ्चेतना सानन्द नाटयन्तु” [ स्वां ] आपसम्बन्धी है जो [ ज्ञानसञ्चेतनां ] शुद्ध ज्ञानमात्र परिणति, उसको [ सानन्दं नाटयन्तः ] आनन्द सहित नचाने है अर्थात् अतीन्द्रिय सुखसहित ज्ञानचेतनारूप परिणामते है, ऐसे है जो जीव । क्या करके ? “स्वभाव पूर्णं कृत्वा” [ स्वभावं ] केवल ज्ञान उसको [ पूर्णं कृत्वा ] आवरण सहित था मो निरावरण किया । कैसा है स्वभाव ? “स्वरसपरिगतं” चेतनारसका निधान है । और क्या करके ? “कर्मणः च तत्फलात् अत्यन्त विरति भावयित्वा” [ कर्मणः ] जानावरणादि कर्मसे [ च ] और [ तत्फलात् ] कर्मके फल सुख-दुःखसे [ अत्यन्तं ] अतिशयरूपसे [ विरतिं ] शुद्ध स्वरूपसे भिन्न है ऐसा अनुभव होनेपर स्वामित्वपनेके त्यागको [ भावयित्वा ] भाकर अर्थात् ऐसा सर्वथा निश्चय करके “अविरतं” जिस प्रकार एक समयमात्र खण्ड न होवे उस प्रकार सर्वकाल । और क्या करके ? “अखिलाज्ञानसञ्चेतनाया प्रलयन प्रस्पष्ट नाटयित्वा” सर्वं मोह-राग-द्वेषरूप अशुद्ध परिणतिका भले प्रकार विनाश करके । भावार्थ इस प्रकार है कि मोह-राग-द्वेष-परिणति विनशती है, शुद्ध ज्ञानचेतना प्रगट होती है, अतीन्द्रिय सुखरूप जीव परिणामता है । इतना कार्य जब होता है तब एक ही साथ होता है ॥४१-२३३॥

( वशस्थ )

**इतः पदार्थप्रथनावगुण्ठनाद्-  
विना कृतेरेकमनाकुलं ज्वलत् ।**

**समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयाद्-**

**विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥४२-२३४॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“इतः इह ज्ञानं अवतिष्ठते” [ इतः ] अज्ञानचेतनाके विनाश होनेके उपरान्त [ इह ] आगामी सर्वकाल [ ज्ञानं ] शुद्ध ज्ञानमात्र जीववस्तु [ अवतिष्ठते ] विराजमान प्रवर्तती है। कैसा है ज्ञान (ज्ञानमात्र जीववस्तु) ? “विवेचितं” सर्वकाल समस्त परद्रव्यसे भिन्न है। किस कारणसे ऐसा जाना ? “समस्तवस्तुव्यतिरेक-निश्चयात्” [ समस्तवस्तु ] जितनी परद्रव्यकी उपाधि है उससे [ व्यतिरेक ] सर्वथा भिन्नरूप ऐसी है [ निश्चयात् ] श्रवश्य द्रव्यकी शक्ति उसके कारण। कैसा है ज्ञान ? “एकं” समस्त भेद विकल्पसे रहित है। और कैसा है ? “अनाकुल” अनाकुलत्वलक्षण है अतीन्द्रिय मुख उससे विराजमान है। और कैसा है ? “ज्वलत्” सर्वकाल प्रकाशमान है। ऐसा क्यों है ? “पदार्थप्रथनावगुण्ठनात् विना” [ पदार्थ ] जितने विषय उनका [ प्रथना ] विस्तार-पाँच बरग पाँच रस दो गन्ध आठ स्पर्श शरीर मन वचन सुख-दुःख इत्यादि-उसका [ अवगुण्ठनात् ] मालारूप गूँथना, उससे [ विना ] रहित है अर्थात् सर्वमालासे भिन्न है जीववस्तु। कैसी है विषयमाला ? “कृतेः” पुद्गल द्रव्यकी पर्याय-रूप है ॥४२-२३४॥

( शाङ्खलविक्रीडित )

**अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं बिभ्रत्पृथक्वस्तुता-  
मादानोज्झनशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम् ।**

**मध्याद्यन्तविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः**

**शुद्धज्ञानघनो यथाऽस्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ।४३-२३५।**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“एतत् ज्ञान तथा अवस्थितं यथा अस्य महिमा नित्यो-दितं तिष्ठति” [ एतत् ज्ञानं ] शुद्ध ज्ञान [ तथा अवस्थितं ] उस प्रकार प्रगट हुआ [ यथा अस्य महिमा ] जिस प्रकार शुद्ध ज्ञानका प्रकाश [ नित्योदितः तिष्ठति ] आगामी अनन्त काल पर्यन्त अविनश्वर जैसा है वैसा ही रहेगा। कैसा है ज्ञान ? “अमल” ज्ञानावरण कर्ममलसे रहित है। और कैसा है ज्ञान ? “आदानोज्झनशून्यं” [ आदान ] परद्रव्यका ग्रहण [ उज्झन ] स्वस्वरूपका त्याग उनसे [ शून्यं ] रहित है। और कैसा है ज्ञान ? “पृथक् वस्तुता बिभ्रत्” सकल परद्रव्यसे भिन्न सत्तारूप है। और कैसा है ? “अन्येभ्यः व्यतिरिक्तं” कर्मके उदयसे है जितने भाव उनसे भिन्न है। और कैसा है ? “आत्म-

नियत" अपने स्वरूपसे अमित है। कैसी है ज्ञानकी महिमा? "मध्याद्यन्तविभागमुक्त-सहजस्फारप्रभासुरः" [ मध्य ] वर्तमान [ आदि ] पहला [ अन्त ] आगामी ऐसे [ विभाग ] भेदसे [ मुक्त ] रहित [ सहज ] स्वभावरूप [ स्फारप्रभा ] अनन्त ज्ञान-शक्तिसे [ भासुरः ] साक्षात् प्रकाशमान है। और कैसा है? "शुद्धज्ञानघनः" चेतनाका समूह है ॥४३-२३५॥

( उपजाति )

**उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्**

**तथात्मादेयमशेषतस्तत् ।**

**यदात्मनः संहृतसर्वशक्तेः**

**पूर्णस्य संधारणमात्मनीह ॥४४-२३६॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“यत् आत्मनः इह आत्मनि सन्धारण” [ यत् ] जो [ आत्मनः ] अपने जीवका [ इह आत्मनि ] अपने स्वरूपसे [ सन्धारणं ] स्थिर होना है “तत्” एतावन्मात्र समस्त ‘उन्मोच्य उन्मुक्त’ जितना हेयरूपसे छोड़ना था सो छूटा। “अशेषत” कुछ छोड़नेके लिए बाकी नहीं रहा। “तथा तत् आदेयं अशेषत आत्त” [ तथा ] उसी प्रकार [ तत् आदेयं ] जो कुछ ग्रहण करनेके लिए था [ अशेषतः आत्त ] सो समस्त ग्रहण किया। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूपका अनुभव सर्व कार्य-सिद्धि। कैसा है आत्मा? “सहनसर्वशक्तेः” [ संहृत ] विभावरूप परिणामे थे वे ही हुए है स्वभावरूप ऐसे हैं [ सर्वशक्तिः ] अनन्तगुण जिसके, ऐसा है। और कैसा है? “पूर्णस्य” जैसा था वैसा प्रगट हुआ ॥४४-२३६॥

( अनुष्टुप् )

**व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितम् ।**

**कथमाहारकं तत्स्याद्येन बेहोऽस्य शक्यते ॥४५-२३७॥\***

श्लोकार्थ—“एवं” इस प्रकार (पूर्वोक्त रीतिसे) “ज्ञान परद्रव्यात् व्यतिरिक्तं अवस्थित” ज्ञान पर द्रव्यसे पृथक् अवस्थित (-निश्चल रहा हुआ) है, “तत्” वह (ज्ञान) “आहारक” आहारक (अर्थात् कर्म-नोकर्मरूप आहार करनेवाला) “कथ स्यात्” कैसे

\* पण्डित श्री राजमलजी कृत टीकामे यह श्लोक छूट गया है। अत उक्त श्लोक अर्थ सहित, हिन्दी समयसारके आध्यात्मे यहाँ दिया गया है।

हो सकता है “येन” कि जिससे “अस्य देहः शक्यते” उसके देहकी शंका की जा सके ? ( ज्ञानके देह हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके कर्म-नोकर्मरूप आहार ही नहीं है ) ॥४५-२३७॥

( अनुष्टुप् )

**एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ।**

**ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिंगं मोक्षकारणम् ॥४६-२३८॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ततः देहमयं लिङ्गं ज्ञातुः मोक्षकारणं न” [ ततः ] तिस कारणसे [ देहमयं लिङ्गं ] द्रव्यक्रियारूप यतिपना अथवा गृहस्थपना [ ज्ञातुः ] जीवके [ मोक्षकारणं न ] सकल कर्मक्षयलक्षणा मोक्षका कारण तो नहीं है । किस कारणसे ? कारण कि “एवं शुद्धस्य ज्ञानस्य” पूर्वोक्त प्रकारसे साधा है जो शुद्धस्वरूप जीव उसके “देह एव न विद्यते” शरीर ही नहीं है अर्थात् शरीर है वह भी जीवका स्वरूप नहीं है । भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्यादृष्टि जीव द्रव्यक्रियाको मोक्षका कारण मानता है उसे समझाया है ॥४६-२३८॥

( अनुष्टुप् )

**दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयात्मा तत्त्वमात्मनः ।**

**एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुमुक्षुणा ॥४७-२३९॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“मुमुक्षुणा एक एव मोक्षमार्गः सदा सेव्यः” [ मुमुक्षुणा ] मोक्षको उपादेय अनुभवता है ऐसा जो पुरुष, उसके द्वारा [ एक एव ] शुद्धस्वरूपका अनुभव [ मोक्षमार्गः ] सकल कर्मके विनाशका कारण है ऐसा जानकर [ सदा सेव्यः ] निरन्तर अनुभव करने योग्य है । वह मोक्षमार्ग क्या है ? “आत्मनः तत्त्वं” शुद्ध जीवका स्वरूप है । और कैसा है आत्मतत्त्व ? “दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयात्मा” सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य उन तीन स्वरूपकी एक सत्ता है आत्मा ( सर्वस्व ) जिसका, ऐसा है ॥४७-२३९॥

( शार्ङ्गलविक्रीडित )

**एको मोक्षपथो य एष नियतो दृग्जप्तित्वत्त्यात्मक-**

**स्तन्नैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति ।**

**तस्मिन्नेव निरन्तरं विरहति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन्  
सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरात्स्मित्योदयं विन्दति ॥४८-२४०॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“सः नित्योदयं समयस्य सारं अचिरात् अवश्यं विंदति”  
[ सः ] ऐसा है जो सम्यग्दृष्टि जीव वह [ नित्योदयं ] नित्य उदयरूप [ समयस्य सारं ]  
सकल कर्मका विनाशकर प्रगट हुआ है जो शुद्ध चैतन्यमात्र उसको [ अचिरात् ] अति  
ही थोड़े कालमें [ अवश्यं विन्दति ] सर्वथा आस्वादता है। भावार्थ इस प्रकार है कि  
निर्वाणपदको प्राप्त होता है। कैसा है ? “यः तत्र एव स्थिति एति” [ यः ] जो सम्यग्-  
दृष्टि जीव [ तत्र ] शुद्ध चैतन्यमात्र वस्तुमें [ एव ] एकाग्र होकर [ स्थिति एति ] स्थिरता  
करता है, “च त अनिशं ध्यायेत्” [ च ] तथा [ तं ] शुद्ध चिद्रूपको [ अनिशं ध्यायेत् ]  
निरन्तर अनुभवता है, “च त चेतति” [ तं चेतति ] बार बार उस शुद्धस्वरूपका स्मरण  
करता है [ च ] और “तस्मिन् एव निरन्तरं विहरति” [ तस्मिन् ] शुद्ध चिद्रूपमें [ एव ]  
एकाग्र होकर [ निरन्तरं विहरति ] अखण्ड धाराप्रवाहरूप प्रवर्तता है। कैसा होता हुआ ?  
“द्रव्यान्तराणि अस्पृशन्” जितनी कर्मके उदयसे नाना प्रकारकी अशुद्ध परिणति उसको  
सर्वथा छोड़ता हुआ। वह चिद्रूप कौन है ? “य एषः दृग्जितवृत्तात्मकः” [ यः एषः ]  
जो यह ज्ञानके प्रत्यक्ष है [ दृग् ] दर्शन [ ज्ञप्ति ] ज्ञान [ वृत्त ] चारित्र्य, वही है  
[ आत्मकः ] सर्वस्व जिसका, ऐसा है। और कैसा है ? “मोक्षपथः” जिसके शुद्धस्वरूप  
परिणामनेपर सकल कर्मोंका क्षय होता है। और कैसा है ? “एकः” समस्त विकल्पसे  
रहित है। और कैसा है ? “नियत” द्रव्याधिकदृष्टिसे देखनेपर जैसा है वैसा ही है, उससे  
हीनरूप नहीं है, अधिक नहीं है ॥४८-२४०॥

( शार्दूलविक्रीडित )

**ये त्वेनं परिहृत्य संवृतिपथप्रस्थापितेनात्मना  
लिंगोद्भवमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युताः ।  
नित्योद्योतमखण्डमेकमतुलालोकं स्वभावप्रभा-  
प्राग्भारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यन्ति ते ॥४९-२४१॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ते समयस्य सार अद्यापि न पश्यन्ति” [ ते ] ऐसी  
है मिथ्यादृष्टि जीवराशि वह [ समयस्य सारं ] सकल कर्मोंसे विमुक्त है जो परमात्मा  
उसे [ अद्यापि ] द्रव्यव्रत धारण किया है, बहुतसे शास्त्र पढ़े हैं तो भी [ न पश्यन्ति ]



नहीं प्राप्त होती है। भावार्थ इस प्रकार है कि निर्वाण पदको नहीं प्राप्त होती है। कैसा है समयसार ? “नित्योद्योत” सर्वकाल प्रकाशमान है। और कैसा है ? “अखण्ड” जैसा था वैसा है। और कैसा है ? “एक” निर्विकल्प सत्तारूप है। और कैसा है ? “अतुलालोक” जिसकी उपमाका दृष्टान्त तीन लोकमें कोई नहीं है। और कैसा है ? “स्वभावप्रभाप्रारंभारं” [ स्वभाव ] चेतनास्वरूप उसका [ प्रभा ] प्रकाश उसका [ प्रारंभारं ] एक पुंज है। और कैसा है ? “अमल” कर्ममलसे रहित है। कैसी है वह मिथ्यादृष्टि जीवराशि ? ‘ये लिङ्गे ममतां वहन्ति’ [ ये ] जो कोई मिथ्यादृष्टि जीवराशि [ लिङ्गे ] द्रव्यक्रियामात्र है जो यतिपना उसमें [ ममतां वहन्ति ] मैं यति हूँ, हमारी क्रिया मोक्षमार्ग है ऐसी प्रतीति करती है। कैसा है लिङ्ग ? “द्रव्यमये” शरीरसम्बन्धी है—बाह्य क्रियामात्रका अवलम्बन करता है। कैसे है वे जीव ? “तत्त्वावबोधच्युताः” [ तत्त्व ] जीवका शुद्ध स्वरूप उसका [ अवबोध ] प्रत्यक्षपने अनुभव उससे [ च्युताः ] अनादि कालसे भ्रष्ट हैं। द्रव्यक्रियाको करते हुए आपको कैसे मानते है ? “संवृतिपथ-प्रस्थापितेन आत्मना” [ संवृतिपथ ] मोक्षमार्गमें [ प्रस्थापितेन आत्मना ] अपनेको स्थापित किया है अर्थात् मैं मोक्षमार्गमें चढा हूँ ऐसा मानते है, ऐसा अभिप्राय रखकर क्रिया करते है। क्या करके ? “एनं परिहृत्य” शुद्ध चैतन्यस्वरूपका अनुभव छोड़कर। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूपका अनुभव मोक्षमार्ग है ऐसी प्रतीति नहीं करते है ॥४६-२४१॥

( वियोगिनी )

**व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः ।**

**तुषबोधविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तन्दुलम् । ५०-२४२॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“जना.” कोई ऐसे है मिथ्यादृष्टि जीव जो “परमार्थ” शुद्ध ज्ञान मोक्षमार्ग है ऐसी प्रतीतिको “नो कलयन्ति” नहीं अनुभवते है। कैसे है ? “व्यवहारविमूढदृष्टयः” [ व्यवहार ] द्रव्यक्रियामात्र उसमें [ विमूढ ] क्रिया मोक्षका मार्ग है इस प्रकार मूर्खपनेरूप भ्रूठी है [ दृष्टयः ] प्रतीति जिनकी, ऐसे है। दृष्टान्त कहते है—जिस प्रकार “लोके” वर्तमान कर्मभूमिमें ‘तुषबोधविमुग्धबुद्धयः जना.” [ तुष ] धानके ऊपरके तुषमात्रके [ बोध ] ज्ञानसे—ऐसे ही मिथ्याज्ञानसे [ विमुग्ध ] विकल हुई है [ बुद्धयः ] मति जिनकी, ऐसे है [ जनाः ] कितने ही मूर्ख लोग। “इह” वस्तु जैसी

है वैसी ही है तथापि अज्ञानपनेसे “तुषं कलयन्ति” तुषको अंगीकार करते हैं, “तन्दुलं न कलयन्ति” चावलके मर्मको नहीं प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार जो कोई क्रियामात्रको मोक्षमार्ग जानते है, आत्माके अनुभवसे शून्य हैं वे भी ऐसे ही जानने ॥५०-२४२॥

( स्वागता )

**द्रव्यालिंगममकारमीलितै-**

**दृश्यते समयसार एव न ।**

**द्रव्यालिंगमिह यत्किलान्यतो**

**ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः ॥५१-२४३॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“द्रव्यालिंगममकारमीलितैः समयसार. न दृश्यते एव” [ द्रव्यालिंग ] क्रियारूप यतिपना [ ममकार ] मैं यति, मेरा यतिपना मोक्षका मार्ग ऐसा जो अभिप्राय उसके कारण [ मीलितैः ] अन्धे हुए है अर्थात् परमार्थ दृष्टिसे शून्य हुए है जो पुरुष उन्हे [ समयसारः ] शुद्ध जीववस्तु [ न दृश्यते ] प्राप्तिगोचर नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि मोक्षकी प्राप्ति उनके लिए दुर्लभ है। किस कारणसे ? “यत् द्रव्यालिंग इह अन्यत. हि इद एकं ज्ञान स्वतः” [ यत् ] जिस कारणसे [ द्रव्य लिंगं ] क्रियारूप यतिपना [ इह ] शुद्ध ज्ञानका विचार करनेपर [ अन्यतः ] जीवसे भिन्न है, पुद्गलकर्म-सम्बन्धी है। इस कारण द्रव्यालिंग हेय है और [ हि ] जिस कारण [ इदं ] अनुभव-गोचर [ एकं ज्ञानं ] शुद्ध ज्ञानमात्र वस्तु [ स्वतः ] अकेला जीवका सर्वस्व है, इसलिए उपादेय है, मोक्षका मार्ग है। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध जीवके स्वरूपका अनुभव अवश्य करना योग्य है ॥५१-२४३॥

( मालिनी )

**अलमलमतिजल्पैर्दुर्विकल्पैरनल्प-**

**रयमिह परमार्थश्चेत्यतां नित्यमेकः ।**

**स्वरसविसरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्रा-**

**अ खलु समयसारादुत्तरं किञ्चिदस्ति ॥५२-२४४॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“इह अय एकः परमार्थ. नित्य चेत्यतां” [ इह ] सर्व तात्पर्य ऐसा है कि [ अय एकः परमार्थः ] बहुत प्रकारसे कहा है तथापि कहेंगे शुद्ध जीवके अनुभवरूप अकेला मोक्षका कारण उसको [ नित्य चेत्यतां ] अन्य जो नाना प्रकारके

अभिप्राय उन समस्तको भेटकर इसी एकको नित्य अनुभवो । वह कौन परमार्थ ? “खलु समयसारात् उत्तरं किञ्चित् न अस्ति” [ खलु ] निश्चयसे [ समयसारात् ] शुद्ध जीवके स्वरूपके अनुभवके समान [ उत्तरं ] इष्टक्रिया अथवा सिद्धान्तका पढना लिखना इत्यादि [ किञ्चित् न अस्ति ] कुछ नहीं है अर्थात् शुद्ध जीवस्वरूपका अनुभव मोक्षमार्ग सर्वथा है, अन्य समस्त मोक्षमार्ग सर्वथा नहीं है । कैसा है समयसार ? “स्वरसविसरपूर्णाज्ञान-विस्फूर्तिमात्रात्” [ स्वरस ] चेतनाके [ विसर ] प्रवाहसे [ पूर्ण ] सम्पूर्ण ऐसा [ ज्ञान-विस्फूर्ति ] केवलज्ञानका प्रगटपना [ मात्रात् ] इतना है स्वरूप जिसका, ऐसा है । आगे ऐसा मोक्षमार्ग है, इससे अधिक कोई मोक्षमार्ग कहता है वह बहिरात्मा है, उसे वर्जित करते हैं—“अतिजल्पः अलं अलं” [ अतिजन्यैः ] बहुत बोलनेसे [ अलं अलं ] बस करो बस करो । यहाँ दो बारके कहनेसे अत्यन्त वर्जित करते हैं कि चुप रहो चुप रहो । कैसे है अतिजल्प ? “दुर्विकल्पः” झूठसे भी झूठ उठती है चित्तकल्लोलमाला जिनमें, ऐसे है । और कैसे है ? “अनल्पः” शक्तिभेदसे अनन्त हैं ॥५२-२४४॥

( अनुष्टुप् )

**इदमेकं जगच्चक्षुरक्षयं याति पूर्णताम् ।**

**विज्ञानघनमानन्दमयमध्यक्षतां नयत् ॥५३-२४५॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“इदं पूर्णतां याति” शुद्ध ज्ञानप्रकाश पूर्ण होता है । भावार्थ इस प्रकार है कि जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकारका आरम्भ किया था वह पूर्ण हुआ । कैसा है शुद्ध ज्ञान ? “एक” निर्विकल्प है । और कैसा है ? “जगच्चक्षुः” जितनी श्रेय वस्तु उन सबका ज्ञाता है । और कैसा है ? “अक्षय” शाश्वत है । और कैसा है ? “विज्ञानघनं मध्यक्षतां नयत्” [ विज्ञान ] ज्ञानमात्रके [ घनं ] समूहरूप आत्मद्रव्यको [ अध्यक्षतां नयत् ] प्रत्यक्षरूपसे अनुभवता हुआ ॥५३-२४५॥

( अनुष्टुप् )

**इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम् ।**

**अखण्डमेकमचलं स्वसंवेद्यमबाधितम् ॥५४-२४६॥#**

● पण्डित श्री राजमलजी कृत टीका में यह श्लोक छूट गया है । घन यह श्लोक हिन्दी समयसार से लेकर अर्थ सहित यहाँ दिया गया है ।

खण्डान्वय सहित अर्थ—“इदम् आत्मनः तत्त्वं ज्ञानमात्रम् अवस्थितम् इति” [ इदम् ] प्रत्यक्ष है जो [ आत्मनः तत्त्वं ] शुद्ध जीवका स्वरूप वह [ ज्ञानमात्रम् ] शुद्ध-ज्ञानमात्र है ऐसा [ अवस्थितम् इति ] पूर्ण नाटक समयसार शास्त्र कहनेपर इतना सिद्धांत सिद्ध हुआ। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्धज्ञानमात्र जीवद्रव्य ऐसा कहने पर ग्रन्थ सम्पूर्ण हुआ। कैसा है आत्मतत्त्व ? “अखण्डम्” अबाधित है। और कैसा है ? “एकम्” निर्विकल्प है। और कैसा है ? “अचलं” अपने स्वरूपसे अमिट है। और कैसा है ? “स्वसवेद्यम्” ज्ञान गुणसे स्वानुभवगोचर होता है, अन्यथा कोटि यत्न करनेपर ग्राह्य नहीं है। और कैसा है ? “अबाधितम्” सकल कर्मसे भिन्न होनेपर कोई बाधा करनेको समर्थ नहीं है इस कारण ॥५४-२४६॥



[ ११ ]

## स्याद्वाद-अधिकार

( अत्रुष्टुप )

अत्र स्याद्वादशुद्धयर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः ।

उपायोपेयभावश्च मनाग्भूयोऽपि चिन्त्यते ॥१-२४७॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“भूयः अपि मनाक् चिन्त्यते” [ भूयः अपि ] ज्ञानमात्र जीवद्रव्य ऐसा कहता हुआ समयसार नाम शास्त्र समाप्त हुआ । तदुपरान्त [ मनाक् चिन्त्यते ] कुछ थोड़ासा अर्थ दूसरा कहते हैं । भावार्थ इस प्रकार है कि जो गाथासूत्रका कर्ता है कुन्दकुन्दाचार्यदेव, उनके द्वारा कथित गाथासूत्रका अर्थ सम्पूर्ण हुआ । साम्प्रत टीकाकर्ता है अमृतचन्द्र सूरि, उन्होंने टीका भी कही । तदुपरान्त अमृतचन्द्र सूरि कुछ कहते हैं । क्या कहते हैं—“वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः” [ वस्तु ] जीवद्रव्यका [ तत्त्व ] ज्ञानमात्र स्वरूप [ व्यवस्थितिः ] जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं । “च” और क्या कहते हैं—“उपायोपेयभावः” [ उपाय ] मोक्षका कारण जिस प्रकार है उस प्रकार [ उपेयभावः ] सकल कर्मोंका विनाश होनेपर जो वस्तु निष्पन्न होती है उस प्रकार कहते हैं । कहनेका प्रयोजन क्या ऐसा कहते हैं—“अत्र स्याद्वादशुद्धयर्थं” [ अत्र ] ज्ञानमात्र जीवद्रव्यमे [ स्याद्वादशुद्धयर्थं ] स्याद्वाद—एक सत्तामे अस्तित्नास्ति एक-अनेक नित्य-अनित्य इत्यादि अनेकान्तपना [ शुद्धि ] ज्ञानमात्र जीवद्रव्यमें जिस प्रकार घटित हो उस प्रकार [ अर्थ ] कहनेका है अभिप्राय जहाँ ऐसे प्रयोजनस्वरूप कहते हैं । भावार्थ इस प्रकार है कि कोई आशका करता है कि जैनमत स्याद्वादमूलक है । यहाँ तो ज्ञानमात्र जीवद्रव्य ऐसा कहा सो ऐसा कहते हुए एकान्तपना हुआ, स्याद्वाद तो प्रगट हुआ है नही ? उत्तर इस प्रकार है कि ज्ञानमात्र जीवद्रव्य ऐसा कहते हुए अनेकान्तपना घटित होता है । जिस प्रकार घटित होता है उस प्रकार यहाँ से लेकर कहते हैं, सावधान होकर सुनो ॥१-२४७॥

( शास्त्रं लविक्रीडित )

**बाह्यार्थः परिपीतमुज्झितनिजप्रव्यक्तिरिक्तीभवद्  
विश्रान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति ।  
यत्तत्तद्विह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुन-  
र्दूरोन्मग्नघनस्वभावभरतः पूर्ण समुन्मज्जति ॥२-२४८॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ— भावार्थ इस प्रकार है कि जो ज्ञानमात्र जीवका स्वरूप है उसमे भी चार प्रश्न विचारणीय है । वे प्रश्न कौन ? एक तो प्रश्न ऐसा कि ज्ञान ज्ञेयके सहारेका है कि अपने सहारेका है ? दूसरा प्रश्न ऐसा कि ज्ञान एक है कि अनेक है ? तीसरा प्रश्न ऐसा कि ज्ञान अस्तिरूप है कि नास्तिरूप है ? चौथा प्रश्न ऐसा कि ज्ञान नित्य है कि अनित्य है ? उनका उत्तर इस प्रकार है कि जितनी वस्तु हैं वे सब द्रव्यरूप हैं, पर्यायरूप है । इसलिए ज्ञान भी द्रव्यरूप है, पर्यायरूप है । उसका विवरण— द्रव्यरूप कहनेपर निर्विकल्प ज्ञानमात्र वस्तु, पर्यायरूप कहने पर स्वज्ञेय अथवा परज्ञेयको जानता हुआ ज्ञेयकी आकृति-प्रतिबिम्बरूप परिगमता है जो ज्ञान । भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञेयको जाननेरूप परिगति ज्ञानकी पर्याय, इसलिए ज्ञानको पर्यायरूपसे कहनेपर ज्ञान ज्ञेयके सहारेका है । (ज्ञानको) वस्तुमात्रसे कहनेपर अपने सहारेका है । एक प्रश्नका समाधान तो इस प्रकार है । दूसरे प्रश्नका समाधान इस प्रकार है कि ज्ञानको पर्यायमात्रसे कहनेपर ज्ञान अनेक है, वस्तुमात्रसे कहने पर एक है । तीसरे प्रश्नका उत्तर इस प्रकार है कि ज्ञानको पर्यायरूपसे कहनेपर ज्ञान नास्तिरूप है, ज्ञानको वस्तुरूपसे विचारनेपर ज्ञान अस्तिरूप है । चौथे प्रश्नका उत्तर इस प्रकार है कि ज्ञानको पर्यायमात्रसे कहनेपर ज्ञान अनित्य है, वस्तुमात्रसे कहनेपर ज्ञान नित्य है । ऐसा प्रश्न करनेपर ऐसा समाधान करना, स्याद्वाद इसका नाम है । वस्तुका स्वरूप ऐसा ही है तथा इस प्रकार साधनेपर वस्तुमात्र सधती है । जो कोई मिथ्यादृष्टि जीव वस्तुको वस्तुरूप है तथा वही वस्तु पर्यायरूप है ऐसा नहीं मानते है, सर्वथा वस्तुरूप मानते है अथवा सर्वथा पर्यायमात्र मानते हैं वे जीव एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि कहे जाते है । कारण कि वस्तुमात्रको माने बिना पर्यायमात्रके माननेपर पर्यायमात्र भी नहीं सधती है, वहाँ अनेक प्रकार साधन-बाधन है, अवसर पाकर कहेंगे । अथवा पर्यायरूप माने बिना वस्तुमात्र माननेपर वस्तुमात्र भी नहीं सधती है । वहाँ भी अनेक युक्तियाँ हैं । अवसर पाकर कहेंगे । इसी बीच कोई मिथ्यादृष्टि जीव ज्ञानको पर्यायरूप मानता है, वस्तुरूप नहीं मानता है ।

ऐसा मानता हुआ ज्ञानको ज्ञेयका सहारेका मानता है, उसके प्रति समाधान इस प्रकार है कि इस प्रकार तो एकान्तरूपसे ज्ञान सधता नहीं। इसलिए ज्ञान अपने सहारेका है ऐसा कहते हैं—“पशोः ज्ञानं सीदति” [ पशोः ] एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जैसा मानता है कि ज्ञान पर ज्ञेयके सहारेका है सो ऐसा माननेपर [ ज्ञानं ] शुद्ध जीवकी सत्ता [ सीदति ] नष्ट होती है अर्थात् अस्तित्वपना वस्तुरूपताको नहीं पाता है। भावार्थ इस प्रकार है कि एकान्तवादीके कथनानुसार वस्तुका अभाव सधता है, वस्तुपना नहीं सधता। कारण कि मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा मानता है। कंसा है ज्ञान ? “बाह्यार्थः परिपीत” [ बाह्यार्थः ] ज्ञेय वस्तुके द्वारा [ परिपीतं ] सर्व प्रकार निगला गया है। भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा मानता है कि ज्ञान वस्तु नहीं है, ज्ञेयसे है। सो भी उसी क्षण उपजता है, उसी क्षण विनशता है। जिस प्रकार घटज्ञान घटके सद्भावमें है। प्रतीति इस प्रकार होती है कि जो घट है तो घटज्ञान है। जब घट नहीं था तब घटज्ञान नहीं था। जब घट नहीं होगा तब घटज्ञान नहीं होगा। कोई मिथ्यादृष्टि जीव ज्ञानवस्तुको बिना माने ज्ञानको पर्यायमात्र मानता हुआ ऐसा मानता है। और ज्ञानको कंसा मानता है—“उज्झितनिजप्रव्यक्तिरिक्तीभवत्” [ उज्झित ] मूलसे नाश हो गया है [ निबप्रव्यक्ति ] ज्ञेयके जानपनेमात्रसे ज्ञान ऐसा पाया हुआ नाममात्र, उस कारण [ रिक्तीभवत् ] ज्ञान ऐसे नामसे भी विनष्ट हो गया है ऐसा मानता है मिथ्यादृष्टि एकान्तवादी जीव। और ज्ञानको कंसा मानता है—“परितः पररूपे एव विश्रान्तं” [ परितः ] मूलसे लेकर [ पररूपे ] ज्ञेय वस्तुरूप निमित्तमे [ एव ] एकान्तसे [ विश्रान्तं ] विश्रान्त हो गया—ज्ञेयसे उत्पन्न हुआ, ज्ञेयसे नष्ट हो गया। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार भीतमें चित्राम जब भीत नहीं थी तब नहीं था, जब भीत है तब है, जब भीत नहीं होगी तब नहीं होगा। इससे प्रतीति ऐसी उत्पन्न होती है कि चित्रके सर्वस्वका कर्ता भीत है। उसी प्रकार जब घट है तब घटज्ञान है, जब घट नहीं था तब घटज्ञान नहीं था, जब घट नहीं होगा तब घटज्ञान नहीं होगा। इससे ऐसी प्रतीति उत्पन्न होती है कि ज्ञानके सर्वस्वका कर्ता ज्ञेय है। कोई अज्ञानी एकान्तवादी ऐसा मानता है, इसलिए ऐसे अज्ञानीके मतमे ज्ञान वस्तु ऐसा नहीं पाया जाता। स्याद्वादीके मतमें ज्ञानवस्तु ऐसा पाया जाता है। “पुन स्याद्वादिन. तत् पूर्णं समुन्मज्जति” [ पुनः ] एकान्तवादी कहता है उस प्रकार नहीं है, स्याद्वादी कहता है उस प्रकार है। [ स्याद्वादिनः ] एक सत्ताको द्रव्यरूप तथा पर्यायरूप मानते है ऐसे जो सम्यग्दृष्टि जीव

उनके मतमें [ तत् ] ज्ञानवस्तु [ पूर्ण ] जैसी जैयसे होती कही, विनशती कही वैसी नहीं है, जैसी है वैसी ही है, जैयसे भिन्न स्वयसिद्ध अपनेसे है । [ समुन्मज्जति ] एकान्तवादीके मतमें मूलसे लोप हो गया था वही ज्ञान स्याद्वादीके मतमें ज्ञान वस्तुरूप प्रगट हुआ । किस कारणसे प्रगट हुआ ? “दूरोन्मग्नघनस्वभावभरतः” [ दूर ] अनादिसे लेकर [ उन्मग्न ] स्वयसिद्ध वस्तुरूप प्रगट है ऐसा [ घन ] अमित [ स्वभाव ] ज्ञानवस्तुका सहज उसके [ भरतः ] न्याय करनेपर, अनुभव करनेपर ऐसा ही है ऐसे सत्यपनेके कारण । कैसा न्याय कैसा अनुभव ये दोनों जिस प्रकार होते हैं उस प्रकार कहते हैं—“यत् तत् स्वरूपतः तत् इति” [ यत् ] जो वस्तु [ तत् ] वह वस्तु [ स्वरूपतः तत् ] अपने स्वभावसे वस्तु है । [ इति ] ऐसा अनुभव करनेपर अनुभवभी उत्पन्न होता है, युक्ति भी प्रगट होती है । अनुभव निर्विकल्प है । युक्ति ऐसी कि ज्ञानवस्तु द्रव्यरूपसे विचार करनेपर अपने स्वरूप है, पर्यायरूपसे विचार करनेपर जैयसे है । जिस प्रकार ज्ञानवस्तु द्रव्यरूपसे ज्ञानमात्र है पर्यायरूपसे घटज्ञानमात्र है, इसलिए पर्यायरूपसे देखनेपर घटज्ञान जिस प्रकार कहा है, कि घटके सद्भावमें है, घटके नही होने पर नही है—वैसे ही है । द्रव्यरूपसे अनुभव करनेपर घटज्ञान ऐसा न देखा जाय, ज्ञान ऐसा देखा जाय तो घटसे भिन्न अपने स्वरूपमात्र स्वयसिद्ध वस्तु है । इस प्रकार अनेकान्तके साधने पर वस्तु-स्वरूप सधता है । एकान्तसे जो घट घटज्ञानका कर्ता है, ज्ञानवस्तु नही है तो ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रकार घटके पास बैठे पुष्पको घटज्ञान होता है उसी प्रकार जिस किसी वस्तुको घटके पास रखा जाय उसे घटज्ञान होना चाहिए । ऐसा होनेपर स्तम्भके पास घटके होनेपर स्तम्भको घटज्ञान होना चाहिए सो (-परन्तु ) ऐसा तो नहीं दिखाई देता । तिस कारण ऐसा भाव प्रतीतिमें आता है कि जिसमें ज्ञानशक्ति विद्यमान है उसको घटके पास बैठकर घटके देखने विचारनेपर घटज्ञानरूप इस ज्ञानकी पर्याय परिणामी है । इसलिए स्याद्वाद वस्तुका साधक है, एकान्तपना वस्तुका नाशकर्ता है ॥२-२४८॥

( गार्हो लविक्रीडित )

विश्वं ज्ञानमिति प्रतर्क्य सकलं दृष्ट्वा स्वतत्त्वाशया  
भूत्वा विश्वमयः पशुः पशुरिव स्वच्छन्दमाचेष्टते ।

यत्तत्त्परूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुन-

विश्वाद्भिन्नमविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत् ॥३-२४९॥



**खण्डान्वय सहित अर्थ**—भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्यादृष्टि ऐसा है जो ज्ञानको द्रव्यरूप मानता है, पर्यायरूप नहीं मानता है। इसलिए जिस प्रकार जीवद्रव्यको ज्ञानवस्तुरूपसे मानता है उस प्रकार ज्ञेय जो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश कालद्रव्य उनको भी ज्ञेय वस्तु नहीं मानता है, ज्ञानवस्तु मानता है। उसके प्रति समाधान इस प्रकार है कि ज्ञान ज्ञेयको जानता है ऐसा ज्ञानका स्वभाव है तथापि ज्ञेयवस्तु ज्ञेयरूप है, ज्ञानरूप नहीं है—“पशु. स्वच्छन्दं आचेष्टते” [ पशुः ] एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जीव [ स्वच्छन्दं ] स्वेच्छाचाररूप—कुछ हेयरूप कुछ उपादेयरूप ऐसा भेद नहीं करता हुआ, समस्त त्रैलोक्य उपादेय ऐसी बुद्धि करता हुआ—[ आचेष्टते ] ऐसी प्रतीति करता हुआ निःशंकपने प्रवर्तता है। किसके समान ? [ पशुः इव ] तिर्यञ्चके समान। कैसा होकर प्रवर्तता है ? [ विश्वमयः भूत्वा ] ‘अहं विश्व’ ऐसा जान आप विश्वरूप हो प्रवर्तता है। ऐसा क्यों है ? कारण कि “सकलं स्वतत्त्वाशया दृष्ट्वा” [ सकलं ] समस्त ज्ञेयवस्तुको [ स्वतत्त्वाशया ] ज्ञानवस्तुकी बुद्धिरूपसे [ दृष्ट्वा ] प्रगाढ प्रतीतिकर। ऐसी प्रगाढ प्रतीति क्यों होती है ? कारण कि “विश्वं ज्ञानं इति प्रतक्यं” त्रैलोक्यरूप जो कुछ है वह ज्ञानवस्तुरूप है ऐसा जानकर। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानवस्तु पर्यायरूपमे ज्ञेयाकार होती है सो मिथ्यादृष्टि पर्यायरूप भेद नहीं मानता है, समस्त ज्ञेयको ज्ञानवस्तुरूप मानता है। उसके प्रति उत्तर इस प्रकार है कि ज्ञेयवस्तु ज्ञेयरूप है, ज्ञानरूप नहीं है। यही कहते हैं—“पुनः स्याद्वाददर्शी स्वतत्त्वं स्पृशेत्” [ पुनः ] एकान्तवादी जिस प्रकार कहता है उस प्रकार ज्ञानको वस्तुपना नहीं सिद्ध होता है। स्याद्वादी जिस प्रकार कहता है उस प्रकार वस्तुपना ज्ञानको सधता है। कारण कि एकान्तवादी ऐसा मानता है कि समस्त ज्ञानवस्तु है, सो इसके माननेपर लक्ष्य-लक्षणका अभाव होता है, इसलिए लक्ष्य-लक्षणका अभाव होनेपर वस्तुकी सत्ता नहीं सधती है। स्याद्वादी ऐसा मानता है कि ज्ञानवस्तु है, उसका लक्षण है—समस्त ज्ञेयका जानपना, इसलिए इसके कहनेपर स्वभाव सधता है, स्वस्वभावके सधनेपर वस्तु सधती है, अतएव ऐसा कहा जो स्याद्वाददर्शी [ स्वतत्त्वं स्पृशेत् ] वस्तुको द्रव्य-पर्यायरूप मानता है, ऐसा स्याद्वाददर्शी अर्थात् अनेकांतवादी जीव ज्ञान वस्तु है ऐसा साधनेके लिए समर्थ होता है। स्याद्वादी ज्ञानवस्तुको कैसी मानता है ? “विश्वात् भिन्नं” [ विश्वात् ] समस्त ज्ञेयसे [ भिन्नं ] निराला है। और कैसा मानता है ? “अविश्वविश्वघटितं” [ अविश्व ] समस्त ज्ञेयसे भिन्नरूप [ विश्व ] अपने द्रव्य-गुण-पर्यायसे [ घटितं ] जैसा है वैसा अनादिसे स्वयंसिद्ध निष्पन्न है—ऐसी

है शानवस्तु । ऐसा क्यों मानता है ? “यत् तत्” जो जो वस्तु है “तत् पररूपतः न तत्” वह वस्तु पर वस्तुकी अपेक्षा वस्तुरूप नहीं है । भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार शानवस्तु ज्ञेयरूपसे नहीं है, ज्ञानरूपसे है । उसी प्रकार ज्ञेयवस्तु भी शानवस्तुसे नहीं है, ज्ञेयवस्तुरूप है । इसलिए ऐसा अर्थ प्रगट हुआ कि पर्यायद्वारसे ज्ञान विस्वरूप है, द्रव्यद्वारसे आपरूप है । ऐसा भेद स्याद्वादी अनुभवता है । इसलिए स्याद्वाद वस्तुस्वरूपका साधक है, एकान्तपना वस्तुका घातक है ॥३-२४६॥

( शाङ्खलविकीर्तित )

**बाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतो विष्वग्विचित्रोल्लसद्  
ज्ञेयाकारविशीर्णशक्तिरभितस्त्रुटघन् पशुर्नश्यति ।**

**एकद्रव्यतया सदा व्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसय-**

**ज्ञेकं ज्ञानमबाधितानुभवनं पश्यत्यनेकान्तवित् ॥४-२५०॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ— भावार्थ इस प्रकार है कि कोई एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जीव पर्यायमात्रको वस्तु मानता है, वस्तुको नहीं मानता है, इसलिए ज्ञानवस्तु अनेक ज्ञेयको जानती है, उसको जानती हुई ज्ञेयाकार परिणामती है ऐसा जानकर ज्ञानको अनेक मानता है, एक नहीं मानता है । उसके प्रति उत्तर इस प्रकार है कि एक ज्ञानको माने बिना अनेक ज्ञान ऐसा नहीं सघता है, इसलिए ज्ञानको एक मानकर अनेक मानना वस्तुका साधक है ऐसा कहते हैं—“पशुः नश्यति” एकांतवादी वस्तुको नहीं साध सकता है । कैसा है ? “अभित. त्रुटघन्” जैसा मानता है उस प्रकार वह झूठा ठहरता है । और कैसा है ? “विष्वग्विचित्रोल्लसद्ज्ञेयाकारविशीर्णशक्तिः” [ विश्वक् ] जो अनन्त है [ विचित्र ] अनन्त प्रकारका है [ उल्लसत् ] प्रगट विद्यमान है ऐसा जो [ ज्ञेय ] छह द्रव्योंका समूह उसके [ आकार ] प्रतिबिम्बरूप परिणामी है ऐसी जो ज्ञानपर्याय [ विशीर्णशक्तिः ] एतावन्मात्र ज्ञान है ऐसी श्रद्धा करनेपर गल गई है वस्तु साधनेकी सामर्थ्य जिसकी, ऐसा है मिथ्यादृष्टि जीव । ऐसा क्यों है ? “बाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतः” [ बाह्यार्थ ] जितनी ज्ञेय वस्तु उनका [ ग्रहण ] जानपना, उसकी आकृतिरूप ज्ञानका परिणाम ऐसा जो है [ स्वभाव ] वस्तुका सहज जो कि [ भरतः ] किसीके कहनेसे वर्जा न जाय (छूटे नहीं) ऐसा अमितपना, उसके कारण । भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानका स्वभाव है कि समस्त ज्ञेयको जानता हुआ ज्ञेयके आकाररूप परिणामना । कोई एकान्त-

वादी एतावन्मात्र वस्तुको जानता हुआ ज्ञानको अनेक मानता है । उसके प्रति स्याद्वादी ज्ञानका एकपना साधता है—“अनेकांतविद् ज्ञानं एकं पश्यति” [ अनेकांतविद् ] एक सत्ताको द्रव्य-पर्यायरूप मानता है ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव [ ज्ञानं एकं पश्यति ] ज्ञानवस्तु यद्यपि पर्यायरूपसे अनेक है तथापि द्रव्यरूपसे एकरूप अनुभवता है । कैसा है स्याद्वादी ? “भेदभ्रमं ध्वंसयन्” ज्ञान अनेक है ऐसे एकान्त पक्षको नहीं मानता है । किस कारणसे ? “एकद्रव्यतया” ज्ञान एक वस्तु है ऐसे अभिप्रायके कारण । कैसा है अभिप्राय ? “सदा व्युदितया” सर्वकाल उदयमान है । कैसा है ज्ञान ? “अबाधितानुभवनं” अखण्डित है अनुभव जिसमें, ऐसी है ज्ञानवस्तु ॥४-२५०॥

( शार्ङ्गलविन्नेहित )

**ज्ञेयाकारकलंकमेचकचिति प्रक्षालनं कल्पय-  
न्नेकाकारचिकीर्षयास्फुटमपि ज्ञानं पशुर्नेच्छति ।  
वैचित्र्येऽप्यविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतःक्षालितं  
पर्यायैस्तदनेकतां परिभूशन्पश्यत्यनेकांतवित् ॥५-२५१॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्यादृष्टि एकांतवादी ऐसा है कि वस्तुको द्रव्यरूप मात्र मानता है, पर्यायरूप नहीं मानता है । इसलिए ज्ञानको निर्विकल्प वस्तुमात्र मानता है, ज्ञेयाकार परिणतिरूप ज्ञानकी पर्याय नहीं मानता है, इसलिए ज्ञेय वस्तुको जानते हुए ज्ञानका अशुद्धपना मानता है । उसके प्रति स्याद्वादी ज्ञानका द्रव्यरूप एक पर्यायरूप अनेक ऐसा स्वभाव साधता है ऐसा कहते हैं—“पशुः ज्ञानं न इच्छति” [ पशुः ] एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जीव [ ज्ञानं ] ज्ञानमात्र जीववस्तुको [ न इच्छति ] नहीं साध सकता है—अनुभवगोचर नहीं कर सकता है । कैसा है ज्ञान ? “स्फुटं अपि” प्रकाशरूपसे प्रगत है यद्यपि । कैसा है एकांतवादी ? “प्रक्षालनं कल्पयन्” कलंक प्रक्षालनेका अभिप्राय करता है । किसमें ? “ज्ञेयाकारकलङ्कमेचकचिति” [ ज्ञेय ] जितनी ज्ञेयवस्तु है उस [ आकार ] ज्ञेयको जानते हुए हुआ है उसकी आकृतिरूप ज्ञान ऐसा जो [ कलंक ] कलंक उसके कारण [ मेचक ] अशुद्ध हुआ है, ऐसी है [ चिति ] जीववस्तु, उसमें । भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञेयको जानता है ज्ञान, उसको एकांतवादी मिथ्यादृष्टि जीव स्वभाव नहीं मानता है, अशुद्धपनेरूपसे मानता है । एकान्तवादीका अभिप्राय ऐसा क्यों है ? “एकाकारचिकीर्षया” क्योंकि [ एकाकार ] समस्त ज्ञेयके

जानपनेसे रहित होता हुआ निर्विकल्परूप ज्ञानका परिणाम [ चिकीर्षया ] जब ऐसा होवे तब ज्ञान शुद्ध है ऐसा है अभिप्राय एकांतवादीका । उसके प्रति एक-अनेकरूप ज्ञानका स्वभाव साधता है स्याद्वादी सम्यग्दृष्टि जीव—“अनेकांतविद् ज्ञानं पश्यति” [ अनेकांत-विद् ] स्याद्वादी जीव [ ज्ञानं ] ज्ञानमात्र जीववस्तुको [ पश्यति ] साध सकता है—अनुभव कर सकता है । कैसा है ज्ञान ? “स्वतः क्षालित” सहज ही शुद्धस्वरूप है । स्याद्वादी ज्ञानको कैसा जानकर अनुभवता है ? “तत् वैचित्र्ये अपि अविचित्रतां पर्यायैः अनेकतां उपगतं परिमृशन्” [ तत् ] ज्ञानमात्र जीववस्तु [ वैचित्र्ये अपि अविचित्रतां ] अनेक ज्ञेयाकारकी अपेक्षा पर्यायरूप अनेक है तथापि द्रव्यरूप एक है, [ पर्यायैः अनेकतां उपगतं ] यद्यपि द्रव्यरूप एक है तथापि अनेक ज्ञेयाकाररूप पर्यायकी अपेक्षा अनेकपनाको प्राप्त होती है ऐसे स्वरूपको अनेकांतवादी साध सकता है—अनुभवगोचर कर सकता है । [ परिमृशन् ] ऐसी द्रव्यरूप पर्यायरूप वस्तुको अनुभवता हुआ स्याद्वादी ऐसा नाम प्राप्त करता है ॥५-२५१॥

( शाङ्खलविक्रीडित )

**प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तितावञ्चितः  
स्वद्रव्यानवलोकनेन परितः शून्यः पशुंश्नयति ।  
स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं सद्यः समुन्मज्जता  
स्याद्वादी तु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन् जीवति । ६-२५२।**

खण्डान्वय सहित अर्थ—भावार्थ इस प्रकार है कि कोई एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि ऐसा है जो पर्यायमात्रको वस्तुरूप मानता है, इसलिए ज्ञेयको जानते हुए ज्ञेयाकार परिणामी है जो ज्ञानकी पर्याय उसका, ज्ञेयके अस्तित्वपनेसे अस्तित्वपना मानता है, ज्ञेयसे भिन्न निर्विकल्प ज्ञानमात्र वस्तुको नहीं मानता है । इससे ऐसा भाव प्राप्त होता है कि परद्रव्यके अस्तित्वसे ज्ञानका अस्तित्व है, ज्ञानके अस्तित्वसे ज्ञानका अस्तित्व नहीं है । उसके प्रति उत्तर इस प्रकार कि ज्ञानवस्तुका अपने अस्तित्वसे अस्तित्व है । उसके भेद चार हैं—ज्ञानमात्र जीववस्तु स्वद्रव्यपने अस्ति, स्वक्षेत्रपने अस्ति, स्वकालपने अस्ति, स्वभावपने अस्ति । परद्रव्यपने नास्ति, परक्षेत्रपने नास्ति, परकालपने नास्ति, परभावपने नास्ति । उनका लक्षण—स्वद्रव्य-निर्विकल्प मात्र वस्तु, स्वक्षेत्र-आधारमात्र वस्तु-का प्रदेश, स्वकाल-वस्तुमात्रकी मूल अवस्था, स्वभाव-वस्तुकी मूलकी सहज शक्ति ।

पर द्रव्य-सविकल्प भेद-कल्पना, परक्षेत्र-जो वस्तुका आधारभूत प्रदेश निर्विकल्प वस्तु-मात्ररूपसे कहा था वही प्रदेश सविकल्प भेद कल्पनासे परप्रदेश बुद्धिगोचररूपसे कहा जाता है। परकाल-द्रव्यकी मूलकी निर्विकल्प अवस्था, वही अवस्थान्तर भेदरूप कल्पनासे परकाल कहलाता है। परभाव-द्रव्यकी सहज शक्तिके पर्यायरूप अनेक ग्रंथ द्वारा भेदकल्पना, उसे परभाव कहा जाता है। “पशुः नश्यति” एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जीव जीवस्वरूपको नहीं साध सकता है। कैसा है ? “परितः शून्यः” सर्व प्रकार तत्त्वज्ञानसे शून्य है। किस कारण से ? “स्वद्रव्यानवलोकनेन” [ स्वद्रव्य ] निर्विकल्प वस्तुमात्रके [ अनवलोकनेन ] नहीं प्रतीति करनेके कारण। और कैसा है ? “प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तित्वावश्चितः” [ प्रत्यक्ष ] असहायरूपसे [ आलिखित ] लिखे हुएके समान [ स्फुट ] जैसेका तैसा [ स्थिर ] अमित जो [ परद्रव्य ] ज्ञेयाकार ज्ञानका परिणाम उससे माना जो [ अस्तित्वा ] अस्तित्व उससे [ वश्चितः ] ठगा गया है ऐसा है एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जीव। “तु स्याद्वादी पूर्णो भवन् जीवति” [ तु ] एकांत-वादी कहता है उस प्रकार नहीं है [ स्याद्वादी ] सम्यग्दृष्टि जीव [ पूर्णो भवन् ] पूर्ण होता हुआ [ जीवति ] ज्ञानमात्र जीववस्तु है ऐसा साध सकता है-अनुभव कर सकता है। किसके द्वारा ? “स्वद्रव्यास्तितया” [ स्वद्रव्य ] निर्विकल्प ज्ञानशक्तिमात्र वस्तु उसके [ अस्तितया ] अस्तित्वपनेके द्वारा। क्या करके ? “निपुणं निरूप्य” ज्ञानमात्र जीववस्तुका अपने अस्तित्वसे किया है अनुभव जिसने ऐसा होकर। किसके द्वारा ? “विशुद्धबोधमहसा” [ विशुद्ध ] निर्मल जो [ बोध ] भेदज्ञान उसके [ महसा ] प्रतापके द्वारा। कैसा है ? “सद्यः समुन्मज्जता” उसी कालमें प्रगट होता है ॥६-२५२॥

( शार्दूलविक्रीडित )

**सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासनावासितः**

**स्वद्रव्यभ्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विश्राम्यति ।**

**स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तित्वां**

**जानन्निर्मलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाभ्येतु ॥७-२५३॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा है जो वस्तुको द्रव्यरूप मानता है, पर्यायरूप नहीं मानता है, इसलिए समस्त ज्ञेय वस्तु ज्ञानमें गर्भित मानता है। ऐसा कहता है—उष्णको जानता हुआ ज्ञान उष्ण है, शीतलको जानता हुआ ज्ञान शीतल है। उसके प्रति उत्तर इस प्रकार है कि ज्ञान ज्ञेयका

ज्ञायकमात्र तो है, परन्तु ज्ञेयका गुण ज्ञेयमें है, ज्ञानमें ज्ञेयका गुण नहीं है। वही कहते हैं—“किल पशुः विश्राम्यति” [ किल ] अवश्य कर [ पशुः ] एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जीव [ विश्राम्यति ] वस्तु स्वरूपको साधनेके लिए असमर्थ होता हुआ अत्यन्त खेदखिन्न होता है। किस कारणसे ? “परद्रव्येषु स्वद्रव्यभ्रमतः” [ परद्रव्येषु ] ज्ञेयको जानते हुए ज्ञेयकी आकृतिरूप परिणामता है ज्ञान, ऐसी जो ज्ञानकी पर्याय, उसमें [ स्वद्रव्य ] निर्विकल्प सत्तामात्र ज्ञानवस्तु होनेकी [ भ्रमतः ] होती है भ्रांति। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार उष्णको जानते हुए उष्णकी आकृतिरूप ज्ञान परिणामता है ऐसा देख कर ज्ञानका उष्णस्वभाव मानता है मिथ्यादृष्टि जीव। कैसा होता हुआ ? “दुर्वासनावासितः” [ दुर्वासना ] अनादिका मिथ्यात्व संस्कार उससे [ वासितः ] हुआ है स्वभावसे भ्रष्ट ऐसा। ऐसा क्यों है ? “सर्वद्रव्यमय पुरुषं प्रपद्य” [ सर्वद्रव्य ] जितने समस्त द्रव्य हैं उनका जो द्रव्यपना [ मयं ] उस मय जीव है अर्थात् उनसे समस्त स्वभाव जीवमें हैं ऐसा [ पुरुषं ] जीव वस्तुको [ प्रपद्य ] प्रतीतिरूप मान कर। ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव मानता है। “तु स्याद्वादी स्वद्रव्य आश्रयेत् एव” [ तु ] एकान्तवादी मानता है वैसा नहीं है, स्याद्वादी मानता है वैसा है। यथा—[ स्याद्वादी ] अनेकान्तवादी [ स्वद्रव्यं आश्रयेत् ] ज्ञानमात्र जीववस्तु ऐसा साध सकता है—अनुभव कर सकता है। सम्यग्दृष्टि जीव [ एव ] ऐसा ही है। कैसा है स्याद्वादी ? “समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितया जानन्” [ समस्तवस्तुषु ] ज्ञानमें प्रतिबिम्बित हुआ है समस्त ज्ञेयका स्वरूप, उसमें [ परद्रव्यात्मना ] अनुभवता है ज्ञानवस्तुमें भिन्नपना, उसके कारण [ नास्तितया जानन् ] नास्तितपना अनुभवता हुआ। भावार्थ इस प्रकार है कि समस्त ज्ञेय ज्ञानमें उद्दीपित होता है परन्तु ज्ञेयरूप है, ज्ञानरूप नहीं हुआ है। कैसा है स्याद्वादी ? “निर्मलशुद्धबोधमहिमा” [ निर्मल ] मिथ्यादोषसे रहित तथा [ शुद्ध ] रागादि अशुद्ध परिणतिये रहित ऐसा जो [ बोध ] अनुभवज्ञान उससे है [ महिमा ] प्रताप जिसका ऐसा है ॥७-२५३॥

( शाङ्खलविश्रीडित )

भिन्नक्षेत्रनिषण्णबोध्यनियतव्यापारनिष्ठः सदा  
सीदत्येव बहिः पतंतमभितः पश्यन्पुमांसं पशुः ।  
स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभसः स्याद्वादेवेदी पुन-  
स्तिष्ठत्यात्मनिखातबोध्यनियतव्यापारशक्तिर्भवन् ॥८-२५४॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा है कि जो वस्तुको पर्यायरूप मानता है, द्रव्यरूप नहीं मानता है, इसलिए जितना समस्त वस्तुका है आधारभूत प्रदेशपुञ्ज, उसको जानता है ज्ञान । जानता हुआ उसकी आकृतिरूप परिणामता है ज्ञान । इसका नाम परक्षेत्र है । उस क्षेत्रको ज्ञानका क्षेत्र मानता है । एकांतवादी मिथ्यादृष्टि जीव उस क्षेत्रसे सर्वथा भिन्न है चैतन्य प्रदेशमात्र ज्ञानका क्षेत्र, उसे नहीं मानता है । उसके प्रति समाधान ऐसा कि ज्ञान वस्तु परक्षेत्रको जानती है परन्तु अपने क्षेत्ररूप है । परका क्षेत्र ज्ञानका क्षेत्र नहीं है । वही कहते हैं—“पशुः सीदति एव” [ पशुः ] एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जीव [ सीदति ] श्रोलोंके समान गलता है । ज्ञानमात्र जीववस्तु है ऐसा नहीं साध सकता है । [ एव ] निश्चयसे ऐसा ही है । कैसा है एकान्तवादी ? “भिन्नक्षेत्रनिषण्णबोध्यनियतव्यापारनिष्ठ” [ भिन्नक्षेत्र ] अपने चैतन्य प्रदेशसे अन्य है जो समस्त द्रव्योंका प्रदेशपुञ्ज उससे [ निषण्ण ] उसकी आकृतिरूप परिणामा है ऐसा जो [ बोध्यनियतव्यापार ] ज्ञेय-ज्ञायकका अवश्य सम्बन्ध, उसमें [ निष्ठः ] निष्ठ है अर्थात् एतावन्मात्रको जानता है ज्ञानका क्षेत्र, ऐसा है एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जीव । “सदा” अनादि कालसे ऐसा ही है । और कैसा है मिथ्यादृष्टि जीव ? “अभितः बहिः पतन्त पुमांसं पश्यन्” [ अभितः ] मूलसे लेकर [ बहिः पतन्तं ] परक्षेत्ररूप परिणामा है ऐसे [ पुमांसं ] जीववस्तुको [ पश्यन् ] मानता है—अनुभवता है, ऐसा है मिथ्यादृष्टि जीव । “पुनः स्याद्वादवेदी तिष्ठति” [ पुनः ] एकान्तवादी जैसा कहता है वैसा नहीं है किन्तु [ स्याद्वादवेदी ] अनेकान्तवादी [ तिष्ठति ] जैसा मानता है वैसी वस्तु है । भावार्थ इस प्रकार है कि वह वस्तुको साध सकता है । कैसा है स्याद्वादी ? “स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभस” [ स्वक्षेत्र ] समस्त परद्रव्यसे भिन्न अपने स्वरूप चैतन्यप्रदेश उसकी [ अस्तितया ] सत्त्वरूपसे [ निरुद्धरभसः ] परिणामा है ज्ञानका सर्वस्व जिसका, ऐसा है स्याद्वादी । और कैसा है ? “आत्मनिखातबोध्यनियत व्यापारशक्तिः भवन्” [ आत्म ] ज्ञानवस्तुमें [ निखात ] ज्ञेय प्रतिबिम्बरूप है जो ऐसा [ बोध्यनियतव्यापार ] ज्ञेय-ज्ञायकरूप अवश्य सम्बन्ध, ऐसा [ शक्तिः ] जाना है ज्ञानवस्तुका सहज जिसने ऐसा [ भवन् ] होता हुआ । भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानमात्र जीव वस्तु परक्षेत्रको जानता है ऐसा सहज है । परन्तु अपने प्रदेशोंमें है पराये प्रदेशों में नहीं है ऐसा मानता है स्याद्वादी जीव, इसलिए वस्तुको साध सकता है—अनुभव कर सकता है ॥८-२५४॥

( शाब्दं लविक्रीडित )

**स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोज्ज्वनात्  
तुच्छीभ्य पशुः प्रणश्यति चिदाकारान् सहार्थैर्वमन् ।  
स्याद्वादी तु वसन् स्वधामनि परक्षेत्रे विदन्नास्तितान्  
त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षो परान् ॥६-२५५॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्यादृष्टि एकान्त-वादी जीव ऐसा है कि वस्तुको द्रव्यरूप मानता है, पर्यायरूप नहीं मानता है, इसलिए जेय वस्तुके प्रदेशोंको जानता हुआ ज्ञानको अशुद्धपना मानता है। ज्ञानका ऐसा ही स्वभाव है—वह ज्ञानकी पर्याय है ऐसा नहीं मानता है। उसके प्रति उत्तर ऐसा कि ज्ञान वस्तु अपने प्रदेशोमे है, जेयके प्रदेशोंको जानती है ऐसा स्वभाव है, अशुद्धपना नहीं है ऐसा मानता है स्याद्वादी। यही कहते हैं—“पशुः प्रणश्यति” [ पशुः ] एकान्त-वादी मिथ्यादृष्टि जीव [ प्रणश्यति ] वस्तुमात्र साधनेसे भ्रष्ट है—अनुभव करनेसे भ्रष्ट है। कैसा होकर भ्रष्ट है ? “तुच्छीभ्य” तत्त्वज्ञानसे शून्य होकर। और कैसा है ? “अर्थः सह चिदाकारान् वमन्” [ अर्थः सह ] ज्ञानगोचर है जो जेयके प्रदेश उनके साथ [ चिदाकारान् ] ज्ञानकी शक्तिको अथवा ज्ञानके प्रदेशोको [ वमन् ] मूलसे वमन किया है अर्थात् उनका नास्तिकपना जाना है जिसने ऐसा है। और कैसा है ? “पृथग्विधपर-क्षेत्रस्थितार्थोज्ज्वनात्” [ पृथग्विधि ] पर्यायरूप जो [ परक्षेत्र ] जेय वस्तुके प्रदेशोको जानते हुए होती है उनकी आकृतिरूप ज्ञानकी परिणति उसरूप [ स्थित ] परिणमती जो [ अर्थ ] ज्ञानवस्तु उसको [ उज्ज्वनात् ] ऐसा ज्ञान अशुद्ध है ऐसी बुद्धि कर त्याग करता हुआ, ऐसा है एकान्तवादी। किसके निमित्त जेय परिणति ज्ञानको हेय करती है ? “स्वक्षेत्रस्थितये” [ स्वक्षेत्र ] ज्ञानके चैतन्य प्रदेशकी [ स्थितये ] स्थिरताके निमित्त। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानवस्तु जेयके प्रदेशोके जानपनासे रहित होवे तो शुद्ध होवे ऐसा मानता है एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जीव। उसके प्रति स्याद्वादी कहता है—“तु स्याद्वादी तुच्छता न अनुभवति” [ तु ] एकान्तवादी मानता है वैसा नहीं है, स्याद्वादी मानता है वैसा है। [ स्याद्वादी ] अनेकान्तदृष्टि जीव [ तुच्छतां ] ज्ञानवस्तु जेयके क्षेत्रको जानती है, अपने प्रदेशोंसे सर्वथा शून्य है ऐसा [ न अनुभवति ] नहीं मानता है। ज्ञानवस्तु जेयके क्षेत्रको जानती है, जेय क्षेत्ररूप नहीं है ऐसा मानता है। कैसा है स्याद्वादी ? “त्यक्तार्थः अपि” जेय क्षेत्रकी आकृतिरूप परिणमता है ज्ञान ऐसा



मानता है तो भी ज्ञान अपने क्षेत्ररूप है ऐसा मानता है। और कैसा है स्याद्वादी ? “स्वधामनि वसन्” ज्ञान वस्तु अपने प्रदेशोंमें है ऐसा अनुभवता है। और कैसा है ? “परक्षेत्रे नास्तित्वा विदन्” [ परक्षेत्रे ] ज्ञेय वस्तुकी आकृतिरूप परिणामा है ज्ञान उसमें [ नास्तित्वा विदन् ] नास्तित्वा मानता है अर्थात् जानता है तो जानो तथापि एतावन्मात्र ज्ञानका क्षेत्र नहीं है ऐसा मानता है स्याद्वादी। और कैसा है ? “परात् आकारकर्षी” परक्षेत्रकी आकृतिरूप परिणामी है ज्ञानकी पर्याय, उससे भिन्न रूपसे ज्ञानवस्तुके प्रदेशोंका अनुभव करनेमें समर्थ है, इसलिए स्याद्वाद वस्तुस्वरूपका साधक, एकान्तपना वस्तु-स्वरूपका घातक। इस कारण स्याद्वाद उपादेय है ॥६-२५५॥

( शाङ्खलविकीर्णित )

पूर्वालम्बितबोध्यनाशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन्  
सोदत्येव न किञ्चिनापि कलयन्नत्यन्ततुच्छः पशुः ।  
अस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः  
पूर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि ॥१०-२५६॥

खण्डान्वय महित अर्थ—भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा है जो वस्तुको पर्यायमात्र मानता है, द्रव्यरूप नहीं मानता है। तिस कारण ज्ञेय वस्तुके अतीत अनागत वर्तमान कालसम्बन्धी अनेक अवस्थाभेद हैं, उनको जानते हुए ज्ञानके पर्यायरूप अनेक अवस्था भेद होते हैं। उनमें ज्ञेयसम्बन्धी पहला अवस्थाभेद विनशता है। उस अवस्थाभेदके विनाश होनेपर उसकी आकृतिरूप परिणामा ज्ञान-पर्यायका अवस्थाभेद भी विनशता है। उसके—अवस्थाभेदके विनाश होनेपर एकान्त-वादी मूलसे ज्ञान वस्तुका विनाश मानता है। उसके प्रति समाधान इस प्रकार है कि ज्ञानवस्तु अवस्थाभेदद्वारा विनशती है, द्रव्यरूपसे विचारनेपर अपना जानपनारूप अवस्थाद्वारा शाश्वत है, न उपजती है न विनशती है ऐसा समाधान स्याद्वादी करता है। यही कहते हैं—“पशु, सोदति एव” [ पशुः ] एकान्तवादी [ सोदति ] वस्तुके स्वरूपको साधनेके लिए अष्ट है। [ एव ] अवश्य ऐसा है। कैसा है एकान्तवादी ? “अत्यन्ततुच्छः” वस्तुके अस्तित्वके ज्ञानसे अति ही शून्य है। और कैसा है ? “न किञ्चन अपि कलयन्” [ न किञ्चन ] ज्ञेय अवस्थाका जानपनामात्र ज्ञान है, उससे भिन्न कुछ वस्तुरूप ज्ञानवस्तु नहीं है [ अपि ] अशमात्र भी नहीं है। [ कलयन् ]

ऐसी अनुभवरूप प्रतीति करता है। और कैसा है ? “पूर्वालम्बितबोध्यनाशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन्” [ पूर्ष ] किसी पहले अवसरमे [ आलम्बित ] जानकर उसकी आकृतिरूप हुई जो [ बोध्य ] ज्ञेयाकार ज्ञानपर्याय उसके [ नाशसमये ] विनाशसम्बन्धी किसी अन्य अवसरमें [ ज्ञानस्य ] ज्ञानमात्र जीववस्तुका [ नाशं विदन् ] नाश मानता है। ऐसा है एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जीव। उसको स्याद्वादी सम्बोधन करता है—“पुनः स्याद्वादवेदी पूर्णः तिष्ठति” [ पुनः ] एकान्तदृष्टि जिस प्रकार कहता है उस प्रकार नहीं है, स्याद्वादी जिस प्रकार मानता है उस प्रकार है— [ स्याद्वादवेदी ] अनेकान्त अनुभवशील जीव [ पूर्ण तिष्ठति ] त्रिकालगोचर ज्ञानमात्र जीववस्तु ऐसा अनुभव करता हुआ उस पर दृढ है। कैसा दृढ है ? “बाह्यवस्तुषु मुहुः भूत्वा विनश्यत्सु अपि” [ बाह्यवस्तुषु ] समस्त ज्ञेय अथवा ज्ञेयाकार परिणामे ज्ञानपर्यायके अनेक भेद सो वे [ मुहुः भूत्वा ] अनेक पर्यायरूप होते हैं [ विनश्यत्सु अपि ] अनेक बार विनाशको प्राप्त होते हैं तो भी दृढ रहता है। और कैसा है ? “अस्य निजकालतः अस्तित्व कलयन्” [ अस्य ] ज्ञानमात्र जीववस्तुका [ निजकालतः ] त्रिकाल शाश्वत ज्ञानमात्र अवस्थामे [ अस्तित्वं कलयन् ] वस्तुपना अथवा अस्तित्वपना अनुभवता है स्याद्वादी जीव ॥१०-२५६॥

( शाङ्गलविक्रीडित )

**अर्थालम्बनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य सत्त्वं बहि-  
ज्ञेयालम्बनलालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति ।  
नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुन-  
स्तिष्ठत्यात्मनिखातनित्यसहजज्ञानैकपुं जीभवन् ॥११-२५७॥**

**रूपान्वय सहित अर्थ**—भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्यादृष्टि एकान्त-वादी ऐसा है जो वस्तुको द्रव्यमात्र मानता है, पर्यायरूप नहीं मानता है, इसलिए ज्ञेयकी अनेक अवस्थाओको जानता है ज्ञान। उनको जानता हुआ उन आकृतिरूप परिणामता है ज्ञान। ये समस्त है ज्ञानकी पर्याय, उन पर्यायोको ज्ञानका अस्तित्व मानता है मिथ्यादृष्टि जीव। उसके प्रति समाधान इस प्रकार है कि ज्ञेयकी आकृतिरूप परिणामती हुई जितनी ज्ञानकी पर्याय है उनसे ज्ञानका अस्तित्व नहीं है ऐसा कहते हैं—“पशुः नश्यति” [ पशुः ] एकान्तवादी [ नश्यति ] वस्तुस्वरूपको साधनेसे भ्रष्ट है। कैसा है एकान्तवादी ? “ज्ञेयालम्बनलालसेन मनसा बहि भ्राम्यन्” [ ज्ञेय ] समस्त द्रव्यरूप

[ आलम्बन ] ज्ञेयके अवसर ज्ञानकी सत्ता ऐसा निश्चयरूप [ लालसेन ] है अभिप्राय जिसका ऐसे [ मनसा ] मनसे [ बहिः भ्राम्यन् ] स्वरूपसे बाहर उत्पन्न हुआ है भ्रम जिसको ऐसा है । और कैसा है ? “अर्थालम्बनकाले ज्ञानस्य सत्त्वं कलयन् एव” [ अर्थ ] जीवादि समस्त ज्ञेय वस्तुको [ आलम्बन ] जानते [ काले ] समय ही [ ज्ञानस्य ] ज्ञान-मात्र वस्तुकी [ सत्त्वं ] सत्ता है [ कलयन् ] ऐसा अनुभव करता है । [ एव ] ऐसा ही है । उसके प्रति स्याद्वादी वस्तुकी सिद्धि करता है—“पुनः स्याद्वादवेदी तिष्ठति” [ पुनः ] एकान्तवादी जैसा मानता है वैसा नहीं है, जैसा स्याद्वादी मानता है वैसा है । [ स्याद्वादवेदी ] अनेकान्तवादी [ तिष्ठति ] वस्तुस्वरूप साधनेके लिए समर्थ है । कैसा है स्याद्वादी ? अस्य परकालतः नास्तित्वं कलयन्” [ अस्य ] ज्ञानमात्र जीव वस्तुका [ परकालतः ] ज्ञेयावस्थाके जानपने से [ नास्तित्वं ] नास्तित्वना है ऐसी [ कलयन् ] प्रतीति करता है । स्याद्वादी । और कैसा है ? “आत्मनिखातनित्यसहजज्ञानैकपुञ्जीभवन्” [ आत्म ] ज्ञानमात्र जीववस्तुमें [ निखात ] अनादिसे एक वस्तुरूप [ नित्य ] अविनश्वर [ सहज ] उपाय बिना द्रव्यके स्वभावरूप ऐसी जो [ ज्ञान ] जानपनारूप शक्ति तद्रूप [ एकपुञ्जीभवन् ] मैं जीव वस्तु हूँ, अविनश्वर ज्ञानस्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करता हुआ । ऐसा है स्याद्वादी ॥११-२५७॥

( शादूलविकीरित )

**विधान्तः परभावभावकलनास्रित्यं बहिवस्तुषु  
नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकान्तनिश्चेतनः ।**

**सर्वस्मान्नित्यतस्वभावभवनज्ञानाद्विभक्तो भवन्**

**स्याद्वादी तु न नाश मेति सहअस्पष्टीकृतप्रत्ययः ॥१२-२५८॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—भावार्थ इस प्रकार है कि कोई एकान्तवादी मिथ्या-दृष्टि जीव ऐसा है कि वस्तुको पर्यायमात्र मानता है, द्रव्यरूप नहीं मानता है, इसलिए जितनी समस्त ज्ञेय वस्तुओंके जितने हैं शक्तिरूप स्वभाव उनको जानता है ज्ञान । जानता हुआ उनकी आकृतिरूप परिणामता है । इसलिए ज्ञेयकी शक्तिकी आकृतिरूप हैं ज्ञानकी पर्याय, उनसे ज्ञानवस्तुकी सत्ताको मानता है । उनसे भिन्न है अपनी शक्तिकी सत्तामात्र उसे नहीं मानता है । ऐसा है एकान्तवादी । उसके प्रति स्याद्वादी समाधान करता है कि ज्ञान मात्र जीववस्तु समस्त ज्ञेयशक्तिको जानती है ऐसा सहज है । परन्तु

अपनी ज्ञानशक्तिसे अस्तिरूप है ऐसा कहते हैं—“पशुः नश्यति एव” [ पशुः ] एकान्तवादी [ नश्यति ] वस्तुकी सत्ताको साधनेसे अष्ट है। [ एव ] निश्चयसे। कैसा है एकान्तवादी ? “बहिः वस्तुषु नित्यं विश्रान्तः” [ बहिः वस्तुषु ] समस्त ज्ञेय वस्तुकी अनेक शक्तिकी आकृतिरूप परिणामी है ज्ञानकी पर्याय, उसमें [ नित्यं विश्रान्तः ] सदा विश्रान्त है अर्थात् पर्यायमात्रको जानता है ज्ञानवस्तु, ऐसा है निश्चय जिसका ऐसा है। किस कारणसे ऐसा है ? “परभावभावकलनात्” [ परभाव ] ज्ञेयकी शक्तिकी आकृतिरूप है ज्ञानकी पर्याय उसमें [ भावकलनात् ] अवधार किया है ज्ञानवस्तुका अस्तिपना ऐसे भूटे अभिप्रायके कारण। और कैसा है एकातवादी ? “स्वभावमहिमनि एकान्तनिश्चेतनः” [ स्वभाव ] जीवकी ज्ञानमात्र निजशक्तिके [ महिमनि ] अनादिनिघन शाश्वत प्रतापमें [ एकांतनिश्चेतनः ] एकान्तनिश्चेतन है अर्थात् उससे सर्वथा शून्य है। भावार्थ इस प्रकार है कि स्वरूपसत्ताको नहीं मानता है ऐसा है एकान्तवादी, उसके प्रति स्याद्वादी समाधान करता है—“तु स्याद्वादी नाश न एति” [ तु ] एकान्तवादी मानता है उस प्रकार नहीं है, स्याद्वादी मानता है उस प्रकार है। [ स्याद्वादी ] अनेकान्तवादी [ नाशं ] विनाशको [ न एति ] नहीं प्राप्त होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानमात्र वस्तुकी सत्ताको साध सकता है। कैसा है अनेकान्तवादी जीव ? “सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः” [ सहज ] स्वभाव शक्तिमात्र ऐसा जो अस्तित्व उस सम्बन्धी [ स्पष्टीकृत ] दृढ किया है [ प्रत्ययः ] अनुभव जिसने ऐसा है। और कैसा है ? “सर्वस्मात् नियतस्वभावभवनज्ञानात् विभक्तः भवन्” [ सर्वस्मात् ] जितने है [ नियतस्वभाव ] अपनी अपनी शक्ति विराजमान ऐसे जो ज्ञेयरूप जीवादि पदार्थ उनकी [ भवन ] सत्ताकी आकृतिरूप परिणामी है ऐसी [ ज्ञानात् ] जीवके ज्ञानगुणकी पर्याय, उनसे [ विभक्तः भवन् ] भिन्न है ज्ञानमात्रसत्ता ऐसा अनुभव करता हुआ ॥१२-२५८॥

( शार्ङ्गलविश्रीडित )

**अध्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभावच्युतः**

**सर्वत्राप्यनिवारितो गतभयः स्वैरं पशुः क्रीडति ।**

**स्याद्वादी तु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं भरा-**

**दारूढः परभावभावविरहव्यालोकनिष्कंपितः ॥१३-२५९॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—भावार्थ इस प्रकार है कि कोई एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा है जो वस्तुको द्रव्यमात्र मानता है, पर्यायरूप नहीं मानता है। इसलिए जितनी

हैं ज्ञेय वस्तु, उनकी अनन्त हैं शक्ति, उनको जानता है ज्ञान; जानता हुआ ज्ञेयकी शक्ति-की आकृतिरूप परिणामता है, ऐसा देखकर जितनी ज्ञेयकी शक्ति उतनी ज्ञानवस्तु ऐसा मानता है मिथ्यादृष्टि एकान्तवादी । उसके प्रति ऐसा समाधान करता है स्याद्वादी कि ज्ञानमात्र जीववस्तुका ऐसा स्वभाव है कि समस्त ज्ञेयकी शक्तिको जाने, जानता हुआ उसकी आकृतिरूप परिणामता है । परन्तु ज्ञेयकी शक्ति ज्ञेयमें है, ज्ञानवस्तुमें नहीं है । ज्ञानकी जाननेरूप पर्याय है, इसलिए ज्ञानवस्तुकी सत्ता भिन्न है ऐसा कहते हैं—“पशुः स्वैरं क्रीडति” [ पशुः ] मिथ्यादृष्टि एकान्तवादी [ स्वैरं क्रीडति ] ज्ञेय उपादेय ज्ञानसे रहित होकर स्वेच्छाचाररूप प्रवर्तता है । भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञेयकी शक्तिको ज्ञानसे भिन्न नहीं मानता है । जितनी ज्ञेयकी शक्ति है उसे ज्ञानमें मानकर नाना शक्तिरूप ज्ञान है, ज्ञेय है ही नहीं ऐसी बुद्धिरूप प्रवर्तता है । कैसा है एकान्तवादी ? “शुद्ध-स्वभावच्युतः” [ शुद्धस्वभाव ] ज्ञानमात्र जीववस्तुसे [ च्युतः ] च्युत है अर्थात् उसको विपरीतरूप अनुभवता है । विपरीतपना क्यों है ? “सर्वभावभवनं आत्मनि अध्यास्य” [ सर्व ] जितनी जीवादि पदार्थरूप ज्ञेय वस्तु उनके [ भाव ] शक्तिरूप गुण पर्याय अंश-भेद उनकी [ भवनं ] सत्ताको [ आत्मनि ] ज्ञानमात्र जीव वस्तुमें [ अध्यास्य ] प्रतीति कर । भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानगोचर है समस्त द्रव्यकी शक्ति । उनकी आकृतिरूप परिणामता है ज्ञान, इसलिए सर्व शक्ति ज्ञानकी है ऐसा मानता है । ज्ञेयकी तथा ज्ञानकी भिन्न सत्ता नहीं मानता है । और कैसा है ? “सर्वत्र अपि अनिवारितः गतभयः” [ सर्वत्र ] स्पर्श रस गन्ध वर्ण शब्द ऐसा इन्द्रियविषय तथा मन वचन काय तथा नाना प्रकार ज्ञेयकी शक्ति, इनमें [ अपि ] अवश्य कर [ अनिवारितः ] मैं शरीर, मैं मन, मैं वचन, मैं काय, मैं स्पर्श रस गन्ध वर्ण शब्द इत्यादि परभावको अपना जानकर प्रवर्तता है; [ गतभयः ] मिथ्यादृष्टिके कोई भाव परभाव नहीं है जिससे डर होवे; ऐसा है एकान्तवादी । उसके प्रति समाधान करता है स्याद्वादी—“तु स्याद्वादी विशुद्ध एव लसति” [ तु ] जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि एकान्तवादी मानता है उस प्रकार नहीं है, जिस प्रकार स्याद्वादी मानता है उस प्रकार है—[ स्याद्वादी ] अनेकान्तवादी जीव [ विशुद्ध एव लसति ] मिथ्यात्वसे रहित होकर प्रवर्तता है । कैसा है स्याद्वादी ? “स्वस्य स्वभावं भरात् आरूढः” [ स्वस्य स्वभावं ] ज्ञानवस्तुकी जानपनामात्र शक्ति उसकी [ भरात् आरूढः ] अति ही प्रगाढ़रूपसे प्रतीति करता है । और कैसा है ? “परभावभावविरहव्यालोकनिःकम्पितः” [ परभाव ] समस्त ज्ञेयकी अनेक शक्तिकी आकृतिरूप परिणामता है ज्ञान,

इस रूप [ भाव ] मानता है जो ज्ञान वस्तुका अस्तित्व, तद्रूप [ विरह ] विपरीत बुद्धिके त्यागसे हुई है [ व्यालोक ] सांची दृष्टि, उससे हुआ है [ निष्कम्पितः ] साक्षात् अभिद अनुभव जिसको ऐसा है स्याद्वादी ॥१३-२५६॥

( शाङ्खलविक्रीडित )

प्रादुर्भावविराममुद्रितवहृज्ज्ञानांशानात्मना  
निर्ज्ञानात्क्षणभंगसंगपतितः प्रायः पशुर्नश्यति ।  
स्याद्वादी तु चिदात्मना परिमृशंश्चिद्वस्तु नित्योदितं  
टंकोत्कीर्णघनस्वभावमहिमज्ञानं भवन् जीवति ॥१४-२६०॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—भावार्थ इस प्रकार है कि कोई एकांतवादी मिथ्यादृष्टि ऐसा है जो वस्तुको पर्यायमात्र मानता है, द्रव्यरूप नहीं मानता है, इसलिए अखण्ड धारा-प्रवाहरूप परिणामता है ज्ञान, उसका होता है प्रति समय उत्पाद-व्यय । इसलिए पर्यायका विनाश होने पर जीवद्रव्यका विनाश मानता है । उसके प्रति स्याद्वादी ऐसा समाधान करता है कि पर्यायरूपसे देखनेपर जीव वस्तु उपजती है विनष्ट होती है, द्रव्यरूपसे देखनेपर जीव सदा शाश्वत है । ऐसा कहते हैं—“पशुः नश्यति” [ पशुः ] एकांतवादी जीव [ नश्यति ] शुद्ध जीववस्तुको साधनेसे भ्रष्ट है । कैसा है एकान्तवादी “प्रायः क्षण-भंगसंगपतितः” [ प्रायः ] एकान्तरूपसे [ क्षणभंग ] प्रति समय होनेवाले पर्यायमें विनाशसे [ संगपतितः ] उस पर्यायके साथ-साथ वस्तुका विनाश मानता है । किस कारणसे ? “प्रादुर्भावविराममुद्रितवहृज्ज्ञानांशानात्मना निर्ज्ञानात्” [ प्रादुर्भाव ] उत्पाद [ विराम ] विनाशसे [ मुद्रित ] संयुक्त [ वहृत् ] प्रवाहरूप जो [ ज्ञानांश ] ज्ञान गुराके अविभाग-प्रतिच्छेद उनके कारण हुए [ नानात्मना ] अनेक अवस्थाभेदके [ निर्ज्ञानात् ] जानपनेके कारण । ऐसा है एकान्तवादी, उसके प्रति स्याद्वादी प्रतिबोधता है—“तु स्याद्वादी जीवति” [ तु ] जिस प्रकार एकांतवादी कहता है उस प्रकार एकान्तपना नहीं है । [ स्याद्वादी ] अनेकांतवादी [ जीवति ] वस्तुको साधनेके लिए समर्थ है । कैसा है स्याद्वादी ? “चिद्वस्तु नित्योदित परिमृशन” [ चिद्वस्तु ] ज्ञानमात्र जीववस्तुको [ नित्योदितं ] सर्व काल शाश्वत ऐसा [ परिमृशन ] प्रत्यक्षरूपसे आस्वाद्रूप अनुभवता हुआ । किस रूपसे ? “चिदात्मना” ज्ञानस्वरूप है जीववस्तु उसरूपसे । और कैसा है स्याद्वादी ? “टंकोत्कीर्ण-घनस्वभावमहिमज्ञान भवन्” [ टंकोत्कीर्ण ] सर्व काल एकरूप ऐसे [ घनस्वभाव ] अमिट

लक्षणसे है [ महिमा ] प्रसिद्धि जिसकी ऐसी [ ज्ञान ] जीव वस्तुको [ भवन् ] आप अनुभवता हुआ ॥१४-२६०॥

( शाद्वलविक्रीडित )

**टङ्कोत्कीर्णविशुद्धबोधविसराकारात्मतत्त्वाशया  
वाञ्छत्युच्छलदच्छचित्परिणतेभिन्नं पशुः किञ्चन ।  
ज्ञानं नित्यमनित्यतापरिगमेऽप्यासादयत्युज्ज्वलं  
स्याद्वादी तद्वनित्यतां परिमृशंश्चिद्वस्तुवृत्तिक्रमात् ॥१५-२६१॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्यादृष्टि एकांतवादी ऐसा है जो वस्तुको द्रव्यरूप मानता है, पर्यायरूप नहीं मानता है, इस कारण समस्त ज्ञेयको जानता हुआ ज्ञेयाकार परिणामता है ज्ञान उसको अशुद्धपना मानता है एकांतवादी, ज्ञानको पर्यायपना नहीं मानता है। उसका समाधान स्याद्वादी करता है कि ज्ञानवस्तुको द्रव्यरूपसे देखनेपर नित्य है, पर्यायरूपसे देखने पर अनित्य है, इसलिए समस्त ज्ञेयको जानता है ज्ञान, जानता हुआ ज्ञेयकी आकृतिरूप ज्ञानकी पर्याय परिणामती है ऐसा ज्ञानका स्वभाव है, अशुद्धपना नहीं है। ऐसा कहते हैं—“पशुः उच्छलदच्छचित्परिणते भिन्नं किञ्चन वाञ्छति” [ पशुः ] एकान्तवादी [ उच्छलत् ] ज्ञेयका ज्ञाता होकर पर्यायरूप परिणामता है उत्पादरूप तथा व्ययरूप ऐसी [ अच्छ ] अशुद्धपनासे रहित ऐसी जो [ चित्परिणतेः ] ज्ञान गुणकी पर्याय उससे [ भिन्नं ] ज्ञेयको जाननेरूप परिणतिके बिना वस्तुमात्र कूटस्थ होकर रहे [ किञ्चन वाञ्छति ] ऐसा कुछ विपरीतपना मानता है एकान्तवादी। ज्ञानको ऐसा करना चाहता है—“टङ्कोत्कीर्णविशुद्धबोधविसराकारात्मतत्त्वाशया” [ टङ्कोत्कीर्ण ] सर्व काल एक समान, [ विशुद्ध ] समस्त विकल्पसे रहित [ बोध ] ज्ञानवस्तुके [ विसराकार ] प्रवाहरूप [ आत्मतत्त्व ] जीववस्तु हो [ आशया ] ऐसा करनेकी अभिलाषा करता है। उसका समाधान करता है स्याद्वादी—“स्याद्वादी ज्ञानं नित्यं उज्ज्वल आसादयति” [ स्याद्वादी ] अनेकान्तवादी [ ज्ञानं ] ज्ञानमात्र जीववस्तुको [ नित्यं ] सर्वकाल एक समान [ उज्ज्वलं ] समस्त विकल्पसे रहित [ आसादयति ] स्वादरूप अनुभवता है। “अनित्यतापरिगमे अपि” यद्यपि उसमें पर्यायद्वारा अनित्यपना घटित होता है। कैसा है स्याद्वादी ? “तत् चिद्वस्तु अनित्यता परिमृशन्” [ तत् ] पूर्वोक्त [ चिद्वस्तु ] ज्ञानमात्र जीवद्रव्यको [ अनित्यतां परिमृशन् ] विनश्वररूप अनुभवता हुआ।

किस कारणसे ? “वृत्तिक्रमात्” [ वृत्ति ] पर्यायके [ क्रमात् ] कोई पर्याय होती है कोई पर्याय नाशको प्राप्त होती है ऐसे भावके कारण । भावार्थ इस प्रकार है कि पर्यायद्वारा जीव वस्तु अनित्य है ऐसा अनुभवता है स्याद्वादी ॥१५-२६१॥

( अनुष्टुप् )

**इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं प्रसाधयन् ।**

**आत्मतत्त्वमनेकान्तः स्वयमेवानुभूयते ॥१६-२६२॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“इति अनेकान्तः स्वयं अनुभूयते एव” [ इति ] पूर्वोक्त प्रकारसे [ अनेकान्तः ] स्याद्वाद [ स्वयं ] अपने प्रतापसे बलात्कार ही [ अनुभूयते ] अङ्गीकाररूप होता है, [ एव ] अवश्यकर । किनको अङ्गीकार होता है ? “अज्ञान-विमूढानां” [ अज्ञान ] पूर्वोक्त एकान्तवादमें [ विमूढानां ] मग्न हुए है जो मिथ्यादृष्टि जीव उनको । भावार्थ इस प्रकार है कि स्याद्वाद ऐसा प्रमाण है जिसे सुनते मात्र ही एकान्तवादी भी अङ्गीकार करते हैं । कैसा है स्याद्वाद ? “आत्मतत्त्वं ज्ञानमात्रं प्रसाधयन्” [ आत्मतत्त्वं ] जीवद्रव्यको [ ज्ञानमात्रं ] चेतना सर्वस्व [ प्रसाधयन् ] ऐसा प्रमाण करता हुआ । भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानमात्र जीववस्तु है ऐसा स्याद्वाद साध सकता है, एकान्तवादी नहीं साध सकता ॥१६-२६२॥

( अनुष्टुप् )

**एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयम् ।**

**अलंघ्यशासनं जैनमनेकान्तो व्यवस्थितः ॥१७-२६३॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“एव अनेकान्तः व्यवस्थितः” [ एवं ] इतना कहनेसे [ अनेकान्तः ] स्याद्वादको [ व्यवस्थितः ] कहनेका आरम्भ किया था सो पूर्ण हुआ । कैसा है अनेकान्त ? “स्वं स्वयं व्यवस्थापयन्” [ स्वं ] अनेकांतपनेको [ स्वयं ] अनेकांतपनेके द्वारा [ व्यवस्थापयन् ] बलजोरीसे प्रमाण करता हुआ । किसके साथ ? “तत्त्व-व्यवस्थित्या” जीवके स्वरूपको साधनेके साथ । कैसा है अनेकान्त ? “जैनं” सर्वज्ञ वीतराग-प्रणीत है । और कैसा है ? “अलंघ्यशासनं” अमिट है उपदेश जिसका ऐसा है ॥१७-२६३॥





## साध्य-साधक-अधिकार

( वसन्ततिलका )

इत्याद्यनेकनिजशक्तिसुनिर्भरोऽपि

यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः ।

एवं क्रमाक्रमविवर्तितविवर्तचित्रं

तद्द्रव्यपर्ययमयं चिदिहास्ति वस्तु ॥१-२६४॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“इह तत् चिद् वस्तु द्रव्यपर्ययमयं अस्ति” [ इह ] विद्यमान [ तत् ] पूर्वोक्त [ चिद्रस्तु ] ज्ञानमात्र जीवद्रव्य [ द्रव्यपर्ययमयं अस्ति ] द्रव्य-गुण-पर्यायरूप है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्यका द्रव्यपना कहा। कैसा है जीव द्रव्य ? “एवं क्रमाक्रमविवर्तितविवर्तचित्रं” [ एवं ] पूर्वोक्त प्रकार [ क्रम ] पहला विनशे तो अगला उपजे [ अक्रम ] विशेषणरूप है परन्तु न उपजे न विनशे, इसरूप है [ विवर्तित ] अंशरूप भेदपद्धति उससे [ विवर्त ] प्रवर्त रहा है [ चित्रं ] परम अचम्भा जिसमें ऐसा है। भावार्थ इस प्रकार है कि क्रमवर्ती पर्याय अक्रमवर्ती गुण इस प्रकार गुण-पर्यायमय है जीववस्तु। और कैसा है ? “यः भावः इत्याद्यनेकनिजशक्तिसुनिर्भरः अपि ज्ञानमात्रमयतां न जहाति” [ यः भावः ] ज्ञानमात्र जीववस्तु [ इत्यादि ] द्रव्य गुण पर्याय इत्यादिसे लेकर [ अनेकनिजशक्ति ] अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व अगुरुलघुत्व सूक्ष्मत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व सप्रदेशत्व अमूर्तत्व ऐसी है। अनन्त गणानारूप द्रव्यकी सामर्थ्य उससे [ सुनिर्भरः ] सर्व काल भरितावस्थ है। [ अपि ] ऐसा है तथापि [ ज्ञानमात्रमयतां न जहाति ] ज्ञानमात्र भावको नहीं त्यागता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जो गुण है अथवा पर्याय है वह सर्व चेतनारूप है, इसलिए चेतनामात्र जीववस्तु है, प्रमाण है। भावार्थ इस प्रकार है कि पूर्वमे हूँडी लिखी थी कि उपाय तथा उपेय कहूँगा। उपाय—जीव वस्तुकी प्राप्तिका साधन। उपेय—साध्य वस्तु। उसमें प्रथम ही साध्यरूप वस्तुका स्वरूप कहा, साधन कहते हैं ॥१-२६४॥

( वसन्ततिलका )

नैकान्तसंगतदृशा स्वयमेव वस्तु-  
तत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रबिलोकयन्तः ।  
स्याद्वादशुद्धिमधिकामधिगम्य संतो  
ज्ञानीभवन्ति जिननीतिमलंघयन्तः ॥२-२६५॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“सन्तः इति ज्ञानीभवन्ति” [ सन्तः ] सम्यग्दृष्टि जीव [ इति ] इस प्रकार [ ज्ञानीभवन्ति ] अनादि कालसे कर्मबन्ध संयुक्त थे साम्प्रत सकल कर्मोंका विनाश कर मोक्षपदको प्राप्त होते हैं। कैसे हैं सन्त ? “जिननीति अलंघयन्तः” [ जिन ] केवलीका [ नीति ] कहा हुआ जो मार्ग [ अलंघयन्तः ] उसी मार्ग पर चलते हैं, उस मार्गको उल्लंघन कर अन्य मार्ग पर नहीं चलते हैं। कैसा करके ? “अधिकां स्याद्वादशुद्धि अधिगम्य” [ अधिकां ] प्रमाण है ऐसा जो [ स्याद्वादशुद्धि ] अनेकान्तरूप वस्तुका उपदेश उससे दृष्टा है ज्ञानका निर्मलपना उसकी [ अधिगम्य ] सहायता पाकर। कैसे हैं सन्त ? “वस्तुतत्त्वव्यवस्थिति स्वय एव प्रबिलोकयन्तः [ वस्तु ] जीवद्रव्यका [ तत्त्व ] जैसा है स्वरूप उसके [ व्यवस्थिति ] द्रव्यरूप तथा पर्यायरूपको [ स्वयं एव प्रबिलोकयन्तः ] साक्षात् प्रत्यक्षरूपसे देखते हैं। कैसे नेत्रसे देखते हैं ? “नैकान्तसंगतदृशा” [ नैकान्त ] स्याद्वादसे [ संगत ] मिले हुए [ दृशा ] लोचनसे ॥२-२६५॥

( वसन्ततिलका )

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकंपां  
भूमिं श्रयन्ति कथमप्यपनीतमोहाः ।  
ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा  
मूढास्त्वमूमनुपलभ्य परिभ्रमन्ति ॥३-२६६॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ते सिद्धा भवन्ति” [ ते ] ऐसे हैं जो जीव वे [ सिद्धाः भवन्ति ] सकल कर्मकलकसे रहित मोक्षपदको प्राप्त होते हैं। कैसे होकर ? “साधकत्वं अधिगम्य” शुद्ध जीवका अनुभवर्गभित है सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप कारण रत्नत्रय, उसरूप परिणमा है आत्मा ऐसा होकर। और कैसे हैं वे ? “ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीं भूमिं श्रयन्ति” [ ये ] जो कोई [ ज्ञानमात्र ] चेतना है सर्वस्व जिसका ऐसे [ निजभाव ] जीवद्रव्यके अनुभवरूप [ मयीं ] कोई विकल्प नहीं है जिसमें ऐसी [ भूमिं ] मोक्षकी

कारणरूप अवस्थाको [ अश्रयन्ति ] प्राप्त होते हैं—एकान्न होकर उस भूमिरूप परिणामते हैं। कैसी है भूमि ? “अकम्पां” निर्द्वन्द्वरूप सुख गमित है। कैसे हैं वे जीव ? “कथं अपि अपनीतमोहाः” [ कथं अपि ] अनन्त काल भ्रमण करते हुए काललब्धिको पाकर [ अपनीत ] मिटा है [ मोहाः ] मिथ्यात्वरूप विभाव परिणाम जिनका ऐसे हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि ऐसा जीव मोक्षका साधक होता है “तु मूढाः अमू” अनुपलभ्य परिभ्रमन्ति” [ तु ] कहे हुए अर्थको हट करते हैं—[ मूढाः ] नहीं है जीववस्तुका अनुभव जिनको ऐसे जो कोई मिथ्यादृष्टि जीव हैं वे [ अमू ] शुद्ध जीवस्वरूपके अनुभवरूप अवस्थाको [ अनुपलभ्य ] पाये बिना [ परिभ्रमन्ति ] चतुर्गति संसारमें रुलते हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध जीव स्वरूपका अनुभव मोक्षका मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है ॥३-२६६॥

( वसन्ततिलका )

स्याद्वाद्वाकौशलसुनिश्चलसंयमाभ्यां

यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः ।

ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमैत्री-

पात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः ॥४-२६७॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—ऐसी अनुभव भूमिकाको कैसा जीव योग्य है ऐसा कहते हैं—“सः एकः इमां भूमि श्रयति” [ सः ] ऐसा [ एकः ] यही एक जातिका जीव [ इमां भूमि ] प्रत्यक्ष शुद्ध स्वरूपके अनुभवरूप अवस्थाके [ श्रयति ] अवलम्बनके योग्य है, अर्थात् ऐसी अवस्थारूप परिणामनेका पात्र है। कैसा है वह जीव ? “यः स्वं अहरहः भावयति” [ यः ] जो कोई सम्यग्दृष्टि जीव [ स्वं ] जीवके शुद्ध स्वरूपको [ अहरहः भावयति ] निरन्तर अखण्ड धाराप्रवाहरूप अनुभवता है। कैसा करके अनुभवता है ? “स्याद्वाद्वाकौशलसुनिश्चलसंयमाभ्यां” [ स्वाद्वाद ] द्रव्यरूप तथा पर्यायरूप वस्तुके अनुभवका [ कौशल ] विपरीतपनासे रहित वस्तु जिस प्रकार है उस प्रकारसे अंगीकार तथा [ सुनिश्चलसंयमाभ्यां ] समस्त रागादि अशुद्ध परिणतिका त्याग इन दोनोंकी सहायतासे। और कैसा है ? “इह उपयुक्तः” [ इह ] अपने शुद्ध स्वरूपके अनुभवमें [ उपयुक्तः ] सर्वकाल एकाग्ररूपसे तल्लीन है। और कैसा है ? “ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमैत्रीपात्रीकृतः” [ ज्ञाननय ] शुद्ध जीवके स्वरूपका अनुभव मोक्षमार्ग है, शुद्ध स्वरूपके अनुभव बिना जो कोई क्रिया है वह सर्व मोक्षमार्गसे शून्य है [ क्रियानय ] रागादि अशुद्ध परिणामका

त्याग प्राप्त हुए बिना जो कोई शुद्ध स्वरूपका अनुभव कहता है वह समस्त भूटा है; अनुभव नहीं है, कुछ ऐसा ही अनुभवका भ्रम है, कारण कि शुद्ध स्वरूपका अनुभव अशुद्ध रागादि परिणामको भेट कर होता है। ऐसा है जो ज्ञाननय तथा क्रियानय उनका है जो [ परस्परतीव्रमैत्री ] परस्पर अत्यन्त मित्रपना—शुद्ध स्वरूपका अनुभव है सो रागादि अशुद्ध परिणतिको भेट कर है, रागादि अशुद्ध परिणतिका विनाश शुद्ध स्वरूपके अनुभवको लिए हुए है, ऐसा अत्यन्त मित्रपना—उनका [ पात्रीकृतः ] पात्र हुआ है अर्थात् ज्ञाननय क्रियानयका एक स्थानक है। भावार्थ इस प्रकार है कि दोनों नयोके अर्थसे विराजमान है ॥४-२६७॥

( वसन्ततिलका )

**चित्पिण्डचण्डिमविलासिविकासहासः**

**शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभातः ।**

**आनन्दसुस्थितसदास्खलितैकरूप-**

**स्तस्यैव चायमुदयत्यचलाचिरात्मा ॥५-२६८॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तस्य एव आत्मा उदयति” [ तस्य ] पूर्वोक्त जीवको [ एव ] अवश्य कर [ आत्मा ] जीव पदार्थ [ उदयति ] सकल कर्मका विनाश कर प्रगट होता है, अनन्त चतुष्टयरूप होता है। और कैसा प्रगट होता है? “अचलाचि.” सर्वकाल एकरूप है केवलज्ञान केवलदर्शन तेजपुञ्ज जिसका ऐसा है। और कैसा है? “चित्पिण्डचण्डिमविलासिविकासहास” [ चित्पिण्ड ] ज्ञानपुञ्जके [ चण्डिम ] प्रतापकी [ विलासि ] एकरूप परिणति ऐसा जो [ विकास ] प्रकाशस्वरूप उसका [ हासः ] निधान है। और कैसा है? “शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभात” [ शुद्धप्रकाश ] रागादि अशुद्ध परिणतिको भेट कर हुआ जो शुद्धत्वरूप परिणाम उसकी [ भर ] बार बार जो शुद्धत्वरूप परिणति उससे [ निर्भर ] हुआ है [ सुप्रभातः ] साक्षात् उद्योत जिसमें ऐसा है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार रात्रिसम्बन्धी अन्धकारके मिटने पर दिवस उद्योत स्वरूप प्रगट होता है उसी प्रकार मिथ्यात्व राग द्वेषरूप अशुद्ध परिणतिको भेट कर शुद्धत्व परिणाम विराजमान जीवद्रव्य प्रगट होता है। और कैसा है? “आनन्दसुस्थितसदास्खलितैकरूप.” [ आनन्द ] द्रव्यके परिणामरूप अतीन्द्रिय सुखके कारण [ सुस्थित ] जो आकुलतासे रहितपना उससे [ सदा ] सर्वकाल [ अस्खलित ] अमिट है [ एकरूपः ] तद्रूप सर्वस्व जिसका ऐसा है ॥५-२६८॥

( वसन्ततिलका )

स्याद्वाद्दीपितलसन्महसि प्रकाशे  
शुद्धस्वभावमहिमन्युविते मयीति ।  
किं बन्धमोक्षपथपातिभिरन्यभावा-  
नित्योदयः परमय स्फुरत्तु स्वभावः ॥६-२६६॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अयं स्वभावः परं स्फुरत्तु” [ अयं स्वभावः ] विद्यमान है जो जीव पदार्थ [ परं स्फुरत्तु ] यही एक अनुभवरूप प्रगट होओ। कैसा है ? “नित्योदयः” सर्व काल एकरूप प्रगट है। और कैसा है ? “इति मयि उदिते अन्यभावाः किं” [ इति ] पूर्वोक्त विधिसे [ मयि उदिते ] मैं शुद्ध जीवस्वरूप हूँ ऐसा अनुभवरूप प्रत्यक्ष होने पर [ अन्यभावाः ] अनेक है जो विकल्प उनसे [ किं ] कौन प्रयोजन है ? कैसे हैं अन्य भाव ? “बन्धमोक्षपथपातिभिः” [ बन्धपथ ] मोह-राग-द्वेष बन्धका कारण है, [ मोक्षपथ ] सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य मोक्षमार्ग है ऐसे जो पक्ष उनमें [ पातिभिः ] पड़नेवाले है अर्थात् अपने अपने पक्षको कहते है, ऐसे हैं अनेक विकल्परूप। भावार्थ इस प्रकार है कि ऐसे विकल्प जितने काल तक होते है उतने काल तक शुद्ध स्वरूपका अनुभव नहीं होता। शुद्ध स्वरूपका अनुभव होने पर ऐसे विकल्प विद्यमान ही नहीं होते, विचार किसका किया जाय। कैसा हूँ मैं ? “स्याद्वाद्दीपितलसन्महसि” [ स्याद्वाद् ] द्रव्यरूप तथा पर्यायरूपसे [ दीपित ] प्रगट हुआ है [ लसत् ] प्रत्यक्ष [ महसि ] ज्ञानमात्र स्वरूप जिसका। और कैसा हूँ ? “प्रकाशे” सर्व काल उद्योत स्वरूप हूँ। और कैसा हूँ ? “शुद्धस्वभावमहिमनि” [ शुद्धस्वभाव ] शुद्धपनाके कारण [ महिमनि ] प्रगटपना है जिसका ॥६-२६६॥

( वसन्ततिलका )

चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा  
सद्यः प्रणश्यति नयेक्षणखंडघमानः ।  
तस्मादखंडमनिराकृतखंडभेक-  
मेकांतशांतमबलं चिदहं महोऽस्मि ॥७-२७०॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“तस्मात् अहं चित् महः अस्मि” [ तस्मात् ] तिस कारणसे [ अहं ] मैं [ चिन्महः अस्मि ] ज्ञानमात्र प्रकाशपुञ्ज हूँ। और कैसा हूँ ?

“अखण्ड” अखण्डित प्रदेश हैं। और कैसा हैं? “अनिराकृतखंड” किसीके कारण अखण्ड नहीं हुआ हैं, सहज ही अखण्डरूप हैं। और कैसा हैं? “एक” समस्त विकल्पो से रहित हैं। और कैसा हैं? “एकांतशान्त” [एकांत] सर्वथा प्रकार [शान्त] समस्त पर द्रव्योंसे रहित हैं। और कैसा हैं? “अचल” अपने स्वरूपसे सर्व कालमें अन्यथा नहीं ह। ऐसा चैतन्य स्वरूप मैं हूँ। जिस कारणसे “अयं आत्मा नयेक्षणखण्डयमानः सद्यः प्रणश्यति” [अयं आत्मा] यह जीव वस्तु [नय] द्रव्याधिक पर्यायाधिक ऐसे अनेक विकल्प वे हुए [ईक्षण] अनेक लोचन उनके द्वारा [खण्डयमानः] अनेकरूप देखा हुआ [सद्यः प्रणश्यति] खण्ड खण्ड होकर मूलसे खोज मिटा—नाशको प्राप्त होता है। इतने नय एकमें कैसे घटित होते हैं? उत्तर इस प्रकार है—क्योंकि ऐसा है जीवद्रव्य—“चित्रात्मशक्तिसमुदायमयः” [चित्र] अनेक प्रकार अस्तित्वपना नास्तित्वपना एकपना अनेकपना ध्रुवपना अध्रुवपना इत्यादि अनेक हैं ऐसे जो [आत्मशक्ति] जीवद्रव्यके गुण उनका जो [समुदाय] द्रव्यसे अभिन्नपना [मयः] उस मय अर्थात् ऐसा है जीवद्रव्य, इसलिए एक शक्तिको कहता है एक नय, किन्तु अनन्त शक्तियाँ है, इस कारण एक एक नय करते हुए अनन्त नय होते हैं। ऐसा करते हुए बहुत विकल्प उपजते हैं, जीवका अनुभव खो जाता है। इसलिए निविकल्प ज्ञान वस्तुमात्र अनुभव करने योग्य है ॥७-२७०॥

न द्रव्येण खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि,  
न भावेन खंडयामि; सुविशुद्ध एको ज्ञानमात्रः भावोऽस्मि । \*

खण्डान्वय सहित अर्थ—“ज्ञानमात्रः भाव अस्मि” [भावः अस्मि] मैं वस्तु स्वरूप ह। और कैसा ह? [ज्ञानमात्रः] चेतनामात्र है सर्वस्व जिसका ऐसा ह। “एक” समस्त भेद विकल्पोसे रहित ह। और कैसा ह? “सुविशुद्धः” द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्मरूप उपाधिसे रहित ह। और कैसा हूँ? “द्रव्येण न खण्डयामि” जीव स्वद्रव्यरूप है ऐसा अनुभवने पर भी मैं अखण्डित हूँ। “क्षेत्रेण न खण्डयामि” जीव स्वक्षेत्ररूप है ऐसा अनुभवने पर भी मैं अखण्डित हूँ। “कालेन न खण्डयामि” जीव स्वकालरूप है ऐसा अनुभवने पर भी मैं अखण्डित हूँ। “भावेन न खण्डयामि” जीव स्वभावरूप है ऐसा अनुभवने पर भी मैं अखण्डित हूँ। भावार्थ इस प्रकार है कि एक जीव वस्तु स्वद्रव्य

• श्री समयसारकी आत्मस्थिति टीकामें इस अंशको कलश रूप नहीं गिनकर गद्यरूप गिना गया है। अतः आत्मस्थितिमें उसको कलश रूपसे नम्बर नहीं दिया गया है।

स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभावरूप चार प्रकारके भेदों द्वारा कही जाती है तथापि चार सत्ता नहीं है एक सत्ता है। उसका दृष्टान्त—चार सत्ता इस प्रकारसे तो नहीं है कि जिस प्रकार एक आम्र फल चार प्रकार है। उसका विवरण—कोई अंश रस है, कोई अंश छिलका है, कोई अंश गुठली है, कोई अंश मीठा है। उसी प्रकार एक जीव वस्तु कोई अंश जीवद्रव्य है, कोई अंश जीवक्षेत्र है, कोई अंश जीवकाल है, कोई अंश जीवभाव है—इस प्रकार तो नहीं है। ऐसा मानने पर सर्व विपरीत होता है। इस कारण इस प्रकार है कि जिस प्रकार एक आम्र फल स्पर्श रस गन्ध बरुण विराजमान पुद्गलका पिण्ड है, इसलिए स्पर्शमात्रसे विचारने पर स्पर्शमात्र है, रसमात्रसे विचारने पर रसमात्र है, गन्धमात्रसे विचारने पर गन्धमात्र है, वर्णमात्रसे विचारने पर वर्णमात्र है। उसी प्रकार एक जीव वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव विराजमान है, इसलिए स्वद्रव्यरूपसे विचारने पर स्वद्रव्यमात्र है, स्वक्षेत्ररूपसे विचारने पर स्वक्षेत्रमात्र है, स्वकालरूपसे विचारने पर स्वकालमात्र है, स्वभावरूपसे विचारने पर स्वभावमात्र है। इस कारण ऐसा कहा कि जो वस्तु है वह अखण्डित है। अखण्डित शब्दका ऐसा अर्थ है।

( शालिनी )

**योऽयं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि**

**ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानमात्रः स नैव ।**

**ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानकल्लोलवलग्न**

**ज्ञानज्ञेयज्ञातृमद्वस्तुमात्रः ॥८-२७१॥**

**खण्डान्वय सहित अर्थ**—भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्धके ऊपर बहुत भ्रान्ति चलती है सो कोई ऐसा समझेगा कि जीव वस्तु ज्ञायक, पुद्गलसे लेकर भिन्न रूप छह द्रव्य ज्ञेय है। सो ऐसा तो नहीं है। जैसा इस समय कहते हैं उस प्रकार है—“अहं अयं यः ज्ञानमात्रः भावः अस्मि” [ अहं ] मैं [अयं यः] जो कोई [ ज्ञानमात्रः-भावः अस्मि ] चेतना सर्वस्व ऐसा वस्तुस्वरूप हूं “सः ज्ञेयः न एव” वह मैं ज्ञेयरूप हूं परन्तु ऐसा ज्ञेयरूप नहीं हूं। कैसा ज्ञेयरूप नहीं हूँ—“ज्ञेयः ज्ञानमात्रः” [ ज्ञेयः ] अपने जीवसे भिन्न छह द्रव्योंके समूहका [ ज्ञानमात्रः ] जानपना मात्र। भावार्थ इस प्रकार है कि मैं ज्ञायक समस्त छह द्रव्य मेरे ज्ञेय ऐसा तो नहीं है। तो कैसा है ? ऐसा है—“ज्ञानज्ञेयज्ञातृमद्वस्तुमात्रः ज्ञेयः” [ ज्ञान ] जानपनारूप शक्ति [ ज्ञेय ] जानने योग्य

शक्ति [ ज्ञातृ ] अनेक शक्ति विराजमान वस्तुमात्र ऐसे तीन भेद [ मद्रस्तुमात्रः ] मेरा स्वरूपमात्र है [ ज्ञेयः ] ऐसा ज्ञेयरूप हूं। भावार्थ इस प्रकार है कि मैं अपने स्वरूपको वेद्य-वेदकरूपसे जानता हूं, इसलिए मेरा नाम ज्ञान, यतः मैं आप द्वारा जानने योग्य हूं, इसलिए मेरा नाम ज्ञेय, यतः ऐसी दो शक्तियोंसे लेकर अनन्त शक्तिरूप हूं, इसलिए मेरा नाम ज्ञाता। ऐसा नामभेद है, वस्तुभेद नहीं है। कैसा हूं? “ज्ञानज्ञेयकल्लोलवल्गन्” [ ज्ञान ] जीव ज्ञायक है [ ज्ञेय ] जीव ज्ञेयरूप है ऐसा जो [ कल्लोल ] वचनभेद उससे [ वल्गन् ] भेदको प्राप्त होता हूं। भावार्थ इस प्रकार है कि वचनका भेद है, वस्तुका भेद नहीं है ॥८-२७१॥

( पृथ्वी )

**क्वचिल्लसति मेचकं क्वचिन्मेचकामेचकं**

**क्वचित्पुनरमेचकं सहजमेव तत्त्वं मम ।**

**तथापि न विमोहयत्यमलमेघसां तन्मनः**

**परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचक्रं स्फुरत् ॥६-२७२॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—भावार्थ इस प्रकार है कि इस शास्त्रका नाम नाटक समयसार है, इसलिए जिस प्रकार नाटकमें एक भाव अनेक रूपसे दिखाया जाता है उसी प्रकार एक जीवद्रव्य अनेक भावों द्वारा साधा जाता है—“मम तत्त्वं” मेरा ज्ञान-मात्र जीवपदार्थ ऐसा है। कैसा है? “क्वचित् मेचक लसति” कर्म संयोगसे रागादि विभावरूप परिणतिसे देखने पर अशुद्ध है ऐसा आस्वाद आता है। “पुनः” एकान्तसे ऐसा ही है ऐसा नहीं है। ऐसा भी है—“क्वचित् अमेचक” एक वस्तुमात्ररूप देखने पर शुद्ध है। एकान्तसे ऐसा भी नहीं है। तो कैसा है? “क्वचित् मेचकामेचक” अशुद्धपरिणतिरूप तथा वस्तुमात्ररूप एक ही बारमें देखने पर अशुद्ध भी है, शुद्ध भी है इस प्रकार दोनों विकल्प घटित होते हैं। ऐसा क्यों है? [ सहजं ] स्वभावसे ऐसा ही है। “तथापि” तो भी “अमलमेघसा तत् मनः न विमोहयति” [ अमलमेघसां ] सम्यग्दृष्टि जीवोंकी [ तत् मनः ] तत्त्वज्ञानरूप है जो बुद्धि वह [ न विमोहयति ] सशयरूप नहीं होती—भ्रमको प्राण नहीं होती है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीवका स्वरूप शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, शुद्ध-अशुद्ध भी है ऐसा कहने पर अवधारण करनेमें भ्रमको स्थान है तथापि जो स्याद्वादरूप वस्तुका अवधारण करते हैं उनके लिए सुगम है, भ्रम नहीं उत्पन्न होता है। कैसी है वस्तु? “परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचक्रं”



[ परस्परसुसंहत ] परस्पर मिली हुई है [ प्रकटशक्ति ] स्वानुभवगोचर जो जीवकी अनेक शक्ति उनका [ चक्र ] समूह है जीव वस्तु । और कैसी है ? [ स्फुरत् ] सर्वकाल उद्योतमान है ॥६-२७२॥

( पृथ्वी )

इतो गतमनेकतां दधदितः सदाप्येकता-  
मितः क्षणविभंगुरं ध्रुवमितः सबैवोदयात् ।  
इतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेशनिर्ज-  
रहो सहजमात्मनस्तदिवमद्भुतं वैभवम् । १०-२७३।

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अहो आत्मनः तत् इदं सहज वैभवं अद्भुतं” [ अहो ] संबोधन वचन । [ आत्मनः ] जीव वस्तुकी [ तत् इदं सहजं ] अनेकान्त स्वरूप ऐसी [ वैभवं ] आत्माके गुणस्वरूप लक्ष्मी [ अद्भुतं ] अचम्भा उपजाती है । किस कारणसे ऐसी है ? “इतः अनेकतां गतं” [ इतः ] पर्यायरूप दृष्टिसे देखने पर [ अनेकतां ] अनेक है ऐसे भावको [ गतं ] प्राप्त हुई है । “इतः सदा अपि एकतां दधत्” [ इतः ] उसी वस्तुको द्रव्यरूपसे देखने पर [ सदा अपि एकतां दधत् ] सदा ही एक है ऐसी प्रतीतिको उत्पन्न करती है । और कैसी है ? “इतः क्षणविभंगुरं” [ इतः ] समय समय प्रति अखण्ड धाराप्रवाहरूप परिणामती है ऐसी दृष्टिसे देखने पर [ क्षणविभंगुरं ] विनशती है उपजती है । “इतः सदा एव उदयात् ध्रुव” [ इतः ] सर्व काल एक रूप है ऐसी दृष्टिसे देखने पर [ सदा एव उदयात् ] सर्व काल अविनश्वर है ऐसा विचार करने पर [ ध्रुवं ] शाश्वत है । “इतः” वस्तुको प्रमाणदृष्टिसे देखने पर “परमविस्तृतं” प्रदेशोंसे लोक-प्रमाण है, ज्ञानसे ज्ञेयप्रमाण है । “इतः निर्जः प्रदेशः धृत” [ इतः ] निज प्रमाणकी दृष्टिसे देखनेपर [ निर्जः प्रदेशः ] अपने प्रदेशमात्र [ धृतं ] प्रमाण है ॥१०-२७३॥

( पृथ्वी )

कषायकलिरेकतः स्थलति शांतिरस्त्येकतो  
भवोपहृतिरेकतः स्पृशति मुक्तिरप्येकतः ।  
जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चिच्चकास्त्येकतः  
स्वभावमहिमात्मनो विजयतेऽद्भुताद्भुतः । ११-२७४।

खण्डान्वय सहित अर्थ—“आत्मनः स्वभावमहिमा विजयते” [ आत्मनः ] जीव द्रव्यकी [ स्वभावमहिमा ] स्वरूपकी बड़ाई [ विजयते ] सबसे उत्कृष्ट है । कैसी है

महिमा ? “अद्भुतात् अद्भुतः” आश्चर्यसे आश्चर्यरूप है। वह कैसा है आश्चर्य ? “एकतः कषायकलिः स्खलति” [ एकतः ] विभावपरिणामशक्तिरूप विचारने पर [ कषाय ] मोह-राग-द्वेषका [ कलिः ] उपद्रव होकर [ स्खलति ] स्वरूपसे भ्रष्ट हो परिणमता है, ऐसा प्रगट ही है। “एकतः शान्तिः अस्ति” [ एकतः ] जीवके शुद्ध स्वरूपका विचार करने पर [ शान्तिः अस्ति ] चेतनामात्र स्वरूप है, रागादि अशुद्धपना विद्यमान ही नहीं है। और कैसा है ? “एकतः भवोपहृतिः अस्ति” [ एकतः ] अनादि कर्मसंयोगरूप परिणामा है इस कारण [ भव ] संसार चतुर्गतिमें [ उपहृतिः ] अनेक बार परिभ्रमण [ अस्ति ] है। “एकतः मुक्तिः स्पृशति” [ एकतः ] जीवके शुद्धस्वरूपका विचार करने पर [ मुक्तिः स्पृशति ] जीव वस्तु सर्वकाल मुक्त है ऐसा अनुभवमें आता है। और कैसा है ? “एकतः जगत्त्रितयं स्फुरति” [ एकतः ] जीवका स्वभाव स्वपरज्ञायक है ऐसा विचार करने पर [ जगत् ] समस्त ज्ञेय वस्तुकी [ त्रितयं ] अतीत अनागत वर्तमान कालगोचर पर्याय [ स्फुरति ] एक समय मात्र कालमें ज्ञानमें प्रतिबिम्बरूप है। “एकतः चित् चकास्ति” [ एकतः ] वस्तुके स्वरूप सत्तामात्रका विचार करने पर [ चित् ] शुद्ध ज्ञानमात्र [ चकास्ति ] शोभित होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि व्यवहार मात्रसे ज्ञान समस्त ज्ञेयको जानता है, निश्चयसे नहीं जानता है, अपना स्वरूपमात्र है, क्योंकि ज्ञेयके साथ व्याप्य-व्यापकरूप नहीं है ॥११-२७४॥

( मालिनी )

जयति सहजतेजःपुंजमज्जत्त्रिलोकी-

स्खलदखिलविकल्पोऽप्येक एव स्वरूपः ।

स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नतत्त्वोपलभः

प्रसभनियमितार्थाच्चिच्चामत्कार एषः ॥१२-२७५॥

सूत्रान्वय सहित अर्थ—“एषः चिच्चामत्कारः जयति” अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञानमात्र जीव वस्तु सर्व कालमें जयवन्त प्रवर्तों। भावार्थ इस प्रकार है कि साक्षात् उपादेय है। कैसी है ? “सहजतेजःपुंजमज्जत्त्रिलोकीस्खलदखिलविकल्पः” [ सहजः ] द्रव्यके स्वरूप-भूत [ तेजः पुंज ] केवलज्ञानमें [ मज्जत् ] ज्ञेयरूपसे मग्न जो [ त्रिलोकी ] समस्त ज्ञेय वस्तु उसके कारण [ स्खलत् ] उत्पन्न हुआ है [ अखिलविकल्पः ] अनेक प्रकार पर्याय-भेद जिसमें ऐसी है ज्ञानमात्र जीववस्तु। “अपि” तो भी “एकः एव स्वरूपः” एक

ज्ञानमात्र जीववस्तु है। और कैसी है ? “स्वरसविसरपूरणीच्छिन्नतत्त्वोपलम्भः” [ स्वरस ] चेतनास्वरूपकी [ विसर ] अनन्त शक्ति उससे [ पूर्ण ] समग्र है [ अच्छिन्न ] अनन्त काल तक शाश्वत है ऐसे [ तत्त्व ] जीव वस्तुस्वरूपकी [ उपलम्भः ] हुई है प्राप्ति जिसको ऐसी है। और कैसी है ? “प्रसभनियमितार्चिः” [ प्रसभ ] ज्ञानावरण कर्मका विनाश होने पर प्रगट हुआ है [ नियमित ] जितना था उतना [ अर्चिः ] केवलज्ञान स्वरूप जिसका ऐसी है। भावार्थ इस प्रकार है कि परमात्मा साक्षात् निरावरण है ॥१२-२७५॥

( मालिनी )

अविचलितचिदात्मन्यात्मनात्मानमात्म-  
न्यनवरतनिमग्नं धारयद् ध्वस्तमोहम् ।  
उदितममृतचन्द्रज्योतिरेतत्समन्ता-  
ज्ज्वलतु विमलपूर्णं निःसपत्नस्वभावम् ॥१३-२७६॥

खण्डान्वय सहित अर्थ—“एतत् अमृतचन्द्रज्योतिः उदितं” [ एतत् ] प्रत्यक्ष-रूपसे विद्यमान “अमृतचन्द्रज्योतिः” इस पदके दो अर्थ हैं। प्रथम अर्थ—[ अमृत ] मोक्षरूपी [ चन्द्र ] चन्द्रमाका [ ज्योतिः ] प्रकाश [ उदितं ] प्रगट हुआ। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध जीवस्वरूप मोक्षमार्ग ऐसे अर्थका प्रकाश हुआ। दूसरा अर्थ इस प्रकार है कि [ अमृतचन्द्र ] नाम है टीकाके कर्ता आचार्यका सो उनकी [ ज्योतिः ] बुद्धिका प्रकाशरूप [ उदितं ] शास्त्र सम्पूर्ण हुआ। शास्त्रको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं—“निःसपत्नस्वभाव समन्तात् ज्वलतु” [ निःसपत्न ] नहीं है कोई शत्रु जिसका ऐसा [ स्वभाव ] अबाधित स्वरूप [ समन्तात् ] सर्व काल सर्व प्रकार [ ज्वलतु ] परिपूर्ण प्रताप संयुक्त प्रकाशमान होओ। कैसा है ? “विमलपूर्णं” [ विमल ] पूर्वापर विरोध-रूप मलसे रहित है तथा [ पूर्ण ] अर्थसे गम्भीर है। “ध्वस्तमोहं” [ ध्वस्त ] मूलसे उखाड़ दी है [ मोहं ] भ्रान्तिको जिसने ऐसा है। भावार्थ इस प्रकार है कि इस शास्त्र-में शुद्ध जीवका स्वरूप निःसन्देहरूपसे कहा है। और कैसा है ? “आत्मना आत्मनि आत्मानं अनवरतनिमग्नं धारयत्” [ आत्मना ] ज्ञानमात्र शुद्ध जीवके द्वारा [ आत्मनि ] शुद्ध जीवमें [ आत्मानं ] शुद्ध जीवको [ अनवरतनिमग्नं धारयत् ] निरन्तर अनुभव-गोचर करता हुआ। कैसा है आत्मा ? “अविचलितचिदात्मनि” [ अविचलित ] सर्व

काल एकरूपजो [ चित् ] चेतना वही है [ आत्मनि ] स्वरूप जिसका ऐसा है । नाटक समयसारमे अमृतचन्द्र सूरिने कहा जो साध्य-साधक भाव सो सम्पूर्ण हुआ । नाटक समयसार शास्त्र पूर्ण हुआ । यह आशीर्वाद वचन है ॥१३-२७६॥

( शार्दूलविक्रीडित )

**यस्माद् द्वैतमभूत्पुरा स्वपरयोर्भूतं यतोऽत्रान्तरं  
रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकैः ।  
भुञ्जाना च यतोऽनुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियायाः फलं  
तद्विज्ञानघनौघमग्नमधुना किञ्चिन्न किञ्चित्कल ॥१४-२७७॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“किल तत् किञ्चित् अखिलं क्रियायाः फलं अधुना तत् विज्ञानघनौघमग्न खिन्ना न किञ्चित्” [ किल ] निश्चयसे [ तत् ] जिसका अवगुण कहेंगे ऐसा जो [ किञ्चित् अखिलं क्रियायाः फलं ] कुछ एक पर्यायाधिक नयसे मिथ्या-दृष्टि जीवके अनादि कालसे लेकर नाना प्रकारकी भोग सामग्रीको भोगते हुए मोह-राग-द्वेषरूप अशुद्ध परिणतिके कारण कर्मका बन्ध अनादि कालसे होता था सो [ अधुना ] सम्यक्त्वकी उत्पत्तिसे लेकर [ तत् विज्ञानघनौघमग्नं ] शुद्ध जीवस्वरूपके अनुभवमे समाता हुआ [ खिन्ना ] मिट गया सो [ न किञ्चित् ] मिटने पर कुछ है ही नहीं, जो था सो रहा । कैसा था क्रियाका फल ? “यस्मात् स्वपरयोः पुरा द्वैत अभूत्” [ यस्मात् ] जिस क्रियाके फलके कारण [ स्वपरयोः ] यह आत्मस्वरूप यह परस्वरूप ऐसा [ पुरा ] अनादि कालसे लेकर [ द्वैतं अभूत् ] द्विविधापन हुआ । भावार्थ इस प्रकार है कि मोह-राग-द्वेष स्वचेतना परिणति जीवकी ऐसा माना । और क्रियाफलसे क्या हुआ ? “यतः अत्र अन्तरं भूतं” [ यतः ] जिस क्रियाफलके कारण [ अत्र ] शुद्ध जीववस्तुके स्वरूपमे [ अनन्तरं भूतं ] अन्तराय हुआ । भावार्थ इस प्रकार है कि जीवका स्वरूप तो अनन्त चतुष्टयरूप है । अनादिसे लेकर अनन्त काल गया, जीवने अपने स्वरूपको नहीं प्राप्त किया, चतुर्गति ससारका दुःख प्राप्त किया, सो वह भी क्रियाके फलके कारण । और क्रियाफलसे क्या हुआ ? “यतः रागद्वेषपरिग्रहे सति क्रियाकारकैः जातं” [ यतः ] जिस क्रियाके फलसे [ रागद्वेष ] अशुद्ध परिणतिरूप [ परिग्रहे ] परिणाम हुआ । ऐसा [ सति ] होनेपर [ क्रियाकारकैः जातं ] जीव रागादि परिणामोका कर्ता है तथा भोक्ता है इत्यादि जितने विकल्प उत्पन्न हुए उतने क्रियाके फलसे उत्पन्न हुए । और क्रियाके

फलके कारण क्या हुआ ? “यतः अनुभूतिः भुञ्जाना” [ यतः ] जिस क्रियाके फलके कारण [ अनुभूतिः ] आठ कर्मोंके उदयका स्वाद [ भुञ्जाना ] भोगा । भावार्थ इस प्रकार है कि आठ ही कर्मोंके उदयसे जीव अत्यन्त दुःखी है सो भी क्रियाके फलके कारण ॥१४-२७७॥

( उपजाति )

**स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्त्वै-  
र्व्याख्या कृत्यं समयस्य शब्दैः ।**

**स्वरूपगुप्तस्य न किंचिदस्ति**

**कर्तव्यमेवामृतचन्द्रसूरेः ॥१५-२७८॥**

खण्डान्वय सहित अर्थ—“अमृतचन्द्रसूरेः किञ्चित् कर्तव्यं न अस्ति एव” [ अमृतचन्द्रसूरेः ] ग्रन्थकर्ताका नाम अमृतचन्द्रसूरि है, उनका [ किञ्चित् ] नाटक समयसारका [ कर्तव्यं ] करना [ न अस्ति एव ] नहीं है । भावार्थ इस प्रकार है कि नाटक समयसार ग्रन्थकी टीकाका कर्ता अमृतचन्द्र नामक आचार्य प्रगट हैं तथापि महान् है, बडे है, ससारसे विरक्त हैं, इसलिए ग्रन्थ करनेका अभिमान नहीं करते हैं । कैसे है अमृतचन्द्रसूरि ? “स्वरूपगुप्तस्य” द्वादशगुरूप सूत्र अनादिनिधन है, किसीने किया नहीं है ऐसा जानकर अपनेको ग्रन्थका कर्तापना नहीं माना है जिन्होंने ऐसे हैं । इस प्रकार क्यों है ? कारण कि “समयस्य इयं व्याख्या शब्दैः कृता” [ समयस्य ] शुद्ध जीवस्वरूपकी [ इयं व्याख्या ] नाटक समयसार नामक ग्रन्थरूप व्याख्या [ शब्दैः कृता ] वचनात्मक ऐसी शब्दराशिसे की गई है । कैसी है शब्दराशि ? “स्वशक्तिसंसूचित-वस्तुतत्त्वैः” [ स्वशक्ति ] शब्दोंमें है अर्थको सूचित करनेकी शक्ति उससे [ संसूचित ] प्रकाशमान हुआ है [ वस्तु ] जीवादि पदार्थोंका [ तत्त्वैः ] द्रव्य-गुण पर्यायरूप, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप अथवा हेय-उपादेयरूप निश्चय जिसके द्वारा ऐसी है शब्दराशि ॥१५-२७८॥



## समयसार-कलशकी वर्णानुक्रम सूची

\*

	कलश	पृष्ठ		कलश	पृष्ठ
अ			अविचलितचिदात्म- अस्मिन्नादिनि	२७६	२४१
अकर्ता जीवोऽय	१६५	१७०	आ	४४	४२
अम्बडितमनाकुलं	१४	१६	आक्रामन्नविकल्पभावमवल	६३	७२
अचित्यशक्तिः स्वयमेव	१४४	१२४	आत्मनचिन्तयैवाल	१६	१८
अच्छाच्छाः स्वयमुच्छलन्ति	१४१	१२१	आत्मभावान्करोत्यात्मा	५६	५३
अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यव-	५७	५४	आत्मस्वभाव परभावभिस	१०	११
अज्ञानमयभावानामज्ञानी	६८	६१	आत्मा ज्ञानं स्वय ज्ञान	६२	५७
अज्ञानमेतदविगम्य	१६६	१४८	आत्मानुभूतिरिति	१३	१५
अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया	५८	५४	आत्मान परिक्षुद्धिमीप्सुभि-	२०८	१८१
अज्ञानी प्रकृतिस्वभाव-	१६७	१७२	आससारत एव धावति	५५	५२
अज्ञान ज्ञानमप्येवं	६१	५७	आससारविरोधिसवर-	१९५	१०७
अतो हतः प्रमादिनो	१८८	१६५	आससारप्रतिपदममो	१३८	११८
अतः शुद्धनयायत्त	७	८			
अत्यन्त भावयित्वा विरति-	२३३	२०२	इ		
अत्र स्याद्वादशुद्धयर्थ	२४७	२११	इति परिचिततत्त्वै-	२८	२८
अथ महामदनिर्भरमथर	११३	६४	इति वस्तुस्वभाव स्वय ज्ञानी	१७६	१५३
अर्द्धतापि हि चेतना	१८३	१६१	इति वस्तुस्वभाव स्वय नाज्ञानी	१७७	१५३
अध्यास्य शुद्धनय-	१२०	१०१	इति सति सह सर्वे-	३१	३१
अध्यासात्मनि सर्वे भावभवन	२५६	२२६	इतीदमात्मनस्तत्त्व	२४६	२०६
अनन्तधर्मणस्तत्त्व	२	२	इतो गतमनेकतां	२७३	२३६
अनवरतमनन्तै-	१८७	१६४	इतः पदार्थप्रथनावगु ठना-	२३४	२०२
अनाद्यनतमचल	४१	४०	इत्थ ज्ञानक्रकचकलना-	४५	४३
अनेनाध्यवसायेन	१७१	१४६	इत्थ परिग्रहमपास्य समस्तमेव	१४५	१२४
अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियत	२३५	२०३	इत्थज्ञानविमूढाना	२६२	२३०
अपि कथमपि मृत्वा	२३	२२	इत्याद्यनेकनिजशक्ति-	२६४	२३१
अर्थात्मनकाल एव कलयन्	२५०	२२४	इत्यालोच्य विवेच्य	१७८	१५४
अलमलमतिजल्पै-	२४४	२०८	इत्येव विरचय्य सप्रति	४८	४६
अवतरति न यावद्	२६	२६			

	कलश	पृष्ठ
इदमेकं जगच्चक्षु-	२४५	२०६
इदमेवात्र तात्पर्यं	१२२	१०३
इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलत्	६१	७१
<b>उ</b>		
उदयति न नयथी-	६	१०
उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्	२३६	२०४
उभयनयविरोध-	४	४
<b>ए</b>		
एकज्ञायकभावनिर्भर-	१४०	११६
एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो	६	६
एकत्वं व्यवहारतो न तु	२७	२६
एकमेव हि तत्स्वाद्यं	१३६	११६
एकश्चित्तश्चिन्मय एव भावो	१८४	१६२
एकस्य कर्ता	७४	६५
एकस्य कार्यं	७६	६६
एकस्य चेत्यो	८६	६६
एकस्य चैको	७६	६७
एकस्य जीवो	६१	६५
एकस्य दुष्टो	७३	६४
एकस्य दृश्यो	८७	६६
एकस्य नाना	८५	६८
एकस्य नित्यो	८३	६८
एकस्य बद्धो न तथा परस्य	७०	६३
एकस्य भातो	८६	७०
एकस्य भावो	८०	६७
एकस्य भोक्ता	७५	६५
एकस्य मूढो	७१	६४
एकस्य रक्तो	७२	६४
एकस्य ब्रह्मणु इहान्यतरेण	२०१	१७४
एकस्य वाच्यो	८४	६८
एकस्य वेद्यो	८८	६६
एकस्य सातो	८२	६७
एकस्य सुखमो	७७	६६
एकस्य हेतु-	७८	६६

	कलश	पृष्ठ
एको दूरात्पयजति मदिरां	१०१	८०
एको मोक्षपथो य एष	२५०	२०५
एकं ज्ञानमनाद्यनंतमचलं	१६०	१३८
एकः परिणामति सदा	५२	५०
एकः कर्ता चिदहमिह	४६	४५
एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य	२३८	२०५
एवं तत्त्वव्यवस्थित्या	२६३	२३०
एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा	१५	१६
एषंकेव हि वेदना	१५६	१३५

**क**

कथमपि समुपात्त-	२०	१६
कथमपि हि लभते	२१	१६
कर्ता कर्ता भवति न यथा	६६	७७
कर्ता कर्मणि नास्ति	६८	७६
कर्तार स्वफलेन यत्किल	१५२	१३१
कर्तुं वेदयितुश्च युक्तिवशातो	२०६	१८२
कर्तृत्व न स्वभावोऽस्य	१६४	१७०
कर्म सर्वमपि सर्वविदो	१०३	८३
कर्मैव प्रवित्तक्यं कर्तृहृत्कैः	२०४	१७७
कषायकलिरैकतः	२७४	२३६
कार्यैव स्नपयति ये	२४	२३
कार्यत्वादकृत न कर्म	२०३	१७६
कृतकारितानुमननै-	२२५	१६६
क्विलश्यता स्वयमेव	१४२	१२२
क्वचित्त्वसति मेचक	२७२	२३८

**ख**

क्षणिकमिदमिहैकः	२०६	१७६
-----------------	-----	-----

**घ**

घृतकु भाभिधानेऽपि	४०	३६
-------------------	----	----

**च**

चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्व-	३५	३६
चित्पिडचडिमविलासविकास-	१६८	२३४
चित्रात्मशक्तिसमुदायमयो	२७०	२३५
चित्स्वभावभरभावितभावा-	६२	७१

चिरमिति नवतत्त्व-	कलश पृष्ठ	
चैद्रूप्यं जडरूपतां च	८	८
	१२६	१०८
ज		
जयति सहजतेजः	२७५	२४०
जानाति यः स न करोति	१६७	१६६
जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा	३३	३४
जीवादजीवमिति	४३	४१
जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म	६३	५८
झ		
ज्ञप्तिः करोती न हि	६७	७५
ज्ञानमय एव भावः	६६	५६
ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि	१४६	१२८
ज्ञानस्य सचेतनयैव नित्य	२२४	१६५
ज्ञानादेव ज्वलनपयसो.	६०	५६
ज्ञानाद्विवेचकतया तु	५६	५५
ज्ञानिन् कर्म न जातु	१५१	१३०
ज्ञानिनो न हि परिग्रहभाव	१४८	१२७
ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ताः	६७	६०
ज्ञानी करोति न	१६८	१७३
ज्ञानी जानन्नपीमा	५०	४८
ज्ञेयाकारकलकमेचकचिति	२५१	२१७
ट		
टकोत्कीर्णविशुद्धबोधविसरा-	२६१	२२६
टकोत्कीर्णस्वरसनिचित-	१६१	१३६
त		
तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं	१३४	११४
तथापि न निरगलं	१६६	१४५
तदथ कर्म शुभाशुभभेदतो	१००	७६
त्यक्तत्वाऽशुद्धिविधायि	१६१	१६६
त्यक्त येन फल स कर्म	१३३	१३२
त्यजतु जगदिदानी	२२	२०
द		
दर्शनज्ञानचारित्र्ययात्मा	२३६	२०५
दर्शनज्ञानचारित्र्यैस्त्रित्वा	१६	१७

दर्शनज्ञानचारित्र्यैस्त्रिभिः	कलश पृष्ठ	
दूर भूरिविकल्पजालगहने	१७	१७
द्रव्यलिङ्गममकारमीलिते-	६४	७३
द्विधाकृत्य प्रजाक्रकच-	२४३	२०८
	१८०	१५६
ध		
धीरोदारमहिम्ननादिनिघने	१२३	१०४
न		
न कर्मबहुल जगन्न	१६४	१४३
न जातु रागादि-	१७५	१५३
ननु परिणाम एव किल	२११	१८४
नमः समयसाराय	१	१
न हि विदधति बद्ध-	११	१२
नास्नुते विषयसेवनेऽपि	१३५	११५
नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः	२००	१७४
निजमहिमरताना	१२८	१०९
नित्यमविकारसुस्थित-	२६	२५
निर्वर्त्यते येन यदत्र किञ्चित्	३८	३८
नि.शेषकर्म फल-	२३१	२००
निषिद्धे सर्वस्मिन्	१०४	८३
नीत्वा सम्पत् प्रलय-	१६३	१६६
नैकस्य हि कर्तारो द्वौ	५४	५१
नैकातसगतदृशा स्वयमेव	२६५	२३२
नोभौ परिणमत खलु	५३	५१
प		
पदमिद ननु कर्मदुरासद	१४३	१२३
परद्रव्यग्रह कुर्वन्	१८६	१६३
परपरिणतिहेतो-	३	३
परपरिणतिमुज्झत	४७	४६
परमार्थेन तु व्यक्त-	१८	१८
पूर्णाकाच्युतशुद्धबोधमहिमा	२२२	१६३
पूर्वबद्धनिजकर्म-	१४६	१३५
पूर्वान्वितबोध्यनाशसमये	२५६	२२३
प्रच्युत्य शुद्धनयतः	१२१	१०२
प्रज्ञाछेत्रो शितेय	१८१	१५७



प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिर-	२५२	२१८
प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म	२२८	१६६
प्रमादकलित- कथं भवति	१६०	१६६
प्राकारकवलिताम्बर-	२५	२५
प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरण	१५६	१२८
प्रादुर्भावविराममुद्रित-	२६०	२२८

## व

बधच्छेदात्कलयदतुल	१६२	१६७
बहिलुं ठति यद्यपि	२१२	१८५
बाह्यार्थग्रहणस्वभावभरणो	२५०	२१६
बाह्यार्थे परिपीतमुज्झित-	१५८	२१२

## भ

भावयेद् भेदविज्ञान-	१३०	१११
भावाम्बवाभावमय प्रपन्नो	११५	६५
भावो रागद्वेषमोहैर्विना यो	११४	६५
भित्त्वा सर्वमपि स्वलक्षण-	१८२	१६०
भिन्नलक्षणनिषण्णबोध्य-	२५४	२२०
भूत भान्तमभूतमेव	१२	१३
भेदज्ञानोच्छलन-	१३२	१११
भेदविज्ञानतः सिद्धाः	१२१	१११
भेदोन्माद भ्रमरसभरा-	११२	६२
भोक्तृत्वं न स्वभावोऽप्य	१६६	१७१

## म

मग्नाः कर्मनयाव-	१११	६१
मज्जन्तु निर्भरमभी	३२	३२
माऽकर्तारमभी स्पृशन्तु	२०५	१७८
मिथ्यादृष्टेः स एवास्य	१७०	१४६
मोक्षहेतुनिरोधानाद्	१०८	८६
मोहविलासविजृंभित-	२२७	१६८
मोहाद्यदहमकार्ष	२२६	१६७

## य

य एव मुक्त्वा नयपक्षपात	६६	६२
यत् वस्तु कुरुते	२१४	१८६

## कलश पृष्ठ

यत्र प्रतिक्रमणमेव	१८६	१६५
यत्संशयमुपैति तन्न नियतं	१५७	१३६
यदि कथमपि धारावाहिना	१२७	१०६
यदिह भवति रागद्वेष-	२२०	१६१
यदेतद् ज्ञानात्मा	१०५	८४
यस्माद् द्वं तमभूत्पुरा	२७७	२४२
यादृक् तादृगिहास्ति	१५०	१२८
यावत्पाकमुपैति कर्मविरति-	११०	८८
ये तु कर्तारमात्मान	१६६	१७५
ये तु स्वभावनियम	२०२	१७५
ये त्वेन परिहृत्य	२४१	२०६
ये ज्ञानमात्रनिजभावत्रयी-	२६६	२३२
योऽप्य भावो ज्ञानमात्रो	२७१	२३७
यः करोति स करोति केवलं	९६	७५
यः परिणामति स कर्ता	५१	४६
य पूर्वभावकृतकर्म-	२३२	२०१

## र

रागजन्मनि निमित्ततां	२२१	१६३
रागद्वेषद्वयमुदयते	२१७	१८६
रागद्वेषविभावमुक्तमहसो	२५३	१६४
रागद्वेषविमोहानां	११६	१०१
रागद्वेषाविह हि भवति	२१८	१६०
रागद्वेषोत्पादक तत्त्वदृष्टया	२१६	१६१
रागाद्यास्त्रवरोधतो	१३३	११६
रागादयो बन्धनिदानमुक्ताः	१७४	१५१
रागादीनामुदयमदय	१७६	१५५
रागादीना ऋगिति विगमान्	१२४	१०५
रागोद्गारमहारसेन सकल	१६३	१४२
रुन्धन् बन्ध नवमिति	१६२	१४०

## ल

लोकः कर्म ततोऽस्तु	१६५	१४४
लोकः शाश्वत एक एष	१५५	१३४

## व

वर्णादिसामग्र्यमिदं विदन्तु	३६	३६
वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा	३७	३७

## कलश पृष्ठ

	कलश पृष्ठ			कलश पृष्ठ	
वर्णाद्यः सङ्घितस्तथा	४२	४०	समस्तमित्येवमपास्य कर्म	२९६	१६६
वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो	२१३	१८६	सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं	१७४	१३३
विकल्पकः पर कर्ता	६५	७४	सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं	१३७	११६
विगलन्तु कर्म विषतरु-	२३०	२००	सम्यग्दृष्टे भवति नियतं	१३६	११५
विजहति न हि सत्तां	११८	६६	सर्वतः स्वरसनिर्भरभाव	३०	३०
विरम किमपरेणाकार्यं	३४	३३	सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं	१७३	१५०
विश्व ज्ञानमिति प्रतक्यं-	२४६	२१४	सर्वद्रव्यमय प्रपद्य	२५३	२१६
विश्रान्तः परभावभावकलना-	२३८	२१५	सर्वस्यामेव जीवन्त्यां	११७	६६
विश्रान्तः परभावभावकलना-	२३८	२१५	सर्वं सदैव नियत	१६८	१४७
वृत्तं कर्मस्वभावेन	१०७	८६	सिद्धांतोऽयमुदात्तचित्त-	१८५	१६३
वृत्त ज्ञानस्वभावेन	१०६	८५	सम्यस्यन्नजबुद्धिपूर्वमनिशं	११६	६७
वृत्त्यशभेदतोऽत्यन्त	२०७	१८०	सम्यस्तव्यमिदं समस्तमपि	१०६	८७
वृत्त्यशभेदकविभावचलत्वाद्	१४७	१२६	सपद्यते सवर एष	१२६	११०
व्यतिरिक्त परद्रव्यादेवं	२३७	२०४	स्थितेति जीवस्य निरतरामा	६५	५६
व्यवहरणाय स्याद्यद्यपि	५	६	स्थितेत्यविघ्नानलु पुद्गलस्य	६४	५८
व्यवहारविरमूढदृष्टयः	२४२	२०७	स्याद्वादकौशलमुनिरखल-	२६७	२३३
व्याप्य-व्यापकता तदात्मनि	४६	४७	स्याद्वाददौ पितलसन्महसि	२६६	२३५
व्यावहारिकदृशैव केवल	२१०	१८३	स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विघ-	२५५	२२२
शुद्धद्रव्यनिरूपणापित-	२१५	१८७	स्वशक्तिससूर्चितवस्तुतत्त्वं-	२७८	२४३
शुद्धद्रव्यस्वरसभवनारिक	२१६	१८८	स्वेच्छासमुच्छलदनल्प-	६०	७०
सकलमपि विहायाङ्गाय	३६	३६	स्व रूप किल वस्तुनो-	१५८	१३७
			हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणा	१०२	८१



## शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२५	८	पिवतीव	पिबतीव
३६	२४	कुम्भाभिधाने	कुम्भाभिधाने
७७	२०	भरती	भरतो
१४६	१३	अनना	अनेना
१६६	४	कुटः	कुतः
१६६	५	कुटः	कुतः
१७७	१६	कैश्चिच्	कैश्चिच्
१८१	११	बलाद्शुद्धि	बलादशुद्धि
१८२	१४	सञ्चित्य	सञ्चिन्त्य
२०१	१४	तृः	तृप्तः



## हमारे प्रकाशन



१.	प्रवचनसार गुजराती	—	—	१५००
२.	पचास्तिकाय गुजराती	—	—	१०००
३.	प्रवचनसार हिन्दी	—	—	२०००
४.	पचास्तिकाय हिन्दी	—	—	२५००
५.	समयसार नाटक हिन्दी	—	—	३०००
६.	अष्टपाहुड हिन्दी	—	—	२०००
७.	अनुभवप्रकाश गुजराती	—	—	२१००
८.	परमात्मप्रकाश गुजराती	—	—	२२००
९.	आत्मावलोकन गुजराती	—	—	२२००
१०.	वृहद् द्रव्यसग्रह हिन्दी	—	—	२०००
११.	समयसार कलश हिन्दी	—	—	२०००



